

श्रीमद् बुद्धिसागर सूरिजी ग्रंथमाला ग्रंथांक-६६

पूजा संग्रह भाग १-२

रचयिता

शास्त्रविशारद जैनाचार्य योगनिष्ठ

श्रीमद् बुद्धिसागर सूरिश्वर.

शेठ अमथालाल वेलाभाई महेसाणा
अने

शेठ मनसुखलाल लळुभाई पेथापुर
एमनी द्रव्य स्थायथी.

छपावी प्रसिद्ध करनार

श्री अध्यात्म ज्ञानप्रसारक मंडळ.
हा. वकील मोहनलाल हीमचंद-पादरा.

आवृत्ति पहेली

प्रति १०००.

सं. १९८०

सन १९२४

महावीर सं. २४५०

कींमत रु. २-०-०

आ ग्रंथ मळवानुं ठेकाणुं:-
वकील मोहनलाल हीमचंद.
पादरा. (गुजरात.)

श्री “प्रजाहीतार्थ मुद्रालय ” प्रेसमां पटेल डाह्याभाइ
दलपतरामे छाप्पुं ठे० शाहपुर नवी पोळ-अमदावाद

भजनसंग्रह भाग ९ छपाइ बहार् पडयो छे.

मुरीश्वरजीनी आभ्यंतरभावनाना प्रतिबिबरूपरसथी छला-
 छलसुंदर पद्योथी भरपूर आ पुस्तक खरेखर गुजरातना काव्य
 भंडोळमां अगत्यनो उमेरो करे छे, ते जाणीने खरेखर दरेक गुजरा-
 तीने आनंदज थशे. आ संग्रहमां वैराग्य, अध्यात्म ज्ञानचारित्र
 तथा नीतिना तरंगो छलकाता होवाथी जगत्मां तेनो प्रचार
 एकदम थवाना जर छे. वळी तेओए जैनजगत्ने हालनी मंदाव-
 स्थामांथी जागृत करवा सारु अने लोकोने कर्तव्यपरायण करवा-
 सारु जुदा जुदा पात्रोद्वारा अनेक विषयो चर्ची जैनजगत्ने तहन
 नवी ढवे कर्तव्यदिशानो मार्ग जणाव्यो छे. जेथी जैन जगत् खरेखर
 प्रगतिशील बनी जशे. अने जैनजगत् खरेखर वखतसरनी कार्यप्रणा-
 लिकारूप मार्गमां विचरशे. हालनी स्वराज्य अने स्वदेशनी अध्या-
 त्मिक भावनाने पण आ ग्रंथमां योग्य स्थान मळ्युं छे, एटलुंज नहि
 पण बाह्य स्वराज्य अने बाह्यस्वदेशनी साथे आभ्यंतर स्वराज्य अने
 आभ्यंतर स्वदेश के सर्वविश्वजनोनुं परमादर्शध्येय छे, अनेक
 गूढतत्त्वोथी भरपूर तथा ज्ञाति अने धर्मना भेदभावरहित दरेकने
 समान उपयोगी आ पुस्तक छे. एक वार वांच्याथी हाथमांथी
 मूकवानुं मन थशे नहीं. सुंदर पाकुं बाइन्डींग पृष्ठ ५८० किंमत
 रु. १-८-० पोस्टेज अलग.

डा. श्री कैलासनागरसुरि ज्ञानमंदिर
 श्री महावीर जैन आराधना केंद्र, कोयंबटूर
 जि गांधीनगर

अध्यात्मज्ञानथी भरपूर.

भजनसंग्रह भाग १०

जेओए सूरेश्वरजीना पहेलाना भजनसंग्रहना भागो वांच्या हशे तेओ तो आ ग्रंथने तरतज संग्रही लेशे. सूरेश्वरना काव्यरसनी धारानुं पान करवानी आ तक गुमावशो नहि. अनेक अध्यात्मज्ञान तथा वैराग्यनी खुमारी प्रगटावनारा तथा मस्त फकीरी दशाना अनुभव करावनारा जूदा जूदा स्वरूपना भजनोनो आ ख-जानो खरेखर ते तेना रूपनो एक अनोखोज वाचकोने मालुम पडशे. आ मंडळ तरफथी प्रगट थता दरेक ग्रथो एटलावधा सस्ता होय छे के आवुं अमूल्य वांचन आटली सस्ती कीमते मळतुं गुमाववुं ए खरेखर एक अमूल्य तक गुमाववा जेवुं थशे. दरेकने सरखुं उपयोगी सुंदर पाकुं वाइन्डींग पृष्ठ २०० किंमत रु. १-०-० पोस्टेज अलग.

पत्र सदुपदेश भाग २

गुरुवर्ये पोताना परिचयी तथा भक्तजनो उपर प्रसंगानुसार शुद्धहृदय पूर्वक लखेला पत्रोनो आ बीजो भाग मनोरंजक दळदार संग्रह दरेक मनुष्यने पोतानी जीदगीमां मुक्तिनी प्राप्ति माटे खरेखर एक मार्गदर्शक भोमीओ थइ पडशे. अधिकारी परत्वे लखायेला तेमना सुंदर विचारो अनुभवना खजानारूप खरेखर छे. एक नकल खरीदी अनुभव करो. सुंदर पाकुं वाइन्डींग सर्वमनुष्यने सरखा उपयोगी अध्यात्मतत्त्वज्ञानमय वाचनथी भरपूर. पृष्ठ ५७५ किं-रु. १-८-० पोस्टेज अलग.

निवेदन.

श्री अध्यात्मज्ञानप्रसारकर्मण्डलतरफथी श्रीमद् बुद्धिसागरसूरि ग्रन्थमाळाना ६६मा मणकातरीके पूजासंग्रहग्रंथ के जेना रचयिता शास्त्रविशारदजैनाचार्य अध्यात्मज्ञानमस्तयोगी बालब्रह्मचारी महा कविराजश्री बुद्धिसागरजी सूरिजी छे. ते संवत १९८० नी सालमां बहार पाडवामां आवे छे. जेनी किंमत रु. २-०-० राखवामां आवी छे. आचार्य महाराजश्रीनी रचेली पूजाओ द्रव्यभावरसथी अलंकृत छे. पूर्वे अनेकमहापुरुषोए भक्तिप्रधानपूजाओ रची छे, जेनो अत्यारसुधीनो जे संग्रह छे, तेमां आ रचनानो उमेरो थतो जोइ आनंद थाय छे, एटलुंज नहि पण आ पूजासंग्रहग्रन्थ खरेखर प्रशंसाने पात्र छे. द्वितीयभागनी पूजाओ प्रथमभागनी पेटे अध्यात्मज्ञानरसथी भक्तोने भक्तिनी धूनमां दृढ करनारी अनेक विविधरसथी दीपकनी पेटे झळहळी रहेल छे. आ पूजाओ रचवानो प्रसंग, गुरुश्री सं १९७९ ना माहसुदि ५ नी प्रतिष्ठा कराववा साणंद पधार्या हता त्यारे बन्यो हतो. प्रतिष्ठा क्रिया कराववी, वपोरे जैनमंदिरे पूजा भणाववा पधारचुं, सवारमां उपदेश देवो, अने थोडीज विश्रांतिना समये पूजाओ रचवी, ए केटलुं बहु मुश्किल कार्य छे ? ते वांचको स्वयमेव विचारी जोशे. आनी अंदरनी पूजाओ क्यां क्या गाममां रचवामां आवी छे ते पूजाना अंतना कळशपरथी सहेजे समजी शकाय तेम छे. मुख्यताए आ पूजाओ साणंद, गोधावी, पेथापुर, प्रांतीज, एम चार गामोमां रचवानो प्रयत्न गुरुश्रीए सेव्यो छे. समाजमां एवी पण व्यक्तिओ हजु ह्यात छे के जे छतागुणोने पण अवगुणरूपे दर्शावनारा होय छे, एटलुंज नहि पण बीजानी प्रशंसनीय प्रवृत्तिओने गमे ते रीते उतारी पाडवा कटिबद्ध थै प्रयत्न करे छे. आवी व्यक्तिओपर करुणा-

६

भाव अने दया आवे छे अने तेवा निन्दकोमाटे गुरुश्रीए भजन पद भाग ६ मां कहुं छे के “ हमारुं पाप धुवो छो, बनी धोबी वगर पैसे, तमारा कर्ममां एतुं, दया आवे तमारापर ” आ वाक्यनो विचार करनारने गुरुश्रीना अंतरभावनानी खात्री थशे, एटलुंज नहि पण तद्भावना प्रमाणे दरेक मनुष्यो गुण ग्रहण करवा प्रयत्नवान बनशे एम इच्छीए छीए. गुरुश्रीनी प्रवृत्ति, रोमराये ज्यां त्यां महावीर प्रभुना गुण गावानी सेवाएली होय तेम प्रतिभासे छे. पूजाना रसिकजनो रुचि अनुसारे स्वाधिकार प्रमाणे गुण ग्रहवा प्रयत्नवान बनो. भक्तो, भक्तिनी धूनमां लयलीन बनशे अने गुणदृष्टि धारण करशे एम इच्छीएछीए. आ ग्रंथनी अंदर प्रथम भागनी पूजाओ तथा प्रस्तावना वगेरे दाखल करवामां आवेल छे. जे आवा उपयोगी ग्रंथ साथे सचवाइ रहे तेहेतुथीज आ ग्रंथ साथेज जोडवामां आवेल छे. आ ग्रन्थ छपाववाभां पेथापुरना निवासी सदगत शेठ. मनसुखलाल ललुभाइए रु. १२००) सहाय तरीके पांचसो नकलो छपाववा माटे आप्या छे. तेमज मेहसाणानिवासी शेठ डाह्याभाइ घेहलाभाइए पोताना सदगत भाइ अमथालाल घेहलाभाइना स्मरणार्थे रु. १२००) नी सहाय पांचसो नकलो छपाववा माटे आपी छे. जे माटे बने भाइओनो अंतःकरण पूर्वक आभार मानो तेओने तथा तेओना कार्य कर्ता शेठ. डाह्याभाइ तथा श्राविका माणेक वेन वगेरेने धन्यवाद आपवामां आवे छे. तेमज सदगतबंधुओना अत्र जीवनवृत्तांतो तथा फोटोओ आपवामां आवेला छे. सहाय करती वखते तेओए आ ग्रंथमां गुरुश्रीनी छबी मूकवा माटे तेमने नम्र विनंति करेली अने तेपरथी गुरुश्रीने अमोए पण मान भरेली भक्तिनो स्वीकार करवानी नम्र विनंति करेल पण तेओश्रीए ते विनंति स्वीकारी नहोती पण अमोए भक्तिथी छबी मूकी छे. आ ग्रंथमां जीवन

૭

વૃત્તાંતો તથા ઘળીં ઉપયોગી સૂચનાઓ આપવામાં સહાય કરનાર મેહસાણાનિવાસી ગુરુભક્ત ભાસ્વરીઆ, મોહનલાલ નગીનદાસે, તેમજ પેથાપુરનિવાસી મણિલાલ હીરાચંદે સહાય આપી છે, જે માટે તેઓનો પણ અંતઃકરણ પૂર્વક આભાર માનવામાં આવે છે. આ મંડલ તરફથી સસ્તી કિંમતે પુસ્તકો વેચાય છે, તે જૈનકોમ સારી રીતે જાણે છે. મંડલ તરફથી અનેક પુસ્તકો છપાવી બહાર પાડવાની ઇચ્છા થાય છે પણ ધનવંતોની સહાય વિના બની શકે તેમ નથી. મંડલ પાસે ઉત્તમ ફંડ નથી છતાં તે સહાયકારકોની મદતથી ઉત્તમ પુસ્તકો બહાર પાડ્યા કરે છે. જે જે ગૃહસ્થો પુસ્તક છપાવવા ધનની સહાય આપે છે તેમનાં મુબારકનામોની પુસ્તકોમાં યાદી કરવામાં આવે છે. જેઓ અન્ય પુસ્તકો છપાવવામાં સહાય કરશે, તેઓનો પણ ઉપકાર માનવામાં આવશે, અને પુસ્તકોમાં આપેલા રુપિઆનો યાદી સહિત તેઓનાં નામોને અક્ષરદેહથી અમર કરવામાં આવશે. છેવટે આ ગ્રંથમાં સહાય આપનાર સર્વેનો ઉપકાર માનવામાં આવે છે, આ ગ્રંથમાં સહાય મળેલી હોવાથી પડતર કરતાં ઘળીંજ ઓછી કિંમત રાખવામાં આવી છે, અને જે કાંઈ વેચાણની કિંમત આવશે તેથી મંડલનાં અન્ય પુસ્તકો છપાવવામાં આવશે, ઇટલો ખુલાસો કરી વિરમીણ્ણી, ૐ શ્રીગુરુઃ શાંતિઃ

સંવત્ ૧૯૮૦

આષાઢ શુક્લપક્ષ

૯કાદશી.

લેખક સદ્ગુરુ ચરણોપાસક
આત્મારામ સ્વેમચંદ કાપડીયા.
સાણંદ.
મોહનલાલ હિમચંદ વકીલ.
પાદરા.
શ્રી અધ્યાત્મજ્ઞાનપ્રસારકર્મમંડલ તરફથી.

૮

પેથાપુરના જૈન શેઠ. મનસુખભાઈ લલ્લુભાઈનું જીવનવૃત્તાંત.

ગુજરાત મહીકાંઠા એજન્સીમાં સાબરમતી નદીના તટપર આવેલા પેથાપુર ગામમાં સંવત્ ૧૯૩૨ ના માહ સુદિ ૫ ને સોમવારે તેમનો જન્મ થયો હતો. જન્મથી સાધારણસ્થિતિમાં ઉછરેલા હતા. નાની વયમાં તેમની માતૃશ્રીનો દેહોત્સર્ગ થયો હોવાથી તેઓ પોતાની બેનની સાથે સ્વપિતાના મોંસાલમાં સંઘવી દોલતરામ માનચંદને ત્યાં મેહ-સાણામાં કેટલોક સમય રહ્યા હતા. તેમનું બાલ્યજીવન મેહસાણામાં અને મુંબાઈમાં પસાર થયું હતું, તેઓએ વિદ્યાભ્યાસ મુંબાઈમાં કર્યો હતો, તેમનામાં ઈંગ્રેજી જ્ઞાન સાધારણ હતું. મેહસાણાવાળાદોલતરામ ગુજરી જવાથી દોલતરામ માનચંદની પેઢીમાં તેઓ પોતાના પિતાશ્રી સાથે જોડાયા હતા. મનસુખલાલનું લગ્ન પેથાપુરના રહીશ, રતનચંદ બુલાચીદાસને ત્યાં તેમની દીકરી મેનાબાઈ સાથે સંવત્ ૧૯૫૪ ની સાલમાં થયું હતું. લગ્ન પછી બે વર્ષના ટુંકા સમયમાં તેઓના પિતાશ્રીનો સં. ૧૯૫૬ ના દુષ્કાળના સમયમાં દેહોત્સર્ગ થવાથી તેમને અત્યંત દુઃખ લાગ્યું હતું. બાવીસવર્ષની યુવાનવયમાં માતા પિતાના સુખથી તેઓ વંચિત બન્યા હતા, જેથી ગૃહસંસારનો તથા પેઢીનો વહીવટ તેઓના શીરપર આવી પડ્યો હતો. કેટલાક કારણોથી દોલતરામની પેઢીનો વહીવટ બંધ કરી સં. ૧૯૫૬ ના ફાગણવદિ ૩ ત્રીજે તેમણે પોતાના નામથી પેઢીનો વહીવટ શરૂ કર્યો હતો, શરૂઆતમાં તેમને ઘણાજ ટુંકા નાણાંથી વેપાર શરૂ કર્યો હતો. પોતાની જાત મહેનતથી થોડા સમયમાં દુકાનની પ્રતિષ્ઠા સારી રીતે વધારી શક્યા હતા. તેઓની પેઢી કોટમાં પારસી બજારમાં આવેલી છે. તેઓ ચાહના કુશલ વેપારી હતા. સં. ૧૯૫૮ ની સાલમાં પ્લેગના મહાન અગ્રંકર વ્યાધિમાં તેમનું શરીર સપડાયું હતું, પણ દેવગુરુ અને ધર્મના

મરહુમ

શેઠ મનસુખલાલ લલ્લુભાઈ.

પેથાપુર નીવાસી.



જન્મ સંવત ૧૯૩૨ના મહા સુદ ૫

સ્વર્ગવાસ સંવત ૧૯૭૮ના શ્રાગણ સુદ ૯

૯

પુણ્યવ્રતાપથી પોતાના કર્મસંયોગે મૃત્યુના ભયથી બચી ગયા હતા. શરીર સંપત્તિ સુધર્યા બાદ તેમણે સ્વંત અને ઉત્સાહથી વેપાર શરૂ કર્યો હતો. તેઓ વ્યાપારમાં ઘણો સારો લાભ મેળવી શક્યા હતા. તેઓની પેઢીમાં મુનસીની સારી મદદ હતી. સં. ૧૯૭૦ ની સાલમાં તેમની સ્ત્રી અને પુત્ર રતિલાલનો દેહોત્સર્ગ થયો હતો. તેમના જીવનમાં ચાર પાંચ પુત્રો થયા હતા પણ બધા પુત્રોનું મૃત્યુ થતાં સુખ નષ્ટ થયું હતું, જેથી તેમના હૃદયને આઘાત થયો હતો. સં. ૧૯૭૦ ના વૈશાખ માસમાં પેથાપુરના રવચંદ્ર રામચંદ્ર ગાંધીને ત્યાં તેઓ ફરીને પરણ્યા હતા. તેમની સ્ત્રીનું નામ માણેક હતું, રવચંદ્ર ગાંધીએ ધર્મર્થે સારો દ્રવ્યવ્યય પેથાપુરમાં કર્યો હતો અને તેમણે સિદ્ધાચલજીનો સંઘ વિ. સં. ૧૯૫૫માં કાઢ્યો હતો. આ લગ્ન પ્રસંગે મનસુખલાલની ઉમર ૩૬ વર્ષની હતી. લગ્ન પછી પૈસા સંબંધી તેમજ શરીર સંપત્તિ સંબંધી સારા સંયોગો હતા. તેમની બીજી સ્ત્રીને એકપુત્ર તથા એકપુત્રી હતી પણ તેનું સુખ થોડા સમયે નષ્ટ થયું હતું. સં. ૧૯૭૫ ના માગશરસુદિ ૫ ના રોજ એક પુત્રીનો જન્મ માણેકબાઈએ આપ્યો હતો જે અત્યારે પણ હયાત છે. પુત્ર પુત્રીઓ જીવતાં ન હોવાથી આ પુત્રીનું નામ સાંકુવેહન રાખવામાં આવ્યું હતું. પોતાની ઇચ્છા તો પુત્રની હતી પણ પુત્રીનું સુખ મળ્યું જેથી તેમને સંતોષ રાખવો પડ્યો હતો. સં. ૧૯૭૬ ની સાલમાં તેમને ક્ષયરોગ જેવો ભયંકરજીવલેણ રોગ લાગુ પડ્યો હતો, ઘણા ઉપચારો તથા વૈદ્ય ડાક્ટરોની દવા કરી હતી, તેમજ પાનસર, દેવલાલી વગેરે હવા લેવાના સ્થળોમાં મહિનાઓના મહિનાઓ ગાળ્યા હતા, પણ શરીર પ્રકૃતિ નહિ સુધરવાથી મુંબાઈ પાછા આવ્યા હતા. સં. ૧૯૭૮ ના ફાગણ સુદિ ૯ ના દિવસે તેમનો આત્મા આ સ્થૂલ દેહરૂપીર્ષાજરમાંથી પોતાની પાછળ એક વિધવા સ્ત્રી તથા પુત્રીને શોકસાગરમાં ડૂબાડી સદાનેમાટે અદૃશ્ય થઈ ગયો. પોતાની પાછળ તેમણે પોણાલાલની સલાવત કરી છે. તેમાં

૧૦

કેશરીયાજીનો સંઘ કાઢવાની, ઉજમણું (ઉદ્યાપન) રચવાની, ધર્મશાળા બંધાવવાનું, એ ત્રણ મુખ્ય સસ્વાવતો છે. કેશરીયાજીપર તેમને યાત્રાની અડગ શ્રદ્ધા હોવાથી નિયમિતપણે કેશરિયાની યાત્રા કરતા હતા. તેઓ પ્રતિવર્ષે સગાવહાલાઓને લઈને શ્રી કેશરીયાજીની યાત્રા કરતા હતા. પોતાની બે વર્ષની માંદગીમાં એક યાત્રા કરી હતી. તેમણે ધર્મકાર્યો પોતાની જાતે કર્યાં હતાં. પેથાપુરમાં સાગર વિમલગચ્છની ઉપાશ્રય જમીનબાબતની તકરારો પડી ત્યારે તેમણે સમાધાન કરાવવા અથાગ પરિશ્રમ સેવ્યો હતો પણ તે સફળ થયો નહોતો. મુંબાઈમાં કોટમાં શાન્તિનાથના દેરાસરના મેનેજર તરીકે લગભગ છ સાતવર્ષસુધી તેમણે કામ કર્યું હતું અને તેઓ તેમણે પ્રશંસા પાત્ર બન્યા હતા. સ્વભાવે મિલનસાર અને બનતાં સુધી કોઈને ઓટું ન લાગે તેવું કહેનારા હતા. તે પેથાપુરના કેલ્વણી મંડલના લાઈફ મેમ્બર હતા. અહિંઆના જૈનો વેપાર તથા વિદ્યામાં ડીગ્રીઓ સંપાદન કરી દેશાવરોમાં વેપારમાટે પ્રસિદ્ધતાને પામેલા છે, તેમજ અહિંની ધાર્મિક શ્રાવક ટોળી પ્રમુખપ્રતિષ્ઠા, ક્રિયા, મહોત્સવો કરાવવામાટે પ્રસિદ્ધતાને પામેલી છે. પેથાપુરમાં ઠાકોરશ્રી ફતેહસિંહજી રાજ્ય કરે છે, તેઓ સસ્વાવતે ઉદાર તથા દયાળુ, પ્રેમી, પરોપકારી છે. તેઓ ગુરુ મહારાજશ્રી આચાર્યબુદ્ધિસાગરસૂરિના ચૂસ્ત ભક્ત શ્રાવક બન્યા હતા અને તેમની સલાહથી તેમણે સસ્વાવતો કરી છે. તે દેવગુરુ ધર્મની અચલશ્રદ્ધાધારક જૈન હતા. બાહોશ વેપારી હતા. પેથાપુરમાં આવા એક પ્રતિષ્ઠિત સ્થાનદાન ગૃહસ્થના મરણથી પેથાપુરને એક ઉત્તમ રત્નની ઓટ પડી છે. તેમના આત્માને શાંતિ મળે.

મુકામ—પેથાપુર.

લેખક શા. મણિલાલ હીરાચંદ.

વિ. સં. ૧૯૮૦

ચૈત્ર પૂર્ણિમા.



शेठ अमथालाल घेलाबाई करमचंद.

जन्म सं. १९२७.]

[स्वर्गवास सं. १९७४.

श्री महेशाणा.

११

मेहसाणावाळा शेठ. घेलाजाइ करमचंद तथा शेठ. अमथालाल घेलाजाइ तथा शेठ सुरचंद मोतीचंदनुं जीवनवृत्तांत.

महुंम शेठ. घेलाभाइ करमचंदनो जन्म संवत्. १८९३ ना आसो सुदि १० ना दिवसे मेहसाणामां थयो हतो, तेमना पिताश्रीनुं नाम करमचंद नाथालाल हतुं. शरुआतमां साधारण स्थितिना हता. शेठ. घेलाभाइ संवत्. १९०७ नी सालमां गुरुमुनिमहाराजश्री रविसागरजीनी कृपा मेळवीने पोतानुं नशीब अजमाववा सारु मुंवाइ वेपारार्थे गयेला हता, त्यां तेओ टुंक वखतमां प्रमाणिकताथी खांड बजारमां सारा प्रतिष्ठित दलाल तरीके प्रख्याति पाव्या हता. तेओश्री जैनधर्मीओना परम पूज्यमहायोगी श्रीमद् रविसागरजी महाराजना उपदेशथी पूर्ण धर्मप्रेमी बन्या हता, अने ते महात्मा-श्रीनी वचनसिद्धिथी पोते सारी लक्ष्मी प्राप्त करी शक्या हता. तेमणे संवत्. १९३६ नी सालमां अगीआर छोडनुं उजमणुं कर्तुं हतुं: ते वखते पूजा विगेरे भावनामां घणो सारो ठाठ आव्यो हतो. तेमज अठवाडीया सुधी नवकारशी (स्वामी वात्सल्य) करवामां आव्युं हतुं. त्यारवाद वि. सं. १९४० नी सालमां तेमणे पांच छोडनुं ऊज-मणुं कर्तुं हतुं अने तेमां पण जैनधर्मनो सारो उद्योत थयो हतो. सं. १९४६ नी सालमां शान्तमूर्ति श्रीमान् रविसागरजी महाराजश्रीना सदुपदेशथी भोयणीजी तथा संखेश्वरजीनो छहरीपाळतो संघ कहाड्यो हतो. संघमां श्रीमद् रविसागरजी महाराज तथा भावसा-गरजी महाराज तथा श्रीमद् सुखसागरजी महाराज तथा साध्वीजी देवश्रीजी, धनश्रीजी, शिवश्रीजी तथा हरखश्रीजी वगेरे चतुर्विध संघ हतो. महुंम शेठ घेलाभाइए, श्रीमद् रविसागरजी महाराजनी साथे पगे चाली यात्रा करी हती. भोयणीजी तथा संखेश्वरजी

૧૨

જતાં રસ્તામાં ગામોમાં નવકારશી વગેરે કરવામાં આવતી હતી. તેથી શાશનની સારી ઉન્નતિ થઈ હતી. સં. ૧૯૪૮ ની સાલમાં સાધ્વીજી મહારાજનો ઉપાશ્રય ઘણો જ જીર્ણ થવાથી, શ્રીમદ્ રવિસાગરજી મહારાજના ઉપદેશથી મહુમે ઉપાશ્રય નવીન બંધાવાનું કાર્ય ઉપાડી લીધું હતું; અને તેમાં રૂ. ૧૭૦૦૦) ની રકમ ખર્ચાઈ હતી, જેમાં મહુમે રૂ. ૮૦૦૦) આપ્યા હતા. બાકીના રૂ. ૧૦૦૦૦) ની મદદ મેહસાણાના સંઘે આપી હતી. સં ૧૯૫૨ સાલમાં પરમપૂજ્ય મહાયોગી શ્રીમદ્ રવિસાગરજી મહારાજજીએ શેઠ ઘેલાભાઈને જણાવ્યું હતું કે— સાધ્વીજી મહારાજનો ઉપાશ્રય જેટલો શુશોભિત થયો છે તેના કરતાં સાધુ મહારાજનો ઉપાશ્રય ઘણો સારો બંધાય એમ થાય તો ધર્મની વૃદ્ધિ છે. કારણ કે મેહસાણા જેવું ક્ષેત્ર મધ્યમાં છે અને સાધુ મહારાજને ઉતરવાની ઘણી મુશ્કેલી પડે છે. મહુમને ઉપદેશની ઇટલી બધી અસર થઈ કે તેમણે તરતજ મહારાજશ્રી આગળ અભિગ્રહ કર્યો કે જો બે વરસમાં મારાથી ઉપાશ્રય ના બંધાવી શકાય તો મારે વીગઈ ત્યાગ. આવી સંતોડ લાગણીથી શ્રીમદ્ રવિસાગરજી મહારાજશ્રીની કૃપા દૃષ્ટિ થઈ અને તેમની કૃપાથી મુંબાઈ જઈ રૂ ૨૭૦૦૦) ની ટીપ, ટુંક સમયમાં થતાંની સાથે કામ આરંભ્યું. કામ પૂર્ણ થતાં કુલે રૂ. ૩૫૦૦૦) થયા તે મધ્યે બાકીના રૂ. ૭૦૦૦ પોતાના ઝમેરી કામ પૂર્ણ કર્યું. હાલ પણ મેહસાણામાં સાધુમહારાજ તથા સાધ્વી મહારાજનો ઉપાશ્રય ચલાવવા લાયક છે, અને મેહસાણામાં પણ એમ કહેવાય છે કે શ્રીમદ્ રવિસાગરજી મહારાજ તથા ઘેલાભાઈ હોય તોજ આ ઉપાશ્રય બંધાય.

મહુમ શેઠ ઘેલાભાઈ જૈનસુધારાવાતાના પહેલા નંબરના ટ્રસ્ટી હતા અને તેમનાથી દેરાસર વગેરેનો ઘણો સુધારો થયો હતો. શ્રીમદ્ રવિસાગરજી મહારાજના સદુપદેશથી દેવદ્રવ્ય વિગેરેમાં આગળ ઘણા ગોટાલા હતા તે દૂર થયા હતા. મહુમને મૌનઅગીયારસનું

१३

व्रत हतुं तेथी तेओए अगीयारछोडनुं उजमणु करवा सं. १९५५ नी सालमां नकी कर्णु, परंतु कुदरतनी बलिहारी छे के मर्हुम सं. १९५५ ना फागण वदि ५ ना दिवसे मुंबाइमां अचानक वे दिवस-नी प्लेगनी मांदगीथी अवसान पाइया. तेमना मानमां मुंबाइमां खांड बजार तथा मेहसाणांमां जैन तेमज जैनेतर कोममां पाखी पाळवामां आवी हती. तेमना अचानक अवसानथी मेहसाणांमां जैनकोममां मोटी खोट पडी. मर्हुम स्वभावे शांत, दयाळु तेमज जैनधर्मना पूर्ण श्रद्धाळु तथा गरीब जैनोप्रत्ये मायाळु तथा प्रसंगोपात्त जैन भाइओने गुप्त दाननी मदद करता हता. पोताना कुटुंबीजनोने तेमज जैनभाइओने धंधे लगाडवा मुंबाइ लइ गया हता. तेओ वर्षमां एक वखत सिद्धाचलनी यात्रार्थे जता हता. छेवट सुधी पण नित्यकर्म चूक्या नहि. वे वखत प्रतिक्रमण, सामायिक, प्रभुपूजा, गुरुवंदन, ज्ञानपंचमी व्रत तथा एकादशी व्रत पूर्ण करी शक्या हता. तेमनी पाळळ पोतानी धर्म पत्नी तथा वे सुपुत्रोने मुकी अक्षर देहथी नाम अमर करी चाल्या गया छे, तेमना आत्माने शांति मळो. तथास्तु.

मर्हुम शेठ अमथालाल घेलाभाइनो जन्म सं. १९२७ ना मागशर सुदि १२ ना रोज थयो हतो. तेमनामां पण तेमना पिताश्री-नी माफक सद्गुणो खील्यो हता. तेमनामां जैनधर्मांभिमाननो मुख्य गुण हतो. मेहसाणांमां जैन उपाश्रय पासे हनुमाननी देरडी छे. हिंदु कोम ते देरडीपर मोटुं मकान करी उपाश्रय जेवा पवित्र स्थळने ढांकी देवा प्रयत्न करती हती; अने धार्मिक क्रियांमां खलेल करती हती. ते वखते मर्हुम शेठ अमथालालने मुंबाइमां खबर पढतां सर्वे वेपार धंधो छोडी योग्य वकीलनी सलाह लेइ मेहसाणे आवी न्याय मेळववा आत्मभोग आप्यो हतो. तेमनी तेमज मेहसाणांना संघनी मददथी आपणा लाभमां न्याय मळयो हतो. सं. १९५७ ना

૧૪

મહા માસમાં તેમના પૂજ્ય પિતાશ્રીની ઉમેદ ઉજમણું કરવાની હતી. સં. ૧૯૭૦ ની સાલમાં યોગનિષ્ઠશાસ્ત્રવિશારદજૈનાચાર્ય શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગર સૂરીશ્વરજીના સદુપદેશથી મેહસાણામાં ઘગી ધામધૂમથી ભોંયરાવાલા પદ્મપ્રભુના દેરાસરમાં સમોવસરણની રચના કરી હતી, તેમાં અઠાઈ મહોત્સવ, સાર્થમિકવાત્સલ્ય ઘણાં કર્યાં હતાં; તેઓ ૪૭ વરસની ઉમરે માંદગી ભોગવી સં. ૧૯૭૪ ના કારતકવદિ ૧૪ ના દિવસે કાલધર્મ પામ્યા, મહુમમાં તેમના પિતાશ્રીના જેવાજ ઘણાંકરણ ગુણો સ્વીકાર્યા હતા. ગરીબો પ્રત્યે દયાલુ તથા ધર્મની સરખાવતમાંપણ દાતા હતા. તેમના કાલધર્મ વસ્તે તેમના લઘુબંધુ શેઠ ડાહ્યાભાઈ રૂ. ૨૦૦૦૦) રકમ પુણ્યાર્થે સ્વર્ચવા જણાવી હતી. તેમની પાલ્લ તેમની પૂજ્ય માતુશ્રી તથા લઘુ બંધુ પાલીતાણામાં સારા રૂપીઆ સ્વર્ચ્યા હતા; અને શત્રુંજયના ડુંગરપર મહુમની તથા તેમના પિતાશ્રીના નામની સદાસોમજીના ચોમુસ્વમધ્યે દેરીમાં છ પ્રતિમાજીની પ્રતિષ્ઠા કરાવી હતી. તે સિવાય મહુમના નામનાં ઘણાં કાર્યો થયાં હતાં. મહુમની માતુશ્રી વાઈ ચુનીવાઈ પોતાના સુપુત્ર અમથાલાલના પુણ્યાર્થે સિદ્ધાચલમાં ક્ષેત્રમાં સારી રકમ સ્વર્ચતાં હતાં, તેમજ યાત્રા કરતાં હતાં, વૃદ્ધાવસ્થામાં સં. ૧૯૭૫ ના માગશર વદ ૨ ના દિવસે અવસાન પામ્યાં. તેમનો દેહોત્સર્ગ થયો તે અગાઉ તેમના હૃદયમાં જૈનધર્મશાલા વાંધવાની ઉમેદ હતી તે ઉમેદ, દેહ છોડતાં તેમના સુપુત્ર શેઠ. ડાહ્યાભાઈને જણાવી, તે ઉપરથી શેઠ. ડાહ્યાભાઈ પૂજ્ય માતુશ્રીનું વચન માન્ય કરી ક્ષણકીયાતીર્થમાં ધર્મશાલા વાંધાવી અને તેમનું નામ અક્ષરદેહથી અમર કર્યું છે. હાલ શેઠ ડાહ્યાભાઈ ઘેલાભાઈ હયાત છે, તેમણે ગુરુ મહારાજશ્રી બુદ્ધિસાગર સૂરિજીના ઉપદેશથી મેસાણા શ્રી દાદાગુરુ રવિસારજી મહારાજની દેરીમાં રૂપૈયા પાંચ હજાર આપ્યા છે. અનેકધાર્મિક સ્વાતાંઓમાં તેઓ હજારો રૂપૈયાની દરવર્ષે મદત કરે છે. શેઠ ડાહ્યા-

૧૫

ભાઈ દયાલુ, દાતાર, દેવગુરુ ભક્તિકારક, માતૃપિતાનાભક્ત, ગંભીર દીર્ઘદષ્ટિવાળા અને સ્વભાવે મિલનસાર છે. ગુરુ શ્રીમદ્ રુદ્ધિસાગરજીસૂરિ મહારાજના પરમભક્ત છે. દેરાસર, ઉપાશ્રય, પાંજરાપોલ વગેરેમાં હજારો રૂપૈયા સ્વર્ચે છે. શેઠ. ઉત્તમચંદ હરિચંદ દયાલુ, દાતાર, સરખી મર્દ હતા તેમના મિત્ર ઢાહ્યાભાઈ છે. મહાજનમાં તથા ગામમાં તથા મુંબાઈ સ્વાંડ બજારમાં શેઠ ઢાહ્યાભાઈની લાગવગ પ્રતિષ્ઠા સારી છે. તેઓ તેમના પિતાશ્રીના પગલે ચાલનારા જૈન રત્ન છે. તેમના હાથે ધર્મનાં શુભ કાર્ય થાઓ.

મહુમ શેઠ સુરચંદ મોતિચંદનો જન્મ સં. ૧૯૦૪ ના ચૈત્ર સુદિ ૧૩ ના રોજ થયો હતો. તેમના પિતાશ્રીનું નામ મોતીચંદ કરમચંદ હતું એટલે તેઓ શેઠ ઘેલાભાઈના ભત્રીજા હતા. તેમનામાં પણ તેમના કાકાશ્રીની માફક ઘણા ગુણો સ્વીલ્યાં હતા. તેઓ પણ સ્વાંડના સારા પ્રતિષ્ઠિત દલાલ હતા. તેમનામાં મુખ્ય ગુણ સમતા તથા જૈન ધર્મપર પૂર્ણશ્રદ્ધા હતી, તેમના જીવનમાં કોઈ પણ દિવસે ક્રોધી થયા નથી. તેઓ સં. ૧૯૫૨ ની સાલમાં અગીઆર હોડનું ઉજમણું કર્યું હતું, તે સિવાય અઠાઈમહોત્સવ વિગેરે ધર્મનાં કાર્યો ઘણાં કર્યાં હતા. જૈન દેરાસરના સુધારા સ્વાતામાં પોતે ટૂંટી હતા, અને છેવટ સુધી પણ તેમણે જૈનધર્મની સેવા બજાવી છે. તેઓ સં. ૧૯૭૬ ના ચૈત્ર સુદ ૫ ના દિવસે જૈનધર્મ પ્રત્યે પૂર્ણશ્રદ્ધા સહિત કાઠધર્મ પામ્યા હતા. તેઓના માનમાં મેહસાણામાં જૈન તેમજ જૈનેતર કોમમાં પાસી પાલ્લવામાં આવી હતી. તેમજ મુંબાઈમાં સ્વાંડ બજાર બંધ રાખવામાં આવ્યું હતું. મહુમ શ્રીમદ્ રવિસાગરજીમહારાજના પરમભક્ત શ્રાવક હતા, અને ક્રિયાકાંડમાં મેહસાણાના જૈન કોમમાં સૌ કરતાં આગલ હતા. તેમનામાં શ્રાવકના અનેક ગુણો સ્વીલ્યાં હતા. તેઓ મરણ સમયે પોતાના હસ્તક સર્વે મીલકતનું વીલ કર્યું હતું,

૧૬

અને રૂ. ૮૦૦૦૦) ની સલાવત કરવા ઉદારતા કરી છે. તેમના ધર્મ પત્ની જમના બાઈ શ્રાવિકા પળ ધર્મનાં પૂર્ણ રાગી છે અને તેમના હસ્તક તેમની યાદી માટે સં. ૧૯૮૦ ના ચૈત્ર વદિ ૧૧ ના રોજે પાલીતાણાનો મેહસાણાથી સંઘ કાઢી મહુમની સારી નામના યાદી કરી છે સંઘમાં કુલે સર્ચ રૂ. ૨૦૦૦૦) ને આસરે થયો છે. હજુ પળ જમનાબાઈ ઘણાં સારાં કાર્યો કરવા ઉમેદ ધરાવે છે. એજ તથાસ્તુ. શ્રાવિકા જમનાબાઈ ધર્મમાટે સારી રકમ સર્ચશે એવી આશા છે.

— — —

૧૭

॥ पूजासंग्रह उपोद्घात. ॥

अनादिथी परमेश्वर છે અને તેની પૂજા પળ અનાદિકાલથી છે. દરેક તીર્થંકરની અપેક્ષાએ આદિ છે એમ અપેક્ષાએ જ્ઞાનીઓ જાણે છે. જલ, ચંદન, પુષ્પ, ધૂપ, દીપ, અક્ષત, નૈવેદ્ય, ફલ વગેરે પૂજાની સાધન વસ્તુઓ છે. અંગપૂજા, અગ્રપૂજામાં સાધનવસ્તુઓ છે તે ઉપકારે પૂજા કહેવામાં આવે છે. દ્રવ્ય પૂજામાં જલાદિ સાધન પૂજાનો સમાવેશ થાય છે. ભાવના, શ્રદ્ધા, પ્રીતિ, પ્રશુગુણોની સ્તવના, તથા વ્રતાદિગુણોવડે પ્રશુની સ્તવના કરવી, પ્રશુની પ્રશુના ગુણો ગાઈ શ્રદ્ધા પૂર્વક ભક્તિ કરવી, પ્રશુના દ્રવ્ય અને ભાવ અતિશયોની સ્તુતિ કરવી, ઇત્યાદિ માનસિકસેવાભક્તિશુભપરિણામનો અને સ્તુતિ પૂજામયશબ્દોનો ભાવપૂજામાં સમાવેશ થાય છે. દ્રવ્યપૂજા અને ભાવપૂજા એ બે ભેદ પળ પ્રશુની સેવા ભક્તિરૂપ છે અને એવી સેવા ભક્તિમાં મતિશ્રુતજ્ઞાન પળ અંતર્માં જાગ્રત્ હોય છે, તેની સાથે ચરિત્રની ભાવનાઓ પળ ઉલ્લસે છે જ્ઞાનયોગ, ભક્તિયોગ, કર્મયોગ, જગત્માં અનાદિકાલથી સર્વદેશમાં અનેકરૂપે હોય છે. સાધનભક્તિની અપેક્ષાએ ભાવભક્તિના પળ અનેકભેદ પડે છે. દરેક ધર્મમાં ભક્તિને પ્રશુની પ્રાપ્તિનું સાધન માનવામાં આવ્યું છે. કેટલાક મતવાલાઓ પ્રશુ પરમાત્માને સાકાર માનીને તેમની ભક્તિ કરે છે. મુસલમાનો અલ્લા ખુદાને અનંતનૂરનો દરિયો માનીને પ્રશુની ભક્તિ કરે છે. વેદાંતીઓમાં કેટલાકમતવાદીઓ—રામાનુજ, રામાનંદ, મધ્વ, નિર્વાર્ક, વલ્લભાચાર્ય, સ્વામીનારાયણ વગેરે પરમेश्वરને સાકાર માને છે અને ભક્તોના ઉદ્ધારમાટે પરमेश्वर વારંવાર જન્મ અવતાર લે છે એમ માને છે. રામાનુજ વલ્લભાચાર્યમતવાદીઓ પરमेश्वर સદા સાકારરૂપી રહે છે એમ માને છે. શંકરાચાર્યવાલા વસ્તુતઃ પરમાત્માને

૧૮

નિરાકાર માને છે અને વિવર્તવાદની દૃષ્ટિએ પરમેશ્વરનાં અમુક પ્રતીકો કલ્પીને તેને સાકાર ઈશ્વર તરીકે માને છે. નૈયાયિકો અને વૈશેષિકો પરમેશ્વરને નિરાકાર માને છે. પતંજલિએ પાતંજલયોગદર્શનમાં પરમાત્માને નિરાકાર માન્યો છે. આર્યસમાજીઓ, પરમેશ્વરને નિરાકાર માને છે. સ્ત્રીસ્તિઓ પરમેશ્વરને સાકાર માને છે. બૌદ્ધો પરમેશ્વરને સાકાર તથા નિરાકાર માને છે. જૈનો પરમેશ્વરને સાકાર તથા નિરાકાર માને છે. હિંદુઓ, મુસલમાનો, સ્ત્રિસ્તિઓ, જૈનો, બૌદ્ધો, અનેક દૃષ્ટિવિંદુઓની અપેક્ષાએ પરમેશ્વરની દ્રવ્યપૂજા તથા ભાવપૂજાને માને છે. દ્રવ્ય તે ભાવનું કારણ છે. સાધનથી સાધ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. જ્યાં સુધી કેવલજ્ઞાની પરમાત્માઓ અઘાતીકર્પના યોગે શરીરમાં રહેલા હોય છે ત્યાં સુધી તે સાકારપરમેશ્વરો છે અને સર્વકર્મથી રહિત થઈ સિદ્ધબુદ્ધ પરમાત્મા થાય છે ત્યારે તે નિરાકાર પરમેશ્વર તરીકે ગણાય છે. સાકારપરમેશ્વરમાં અરિહંત, જિન, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને મુનિ સાધ્વીનો સમાવેશ થાય છે. અષ્ટકર્મ રહિત સર્વ શુદ્ધાત્માઓનો નિરાકાર પરમેશ્વરમાં સમાવેશ થાય છે. આત્માના અસંખ્યપ્રદેશો અને તેમાં રહેલ અનંતજ્ઞાન જ્યોતિને અનંત નૂર-તેજ સાગર કહેવામાં આવે છે. શ્રદ્ધાપ્રીતિ જ્યાં છે ત્યાં અવશ્યપ્રતિમા પૂજા આદિ સ્વયમેવ પ્રગટે છે. પ્રેમ ત્યાં પ્રતિમા પૂજા છે. સાકારના પ્રેમથી સાકારની પૂજા થાય છે, અને નિરાકારના પ્રેમથી નિરાકારની પૂજા થાય છે. સાકારની પૂજા સિદ્ધ થયા બાદ નિરાકારપ્રભુની પૂજા થઈ શકે છે. બાલ જીવો, સાકારપ્રભુઓની ભક્તિ કરીને હૃદયની શુદ્ધિ કરી શકે છે. હૃદયની શુદ્ધિ થયા પછી જ્ઞાન પ્રગટે છે અને તે જ્ઞાનથી નિરાકારપ્રભુની ધ્યાનરૂપ પૂજા થાય છે. સાકારપૂજા એ પ્રથમ મોક્ષમાર્ગનું પગથિયું છે. સાકારપૂજા કરનાર સાકાર પ્રભુ અને તેના વિયોગમાં સાકાર પ્રભુની પ્રતિમાનું તથા ગુરુની પ્રતિમાનું પૂજન કરે છે, તેની દૃષ્ટિમાં પ્રતિમામાં સાકાર પ્રભુનું સ્વરૂપ રમો રહે છે.

૧૯

સાકારપ્રભુની દ્રવ્ય પજાના અધિકારી ગૃહસ્થો છે અને પ્રભુની ભાવ પૂજાના અધિકારી મુનિયો છે. જેવા પ્રભુમાં શુદ્ધ જ્ઞાનાદિ ગુણો છે તેવા પોતાના આત્મામાં સત્તાથી ગુણો છે. પ્રભુની શ્રદ્ધા પ્રીતિથી પ્રભુના ગુણો પ્રાપ્ત કરવામાટે પ્રભુપૂજાની આવશ્યકતા છે. પ્રભુની પૂજા ભક્તિ કરતાં આત્મામાં રહેલા સદ્ગુણો પ્રગટે છે અને આવરણો ટકે છે. પ્રભુના જે જે ગુણોનું વહુ માન સ્તવન કરવામાં આવે છે તે તે ગુણો પોતાના આત્મામાં તિરોભાવે—સત્તાઈ રહેલા હોય છે તે પ્રગટ થાય છે. પ્રભુના ગુણોનું વહુમાન પૂજા તે વસ્તુતઃ પોતાના આત્માની પૂજા છે. કારણ કે તેથી પોતાના આત્માની શુદ્ધિ થાય છે અને ગુણો પ્રગટે છે.

જ્યારથી મનુષ્યો છે ત્યારથી ગમે તે ભાષામાં અનેકરીતે પ્રભુની સ્તુતિદ્વારા પૂજા કરવાનો રીવાજ પ્રવર્ત્યો કરે છે. શ્રી ઋષભદેવ પ્રભુથી તે શ્રીમહાવીર પ્રભુની પૂજાઓ તે તે કાલમાં તે તે દેશમાં પ્રચલિત ભાષાદ્વારા થતી હતી. પ્રભુની પૂજામાં મુખ્યભાવ પ્રેમ હોય છે અને તે ગમે તે ભાષાદ્વારા વહાર આવે છે. પ્રભુના ગુણોની શ્રદ્ધા પ્રીતિ ભાવનાને ભક્તો ગમેતેભાષાદ્વારા વહાર પ્રગટ કરે છે. પૂર્વે સંસ્કૃત ભાષા અને પ્રાકૃત ભાષાદ્વારા જૈનો પ્રભુની પૂજાનાં ગાનો ગાતા હતા. સંસ્કૃત પ્રાકૃતભાષાદિદ્વારા પ્રભુની પૂજા અને વ્રતાદિ ગુણો-દ્વારા થતી પ્રભુપૂજાદ્વારા જૈનો પ્રભુની ભક્તિ કરતા હતા. સોલમા વા સત્તરમા સૈકાથી ગુજરાતી ભાષામાં પ્રભુની પૂજાઓ રચાવા લાગી. શ્રીસકલચંદ્ર ઉપાધ્યાયે શ્રીસત્તરમ્બેદી પૂજા રચી તે પહેલાંની પૂજાઓ રચેલી ન જાણવામાં આવે ત્યાં સુધી ગુજરાતી ભાષામાં પ્રથમ પૂજાના રચયિતા શ્રીસકલચંદ્ર ઉપાધ્યાયજી ગણાવાના. શ્રીસકલ-ચંદ્રજી ઉપાધ્યાયજી પશ્ચાત્ શ્રીયશોવિજયજી ઉપાધ્યાય, શ્રીજ્ઞાનવિ-મલસૂરિ, શ્રી વિજયલક્ષ્મીસૂરિ, શ્રી પદ્મવિજયજી પંન્યાસ, શ્રીરૂપ-

૨૦

વિજયજી પંડિત, શ્રી વીરવિજયજી પંડિત, આચાર્યશ્રી વિજયાનંદ સૂરિ, પચ્ચાસશ્રી ગંભીર વિજયજી, શ્રીમાનહંસવિજયજી, શ્રીમાન વલ્લભવિજયજી શ્રીરાજેન્દ્રસૂરિ વગેરે આજ સુધી પૂજાઓ રચનારા થયા છે. સ્વરતરગચ્છ, અંચલગચ્છ વગેરેમાં ગુજરાતી ભાષામાં પૂજાઓના રચનાર અનેકસૂરિ પંડિત મુનિવરો થયા છે અને ભવિષ્યમાં ઘણા થશે. પૂજાઓ મળાવવાનો શ્વેતાંબર જૈનોમાં ઘણો રીવાજ છે. સર્વપૂજાઓમાં નવપદની અને વીશસ્થાકપદની નવાણુપ્રકારી, પૂજાઓ વધારે મળાવાય છે. ઉપાધ્યાયજી શ્રી યશોવિજયજી, શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી અને જ્ઞાનવિમલજી સૂરિ, એ ત્રણની નવપદની સ્તુતિનો સંગ્રહ કરીને કોઈ માન્ય મુનિએ નવપદપૂજાની યોજના કરી છે. સ્વરતરગચ્છ અને તપાગચ્છ, બન્નેમાં એ નવપદની પૂજા મળાવાય છે. શ્રી વિજયલક્ષ્મીસૂરિકૃતવીશસ્થાનકની પૂજાની જૈનોમાં ઘણી પ્રસિદ્ધિ છે. વિદ્વાનો તે પૂજાને મળાવી વિશેષહર્ષ પામે છે. પૂર્વ પુરુષ મુનિવરોનું અનુકરણ કરીને મારાવડે પ્રસંગોપાત્ત કેટલીક પૂજાઓ રચાઈ છે. તે આ પૂજાસંગ્રહનું પુસ્તક વાંચતાં જ વાચકો જાણી શકશે.

મારી બનાવેલી પૂજાઓ—વસો, વિજાપુર, સાણંદ, મહુડી (મધુપુરી) મેસાણા, એ પાંચ ગામમાં રચાયેલી છે. દરેકમાં પૂજા રચ્યાનો સંવત્ છે. વિશેષમાં ગુરુપૂજા અને પ્રમુમહાવીરદેવના યજ્ઞ તરીકે શ્રી ઘંટાકર્ણમહાવીરની પૂજાઓ છે ત્રીજા, ચોથા અને પાંચમા પરમેષ્ઠીમાં ગુરુતત્ત્વનો સમાવેશ થાય છે. શ્રીમદ્ રવિસાગરજી ગુરુ મહારાજ અને શ્રીમદ્ સુલસાગરજી ગુરુ મહારાજ, એ બે પરમ ઉપકારી ગુરુઓના ગુણની પૂજા રચવામાં આવી છે. ગુરુની પાદુકા તથા મૂર્તિ આગળ અગર અન્યત્ર ગુરુની સ્થાપના કરી ગુરુપૂજા મળાવવી. નવપદની પૂજામાં અરિહંત, સિદ્ધની પેઠે આચાર્ય, વાચક, તથા સાધુની પૂજા છે. ગુરુમાં આચાર્ય, વાચક, મુનિનો સમાવેશ

૨૧

થાય છે, સ્વરતરગચ્છમાં શ્રી જિનદત્તસૂરિ તથા શ્રીજિનકુશલસૂરિની પૂજા ભણાવવામાં આવે છે. પૂજાઓની ચોપડીઓમાં દાદાની પૂજા પ્રસિદ્ધ છે. શ્રીમદ્ રવિસાગરજી દાદાગુરુ મહાપ્રભાવક, ચારિત્રપાત્ર ચૂદામણિ થયા છે, માટે તેમની પૂજા રચેલી છે, ગુરુભક્તો ગુરુગુણ-રાગીઓ ગુરુની પૂજા ભક્તિ કરે તેથી તેઓના આત્માની શુદ્ધિ થાય છે. શ્રીઘંટાકર્ણ મહાવીર એક જૈનશાસન દેવ છે. શાન્તિસ્નાત્રમાં અષ્ટોત્તરી સ્નાત્રમાં અને પ્રતિષ્ઠા વિધિમાં શ્રી ઘંટાકર્ણવીરની સ્થાલી-યંત્ર-વાલી મંત્રીને વેદિકાઉપર સ્થાપવામાં આવે છે, અને ઘંટાકર્ણની પૂજામાં સુખડી કરાય છે તે શ્રાવકોને વેંચવામાં આવે છે. શ્રી સકલ-ચંદ્રજી ઉપાધ્યાયજીએ પ્રતિષ્ઠાવિધિની સંસ્કારિતયોજના કરી છે. શાન્તિસ્નાત્ર અને અષ્ટોત્તરીસ્નાત્રવિધિની યોજના પણ તેમના વલ્લભતામાં તથા જગદ્ગુરુતપાગચ્છગગનભાનુસમાનશ્રીહીરવિજયસૂરિજીના વલ્લભતામાં થયેલી છે અને તે આચાર્યોએ જૈનશાસનદેવતાતરીકે શ્રી ઘંટાકર્ણ મહાવીરની પ્રસિદ્ધિ કરી છે અને તે પરંપરા આજ સુધી તપાગચ્છમાં ચાલી આવે છે. શ્રી મહુડી (મધુપુરી) ગામમાં શાસન યક્ષ તરીકે શ્રી પદ્મપ્રભુ જિનેશ્વરદેવની જમણી વાજુએ એક દેરી કરી શ્રી ઘંટાકર્ણમહાવીરની મૂર્તિની અમોએ પ્રતિષ્ઠા કરી છે. તે શાસનયક્ષનો ચમત્કાર પ્રભાવક સર્વત્ર દેશમાં વિસ્તાર પામ્યો છે. ઘંટાકર્ણ કલ્પ વાંચવાથી તેમનો પ્રભાવ સમજાશે. જેટલા શાસન દેવો અને દેવીઓ છે તેઓ સમક્રિતધારી છે, તેઓ સાધર્મિકબંધુતરીકે છે. ગૃહસ્થ શ્રાવકો જૈનો તેમની શાસન પ્રભાવક સાધર્મિકતરીકે સેવા ભક્તિ કરે છે અને તેથી શાસનયક્ષદેવો, ગૃહસ્થજૈનોને ધર્મ સાધતાં સંકટ પડે છે તે કાલે સહાય કરે છે. અમોએ ગૃહસ્થ જૈનોને સાધર્મિકદેવ તરીકે તેમની પૂજા ભણાવવાનો તેમની મૂર્તિ આગળ અધિકાર છે એવું જાણી તેઓ માટે પૂજા રચી છે કે જેથી જૈનો પોતે, મિથ્યાત્વી દેવો અને દેવીઓની સહાય છંડીને સમક્રિતી દેવદેવીઓની સહાય પામી શકે-

२२

सम्मदिष्टी देवा दिंतु समाहिंच बोहिं च (वंदितासूत्र)

ए वाक्यथी श्रावकोए सम्यग्दृष्टिदेवोने कहुं छे के हे सम्यग्दृष्टि देवो ! अमने समाधि अने बोधि—समकित आपो. सम्यग्दृष्टि गृहस्थ जैनो सम्यग्दृष्टि देवदेवीना गुणोनुं स्तवन करी तेओनी द्रव्यपूजा करी शके छे. अष्टादशदोषरहित परभात्मा महावीरजिनेश्वरना सम्यग्दृष्टि देवो अने देवीओ ते सेवको छे अने ते जैनशासननी प्रभावनामां मदत करे छे. तेमने साधर्मिक समकितदृष्टि देव तरीके मानवा पूजवामां दोष नथी. चक्रेश्वरी, पद्मावती, माणिभद्र वगैरेनी देरासरोमां श्रावको पूजा करे छे तेम घंटाकर्ण वीरनी मूर्ति आगळ तेनी स्तुति करी तेनुं पूजन करवुं ए जैन शासननी सेवा करनार देवनी भक्ति छे.—

पूजा भणावनाराओए ज्ञानी मुनि वगैरेनी सेवा भक्ति करीने तेओनी पासेथी दरेक पूजाना अर्थ धारवा. दरेक पूजाना रागने धारवा. पूजाने सारीपेटे गातां शीखवुं. पूजानां साहित्य तरीके जे जे वाजिंत्र योग्य लागे ते वगाडतां शीखवुं, जे पूजा भणाववानी होय तेनो भावार्थ प्रथमथी समजी लेवो. एक सरस्वी रीते सर्व गानाराओए तालबद्ध गावुं. मुखे खेसनो छेडो राखवो, पूजा एक सरस गानार उपाडे अने बीजा पाळ्ळ ते पद्य गाय, वच्चे कोइ जातनी गरबड थवा न दे, वच्चे आडी अवळी वातो न करे, प्रभुना सन्मुख दृष्टि राखे, जे पूजामां जेवो भाव होय तेवो परिणाम धारण करे, प्रभु वीतरागना गुणोनुं बहु मान करे अने आनंदथी गायतो पूजा भक्तिनुं वातावरण एवुं छावाइ जायके जेथी तद्धेतु अनुष्ठान अने अमृत अनुष्ठाननो आनंद रस प्रगटे. जिनमंदिरमां पूजा भणावती वखते सर्व श्रावकोए नियमसर वेऽवुं. पूजा भणाववामां विधिनी खप करवो अने आशातनाना दोषो टाळवा. वेठनी पेटे पूजा न

૨૩

ભળાવવી. મોક્ષ માટે પૂજા ભળાવવી. સુન્ન ભક્ત સ્નાત્રીયાઓ કરવા. પતાસાંની લાલચેજ પૂજામાં સામેલ થવું તે વિષાનુષ્ઠાન છે, માટે પૂજા ભળાવવામાં, ગાવામાં અને પૂજા શ્રવણ કરવામાં સ્વાસ લક્ષ્ય રાખવું. ગાતાં આવડે, સારું ગાનારા ગવૈયાઓ ગાય, બાહિરની સારી ધામધૂમ દેખાય, તેટલા માટેજ પૂજામાં જવું એવું ન ધારવું, પરંતુ સારી રીતે ગાવું. પૂજાઓ ગાતાં તેના અર્થનો વિચાર કરવો, આત્મામાં પ્રશુ ભક્તિનો હર્ષોલ્લાસ પ્રગટાવવો અને પ્રશુવીતરાગના ગુણોને પ્રગટાવવા સ્વાસ લક્ષ્ય રાખી સર્વ પૂજાની સાધન સામગ્રી સેવવી અને સાધ્ય લક્ષ્યનો કેન્દ્રસમાન ઉપયોગ મૂલી ન જવો. શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી મહારાજે કહ્યું છે કે,

સ્વામીગુણ ઓલખી સ્વામીને જે ભજે,
દર્શન શુદ્ધતા તેહ પામે;
જ્ઞાન ચારિત્ર તપ વીર્ય ઉલ્લાસથી,
કર્મ જીવી વશે મુક્તિ ધામે, તાર૦ ॥

પ્રશુ મહાવીર દેવના ગુણોને પ્રથમ જાણી અને પછી પ્રશુ મહા-વીરાદિ દેવની જે પૂજા સેવા કરે છે તે આત્માના સમ્યગ્ દર્શનની શુદ્ધતા પ્રાપ્ત કરે છે. સમ્યગ્ દર્શનની શુદ્ધતાના વહે જ્ઞાન ચારિત્ર તપ વીર્ય ગુણના ઉલ્લાસને પ્રગટાવીને તે આત્માના શુદ્ધ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ગુણને પામીને તથા અષ્ટકર્મનો ક્ષય કરીને મુક્તિ ધામમાં વસે છે. પ્રથમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને પશ્ચાત્ પૂજા વગેરેની ક્રિયા કરવી. ગાઢરીયાપ્રવાહનો ત્યાગ કરી પ્રથમ પૂજાઓનું સારી રીતે જ્ઞાન કરવું. વિદ્વાન સાધુ ગુરુ અને દક્ષ શ્રાવક પાસેથી પૂજાઓના અર્થ ધારવા. એવી રીતે પૂજાના ગીતોદ્વારા પ્રશુની પૂજા કરવાથી શ્રાવકો મોક્ષપદને પામે છે, ત્યાગી મુનિયો પ્રશુની આગલ ભાવનાથી પૂજાઓ

२४

गाई शक्रे छे पण द्रव्य पूजा करता नथी, कारण के तेओए द्रव्य पूजानो त्याग करेलो छे. पूजा भणावतां आत्मोद्धासथी अनेक कर्मनी वर्गणाओनो क्षय थाय छे.

में यथाशक्ति पूजाओ रचवामां प्रयास कर्यो छे. समकितदृष्टि-वाळा जीवो श्री कृष्णनी पेटे तेमांथी गुण सार ग्रहण करशे अने मिथ्यादृष्टियो काकनी पेटे दोषो जोशे. गुणानुरागी जे भक्तो हशे तेओ अवश्य फल प्राप्त करशे.

वसो गामना संघना आग्रहथी पहेली अष्ट प्रकारी पूजा रच-वामां आवी हती अने त्यां प्रथम देरासरमां भणावी हती. वास्तुक पूजा विजापुरमां वकील. शा. रीखवदास अम्लख, दोशी. नथुभाइ मंछाचंद वगरेना आग्रहथी रचवामां आवी हती अने प्रथम शेट. रीखवदास अम्लेखना नवा घरमां भणावी हती. मोटी नवपदनी पूजा प्रथम महुडी गाममां श्रीपद्मप्रभुनी आगळ विजापुरनी अने साणंद श्रावकनी टोळीए सारी रीते भणावी हती पूजासंग्रहमां आपेली पूजाओ जोवार्था मालुम पडशे के ते ज्ञानदर्शन चारित्ररूप मोक्ष मार्ग छे. व्यवहारनय अने निश्चयनय एम वे नयनी स्या द्वादशैलीथी अनेकांतनयसहित पूजाओ रचेली छे, तेनो भाव उत्तम छे. गीतार्थमध्यस्थभावी गुणानुरागी मुनियो पासे तेनो भावार्थ धारवो. पूजाओमां रुचिभेदे कोइने कोइ रुचे छे अने कोइने कोइ रुचे छे. रुचिज्ञानभेदे जुदी जुदी पूजाओ सर्वने रुचे छे. पूजानो सार ग्रहण करवो पूजाओपैकी जेना जे अधिकारी हशे ते तेने ग्रहण करी भणावशे अने फल प्राप्त करशे. पूजासंग्रहने छपाववामां साणंद संघना श्रावकोए आगेवानीभर्यो भाग लीधो छे. शेट गोविंदजी उमेदनी पाळळ तेमना भाइ त्रिभोवनदास तथा चुनीलाले तथा भाइ दलसुखभाइए धर्मदान करेलुं, तेओए तेमनी नाम स्मृतिमाटे पूजाओ

૨૬

બગેરે રચવાનો આગ્રહ કર્યો, તેથી નિમિત્ત પામીને વાકીની કેટલીક પૂજાઓ રચાઈ છે. પૂજાસંગ્રહ છપાવવામાં જે જે શ્રાવકોણ ધનની સહાય કરી છે તેઓને ધન્યવાદ આપવામાં આવે છે. પૂજાસંગ્રહ પ્રથમાવૃત્તિમાં જે કંઈ સ્વલન, ભૂલ, દોષ રહેલ જણાશે તેને દ્વિતીયાવૃત્તિમાં સુધારી લેવામાં આવશે અને ત્રીજી પળ કેટલીક નવીન પૂજાઓ રચી દાખલ કરવામાં આવશે. પૂજાસંગ્રહનાં પ્રુફ સુધારવામાં મુનિ કીર્તિસાગરે મદત કરી છે તેથી તેને ધન્યવાદ આપવામાં આવે છે. જે કંઈ વીતરાગ મહાવીર પ્રશ્નની આજ્ઞા વિરુદ્ધ લચ્ચાયું હોય તેનો મિચ્છામિ દુક્કડં દેવામાં આવે છે. પૂજા મળાવનારા અને શ્રવણ કરનારાઓના હૃદયમાં સેવાભક્તિ પૂજાના પરિણામની વૃદ્ધિ શુદ્ધિ થાઓ.

इत्येवं ॐ अर्हमहावीरशान्तिः ३

મુ. મહેસાણા.

સં. ૧૯૭૯

કાર્તિકસુદિજ્ઞાનપંચમી.

લે. બુદ્ધિસાગરસૂરિ.

૨૬

પૂજાસંગ્રહની પ્રસ્તાવના.

શાસ્ત્રવિશારદ-કવિરાજ, જૈનાચાર્ય શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગર સૂરિકૃત પૂજાસંગ્રહ સ્વરેસ્વર જ્ઞાન ભક્તિરસ અને ચારિત્ર ભાવરસનો સાગર છે. શ્રીમદ્ની રચેલી પૂજાઓમાં ભાવ મુખ્ય છે. જે જે વિષયની પૂજા રચેલી છે તેનું ઉત્તમ હાર્દિક સ્વરૂપ ચિતર્યું છે, ઇટલુંજ નહિ પરંતુ તેમાં સ્થલે સ્થલે તેમના ઉદ્ગારો કે જે જ્ઞાનભક્તિરસમય છે તે દે-લાય છે. કર્તાનું જ્યાં હૃદય નીતરે છે તે કાવ્ય છે. આનંદ રસના ઉભરા અને અનુભવ જ્ઞાનના ઉભરાઓ જ્યાં ત્યાં પૂજાઓમાં વાંચતાં અનુભવાય છે તે સહૃદય સાક્ષર પૂજાનુભવીભક્તો સ્વયમેવ જાણી શકશે. ગુરુમહારાજે રાગો કે જે પૂજાઓમાં પ્રચલિત છે તેમાં પૂજાઓ રચી છે. કેટલીક પૂજાઓને રાગણીઓમાં પણ રચી છે. પંચધા યોગ પૂજા, અષ્ટાંગ યોગ પૂજા, દાનશીયલતપમાત્ર પૂજા, ષડાવશ્યક પૂજા, મહાવીર જન્મજયંતીપૂજા વગેરે પૂજાઓ કે પહેલાં કોઈએ રચી નહોતી એવી પૂજાઓ રચીને તેમણે પૂજારસિકોને નવીન પૂજાઓના આનંદરસ આસ્વાદન પ્રતિ આકર્ષ્યાં છે. ગુરુમહારાજની રચેલી પૂજાઓમાં પ્રાસાનુપાસ, ઇડઙ્ગ-મક સાથે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ભક્તિ ચારિત્ર રસનો પ્રવાહ વહ્યા કરે છે. તેમની રચેલી પૂજાઓ ઘણે ટેકાળે મળાવવાની ઇચ્છાવાળા શ્રા-વકો જ્યાં ત્યાં ગામોગામ પૂજાસંગ્રહ વહાર પડ્યા પહેલાં અગાઉથી માગણીઓ કર્યા કરે છે. અષ્ટપ્રકારી તથા વાસ્તુક પૂજા આજસુધી ઘણા ગામોમાં શહેરોમાં મળાવવામાં આવી છે. તેમની રચેલી નવપ-દની મોટી પૂજા પહેલવહેલી વિજાપુર પાસેના મહુડી ગામમાં વિજાપુર તથા સાળંદની શ્રાવક ટોલીએ મળાવી હતી. ગુરુશ્રીએ સત્તરમેદી પૂજા એક દિવસમાં પાંચ કલાકમાં રચી પૂરી કરી હતી. પંચપરમેષ્ટી પૂજા, ષડાવશ્યક પૂજા, અષ્ટાંગયોગ પૂજા તથા પંચધાયોગ પૂજા વગેરે પૂ-

૨૭

જાઓ એકેક દિવસમાં ચાર ચાર પાંચ પાંચ કલાકમાં રવી પૂરી કરી હતી. ગુરુમહારાજ જ્યારે પૂજા રચવા વેસે છે ત્યારે ગદ્યના લ-
 ઘાણની પેટે સપાટાબંધ પૂજાઓ રવી દે છે. શીવ્રકવિ તરીકે તેઓ
 જાહેર છે. તેઓએ ભજન પદ્યસંગ્રહના આઠ ભાગ રવી બાહર પાઢ્યા
 છે. તેમની રચેલી સત્તરભેદી પૂજાનો ભાવાર્થ, આધ્યાત્મિકદૃષ્ટિએ
 ઉત્તમ છે. વીંશ સ્થાનકની પૂજામાં થોડી ગાથાઓમાં ઘણો ભાવ
 સમાવ્યો છે. પહેલાંની અનેક પૂજાઓ છે. હાલ પણ કેટલાક પંડિત
 મુનિવરોએ પૂજાઓ રચેલી છે. ભિન્ન રુચિવાળા લોકો છે તેથી આ
 પૂજાઓના રુચિવાળા જે લોકો છે તેને આ પૂજાઓ મળાવતાં ઘણો
 ભક્તિરસ પ્રગટશે તથા ભવિષ્યમાં જેઓ આવી પૂજાઓની રુચિવાળા
 જીવો પ્રગટશે તેઓને આ પૂજાઓ ઘણી ઉપયોગી થઈ પડશે. આચાર્ય
 મહારાજની ભવિષ્યમાં વીંચી પૂજાઓ પ્રસંગોપાત્ત રચે એવો સંભવ
 છે. આ પૂજાસંગ્રહની આટ્ટત્તિ સ્વપી જતાં વીંચી આટ્ટત્તિ છપાવતાં
 ભવિષ્યમાં રચાશે તે પૂજાઓને પણ આ પૂજાઓના સુધારા વધારા
 સાથે દાખલ કરવામાં આવશે.

સજ્જનો ગુણાનુરાગી હોય છે. દુર્જનો કાકના જેવા દોષ દૃષ્ટિ-
 વાળા છે. દુર્જન ઈર્ષ્યાલુઓ તો છતાં ગુણને પણ અવગુણ તરીકે દે-
 સ્વાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને પયમાંથી પૂરા કાઢવા જેવી ચેષ્ટા કરે
 છે, એવા ઈર્ષ્યાલુઓ ઉત્તમ પૂજાઓ અને તેના રહસ્યને દોષરૂપ દેસ્વા-
 ડવા પ્રયત્ન કરે તેથી સજ્જન ગુણાનુરાગી સમજુજનોને સ્વરાવ
 અસર થતી નથી. જેઓને સમ્યગ્દૃષ્ટિ પ્રગટી હોય છે તેઓ તો શ્રી
 કૃષ્ણની પેટે જ્યાં ત્યાં સારું દેસે છે તેની પ્રસંશા કરે છે અને ગુણ-
 નારાગી બને છે. જૈન કોમમાં આચાર્ય મહારાજ સાહેબ જેવી પ્રભાવ-
 શાલી અલ્પ વ્યક્તિઓ છે. તેમણે જૈનકોમપર ઘણો ઉપકાર કર્યો
 છે. જૈનો અને હિંદુઓ વગેરે સર્વ કોમોમાં, રાજા રજવાડાઓમાં
 જૈનાચાર્ય ગુરુ મહારાજની પ્રતિષ્ઠા ભારી છે, સર્વ દર્શનવાળાઓ તે-

૨૮

મના લેખોને ગ્રન્થોને પ્રેમભાવથી વાંચે છે. ગુરુ મહારાજના રચેલા અનેક ગ્રન્થો છે. ગ્રન્થમાલ્લાના મળકામાં આ ગ્રન્થથી વધારો થયો છે. તેમના હાથે વિશ્વ લોકોનું કલ્યાણ થાય એવા ગ્રન્થો હજી ઘણા લખાશે એવી ઇચ્છા રાખીએછીએ. પૂજાઓમાં જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રાદિ ગુણોની ભક્તિ સ્તુતિ અને જ્ઞાનીઆદિ ગુણીઓની ભક્તિ કરવામાં આવે છે અને વ્રત ગુણોની રુચિ પ્રગટ થાય એવી ભાવના હોય છે. આત્માની શુદ્ધિ કરી આત્માને પરમાત્મા બનાવવો અને અનંત જન્મ જરા મરણના દુઃખથી મુક્ત થવું એજ સર્વ પ્રકારની પૂજાઓનો મૂલ ઉદ્દેશ અને ઉદ્દેશગામી પૂજાઓનો ભાવર્થ હોય છે. વાચકોએ પૂજાઓ ગાઈને બેસી ન રહેવું પણ તેનો ભાવર્થ ગ્રહવો, સાંભળી સાંભળી ફૂટ્યા કાન-વાંચી વાંચી ફૂટી આંખ, ગાઈ ગાઈ થાક્યું મુલ, એમ ગાઢરિયા પ્રવાહે ચાલતાં પૂજાનું અને તેમાં કહેલા ભાવનું રહસ્ય સમજ્યાવિના આત્માનો આનંદ-રસ પ્રગટતો નથી. જ્ઞાનપૂર્વક અને ભાવપૂર્વક પૂજાઓ મળાવવામાં આવે છે તો વક્તાઓને તથા શ્રોતાઓને અત્યંત આલ્હાદભાવ ભક્તિ-રસ પ્રગટે છે અને જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મોની નિર્જરા થાય છે. આત્મામાં પ્રમુ ભક્તિનો સમાધિભાવ પ્રગટે છે તેથી પ્રમુનો હૃદયમાં પ્રગટ ભાવ થાય છે. પૂજાઓ મળાવવામાં, શ્રવણ કરવામાં એકાંત ભક્તિનું ફલ છે તેનો ભાવર્થ વિચારી આત્મોલ્લાસ પ્રગટાવતાં ઉત્કૃષ્ટભાવે ક્ષણમાં મુક્તિ થાય છે. ભક્ત જૈનો આવી ઉત્તમ પૂજાઓ મળાવીને તથા શ્રવણ કરીને પ્રમુ ભક્તિના રસિયા બની આનંદ રસ પામો. એમ ઇચ્છું છું. સં. ૧૯૭૯ કા. સુ ૧૧ એકાદશી. ॥

ગુરુભક્ત. લેખક.

ગાંધી આત્મારામ એમચંદ,
મહેતા હરિલાલ મંગલદાસ,
મુ. સાણંદ.

૨૯

પૂજાસંગ્રહ.

દ્વિતીય ભાગની પ્રસ્તાવના.

દહં ઉપદેશ જીવોને, પ્રતિફલની નથી ઇચ્છા;
ફર્જ મારી અદા કરવી, પહે જો પ્રાણ તોપણ શું ?

(ભજનપદ ભા. ૬)

જેમનું લેખનકાર્ય વિશ્વના જીવોનું મલું કેમ થાય તેની યોજનાઓના ઉદ્દેશનું પરિણામમૂત હોય છે એવા ગુર્જરભૂમિમાં વિચરતા અધ્યાત્મજ્ઞાની શાસ્ત્રવિશારદ જૈનાચાર્ય શ્રીમાન બુદ્ધિસાગરસૂરીશ્વરજી કૃત આ પૂજાસંગ્રહનો દ્વિતીય ભાગ પણ પ્રથમ ભાગની માફક અનેક ગુણસંપન્ન અને ભાવપ્રધાનસ્વરૂપથી અલંકૃત જોવામાં આવ્યો છે. તેમની રચનામાં દરેક વિષયનું વ્યાવહારિક અને અધ્યાત્મિકસ્વરૂપ યથાયોગ્યરૂપમાં દ્રવ્યભાવ ગુણદૃષ્ટિ ચીતરેલું જોવામાં આવે છે જે સ્વાસ્ત્ય સ્વૂરૂપ છે. દરેક દર્શનોમાં પ્રભુભક્તિ છે તે પ્રભુ પ્રાપ્તિના સાધનરૂપ મનાઈ એક યા વીજી અનેકરીતીએ તેના વ્યાવહારિક સ્વરૂપમાં પ્રગટ થયેલી હોય છે, જેનું દિગ્દર્શન સૂરિશ્રીએ પૂજાસંગ્રહ ભા. ૧ ના ઉપોદ્ઘાતમાં કરેલું છે તે વાંચવાથી તેનો સ્વાલ વાચકો સહજ રીતે કરી શકશે.

જૈનોમાં અગાઉ અનેક મુનિવરોએ ભક્તિપ્રધાન પૂજાઓ રચી છે જેનો અત્યારસુધીનો જે સંગ્રહ છે તેમાં આ રચનાનો ઉમેરો અનેક રીતે પ્રશંસાપાત્ર છે. અત્યારસુધી રચાયેલા સંગ્રહમાં આ રચનાથી એકદમ ધરત્રમ વધારો કરીને પૂજા સાહિત્યને શક્યતા પરિપુષ્ટ કરેલું છે. તેમ પ્રથમ ભાગમાં અને આ દ્વિતીય ભાગમાં પ્રથમ કરસ્પર્શ નહિ થયેલા અનેક વિષયો પૂજાનુષ્ઠાનમાં પરોવીને તેના ક્ષેત્રમાં વિશાલતા સાબીત કરી ચતાયેલી છે અને પાત્ર પરત્વે અમર્યાદતાનું મંત્ર સૂચન છે.

૪

૩૦

આ દ્વિતીયસંગ્રહમાં દ્રવ્ય શ્રાવકના એકવીસ ગુણની પૂજા, ભાવશ્રાવકના સત્તર ગુણની પૂજા, વાર ભાવનાની પૂજા, મહાવીર-પરમેશ્વર પંચકલ્યાણક પૂજા, પંચજ્ઞાન પૂજા, મંગલ પૂજા, જંગમસ્થાવર તીર્થપૂજા અને અઢાર પાપનિવારક પૂજા કે જે અત્યારસુધી રચાયેલી નહોતી તેવી પૂજાઓ રચીને વિવિધ ચિત્તવૃત્તિવાળા મનુષ્યોને માટે ધ્યાન ધરાવવાના રૂપે થઈ પૂજારસિકોને તે નિમિત્તે જ્ઞાનવૈરાગ્ય પોષણનું નવું સાધન મળે છે જેથી ધ્યાન સુધી થવા જેવું છે.

શ્રાવકધર્મના અધિકારી બનવાનેમાટે દ્રવ્યશ્રાવકના એકવીસ ગુણની પૂજા તથા ભાવશ્રાવકના અધિકારી બનવાને માટે ભાવશ્રાવકના સત્તરગુણની પૂજા ધ્યાન ઉપયોગી હોઈ શ્રાવકના ગુણોમાં શ્રાવકોને ઉન્નત કરવા સરલ અને સરળ ભાષામાં ઉપદેશાદૃત પૂર્ણ રચના આગળ કરવામાં સુરિશ્રીની પ્રવૃત્તિ પ્રશંસાપાત્ર છે અને આ રચના શ્રાવકોને સ્વત્વનું સહેલાઈથી મેળવવા અણમોલા સાધન રૂપ છે. આનિમિત્તે શ્રાવકોમાં કિંચિત્ પણ ગુણવૃદ્ધિની સાપેક્ષદૃષ્ટિ આ પૂજાઓની ઉપયોગિતા સિદ્ધ થાય છે. વારવ્રતની પૂજા તથા વાર ભાવનાની પૂજા પણ તેટલીજ ઉપયોગી છે મહાવીર પરમેશ્વર કલ્યાણક પૂજા કે જેમાં લલિત ભાષામાં સંક્ષેપથી મહાવીરસ્વામીનું મનનીય ચરિત્ર ગુંથીને દરેક જૈનને સ્મરણપટમાં અપવાદ રહિત ગોઠવી રાખવા લાયક વસ્તુ રજુ કર્યું છે તે જાણીને કોણ સુધી નહિ થશે ? તેવીજ રીતે જંગમ સ્થાવર તીર્થપૂજામાં તમામ તીર્થોની યાદી સ્મૃતિપટમાં સહેજે ઉપસ્થિત થવાને સુંદર પ્રવંધ કરેલો છે કે જેથી માનવહૃદયમાં તીર્થભક્તિ સદોદિત જાગૃત રહી શકે અને પરીણામે સાંસારિક ક્લેશોમાં નિરંતર રચીપત્તી રહેલી ચિત્તવૃત્તિ ક્ષણભર પણ આત્માનંદનું આસ્વાદન કરી દુઃખોદધિ સંસારમાં કિંચિત્ વિશ્રાંતિનું સાધન મેળવી શકે. પંચજ્ઞાનપૂજામાં જૈનદર્શનમાં પ્રરૂપિત પંચજ્ઞાનનું સ્વરૂપ આલેખેલું છે સર્વ શુભ કાર્યારંભમાં વિઘ્નવિનાશન હેતુ આ અને કલ્યાણ

૩૧

ફળ નિમિત્તે રવેલી મંગલપૂજા સ્વાસ મંગલસ્વરૂપ રજુ કરે છે. આ સંસાર વિગ્નોથીજ ભરેલો છે અને પદે પદે સંસારી જીવોને વિગ્નોનો અનુભવ સામાન્ય છે. ઇટલે મંગલેચ્છુજીવોનો વિગ્નભય દૂર થઈ આશ્વાસન પ્રાપ્ત થવામાં તથા અનેક મંગલમય નામોનું સ્મરણ-મનન થઈ ભક્તિ નમ્રતાયુક્ત ચિત્તવૃત્તિ થવામાં તેમજ દુઃસ્વી પળ સુસ્વેચ્છુઓને ‘કર્હીં લાસ્વો નિરાશામાં’ લંબાયેલા આશાતંતુનું દર્શન થવામાં આ પૂજાની ઉપયોગિતાથી મનુષ્યહૃદયનું સહેજે આકર્ષણ થશે એ નિઃસંશય છે. સ્વરેસ્વર આ પૂજા “લોગસ્સ” અને “સંતિકર” ઉપરાંત અનેક મંગલપાઠોના સ્વજાનારૂપ હોય તેવી સ્ત્રીથી ભરપૂર છે. આ ઉપરાંત અઢાર પાપસ્થાનકનિવારક પૂજા સ્વવિષય પરત્વે તેમજ જીવોની અનિવાર્ય રુચિભેદ પરત્વે ઉપયોગી છે એમ પ્રથમ ભાગના ઉપોદ્ઘાત તથા પ્રસ્તાવનામાં દિગ્દર્શિતસિદ્ધાંતપ્રમાણે જણાય તેવું છે, તેથી તેની પુનરુક્તિની આવશ્યકતા નથીજ, શત્રુંજય વિષયક કથા વૃત્તાંતનો ઉદ્બોધ કરનારી, દ્રવ્યભાવમય તીર્થનો તથા દ્રવ્યભાવમય શત્રુંજય તીર્થનો સ્થાલ આપનારી, તીર્થભક્તિ ઉપર પ્રેમ જગાડનારી, તીર્થ ઉપર રહેલા સ્થાનકોની નોંધ લેતી, તીર્થમહિમાનો વિસ્તાર કરતી, તેના ઉદ્ધાર અને નામોનું ગણણું ગણતી અનેકપ્રકારની વ્યાખ્યાયુક્ત નવાણુ પ્રકારી પૂજાથી તીર્થમહિમાના આત્માની શુદ્ધિ અને આનંદરસમાં વૃદ્ધિ થાય એ સ્વાભાવિક છે. પૂજાનુભવી જનોને આ પૂજાઓ વાંચતા-ભણાવતાં સૂરિશ્રીના હૃદયમંદિરમાંથી નીકળેલા જ્ઞાનનાં ફરણાંનો અને તેમની મધુર-સરસ અને એકધારી લેખિનીનો સાક્ષાત્કાર થઈ ભક્તિરસનો અમૂલ્ય સ્વાદ મળશે, ઇટલુંજ નહિ પણ ગુણગ્રાહી સજ્જનોને તો આ રચના સ્વાસ દીપક સમાન નીવડશે. આત્મગુણ પ્રાપ્ત કરવામાં અનેક સાધનો અસ્તિત્વ ધરાવે છે, તેમાં પૂજાઓનું પણ અગ્રસ્થાન છે, ઇટલે સર્વ પૃથ્વીઓમાં સાધ્યદષ્ટિએ આત્મગુણની પ્રાપ્તિ છે. કહ્યું છે કે “આત્મગુણ વિના રે હોઠ્ઠી રાજા

३२

सरखो वेष. ” खरेखर वेषक्रिया ए आत्माना गुणो प्राप्त करवाने माटे होय छे ते विना तो जेम होळीराजा ते खरेखर राजा होतो नथी तेम आत्मगुण दृष्टिर्विदु विनानी वेषक्रिया लाभकारक नीवडती नथी, माटे दरेक इष्टानुष्ठानमां आत्मगुण प्राप्तितुं छेल्लुं साध्य सदोदित नजर समक्ष राखवामांज इष्टानुष्ठाननी सार्थकता छे. रुचिभेद परत्वे उपयोगी गणातां (साध्यनां) साधनोनी—अनुष्ठानोनी मात्रा रुचिभेद परत्वे लागु पाडवानुं लक्ष्य अनेक सांसारिक—धार्मिक झघडाओनुं निराकरण थवामां अने तेओनी जड पेसती अटकाववामां लाखेणा मूल्यनुं छे. खास तकेदारी इष्टानुष्ठानमां भूलाइ गयेला साध्यरूपी आत्मानुं संचारण करवामां मौखिक मात्र नहि पण हार्दिक पलटारुपे भाग भजवशे त्यारेज मार्ग निष्कंटक, सरळ, सर्व साध्य अने मुमुक्षुप्रिय थशे.

अनेक कर्ताओनी आवी भक्तिप्रधान रचनाओमां अनेक विषयो अनेक रीते समावेश पायीने हाल सुधीमां प्रचरित थया छे तेम छातां बीजां स्थळोए मळी आवता भावोना समान भावोनुं मात्र व्यक्तिगत विरोधना कारणे एम “ अपने बोर पीठे, दूसरेके खट्टे ” ए कहेवत साची पाडवाना आशयथीज ज्यारे दिग्दर्शन करी सामानी कृति उतारी पाडवानो प्रयत्न करवामां आवे त्यारे आ उद्योग जनसमाजने केटलो रोचक थइ शके ? अने एमांथी जनसमुदायने कल्याणकर धारणा केटले अंशे फळ निष्पन्न थाय ? ते विचारवा जेवुं छे.

आवोज एक प्रयत्न पंन्यास गंभीरविजयजी गणिनी केटली-एक प्रसादीओनो संग्रह करी “ भक्तिमार्ग प्रकाश ” ना नामे एक लघु पुस्तक प्रगट थयेलुं छे तेमां प्रास्ताविक लखाणमां तेमना शिष्य आनंदविजयगणिए करेलो दृश्यमान थाय छे.

तेओ लखे छे के—केटलाक प्राकृत लोको निरसणाय अर्थशून्य वेभज कविताना ढंगबगरना “ त्रिशलाना जायारे महावीर सहाये

૩૩

આવજોરે ” આવા સ્તવનાદિ મંદિર વિગેરેમાં પૂજન સમયે ગાઈને પોતાનો સમય પૂર્ણ કરે છે. અતઃવ ષોડશકમાં શ્રીમાન્ હરિભદ્ર સૂરિ-શ્રીએ “ વૈરાગ્યપૂર્ણ આત્મનિદ્રાત્મિકા અને વીતરાગ ગુણબોધક એવં વિવિધ અલંકાર સાથે શબ્દ અર્થની ગાંભીર્યતામય રસોત્પાદક સ્તોત્ર સ્તવનાદિ જિન પ્રતિમાયે ગાવાનું ” કહ્યું છે.

આમાં ઉપરની ચર્ચાવાળી કૃતિ તેમને નિરસપ્રાય લાગતી હોય તો તેમાં તેમના રુચિભેદનું કારણ કલ્પી શકીએ પણ જ્યારે તેઓ તેમાં અર્થશૂન્યતા નિહાળે છે ત્યારે અર્થાત્ તેની શબ્દ રચનામાં અર્થો-ત્પત્તિ વા અર્થની સુસંગતિનો અભાવ છે એવો પડકાર કરે છે, ત્યારે તો ખાસ સૂરિશ્રીની કૃતિને કોઈ પણ રીતે ઉતારી પાડી ચોક્કસ આશય સિદ્ધ કરવાનો તેમનો ઇરાદો તરી આવે છે વા તેમનું અજ્ઞાન સ્ફોટન થાય છે. વળી ઉપરના સ્તવનને કવિતાના ઢંગ વગરનું કહી પોતાને રાગ ના વેસતો હોય તેથી દ્રાક્ષ મલ્લવાની શક્તિના અભાવે દ્રાક્ષને ટાટી કહેવાની જનશ્રુતિને ચરિતાર્થ કરવા જેવું કર્યું છે. ગણિજીનો આ શ્રમ ભક્તિમાર્ગ પ્રકાશાંતર્ગત પંન્યાસ ગંભીરવિજય ગણિકૃત સ્તવનાદિક અત્યંત ભાવપૂર્ણ, રસવાળાં, કવિતાના માપ-તાલવાળાં અને હરિભદ્રસૂરિસંમત રહસ્યવાળાં ટુંકામાં સર્વગુણ સંપન્ન સિદ્ધ કરવાના ઉત્સાહમાં મનનું સમતોલપણું ગુમાવવામાં સહાયભૂત થયો છે એમ સિદ્ધ થાય છે. ગણિજીને

“ ત્રિશલાના જાયારે મહાવીર સહાયે આવજોરે ” ઇત્યાદિક પંક્તિઓ નિરસ, અર્થશૂન્ય અને નિરર્થક સમય પર્ણ કરવા જેવી લાગે છે ત્યારે તેમના ગુરુશ્રી પંન્યાસ ગંભીરવિજય ગણિજીના સ્તવ-નાદિમાં રહેલી

તારો તારો પદ્મપ્રભુ તારોરે દીનાનાથ નિહાલિએ

દૃઢિગંભીર હશે સવ પીઠા, સેવક આપને ડગારીએ

ભક્તિમાર્ગ પ્રકાશ પા. ૧૦૮

३४

सुपारस शरण दियो, दास बचावो,
वृद्धिगंभीर दिल धारणिया.

भक्तिमार्ग प्रकाश पा. ११३

वृद्धिगंभीर आशा पूरो, देतां नहीं तुम खापी,
ते विण करणी न आवे कामे, तिणे मागुं शिरनापी,

भक्तिमार्ग प्रकाश पा. १४६ ”

जेवी पंक्तिओ रसपरिपूर्ण-भावथी ओतप्रोत अने षोडशकमां व्याख्या बांधी छे तेवा समस्त गुणोवाळी गंभीर शब्दार्थ चमत्कृति-वाळी लागे छे तेमां रागदशाजन्य पक्षपात सिवाय अमने बीजुं कारण वास्तविक लागतुं नथी.

आ उपरथी अमे पंन्यास गंभीरविजयजीनी कृतिने कोइ रीते उतारी पाडवा मागता नथी. ए कृति पण एकंदर उपकारक छेज. पण अत्र अमे जे देखाडवा मागीए छीए ते एटलुंज के सामान्य प्राकृत जनोने अर्थनी मुश्किली पडे तेवी, भाषा विषयक कंडक जूनी ढववाळी पंन्यासजीनी कृति करतां सरळ अर्थवाळी प्रभुतुं शरण मागती, प्रभुनी सहाय विना जीवनी बेहाल दशानो इसारो करनारी, संसारना उद्वेगोतुं वर्णन करती, संसारमां भावशत्रुओना यथा व्याघातोतुं दिग्दर्शन करनारी, उपरनी सूरिश्रीनी कृति तथा तेवीज बीजी संकडो कृतिओनी उपयोगिता प्राकृत जनो के जेनी संख्या अप्राकृतजनो करतां अनेक गणी छे तेओने माटे ओछी तो नथीज.

जे छटा सूरिश्रीनी रचनामां छे तेवीज प्राचीन रचनाओमां पण अनेक स्थळे जणाइ आवे छे. जे नीचेनी पंक्तिओ उपरथी जणाशे.

“ तार हो तार प्रभु मुज सेवक भणी, जगतमां एटलुं मुजश लीजे,
दास अवगुण भयो, जाणी पोतातणो, दयानिधि दीनपर दयाकीजे.

श्रीमद् देवचंदजी.

३५

दीनबंधुनी महिर नजरथी आनंदघनपद पावे हो मल्लि.

श्रीमद् आनंदघनजी.

श्री मुनिसुव्रत कृपा करो तो आनंदघन पद लहिये.

श्रीमद् आनंदघनजी.

सिद्धारथनारे नंदन विन्वुं—ए आखुं स्तवन. ”

इत्यादि संख्याबंध कृतिओ गणिजी तपासशे तो समान कक्षा-वाळी मळी आवशे.

आ सघळी कृतिओ तथा उपरनी सूरिश्रीनी कृति हरिभद्रसूरिना षोडशक प्रकरणना नवमा षोडशकना ६-७ श्लोकना कया भाव साथे बंधवेसती नथी ते गणिजीए दर्शाववानो सहेज पण प्रयत्न कर्यो नथी. अमे तो उपरनी सूरिश्रीनी कृति अगाउ जणाव्युं तेम प्रभुनी सहाय मागती, संसारमां भावशत्रुओना यथा व्याघातनुं दिग्दर्शन करनारी, तथा संसारना दुःखोथी त्रस्त थयेला जीवनी प्रभुनी सहाय विना वेहालदशा थवानी संभावना करनारी होइ आ कृतिमां षोडशकगत श्लोकना “ आशयविशुद्धिजनक ” “ संवेग-परायण ” “ पुण्यपापनिवेदनगर्भ ” इत्यादिक विशेषणोने यथा साध्य सार्थक करनारी छे एम निःसंकोच भावे जणावीए छीए.

अमे आ कृतिना आध्यात्मिक रहस्यने आ स्थळे छोडवुं इष्ट गणता नथी, कारणके गणिजी उक्त कृतिना सामान्य अर्थने पण प्रतिपन्न नथी करी शकता तो तेमनी साथे तेना आध्यात्मिक अर्थ विशिष्टतानी वातो करवी ए वधु पढतुंज गणाय, पण गणिजीने अत्र एक वातनुं खास दिग्दर्शन करावीए छीए के शक्रस्तवमां इंद्र पण प्रभुनी स्तुति करती वखते “ शरण दयाणं ” “ तारयाणं ” इत्यादि विशेषणोना उद्घोष करे छे तेज उद्घोषोना जमानानी अने गुजराती भाषानी ढवे विस्तार होय तेने जोइए ते करतां वधु उपयोगितानो भार मूकवानो तेमज रुचिभेद परत्वे उपयोगितानी

૩૬

તરતમતાનો અપવાદ રાખતાં છતાં તેને કોઈપણ અંશે તેમજ રુચિભેદ પ્રત્વે ઉપયોગિતાનો અસ્વીકાર તેમજ તુચ્છતાનું આરોપણ તદ્દન અનુચિત છે.

આ પૂજાઓ રચવાનો પ્રસંગ સંવત ૧૯૭૯ ના માઘ માસમાં પ્રતિષ્ઠા નિમિત્તે સૂરિશ્રી સાળંદ પધાર્યા તે વખતે મળ્યો. પ્રતિષ્ઠા પ્રસંગે અનેક પ્રવૃત્તિઓમાંથી જે કાંઈ વચ્ચે વચ્ચે તેમાં આ પૂજાઓ રચવાનું શરૂ થયું અને ત્યારવાદ જે જે દિવસે જે જે ઠેકાણે રચાઈ તે પ્રત્યેક પૂજાઓના કલ્પ ઉપરથી જણાઈ આવે છે, ઇત્થે અત્ર તેનો ઉલ્લેખ કરતા નથી. સૂરિશ્રી અસ્વલિતપ્રવાહથી અત્યાર સુધીમાં જનોપયોગી અનેકાનેક ગ્રંથો જુદા જુદા દૃષ્ટિબિંદુઓથી જુદી જુદી રુચિવાળા જીવોને ઉપયોગી જૈન સાહિત્યસાગરમાં વહેતા કરી સ્વ-શાસ્ત્રાગત પદ્ધતિ વિષયક ઉણપને જેમ સાહિત્ય વિષયક ઉણપને દૂર કરવામાં જે પોતે નિમિત્તભૂત થયા છે તેવીજ રીતે તેનો લાભ ગુણ-ગ્રાહી સજ્જનો હંસચંચુવત્ ગ્રહણ કરી ગુણાનુરાગી બનવા કરશે તો તેમના અવિશ્રાંત શ્રમની સાર્થકતા થશે. સૂરિશ્રી જેવી પ્રભાવશાળી લેખક વ્યક્તિઓના હાથે વિશ્વજીવોનું શ્રેય કરનારા અનેક ગ્રંથો રચાય એવું અમો ઇચ્છીએ છીએ. ॐ શાંતિ: ૩

સંવત ૧૯૮૦

અશાહશુક્લપક્ષ અષ્ટમી

લેખક સદ્ગુરુચરણોપાસક.
સંઘવી કેશવલાલ નાગજી.
ગાંધી આત્મારામ સ્વેચ્છાચંદ.
મુ. સાળંદ.

३७

बृहत्पूजासंग्रहनी प्रस्तावना.

भजनसंग्रह प्रथम भाग वि. १९७९ मां छपाइ बहार पढ्या पछी प्रथम भागनी साथे-पूजासंग्रहनी बीजा भाग-साणंद, गोधावी पेथापुर, प्रांतिजमां रचायो छे ते बन्नेले भेगा करी बृहत्पूजासंग्रह एवा नामे आ पूजासंग्रह बहार पाडवामां आवे छे. पूजासंग्रहना बीजा भागमां-१ श्रावकना एकवीस गुणनी पूजा, २ भाव श्रावकना सत्तर गुणनी पूजा. ३ वारव्रतनी पूजा. ४ वार भावनानी पूजा. ५ श्री महावीरपंचकल्याणकपूजा. ६ पंचज्ञानपूजा. ७ जंगम स्थावरतीर्थपूजा. ८ शुभकार्यारंभमां मंगलपूजा. ९ अष्टादश पापस्थानकनिवारकपूजा. १० सिद्धाचलनवाणुप्रकारी पूजा, ए दश पूजाओ रचाइ छे अने छपाइ छे. पूजासंग्रह प्रथम भागनी प्रस्तावना के जे उपयोगी छे ते अत्र छपाववामां आवी छे अने तेथी हाल शरीरनी अशक्तिथी बृहत्पूजासंग्रहनी विस्तृत उपयोगी प्रस्तावना लखवानो भाव होवा छतां ते लखाइ नथी. छबस्थदशामां भूलाय ए स्वाभाविक छे, तेथी पूजाओमां जे कंड भूलो रही गइ होय तेओने गीतार्थो सुधारशे. तथा ग्रन्थमां शब्द बगेरेमां प्रेसना घसायला अक्षरो बगेरेथी अशुद्धियो रही गइ होय तेओने गीतार्थ मुनिराजो सुधारशे अने पोतानी सज्जनतानो प्रकाश करशे. पयमांथी पण पूरा काढवानी दृष्टिवाला दुर्जन शत्रुओनी दृष्टिओतो काकनीपेठे सारुं पण स्वराव भामवानुं, एटले तेओतो-बृहत्पूजासंग्रहनी उत्तमता अवलोकनी शकवाना नथी. सज्जन संतोनी दृष्टि ए तो सारुं सत्य ग्रहाय छे. तेओ आ पूजाओमांथी सारुं ग्रहण करी शकशे. कर्तानी हयातीमां रागी अने प्रतिपक्षी एवा बे पक्षो हयात होय छे. परंतु ग्रन्थ कर्ताओ कवियो बगेरेनी पाछळ पचाश शत वर्ष पछी बन्ने पक्षो होता नथी. तेथी पाछळथी घणा गुण ग्रहीओ थाय छे.

५

३८

जनतानो मोटो भाग ग्रन्थो वांचीने मध्यस्थ दृष्टिण विचार करनारो होय छे तेथी ते समये ग्रन्थ महत्ता अगर अमहत्तानो ख्याल आवे छे. हंसनी दृष्टि धारीने सज्जनो सारु ज ग्रहण करे छे. जैन जैनेतर सर्व लोकना कल्याणार्थे रचायलो एबो आ बृहत्पूजासंग्रह सर्व विश्व जनोनी आत्मशुद्धि अने आत्मानंद प्रगट-तामां उपयोगी बनो. इत्येवं ॐ अ ईमहावीर शान्तिः ३

मु. पेयापुर. वि. सं. १९८०. श्रावण शुक्लपंचमी.

लेखक. बुद्धिसागर.

३९

बृहत्पूजासंग्रहनी नाम गाम तिथि पृष्ठवार यादी सांकळीयुं.

पूजांक-पूजातुं नाम. कया गाममां रची. कइसाळमां. पृष्ठ.

१ श्रावकना एकवीस

गुणनी पूजा

साणंद

१९७९ माघसुदि २ १थी २२

२ भाव श्रावकना सत्तर

गुणनी पूजा

साणंद

१९७९ माघसुदि ५ २३थी ४७

३ श्रावक द्वादश व्रत पूजा

साणंद

१९७९ माघसुदि १५ ४८थी ७२

४ बार भावनानी पूजा

गोधावी

१९७९ माघवदि १३ ७३थी १००

५ महावीर प्रभु पंच क-

ल्याणक पूजा

गोधावी

१९७९ फागणसुदि २ १०१थी १२३

६ पंच ज्ञान पूजा

पेथापुर

१९७९ फागणवदि ५ १२३थी १३९

७ जंगम स्थावर तीर्थपूजा

पेथापुर

१९७९ फागणसुदि ३ १३९थी १५६

८ सर्व शुभ कार्य आरं-

भमां मंगळ पूजा

पेथापुर

१९७९ फागणसुदि १० १५६थी १६८

९ अष्टादशपापस्थानक

निवारक पूजा

पेथापुर

१९७९ फागणसुदि १३ १६८थी २००

१० स्नात्र पूजा

साणंद

१९७७

२०१थी २१६

११ नवपद पूजा

साणंद

१९७७ आसोसुदि १० २१७थी २४३

१२ पंचाचारपूजा

साणंद

१९७७ आसोवदि २. २४४थी २५३

१३ विशस्थानकपद

लघुपूजा

साणंद

१९७७ आसोवदि ४. २५४थी २७६

१४ दशविधयति धर्म पूजा

साणंद

१९७७ आसोवदि ६. २७७थी २९५

१५ चार भावनानी पूजा.

साणंद

१९७७ आसोवदि ७. २९६थी ३०५

१६ दानशीयळतपभा-

वनी पूजा

साणंद

१९७७ आसोवदि ८. ३०६थी ३१६

४०

१७ अष्टांग योगनी पूजा	साणंद १९७७ आसोवदि १०	३१७थी ३३४
१८ नवधा क्रिया भक्तिपूजा	साणंद १९७८ ज्ञानपंचमी	३३४थी ३५३
१९ अष्टकर्म सूदनार्थ अष्ट- प्रकारी पूजा	साणंद १९७८ कारतकसुदि ८.	३५४थी ३७१
२० षडावश्यक पूजा	साणंद १९७८ कारतकसुदि ९.	३७२थी ३८६
२१ अष्टप्रकारी पूजा मोठी.	वल्सा १९६० फागणवदि ११.	३८७थी ४०६
२२ वास्तुक पूजा	विजापुर १९६० माघसुदि १२.	४०७थी ४१७
२३ अष्टप्रकारी पूजा	विजापुर १९७८ चैत्रसुदि ९.	४१८थी ४२९
२४ श्री रविसागरजी गुरु पूजा	विजापुर १९७८ चैत्रसुदि १५.	४३०थी ४४२
२५ श्री सुखसागरजी गुरु पूजा	महुडी १९७९ चैत्रवदि २.	४४३थी ४५५
२६ सत्तरभेदी पूजा	महुडी १९७८ चैत्रवदि १०.	४५६थी ४७०
२७ नवपद लघु पूजा	म्हेसाणा १९७८ आसोवदि २.	४७१थी ४८०
२८ पंचधा योग पूजा	म्हेसाणा १९७८ आसोवदि ५.	४८१थी ४९४
२९ पंचपरमेष्ठि पूजा	विजापुर १९७८ अक्षयत्रीज.	४९५थी ५०१
३० श्री महावीर जन्म क- ल्याणक महोत्सव पूजा.	विजापुर १९७८ चैत्रसुदि १३.	५०२थी ५१२
३१ श्री महावीरदेवनी अष्ट प्रकारी पूजा	विजापुर १९७८ वैशाखवदि ४.	५१३थी ५२५
३२ श्रीघंटाकर्ण वीर पूजा.	विजापुर १९७८ अक्षयत्रीज	५२६थी ५३६
३३ श्री सिद्धाचल नवाणु प्रकारी पूजा	प्रांतिज १९८० चैत्रसुदि १५.	५३७थी ५५६
३४ गुरुनी आरति		५५६
३५ गुरु मंगळ दीपक		५५७
३६ जिनेश्वरनी आरति		५५८
३७ मंगळ दीपक		५५९

श्री अध्यात्मज्ञानप्रसारक मंडळ तरफती

श्रीमद् बुद्धिसागरसूरिजीग्रन्थमाळामां

प्रगट थयेला ग्रन्थो.

ग्रथांक	पृष्ठ	किंमत.
१ क. भजन संग्रह भाग १ लो.	२००	०-८-०
१ अध्यात्म व्याख्यानमाळा.	३३६	०-४-०
* २ भजनसंग्रह भाग २ जो.	३३६	०-८-०
* ३ भजनसंग्रह भाग ३ जो.	२१५	०-८-०
* ४ समाधिश्तकम्.	६१२	०-८-०
५ अनुभवपच्चिशी.	२४८	०-८-०
६ आत्मपदीप.	३१५	०-८-०
* ७ भजनसंग्रह भाग ४ थो.	३०४	०-८-०
८ परमात्मदर्शन.	४००	०-१२-०
* ९ परमात्मज्योति.	५००	०-१२-०
* १० तत्त्वविदु.	२३०	०-४-०
* ११ गुणानुराग. (आवृत्ति बीजी)	२४	०-१-०
* १२-१३. भजनसंग्रह भाग ५ पो		
तथा ज्ञानदीपिका.	१९०	०-६-०
* १४ तीर्थयात्रानुं विमान (आ. बीजी)	६४	०-२-०
* १५ अध्यात्मभजनसंग्रह	१९०	०-६-०
१६ गुरुबोध.	१७४	०-४-०
* १७ तत्त्वज्ञानदीपिका	१२४	०-६-०

૪૨

૧૮ ગહૂંલીસંગ્રહ ભા. ૧	૧૧૨	૦-૩-૦
* ૧૯-૨૦ શ્રાવકધર્મસ્વરૂપ ભાગ ૧-૨ (આટ્ટતિ ત્રીજી)	૪૦-૪૦	૦-૧-૦
* ૨૧ ભજનપદસંગ્રહ ભાગ ૬ ઠો.	૨૦૮	૦-૧૨-૦
૨૨ વચનામૃત.	૮૩૦	૦-૧૪-૦
૨૩ યોગદીપક.	૩૦૮	૦-૧૪-૦
૨૪ જૈન ઇતિહાસિક રાસમાલા.	૪૦૮	૧-૦-૦
* ૨૫ આનન્દઘનપદ (૧૦૮) સંગ્રહ ભાવાર્થ સહિત.	૮૦૮	૨-૦-૦
* ૨૬ અધ્યાત્મશાન્તિ (આટ્ટતિ બીજી)	૧૩૨	૦-૩-૦
૨૭ કાવ્યસંગ્રહ ભાગ ૭ મો.	૧૫૬	૦-૮-૦
* ૨૮ જૈનધર્મની પ્રાચીન અને અર્વાચીન સ્થિતિ.	૯૬	૦-૨-૦
* ૨૯ કુમારપાલ (હિંદી)	૨૮૭	૦-૬-૦
૩૦ થી ૪-૩૪ સુવસાગર ગુરુગીતા.	૩૦૦	૦-૪-૦
૩૫ ષટ્દ્રવ્યવિચાર.	૨૪૦	૦-૪-૦
* ૩૬ વિજાપુરવૃત્તાંત.	૯૦	૦-૪-૦
૩૭ સાવરમતીકાવ્ય.	૧૯૬	૦-૬-૦
૩૮ પ્રતિજ્ઞાપાલન.	૧૧૦	૦-૫-૦
૩૯-૪૦-૪૧ જૈનગચ્છમતપ્રબંધ, સંઘપ્રગતિ, જૈન્મગીતા.	૩૦૪	૧-૦-૦
૪૨ જૈનધાતુપ્રતિમા લેખસંગ્રહ ભા. ૧		૧-૦-૦
૪૩ મિત્રમૈત્રી.		૦-૮-૦
* ૪૪ શિષ્યોપનિષદ્.	૪૮	૦-૨-૦
૪૫ જૈનોપનિષદ્.	૪૮	૦-૨-૦

૪૩

૪૬-૪૭ ધાર્મિક ગદ્યસંગ્રહ તથા

સદુપદેશ ભાગ ૧ લો.

	૯૭૬	૩-૦-૦
૪૮ ભજનસંગ્રહ ભા. ૮	૯૭૬	૩-૦-૦
* ૪૯ શ્રીમદ્ દેવચંદ્ર ભા. ૧	૧૦૨૮	૨-૦-૦
૫૦ કર્મયોગ.	૧૦૧૨	૩-૦-૦
૫૧ આત્મતત્ત્વદર્શન	૧૧૨	૦-૧૦-૦
૫૨ ભારતસહકારશિક્ષણ કાવ્ય	૧૬૮	૦-૧૦-૦
૫૩ શ્રીમદ્ દેવચંદ્ર ભા. ૨	૧૨૦૦	૩-૮-૦
૫૪ ગહુલી સંગ્રહ ભા. ૨	૧૩૦	૦-૪-૦
૫૫ કર્મપ્રકૃતિટીકાભાષાંતર	૮૦૦	૩-૦-૦
૫૬ ગુરુગીત ગુંહલીસંગ્રહ.	૧૯૦	૦-૧૨-૦
૫૭-૫૮ આગમસાર અને અધ્યાત્મગીતા	૪૭૦	૦-૬-૦
૫૯ દેવવંદન સ્તુતિ સ્તવન સંગ્રહ.	૧૭૫	૦-૪-૦
૬૦ પૂજાસંગ્રહ ભા. ૧ લો.	૪૧૬	૧-૦-૦
૬૧ ભજનપદસંગ્રહ ભા. ૯	૫૮૦	૧-૮-૦
૬૨ ભજનપદસંગ્રહ ભા. ૧૦	૨૦૦	૧-૦-૦
૬૩ પત્રસદુપદેશ ભા. ૨	૫૭૫	૧-૮-૦
૬૪ ધાતુપ્રતિમાલેખ સંગ્રહ ભાગ ૨		૧-૦-૦
૬૫ જૈનદૃષ્ટિર્ષેશાવાસ્યોપનિષદ્ ભાવાર્થવિવેચન.		૧-૦-૦
૬૬ પૂજાસંગ્રહ દ્વિતીયાવૃત્તિ તથા અન્યપૂજાઓ સહિત-		૨-૦-૦
		ભાગ ૨ બીજો
૬૭ સ્નાત્રપૂજા.		૦-૨-૦
૬૮ શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી અને તેમનું જીવનચરિત્ર (પદરાકર કૃત.)		

४४

संस्कृत ग्रन्थो.

नं. ६९ शुद्धोपयोग }
 ७० दयाग्रन्थ }
 ७१ श्रेणिक सुबोध } किं. ०-१२-०
 ७२ कृष्णगीता }

७३ संघकर्तव्यग्रन्थ }
 ७४ प्रजासमाजकर्तव्यग्रन्थ }
 ७५ शोकविनाशक } किं. ०-१२-०
 ७६ चेटकबोधग्रन्थ }
 ७७ सुदर्शनासुबोध. }

७८ लाला लाजपतराय अने जैनधर्म ०-४-० पृ. ९६

हाल छपाता ग्रन्थो.

आत्मप्रकाश.	कन्याविक्रयनिषेध.
ध्यानविचार.	तत्त्वविचार.
चिन्तामणि.	जैनधर्म अने स्त्रीस्तीधर्मनो मुकाबलो.
जैन स्त्रीस्तिसंवाद	जैनधार्मिक शंका समाधान,
सत्यस्वरूप	क्षमापना-
मोट्टुं विजापुर वृत्तांत	७० श्री यशोविजयनिबन्ध
संस्कृत अध्यात्मगीता	आत्मशक्तिप्रकाश
आत्मसमाधि शतक संस्कृत	श्री देवचंद्रजी निर्वाण रास.
श्री मणिचंद्रजी कृत २१	(जीवनचरित)
सज्जाय भावार्थ	मुद्रित जैन श्वेतांबर ग्रन्थ
भजनसंग्रह भा. १ आवृत्ति ४	नामावलि.

* आ निशानीवाला ग्रंथो सीलकमां नथी.

४५

उपरना पुस्तको मळवानुं ठेकाणुं.

वकील मोहनलाल हीमचंद.

(गुजरात) पादरा.

गांधी. आत्माराम खेमचन्द.

साणंद.

भाखरीआ—मोहनलाल नगीनदास.

मुंबाइ कोटवजार गेट नं. १९२-९४

बुकसेलर, मेघजी हीरजी.

पायधुनी—मुंबाइ.

शेठ. नगीनदास रायचंद.

मु. मेसाणा.

शेठ. रतिलाल केशवलाल.

मु. प्रांतीज.

शेठ. चंदुलाल गोकलदास.

विजापुर जैन ज्ञानमंदिर (गुजरात.)



४६

पूजासंग्रहनुं अशुद्धि शुद्धि पत्रकम्.

॥ पूजासंग्रह भाग २ जानुं शुद्धि पत्रकं.

पृष्ठ	कोटी	अशुद्धं	शुद्धं
३१	१८	अवधारता	अवधारतो
४२	१९	निवारता	निवारतो
३९	६	प्रतिपक्षा	प्रतिपक्षी
५५	६	व्यवहाररे	व्यवहारे
५७	३	क्राडा	क्राडा
६३	८	अनर्थदंड	अनर्थदंड
६८	१०	अग्यारमी	अग्यारमा
७२	१८	अग्न्याऐंशी	अग्न्याऐंशी
९५	१७	प्रभु	जिनवर
१२८	१	भरतमा	भरतमां
१२९	१	ज्ञानने	ज्ञान न
१५६	८	मङ्गलपूजा	मङ्गलपूजा
१६७	३	क्रियोद्वारी	क्रियोद्वारी
१७३	१८	जडथां	जडथी
१९२	२	अरतिमा	अरतिमां
२०८	३	विशाला	विमाना
२५८	१०	मंगलधर्या	मंगलभर्या
२६८	१५	उत्कृ	उत्कृष्टुं
२९७	१०	मत्री	मैत्री
२९७	११	व्यवहर	व्यवहरे
३०४	११	भावता	भावतां

४७

पृष्ठ	लाटी	अशुद्धं	शुद्धं
३१७	२	अष्टांग	अष्टांग
३२७	१३	बाह्य	बाह्य
३३९	१३	द्रव्यभाव	द्रव्यभाव
३६१	२	परभातमा	परभातमां
३७१	२०	पूजा	पूजा
४१४	६	पूज	पूजा
४३६	१२	मुनि	मुनिवर
४४०	४	मुनिवन्द	मुनिवृन्द
४५६	६	बभेदथी	बे भेदथी
४६९	१७	सुरकुमरीनी	सुरकुमरीना
५३२	५	महवीरनासंघ	महावीरसंघ
५३२	१९	पृथ्वीने	पृथ्वी
५३२	१९	मेरुने	मेरु
५४९	१४	पात्रीस	पांत्रीस
५५९	३	मंडल	मंगल

पूजासंग्रह भाग १-२ नी अनुक्रमणिका.

विषय.	पृष्ठ.
१ निवेदन.	५
२ पेथापुरना जैन शेट मनसुखभाइ लल्लुभाइनुं जीवनवृत्तांत.	८
३ मेहसाणावाळा शेट घेलाभाइ करमचंद तथा शेट अम- थालाल घेलाभाइ तथा शेट सुरचंद मोतीचंदनुं जी- वनवृत्तांत.	११
४ पूजासंग्रह उपोद्घात. (प्रथम भागमां छपायेल)	१७
५ पूजासंग्रहनी प्रस्तावना. (प्रथम भागमां छपायेली)	२६
६ पूजासंग्रह द्वितीय भागनी प्रस्तावना.	२९
७ बृहत्पूजासंग्रहनी प्रस्तावना.	३७
८ पूजाओनी नाम गाम तिथिवार यादी.	३९
९ बुद्धिसागरसूरिनी ग्रथमाळाभां प्रगट थयेला ग्रंथोनीयादी.	४१
१० पूजासंग्रहनुं अशुद्धि शुद्धि पत्रक.	४६

पूजासंग्रह भाग २ नी पूजाओनो अनुक्रम.

१ श्रावकना एकवीश गुणनी पूजा.	१
२ भाव श्रावकना सत्तर गुणनी पूजा.	२३
३ श्रावक द्वादशव्रत पूजा.	४८
४ बार भावनानी पूजा.	७३
५ महावीर प्रभु पंचकल्याणक पूजा.	१०१
६ पंचज्ञान पूजा.	१२३

५०

विषय.	पृष्ठ.
७ जंगम स्थावर तीर्थ पूजा.	१३९
८ सर्व शुभकार्य आरंभमां मंगळ पूजा.	१५६
९ अष्टादश पापस्थानक निवारक पूजा.	१६८

पूजासंग्रह भाग १ नी पूजाओनो अनुक्रम.

१० स्नात्रपूजा.	२०१
११ नवपदपूजा.	२१७
१२ पंचाचारपूजा.	२४४
१३ विश्वस्थानकपद लघुपूजा.	२५४
१४ दशविध यतिधर्मपूजा.	२७७
१५ चार भावनानी पूजा.	२९६
१६ दान शीयल तप भावनी पूजा.	३०६
१७ अष्टांग योगनी पूजा.	३१७
१८ नवधा क्रिया भक्ति पूजा.	३३५
१९ अष्टकर्मसूदनार्थ अष्टप्रकारी पूजा	३५४
२० षडावश्यक पूजा.	३७२
२१ अष्टप्रकारी पूजा मोटी.	३८७
२२ वास्तुक पूजा.	४०७
२३ अष्टप्रकारी पूजा.	४१८
२४ श्री रविसागरजी गुरु पूजा.	४३०
२५ श्री मुखसागरजी गुरु पूजा.	४४३

६१

विषय.	पृष्ठ.
२६ सत्तरभेदी पूजा.	४५६
२७ नवपद लघु पूजा.	४७१
२८ पंचधा योग पूजा.	४८१
२९ पंच परमेष्ठि पूजा.	४९५
३० श्री महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव पूजा.	५०२
३१ श्री महावीर देवनी अष्टप्रकारी पूजा.	५१३
३२ श्री घंटाकर्ण वीर पूजा.	५२६
३३ श्री सिद्धाचल नवाणुं प्रकारी पूजा. (आ पूजा पूजा- संग्रह भाग २ नी छे)	५३७
३४ गुरुनी आरति.	५५६
३५ गुरु मंगलदीपक.	५५७
३६ जिनेश्वरनी आरति.	५५८
३७ मंगल दीपक.	५५९

अनुक्रमणिका समाप्त.

अशुद्धि शुद्धि पत्रक.

प्रस्तावना वगैरेनां

पृष्ठ	छोटी	अशुद्ध	शुद्ध
६	५	गुरुश्रीना	गुरुश्रीनी
११	१४	छपाववाभां	छपाववामां
७	१५	ग्रथमां	ग्रंथमां
१२	२२	रविसागारजी	रविसागरजी
१७	२६	वस्तुतः	वस्तुतः
२१	१९	चमत्कार प्रभावक	चमत्कारक प्रभाव
२२	६	परमात्मा	परमात्मा
२३	१५	वसे	वसे
२४	१३	अमूलेखना	अमूलखना
२७	१०	पूजाओ	पूजाओ
२९	२२	शक्यता	शक्यतः
३०	१७	पजा	पूजा
३२	१७	एम्	अने
३३	२२	पर्ण	पूर्ण
११	२६	हसे	हरो
११	११	आपने	आपनी
३५	१९	छेडवुं	छेडवुं
३६	१३	पद्वी	पदवी
३७	२६	ग्रहीओ	ग्राहीओ
३८	५	एचो	एचो

६३

पृष्ठ	कीटी	अशुद्ध	शुद्ध
	मूल ग्रंथनां		
२२	४	हीरविजयसूरि	हीरविजयसूरि
२५	४	इन्द्रिय	इन्द्रिय
२८	१५	सरसे	सरसे
३१	७	वर्ते	वर्ते
३३	१०	गुरुप्रशंसा	गुरुप्रशंसा
४०	११	इष्टानिष्टा	इष्टानिष्ट
६२	२	मास	मांस
६८	२	अन्तरमा	अन्तरमां
७०	१०	सविभाग	संविभाग
१११	३	अशु	प्रभु
११२	१५	दृश्यादृश्य	दृश्यादृश्य
१२४	२०	अथर्वग्रहने	अथर्वग्रहने
१२८	२०	दुःपहसूरि	दुःपसहसूरि
१४५	१६	धूपं,	धूपं, दीपं,
१५०	२	कच्छमा	कच्छमां
१६३	१४	ही	ही
"	१८	ही	ही
१७१	१८	ही	ही
"	"	पुरुषाय	पुरुषाय
१७६	१२	ब्रह्म	ब्रह्म
१८०	४	ही	ही
२०२	१६	हायमां	हायमां
२०४	११	चढाववुं ४	चढाववुं २

६४


पृष्ठ	लीटी	अशुद्ध	शुद्ध
२११	८-९	उपकारणो	उपकरणो
२१४	२	छाटा	छांटा
२३८	१८	बंताने	तवंताने
२४१	१६	बाह्मानंतर	बाह्मानंतर
२४२	२१	ध्याइं	ध्याइ
२६९	२०	गौयम	गोयम
२९०	१५	शौच	शौच
२९६	३	सर्व	सर्व
२९९	११	क्षयोपशम	क्षयोपशम
३०९	१५	वारोरो	वारोरे
३१७	२०	आस्रव	आस्रव
३६०	२०	जिनं	जिन
३७६	२१	अक्य	अक्य
३९४	१४	सुसाल	रसाल
३९५	८	दीपा	दीवा
४०७	५-६	घरणेन्द्र	घरणेन्द्र
४१२	२	स्वास	खास
”	१७	श्रीसंस्वे०	श्रीसंस्वे०
४१३	१६	पंपाचार	पंचाचार
४२०	१९	कर	करतां
४२३	९	सबकु	सबळं
४२६	१४	जडतां	जडमां
४४४	१८	भ्राति	भ्रांति
४४९	१७	वीर्ये	वीर्ये

५५

पृष्ठ	लीटी	अशुद्ध	शुद्ध
४५५	१९	उपदेशानुसारे	उपदेशानुसारे
४६२	४	कुसुमार्गी	कुसुमार्गी
४६६	३	श्रीवस्त	श्रीवस्त
४८४	२१	ह्री	ह्री
४९०	१४	विषयीपणुं	विषयीपणुं
५०३	७-८	विश्वोद्धारक	विश्वोद्धारक
५०६	२१	प्रगटया	प्रगटया
५१४	१६	ओऽहं	अँ हँ
५२९	१७	पुष्ट्यथ	पुष्ट्यर्थ
५३८	५	पंच	पंच
५३९	१७	सहस्रकमल	सहस्रकमल
५४०	१०	चेत्री	चेत्री
५४६	१८	शिद्धाचल	सिद्धाचल
५५३	१६	ॐ ह्री	ॐ ह्रीं

जैनाचार्य बुद्धिसागर स्मृतिकृत स्नात्रादि पूजा संग्रह.

पूजासंग्रह.



भाग २ जो.



श्रावकना एकवीश गुणनी पूजा.

मंगल.

परब्रह्म परमात्मा, पानसरा महावीर;
संघच्चतुर्विधतीर्थने, थाप्युं धीरमां धीर. ॥१॥

श्रावकगुण एकवीशने, जाख्या शिवसुखकाज;
तेनी पूजा विरचतां, प्रगटे गुणसाम्राज्य. ॥२॥

अष्टप्रकारी पूजना, प्रत्येक पूजा दीठ;
श्रावकधर्मनी योग्यता, प्रगटे नासे रिष्ट. ॥३॥



२

प्रथम अक्षुद्रगुण पूजा.

राग. भैरवी—ए जमवा अजिलाष सरस मही ए
जमवा अजिलाष. ए राग.

गंभीर नरने नार,
बने छे श्रावक जग जयकार;
क्षुद्रविचाराचारने टाळे,
निंदादोष तजनार. बने०
सागरसमगंभीर उदार ज,
परदोष ढांके लगार. बने छे० १

प्राणांते परमर्म न हणतो,
परदोष नहीं वदनार. बने छे०
निजपरउपकारी ते थावे,
तुच्छबुद्धिपरिहार. बने छे० २

निंदक बकवादी न उछांछळो,
पामे श्रावक धर्म; बने छे०
बुद्धिसागर श्रावकगुणने,
धारे प्रथम ए मर्म. बने छे० ३

ॐ० प० अक्षुद्रगुणलाभाय जलं० य० स्वाहा ॥



३

द्वितीयरूपगुण पूजा.

अंगोपांगे पूर्ण जे, सुंदर इन्द्रिय पंच;
योगबळे दुःखो सहे, प्रभावहेतु सच्च. ॥१॥

होरीनो राग.

बीजो गुण धरनार रे—जैनधर्म प्रचारे—बी०

अंगोपांगे पूर्ण जे सुन्दर,
गुणसुन्दरता धारे;
पांचे इन्द्रिय पूरो धर्ममां;—
जीवन प्रेमे गाळे रे. जैन० बी० १

संकटपरिषह दुःख सहो जे,
धर्ममां वृत्ति वाळे;
धर्मप्रभावनानिमित्त थावे,
आकृति गुणने धारे रे. जैन० बी० २

पुण्यधर्मकारक रुपवंत ज,
नीति मार्गे चाळे;
बुद्धिसागर रुपवंतमानव,
परमप्रभु घट भाळे रे. जैन० बी० ३

ॐ परम० जावरूपगुणलाजाय जलं० य० स्वाहा ॥

४

तृतीया सौम्यस्वभावगुणपूजा.

दुहा.

प्रकृति सौम्यस्वभाव जे, पापकर्म तजनार;
तेनी संगत सहु करे, परशांति करनार.

धन धन संप्रति साचो राजा—ए राग.

प्रकृतिए जे सौम्यस्वभावी,
करे न पापनां कर्म रे;
संतगुरुनी सेवा करवा,
शांत योग्य धरे धर्म रे.

प्रकृति० १

अन्यजनोने शांत करे जे,
मुखे ते अन्योए सेव्य रे;
परउपकारी खूब बने ते,
परने होय आदेय रे.

प्रकृति० २

एवा गुणने धारे श्रावक,
धर्मनी योग्यता पाय रे;
बुद्धिसागर शांतस्वभावी,
श्रावक गुणे वखणाय रे.

प्रकृति० ३

ॐ परम० सौम्यस्वभावगुणलाभाय जलं० य० स्वाहा ॥

५

चतुर्थी लोकप्रियगुणपूजा.

इह परलोक विरुद्धने, सेवे नहीं नरनार;
दान विनयने शीलथी, लोकप्रिय ज हितकार. ॥१॥

प्रभात राग.

श्रावकधर्मनां अधिकारी ते,
जाणो नरने नारी रे;
सर्वलोकना प्रेमने खेंचे,
कार्य करे हितकारी रे. श्रावक० १

दान विनयने शीलथी शोभे,
मैत्री सौथी वधारी रे;
शुद्धप्रेमे लोकमां व्हालां,
बनतां जग शुजकारी रे. श्रावक० २

अन्यजनोनुं धर्मविषे बहु,—
मान करावे विचारी रे;
बुद्धिसागर विश्वमां वल्लभ,
धर्मप्रज्ञावक भारी रे. श्रावक० ३

ॐ० प० लोकप्रियगुणलाजाय जलं० य० स्वाहा ॥

६

॥ पंचमी अक्रूरतागुणपूजा ॥

निर्दय क्रूरस्वभावीजे, धर्मयोग्य नहीं तेह;
अक्रूर धर्मने योग्य छे, श्रावक धर्मी जेह. ॥१॥

धन्य धन्य संप्रति साचो राजा. ए राग,
श्रावकधर्मने योग्य ते थावे,

अक्रूरनरने नारो रे;

क्रूरस्वभावीने क्रूरकर्मी,

धर्मना नहि अधिकारी रे. श्रावक० १

अतिहिंसक अतिवैरो जेओ,

पापकर्मरत ज्ञारी रे;

अधिकारी नहीं तेओ धर्मे,

अक्रूर छे अधिकारी रे. श्रावक० २

प्रभु श्रीमहावीर उपदेशे एम,

अक्रूर थाओ विचारी रे;

बुद्धिसागर श्रावक अक्रूर,

जैनधर्म जयकारी रे. श्रावक० ३

ॐ० प० अक्रूरगुणलाभाय जलं० य० स्वाहा ॥

षष्ठी पापभीरुता गुणपूजा.

पापविचारप्रवृत्तिथी, ज्ञय पामे नरनार;

धर्मयोग्य ते जाणवां, श्रावक गुण धरनार.

७

प्रज्ञात राग.

मनवचकायथी पाप करंतां,
 नय पामे नरनारी रे;
 ते नरनारी धर्मने योग्य ज,
 थावे जगहितकारी रे. मन० १

इह परलोक अपायो विचारी,
 पाप तजे गुणधारी रे;
 अपयशने जे कलंकथी बीवे,
 बीवे न धर्मे लगारी रे. मन० २

द्रव्यक्षेत्रने कालने जावथी,
 वर्ते विवेके विचारीरे;
 बुद्धिसागर धर्मयोग्य ते,
 थावे धर्मावतारी रे. मन० ३

ॐ० प० पापनीरुतागुणलाजाय जलं० य० स्वाहा ॥

सप्तमी अशठतागुण पूजा.

मनवचकायथी शठपणुं, धरे न जे नरनार;
 श्रावकधर्मना योग्य ते, सरल सत्यव्यवहार. १

८

राग उपरनो.

मनवच्चकायथकी शठताने,
 त्यागे जे नरनारी रे;
 धर्ममिषे नहीं अन्यने वंचे,
 धर्मयोग्य निर्धारी रे.

मन० १

धर्मीजनोने छेतरतो नहीं,
 प्रमाणिक गुणधारी रे;
 द्रोह कपटथी दूरे रहंतो,
 विश्वासी सुखकारी रे.

मन० २

मार्गानुसारीगुण धारो,
 प्रशस्य परहितकारी रे;
 बुद्धिसागर धर्मयोग्य ते,
 नरनारी बलिहारी रे.

मन० ३

ॐ० प० अशठतागुणलाजाय जलं० य० स्वाहा ॥

अष्टमी सुदाक्षिण्यगुणपूजा.

सुदाक्षिण्यगुणे नवी, करे विश्व उपकार;
 जोडे अन्यने धर्ममां, धर्मी बने नरनार.

॥१॥

९

उत्सवरंग वधामणां. ए राग. ॥

सुदाक्षिण्यगुणी सदा, धर्मी नरनारी;
 अन्यनुं श्रेय करी शके, थावे उपकारो. सुदाक्षिण्य. १
 दाक्षिण्यगुण ज्यां आवियो, अन्यगुण त्यां आवे;
 इर्ष्या भीति खेदने, तजी धर्मने पावे, सुदाक्षिण्य. २
 अन्यनी प्रार्थना साधतो, देवगुरु आराधे;
 बुद्धिसागरधर्मनी, व्रतकरणी साधे. सुदाक्षिण्य. ३
 ॐ० प० सुदाक्षिण्यगुणलाजाय—जलं० य० स्वाहा ॥

नवमी लज्जागुण पूजा.

दुहा.

धर्मबुद्धिकर लाजथी, दुर्गुणपापविनाश;
 धर्ममार्गमां वृत्तिने, थाय प्रवृत्ति खास, ॥१॥

उत्सवरंगवधामणां. ए राग.

सुलज्जागुण पामतां,
 दुष्टकाज न थावे;
 व्यसन अनीति अकार्यथी,
 दूर रही शिव पावे. सुलज्जा. १
 मातपितावृद्धसद्गुरु,
 शीख मानी चाले;
 अंगीकर्यु मूके नहीं,
 सदाचारने पाळे. सुलज्जा. २

२

१०

अधर्मपापथी लाजतो,
 श्रावक हितकारी;
 बुद्धिसागरधर्मनी—,
 वाटे वळतो विचारी.

सुलज्जा. ३

ॐ० प० सुलज्जागुणलाभाय जलं० य० स्वाहा ॥

॥ दशमी दयागुणपूजा ॥

दया धर्मनुं मूल छे, दयाविना नहीं धर्म;
 दयाथकी तपजप अने, सफळां धर्मनां कर्म. ॥१॥

ए गुण वीरतणो न विसारुं. ए राग.

प्रथम दयागुण प्रगट थयार्थी,
 धर्मी बने नरनारीरे;
 दया नहीं त्यां धर्म न जाणो,
 दयाए धर्माधिकारीरे.

प्रथम. १

अहिंसा ए धर्म परम छे,
 दया, आचारविचारेरे;
 दयाविना प्रभु पामे न कोइ,
 आतमगुण न सुधारेरे.

प्रथम. २

दयावंत, यतनाथो प्रवर्ते,
 श्रावकधर्मने पाळरे;

११

बुद्धिसागरधर्मी दयावंत,

आप तरे पर तारेरे.

प्रथम. ३

ॐ परम० दयागुणलाभाय जल० य० स्वाहा ॥

एकादशमी मध्यस्थसौम्यदृष्टिगुणपूजा.

सौम्यदृष्टि मध्यस्थ ते, पामे जिनवरधर्म;

पक्षपातवण सत्यथी, करतो धर्मनां कर्म. ॥ १ ॥

सिद्धारथनारे नंदन विनवुं. ए राग.

सौम्यदृष्टिमध्यस्थगुणे खरां,

धर्मी बने नरनार;

दृष्टिरागनी वृत्ति छंडतां,

पक्षपातपरिहार.

सौम्य. १

सर्वबाजूथकी सत्य तपासीने,

साचो धर्म ग्रहंत;

सत्य असत्यने परखे ज्ञानथी,

धर्मथकी न पडंत.

सौम्य. २

शांति अने मध्यस्थता पामीने,

धर्मी श्रावक थाय;

बुद्धिसागरपरमातमप्रभु,

शुद्धातमपद पाय.

सौम्य. ३

ॐ य० मध्यस्थसौम्यदृष्टिगुणलाभाय जल०

य० स्वाहा ॥

१२

बारमो गुणानुरागगुणपूजा.

दुहा.

गुणरागी गुणवंतनो, करे मान सत्कार;
दुर्गुणीने उवेखतो, धर्मी बने जयकार. ॥ १ ॥

गिरुआरे गुण तुमतणा. ए राग.

गुणानुरागने धारतां,

धर्मी बने नरनारीरे;

दुर्गुण दोष व्यसन टळे,

समकित प्रगटे भारीरे.

गुणानुराग. १

श्वानना दंत वखाणियां,

कृष्णे गुणना रागेरे;

ज्यां त्यां गुण देखायने,

अवगुणहृष्टि त्यागेरे.

गुणानुराग. २

गुणरागे गुण जागता,

समकित निर्मल थावेरे;

बुद्धिसागर धर्मनी—,

योग्यता साची पावेरे.

गुणानुराग. ३

ॐ ० ० ० गुणानुरागगुणलाभाय जलं ० यं स्वाहा॥

१३

त्रयोदशमी सत्कथनगुण पूजा.

अशुभकथा करतां थकां, निन्दक पापी थाय;
शुभकथाथी गुण वधे, विकथालवरी तजाय. ॥१॥

गिरुआरे गुण तुमतणा. ए राग.

शुभकथनथी सद्गुणो, पामे नरने नारीरे;
पापकथा कुथली टळे, जूठ टळे निर्धारीरे. शुभ. १
अनेकपापविपत्तिने, वैरक्लेश शमी जावेरे;
धर्मविवेक प्रगट थतो, विश्वमां मान्य ते थावेरे.शुभ. २
स्वपरहितकरसत्कथा, मीठी कथनी करवीरे;
बुद्धिसागरधर्मनी, भाषासमिति धरवीरे. शुभ. ३
ॐ प० सत्कथनगुणलाभाय जलं० य० स्वाहा ॥

चौदमी सुपक्षयुक्तगुणपूजा.

दुहा.

सज्जन धर्मी सुपक्षने, धारे जे नरनार;
धर्मी बनावे कुटुंबने, टाळे विघ्न उदार. ॥ १ ॥

सुमतिनाथ गुणशुं मिलिजी. ए राग.

सदाचारी अनुकुल भलोजी,
धर्मी जेनो परिवार;

१४

सुपक्ष तेने भय नहींजी,
 अंतराय, मन धार;
 श्रावक सुपक्षी थावे करी उपकार. १
 अनुकूल संबंधीओने—,
 करतो रहे धरे धर्म;
 संकटविघ्नादिक हणीजी,
 करतो धर्मनां कर्म. श्रावक. २
 अनेक उपाये संबंधीओने,
 अनुकूल करी वहे दक्ष;
 बुद्धिसागर सुखी सदाजी,
 जेने छे धर्मी सुपक्ष. श्रावक. ३

ॐ परम० सुपक्षयुक्तगुण लाभाय जलं० य० स्वाहा ॥



॥ पन्नरमी दीर्घदर्शित्वगुणपूजा. ॥

परिणामे सुन्दर करे, दीर्घदर्शी सहकाज;
 अधर्म दुःखथी दूर रहे, पामे सुखसाम्राज्य. ॥१॥

सुमतिनाथ गुणशुं मलीजी. ए राग.

दीर्घदर्शी परिणामनेजी, देखी करे सहकाज;
 अल्पक्लेश बहुलाजनेजी, समजे खरो परमार्थ,
 श्रावक छे एवो दीर्घदर्शी जयकार. १

१५

अधर्म्यसाहस नहीं करेजी, अविचारी नहीं थाय,
 धर्म अर्थने कामनेजी, मोक्षने साधे उपाय. श्रावक. २
 द्रव्य क्षेत्रने कालने भावथी, करे विचारीने कर्म;
 बुद्धिसागर धर्मी एवा, श्रावक लहे शिवशर्म. श्रावक. ३
 ॐ० प० दीर्घदर्शित्वगुणलाभाय जलं० य० स्वाहा ॥

शोळमी विशेषज्ञगुणपूजा.

॥ दुहा. ॥

पक्षपात वण वस्तुना, गुणने दोषनो जाण;
 विशेषज्ञ धर्माहं ते, चारबुद्धियुत मान. ॥ १ ॥

जगजोवन जगवावहो. ए राग.

विशेषज्ञ गुणे शोचतो,

द्रव्यश्रावक गुणवंत, लालरे.

सर्ववस्तुगुणदोषने,

जाणे मतिश्रुतवंत. लालरे.

वि. १

द्रव्यक्षेत्रकालभावथी,

द्रव्यलक्षण गुणजाण, लालरे,

उत्सर्ग ज अपवादने,

जाणी वर्ते प्रमाण. लालरे.

वि. २

समयोचितज्ञने निश्चयी,

व्यवहारमांही दक्ष, लालरे.

१६

बुद्धिसागरधर्मी ते,

धरे न जूठो पद्म, लालरे.

वि. ३

ॐ० प० विशेषज्ञगुणलाभाय जलं० य० स्वाहा ॥

॥ सत्तरमो वृद्धानुगगुणपूजा ॥

परिणतबुद्धिमानने, अनुसरतां नरनार;

वृद्धानुग थै सद्गुणो, पामे छे निर्धार. ॥ १ ॥

जगजीवन जगवालहो. ए राग.

ज्ञानादिकगुणे वृद्ध जे,

परिणामिकमतिमंत. लालरे;

तेवा वृद्धनी सेवना,

शिक्षा बहुगुणवंत. लालरे.

ज्ञाना. १

वृद्धानुग गुणगण लहे,

करे न पापाचार. लालरे;

वृद्धसंगते बहु अनुभवो,

पामे सुख निर्धार. लालरे.

ज्ञाना. २

तपश्रुतधृतिध्यान अनुचवे,

वृद्धगुरु सत्संग. लालरे.

बुद्धिसागर सद्गुरु-

वृद्धानुग गुणरंग. लालरे.

ज्ञाना. ३

ॐ० प० वृद्धानुगगुणलाभाय जलं० य० स्वाहा ॥

१७

अढारमी विनयगुणपूजा.

दुहा.

विनय धर्मनुं मूल छे, विनये ज्ञान पमाय;
विनय सहु गुणमां वडो, विनये सिद्धि थाय.॥१॥

श्री दर्शन पद पामे प्राणो. ए. राग.

विनये सेवा भक्ति प्रगटे,

प्रगटे केवलज्ञानरे;

वैरादिकदोषो सहु शमता,

धर्मी बने भगवानूरे;

विनयी बनो जगमां नरनारी. १

दर्शनज्ञानचरणतपविनये,

गुरुविनये गुण थायरे;

बहुभेदी औपचारिकविनये,

दुर्गुण दोष पलायरे.

विनयी० २

अच्युत्थान प्रणाम ने आसन-

देवुं वंदन गुरु बोलरे;

सांभलवो अनुगमने साधन,

गुरु सेवे गुण अमोलरे.

विनयी० ३

मातपितावृद्धधर्मगुरुनी,

सेवाजक्ति करंतरे;

१८

बुद्धिसागरसद्गुरुविनयी,

श्रावकधर्म धरंतरे.

विनयी० ४

ॐ० प० विनयगुणलाभाय जलं० य० स्वाहा ॥

॥ ओगणीशमी कृतज्ञगुणपूजा ॥

समकितप्रदसद्गुरुतणो, माने बहु उपकार;

कृतज्ञ, सर्वे सद्गुणो, पामे धर्मी धार.

सोवे सोवे सारी रेंन गुमाइ. ए राग.

धर्मगुरु उपकारीवर्गना,

उपकार माने जे नरनारी;

ते सद्गुणनी वृद्धि पामे,

सगुणा सगुराजन बलिहारी. धर्म० १

मातपिता स्वामी गुरु उपकारने,

जाणी सेवे निजहितधारी;

अनंतगुणा उपकारी अनुक्रमे,

गुण लोपे नहीं धर्माधिकारी. धर्म० २

कृतगुणज्ञाता, उपकारकारक—,

सेवो प्रेमे नरने नारी;

बुद्धिसागरधर्मार्हित शुभ,

मंगलमाल लहे सुखकारी. धर्म० ३

ॐ० प० कृतज्ञगुणलाभाय जलं० य० स्वाहा ।

१९

वीसमी परोपकारगुणपूजा.

दुहा.

धर्मस्वरूपने जाणीने, परोपकारी थाय;
 निष्कामी महासत्त्व ते, नरनारी शिवपाय. ॥१॥
 उपकारी नरनार, धर्मी ते उपकारी नरनार० ॥

परहित करवामां जे तत्पर,
 अर्पाइ जाय सदाय;
 अन्यजनोने धर्ममां योजे,
 परमार्थे जीवन जाय. धर्मी० १

उपकारनुं फल मुक्ति इच्छे,
 भवमां रही निष्काम;
 तनमनधन अर्पे परमार्थे,
 पामे शिवपुर ठाम. धर्मी० २

परोपकारी धर्मी श्रावक,
 थाय मुनि भगवान्;
 तीर्थंकर आदि पदवीने,
 पामे केवलज्ञान. धर्मी० ३

महासत्त्व नरनारी धन्य ते,
 देवगुरुना भक्त;

१०

बुद्धिसागर परोपकारै,

धर्मी सदा आसक्त.

धर्मी० ४

ॐ० १० परोपकारगुणलाभाय जलं० य० स्वाहा ॥

—

एकवीशमी लब्धलक्ष्यगुणपूजा.

लब्धलक्ष्यगुणी जे बने, धर्मी ते नरनार;

सर्वधर्मकरणी करे, शिवपदलक्ष्य विचार. ॥१॥

राग. कान्हरो.

आतम ते परमातम करवा,

लब्धलक्ष्यी छे जे नरनारी;

समकितधारी धर्मकर्ममां—,

वर्ते आतम उपयोग धारी.

आतम० १

जल्दी शीखे धर्मनुं शिक्षण,

शासनयोग्य छे धर्मावतारी;

ध्यायादर्श छे आतमशुद्धि,

तेनी छे जगमां बलिहारी.

आतम० २

अनेकधर्मनां साधन साधे,

स्वाधिकारे धर्म विचारी;

धीर वीर ने शुद्धप्रेमी,

उद्यमी उत्साह दिलमां भारी. आतम० ३

२१

धर्माभ्यासी देवगुरुनी—,
 भक्ति करवामां हुशियारी;
 बुद्धिसागर लब्धलक्ष्यगुणी,
 द्रव्यधी श्रावक निज हितकारी. आत्म० ४

॥ कलश. धन्याश्री. ॥

गाया गायारे महावीर जिनेश्वर गाया.

श्रावकगुण एकवीश प्रकारी,
 पूजा रची प्रभु ध्याया;
 द्रव्यभावसमकितीश्रावक,
 गुण अनेक सुहायारे. महावीर० १

सम्यग्दृष्टिश्रावक गुणवंत.
 वीरप्रभुए जणाव्या;
 तरतमयोगे गुणना धारक,
 ज्ञान भक्ति उजमायारे. महावीर० २

संवत् ओगणिश अरुयाऐंशी.
 माघसुदि बीज गाया,
 सानन्दशहरे आनन्दलेहेरे,
 सर्वसंघ सुख पायारे. महावीर० ३

६२

प्रभुमहावीर पट्टपरंपरा—,
 तपगच्छशासनराया;
 जगगुरुहीरविजसूरि प्रगट्टया,
 चारतसुजश छवायारे. महावीर० ४

सागरशाखा पट्टपरंपरा—,
 नेमिसागरगुरुराया;
 तस शिष्य शांत संवेगी सनूरा,
 रविसागर वखणायारे. महावीर० ५

तस शिष्यसुखसागरगुरुराया,
 संवेगीशीर सुहाया;
 ज्ञानी क्रियावंतयोगीतपस्वी,
 संघप्रशंसा पायारे. महावीर० ६

तसशिष्य बुद्धिसागरसूरिण,
 पूजा रची सुख पाया;
 सकलसंघमां आनन्दमङ्गल—,
 शांति तुष्टि वर्तायारे. महावीर० ७

ॐ० प० लब्धत्वक्षयगुणलाभाय जलं० य० स्वाहा ॥

२३

॥ भावश्रावक सत्तरगुणपूजा ॥

परमप्रभु परमात्मा, महावीर ब्रह्मजिनेश;
 पूजुं वन्दु प्रेमथी, नासे सघळा क्लेश. १
 गौतमआदि गणधरा, प्रणमी सद्गुरुपाय;
 भावश्रावकगुण सप्तदश-पूजा रचुं सुखदाय. ॥ २ ॥
 द्रव्यभावथी समकित्ती, देवगुरुनो भक्त;
 गुरुपासे व्रत उच्चरे, देशविरति गुणवंत. ॥ २ ॥
 क्षयोपशम करी आठनो, साधुव्रतअभिलाष;
 करता श्रावक व्रतधरा, सत्तरगुणी छे खास. ॥ ३ ॥
 अनुक्रमे पूजा रचुं, सत्तरगुणनी खास;
 अष्टप्रकारी पूजना, करतां गुणगणवास. (४)
 श्रद्धाविवेकने सत्क्रिया-, युक्त छे श्रावक भव्य;
 व्यवहारनिश्चये वर्ततो, तेनां शुभ कर्तव्य ५

प्रथमा स्त्रीमोहनिवारकपूजा.

इडर आंवा आंवलीरे. ए राग.

गुरुपासे समकितव्रतोरे,
 उच्चरे सुणे सिद्धांत;
 कृतव्रतकर्मा शीलगुणीरे,
 ऋजुव्यवहारी शांतरे-,
 साचो जाव श्रावक छे एह,
 थावे गुणगणगेहरे.

साचो • १

२४

धर्मक्रिया तत्पर सदारे,
 विनयी विवेकी जेह;
 सर्वसंघज्ञक्ति करेरे,
 गुरुसंतभक्ति सुस्नेह रे. साचो० २
 उत्सर्गने अपवादथी रे,
 वर्ते कालानुसार;
 सूत्र अर्थ सुणे सहुनयेरे,
 संयतव्रतरुचि धाररे. साचो. ३
 स्त्रीपर मोह नहीं करेरे,
 उपशमावे पुंवेद;
 शमावे स्त्रीवेद श्राविकारे,
 टाले मोहना खेदरे. साचो० ४
 वार अनंती जोगव्यारे,
 अनंतमैथुनजोग;
 तृप्ति न पाभ्यो जीवडोरे,
 धारे मैथुनरोगरे. साचो० ५
 वैराग्यथी स्त्रीमोहनेरे,
 वारवा करे पुरुषार्थ;
 बुद्धिसागरजावथीरे,
 श्रावकगुणपरमार्थेरे; साचो० ६

ॐ० प० स्त्रीमोहनिवारणाय, जलं० य० स्वाहा.

३५

इन्द्रियविषयमोहनिवारकगुणरूपाद्वितीयापूजा
दुहा. ॥

पांचे इन्द्रियविषयमां—, रागरोषपरिणाम;
तेहज जवनुं मूळ छे, अनंतदुःखनुंधाम ॥ १ ॥
इन्द्रियमोहने टाळवा, जावे वैराग्यजाव;
श्रावक, संयतपदवरे, जाणी जवदुःखदाव. ॥ २ ॥

शुं कहुं कथनी म्हारी राज. शुं कहुं कथनी
म्हारी. ए राग.

प्रभुमहावीर मुजने तारो हो राज,
महावीर मुजने तारो;
म्हने आशरो एक छे त्हारो हो राज,
आशरो एक छे त्हारो ॥

पांचे इन्द्रियविषयना रागे—,
द्वेषे भवमां भटक्यो;
सुखबुद्धिए जडविषयोमां,
अंध बनीने अटक्यो हो राज. महावीर० १
जडविषयोमां सुख दुःख चान्ति—,
कल्पी निजसुख भूल्यो;
आतमनुं सुख साचुं न जाण्युं,
जाणी जडमां झूल्यो हो राज. महावीर० २

३६

एकेक इन्द्रियविषयना मोहे,
 अनंतभवदुःख लहियो,
 मोहविना इन्द्रियविषयोथी,
 ज्ञानी न भवमां बहियो हो राज. महावीर० ३
 इन्द्रियविषयोमांहि मुंझायो,
 अनंतदुःखडां पायो;
 भोगावलिकर्ममांहि न मुंझं,
 तुज शरणे हवे आयो हो राज. महावीर० ४
 विषयोमांहि आसक्त थउं नहिं,
 निश्चय दिल निर्धार्यो;
 बुद्धिसागरनिश्चयभावे,
 श्रावक, मोहथी न्यारो हो राज. महावीर० ५
 ॐ ह्रीं श्रीं परम० इन्द्रियविषयमोहनिवारणाय,
 जल०-ग० स्वाहा ॥

तृतीया अर्थनिर्मोहपूजा.

आसक्ति धरतो नहीं, अर्थविषे जविजीव;
 अर्थादिक ममता तजी, थावे जीवनो शिव. १
 जलपंकजवत् दिलथकी, निर्लेपी नरनार;
 अर्थमां मोह नहीं धरे, मुनिव्रत लेवा प्यार. २

२७

भायाकारमीरे, माया मकारो चतुर सुजाण. ए राग.
 महावीर !! तुजथकीरे, मुजने साचो लाग्यो प्यार.
 धन्य धन्य तुं प्रभुरे, म्हारा आतमना आधार.
 सर्वप्रकारे परिग्रह लक्ष्मी—, मांहे मोह न धारंरे;
 तनधनसत्तासर्वे न्यारुं, मानुं न कोइ मारुं. म० १
 अनंतज्ञवमांही अडवडोयो, वित्तने मानी व्हाळुंरे;
 आतमज्ञाने जाग्यो अनुभव, निजधन निजमां धार्युं.म०२
 दर्शनज्ञानचरण निजधन छे, जाणी दिख निधार्युरे;
 बाहिर अर्थमां करुं न ममता, अहंवृत्तिने वारुं. म०३
 अर्थसंयोगवियोगनीमांहि, हर्ष शोक नहीं धारंरे;
 अर्थादि पुद्गलमां निर्मम—, वर्ती जीवन गाळुं. म० ४
 पुण्योदयथी मळती लक्ष्मी, पापे टळती विचारंरे;
 बुद्धिसागर वैरागी थै, आतमधनने भाळुं.महावीर०५

चतुर्थी संसार असारताभावनागुणपूजा.

दुःखफल दुःखरूप जाणतो, आ संसार असार;
 तत्र रति नहीं पामतो, धन्य श्रावक गुणधार. ॥१॥

कानुडो न जाणे मोरीप्रीत. ए राग.

चेतन !! आ संसार असार,

महावीरप्रभुजी प्रकाशेरे.

चेतन.

२४

जूठी छे काया माया,
 जेवा जलमां पडछाया;
 बाजीगरनी बाजी फोक,
 स्वप्नाजेवी मायारे. चेतन० १
 मोहथी भवमां मुंझे,
 साचुं न क्यारे सूजे;
 त्हां छे नहीं जगमां कोइ,
 एकलो परभव जाशेरे. चेतन० २
 मारुं मान्युं सहु न्यारुं,
 पडतुं रहेशे सहु प्यारुं;
 भोळा चेतीले झट भव्य !!
 खूब तुं खत्ता खाशेरे. चेतन० ३
 माटीमां माटी मळशे,
 स्वारथ न एके सरसे;
 चटपट चेतीले चेतन,
 धर्म ते साथे याशेरे. चेतन० ४
 जीवो जोतां कै चाल्या,
 चाले छे जोने टाला;
 बुद्धिसागरधर्मने धार,
 रहे दिल प्रभुविश्वासेरे. चेतन० ५

ॐ० ५० संसारस्य असागता भावनार्थं जलं० य० स्वाहा॥

२९

पंचमी जोगासक्तियागगुणपूजा ॥

क्षणसुखदायक जोग छे, अनंतदुःखदातार;

विषयगृद्धिने नहि धरे, श्राद्ध धन्य अवतार. १

जोतां जोतां चाल्या गयारे जोडिया तारा. ए राग.

जोगथकी रोग झाझारे चेतन जाणो;

भोलो थै भ्रमणाए भूल्लेरे, मर्म न छानो. जोग. ॥

जोगमाटे जरमायो, पामर थै दुःख पायो;

धरी लोत्र बहु धायोरे. चेतन० १

विषयो विषना जेवा, जाणे मळे जिनदेवा;

मोह तजे सुखमेवारे. चेतन० २

चेतन चेतीने चालो, विषयवने न म्हालो;

ठाठ पडी रहेशे ठालोरे. चेतन० ३

भोगनी भ्रमणाए चूल्यो, दुःखना दरियामां डूल्यो;

फूलण तुं ? फोक फूल्योरे. चेतन० ४

चेतीले चतुर! चित्ते, ज्ञानने वैराग्यप्रीते;

बुद्धिसागरधर्मरीतेरे. चेतन० ५

ॐ० ५० भोगगृद्धिनिवारणाय ज० य० स्वाहा ॥

२७

छठी निष्कामप्रवृत्तिपूर्वकतीव्रारंजत्यागज्ञाव-
गुणपूजा. ॥

तीव्रारंजने त्यागतो, कर्म करे निष्काम;
अनारंभमुनिसंशतो; श्रावक, गुणअजिराम. ॥

धन्य धन्य संप्रति साचो राजा. ए राग.

प्रभुमहावीरजिनेश्वर वंदो,
सर्वजीवहितकारीरे;
ज्ञावश्रावकगुण वर्णव्यो साचो,
तीव्रारंजपरिहारीरे,
धन्य महावीर जगजयकारी,
सर्वारंभ परिहारीरे.

धन्य० १

तीव्रारंभने दूर निवारे;
निष्काम आरंजकरणोरे;
निरारंज जे धर्मनी करणी,
जाणे जवोदधितरणीरे.

धन्य० २

निरारंज मुनिवरने प्रसंशे,
सर्वजीवोपर रहेमरे;

अनिर्वाहे जीवन अर्थे,
वृत्ति करे धरी नेमरे.

धन्य० ३

कर्मयोगी बनी कार्य करे सहु,
निज अधिकार विचारीरे;

३१

अल्प दोष बहुधर्मदृष्टिण,
वर्ते दयागुण धारीरे.

धन्य० ४

आरंजपरित्यागीमुनि संशे,
मुनिव्रतनो अत्रिल्लाषीरे;
बुद्धिसागर उपयोगी थे,
वर्ते धर्मोद्धासीरे.

धन्य० ५

ॐ० प० तीत्रारंजत्यागपूर्वकनिष्कामप्रवृत्ति
गुणलाजाय जलं० य० स्वाहा ॥

सप्तमो गृहावासपाशवत् ज्ञानपूर्वक चारित्रमोहनीय
जयार्थपुरुषार्थप्रवृत्तिगुणपूजा.

दुहा.

गृहावासने पाशसम, जाणे श्रावक भव्य;
मोहनीकर्मने जीतवा, करे सत्य कर्तव्य. ॥ १ ॥

विमला नव करशो उच्चाट. ए राग.

गृहस्थावास पाशसम, दुःखकर दिव्यमां धारतारे;
कुटुंबी परिजन सर्वे, मोहराज्य अवधारतारे. गृहस्था.॥

आधिउपधिकारक जाणो,
गृहावास बेडीसम मानो;

३२

पडे नहि चैन कशुं त्यां;
वैराग्ये, मन वाळतोरे. गृह० १

घरबंधनमां दुःखना दरिया,
आस्रवकर्मथो लोको जरिया;
ज्ञाने जाणी एवुं,
चारित्रमोहने वारतोरे. गृह० २

चारित्रमोह प्रगट बहु थातो,
आकुलव्याकुलजीवडो थातो;
भमतुं मनडुं भूतनी पेटे,
मनने मारतोरे. गृह० ३

ते भव मुक्ति निश्चय जाणी,
दीक्षा लेता प्रभुत्रिज्ञानी;
धन्य छे त्यागीवर्गने,
जन्म न फोगट हारतोरे. गृह० ४

अंतरमां एवो वैगगी,
पुरुषार्थी श्रावक वडभागी;
बुद्धिसागर आतमवलथो,
मोहनिवारतारे. गृह० ५

ॐ परम० पाशवद्गृहावासमान्यतागुणलाजाय—
जलं० य० स्वाहा ॥

३३

अष्टमी प्रभावनावर्णवादकारकगुणपूजा.

आस्तिकभावथी युक्तने, वर्णवाद करनार;
गुरुभक्तियुत श्राद्ध जे, दृढसमकित धरनार. १

कानुडो न जाणे मोरी प्रीत. ए राग.

भावथी श्रावक सुन्दर धन्य,
धर्मनो श्रद्धा धारीरे. भावथी० ॥

देवगुरुनी भक्ति—,
करवा प्रगटावे शक्ति,
करे जे गुरुप्रसंज्ञा वेश,
गुरु आशातना वारेरे. भावथी० १

कोटि उपाये करतो,
धर्मप्रभावना भारे;
गुरुनी सेवामां अर्पाइ,
निज आत्मने सुधारेरे. भावथी० २

धीरज धरीने चाले,
जैनशासन अजुवाळे,
संघोन्नति करवामां शूर,
क्यारे धर्म न हारेरे भावथी० ३

मिथ्यात्वबुद्धिनिवारे,
आत्मसम सहु भाळे;

५

३४

बनावे अन्यलोकने धर्मी,
मरे नहि मोहने मारेरे, भावथी० ४

साधर्मिकभक्ति धारे,
प्रगट्या दोषो सहु वारे;
बुद्धिसागर धर्मी सत्य,
निलेंपभाव वधारेरे. भावथी० ५

ॐ परम० प्रज्ञावनावर्णवादगुणस्वाभाय,
जलं० य० स्वाहा ॥

॥ नवमो लोकसंज्ञात्यागगुणपूजा ॥

गाडरियाप्रवाहनी—, रीति प्रवृत्ति त्याग;
लौकिकसंज्ञा परिहरी, धरे धर्ममां राग. ॥ १ ॥

आशावरो. श्रवसर बेर बेर नहि श्रावे ए राग.

श्रावक समजो करे सत्यरागी,
गाडरियारीति त्यागी. श्रावक० ॥

लोकनी देखादेखी न चाले,
लोकसंज्ञा परिहारी;
सम्यग्ज्ञाने प्रवृत्तिनिवृत्ति,
करतो समयविचारो. श्रावक० १

३५

धोर वीर बनी संकट दुःखो—,

सहेतो धर्माधिकारी;

सत्याचारविचार तजीने,

ग्रहे न जूठ लगारी.

श्रावक० २

धर्मादिकमां हानिकारक—,

दुष्टरुढि परिहारो;

संघादिकनी पडतीनां कार्यो—,

त्यागे शूरता धारो.

श्रावक० ३

नामर्द थैने शक्ति न गोपवे,

कार्य करे सुविचारो;

भीतिखेदने लज्जा त्यागी,

कार्य करे दोष वारी.

श्रावक० ४

आतमबल प्रगटावी वर्ते,

आतमशुद्धिकारो;

बुद्धिसागरवोर्योछासने,

षढताभाव वधारो.

श्रावक० ५

ॐ ५० लोकसंज्ञात्यागगुणलाभाय

जलं०—य० स्वाहा ॥

३६

दशमी आगमादिपुरस्सरधर्मप्रवृत्तिरूपगुणपूजा.

जैनागमने अनुसरी, धर्मकर्म करनार;

परंपरागमशास्त्रनी, धर्मक्रिया धरनार ।

प्रभु सुमतिरे सुमति आपो प्यारा. ए राग. ॥

प्रभुमहावीररे तुजवाणी जयकारी,

जगजीवने शिव सुखकारी. ॥

तुज आगमना अनुसारेरे,

पंचांगीपरंपरा धारेरे;

धर्मकिरियारे करता ऋविजन तरिया,

श्रावक सापेक्षज्ञाने भरिया. प्रभु० १

जैनशास्त्रोने साचां मानीरे,

करे लेश न खेंचाताणीरे;

देशकालादिनुं सर्वनयेज्ञान धारी,

करे धर्मक्रिया अधिकारी. प्रभु० २

जैनशास्त्रनी श्रद्धा धारेरे,

गुरुगमथी सुणीने विचारेरे;

महाज्ञानीने पुछी शंका टाळे,

कुतर्कीनास्तिकसंगवारे. प्रभु० ३

३७

स्वाधिकारै जैनागमाधारै,
 धर्मक्रिया करे बहुप्यारेरे;
 मोक्ष वण बीजुं इच्छे न क्यारेरे,
 कर्मयोगीरे बनी प्रवर्ते भारी;
 बुद्धिसागर जगजयकारी. प्रजु० ४

ॐ परम० जैनागमानुसारधर्मक्रियालाजाय
 जल०—य०—स्वाहा ॥

अग्यारमो यथाशक्तिदानादिआराधनगुणपूजा.

दुहा.

दानशीयलतपभावने, साधे शक्तिए दक्ष;
 यथालाभ बहुधर्मनो, तथा धरे गुणपक्ष. ॥१॥

माढ. राग

श्रद्धाप्रीतिधारी, मोह नीवारी, सेवो चतुर्विधधर्म,
 दानशीयलतपजावनाभेदे, धर्मना चार प्रकार;
 शक्तिने गोपव्याविण अप्रमादे, आराधो थै हुशियारेरे
 हानिवण सुविचारी, धर्मनी यारी, धारीने नरनार.

श्रद्धा० १

३८

अनेकभेदे दानने देवुं, शीयल धरो सुखकार;
 सर्वशुभाशुजइच्छानिरोधे, तप छे सत्य उदाररे,
 जावो जावना सारी. निर्मलकारी; शुद्धातमसुखकार.

श्रद्धा० २

आतमधर्मना लाजनीरे, वृद्धिनां साधन सर्व,
 आत्मोपयोगे साधीएरे, टाळी ममतागर्वरे,
 वीरवचनविचारी, गुरुगमधारी, श्रावक सेवो धर्म.

श्रद्धा० ३

निष्कामआत्मोपयोगथीरे, सुखदुःखमां समजाव;
 धारी कर्तव्यो साधतारे, प्रगटे आतमधर्मरे,
 बुद्धिसागर गावे, निजगुण पावे, वर्तो थै अप्रमत्त.

श्रद्धा० ४

॥ बारमी धर्माराधनायां लज्जात्यागगुणपूजा ॥

दुहा ।

नास्तिकमूढजडवादियो, धर्म करंतां हसंत.
 तेथी लाजे नहि जरा, श्रावक समकितवंत. ॥१॥

३९

जिम तरु फूले भमरो बेसे. ए राग.

जावश्रावक जगजनहितकारी, व्रतगुणशुद्धिधारी;
धर्म करंतां लज्जानिवारी, शंकादिकपरिहारीरे.
साचा श्रावकनी बलिहारी. १

नास्तिक भूढो धर्म करंतां, हसीने निंदा करता;
प्रतिपक्ष। हेलनादिक करता, तो पण लज्जा न धरतारे.
साचा० २

परिषह उपसर्गे स्थिर रहेता, दैन्यभाव परिहारी;
मैत्र्यादिकजावना दिलधारी, जरुनो मोह निवारीरे.
साचा० ३

कामदेवादिकश्रावकपेठे, श्रावकव्रतगुणधारी;
बुद्धिसागरवीराज्ञाये, वर्ते जग उपकारीरे. साचा० ४

ॐ परम० लज्जात्यागपूर्वकधर्माराधनार्थं
जलं०—य०—स्वाहा ॥

तेरमो समजाववर्तनगुणपूजा.

देहस्थितिना हेतुमां, स्वजनगृहादिकमांशु;
वसे रागने द्वेषवण, ममता द्वेष न क्यांय ॥१॥

४६

पंचमो तप तमे करोरे प्राणी. ए राग.

धन्य धन्य महावीरप्रभुजी,
 वंदु पूजुं ध्याउंरे;
 समभावे तुं केवलज्ञानने,
 पाम्यो प्रेमे गाउंरे. धन्य० १

देहने आजीविकाघरधनमां,
 कुटुम्बमां समजावरे;
 जडभावोपर रागने द्वेषने,
 करवो न आत्मस्वभावरे. धन्य० २

इष्टानिष्टासंयोगवियोग छे,
 पुण्यपाप अनुसाररे;
 हर्षशोकसुखदुःखपरिणामी,
 थाउं नहीं निर्धाररे. धन्य० ३

स्वजनगृहादिक क्षणिकस्वप्नसम,
 जाणी न श्राद्ध, मुंझायरे,
 धावमातापरे जलपंकजवत्,
 निर्लेपभाव सुहायरे. धन्य ४

सर्वसंग छतां अंतरनिसंग,
 निश्चय आत्मवासरे;
 बुद्धिसागरसद्गुरुसंगी,
 भावथी श्रावक खासरे. धन्य० ५

४१

॥ चउदशमी उपशमसारगुणपूजा. ॥

दुहा.

उपशमसार विचारवंत, हितकामी मध्यस्थ;
जीताय नहिं जे मोहथी, त्यजे कदाग्रहपक्ष ॥१॥

(आज सखी मोंये बालमा, मन मंदिर आये. ए राग.)

प्रणमुं महावीरदेवने,—

चिदानंदगुणदरिया;

उपशम शीखव्यो विश्वने,

अनंतगुणथी जरिया.

प्रणमुं० १

भावश्रावकने वर्णव्या,

उपशमगुणधारी;

रागने रोषे नहिं रहे—

ब्रह्मरूप विचारो.

प्रणमुं० २

आर्तरोद्र बे वारता,

देहाध्यास निवारी;

आतमपरहितकामी जे,

मध्यस्थता धारी.

प्रणमुं०-३

सर्वसंसारपदार्थमां,

मुंझे नहीं रागधारी;

साक्षीभाव, उपयोगथी,

परपरिणति वारी.

प्रणमुं०-४

६

४२

सर्वकषायो शमावता,
 ज्ञानवैराग्य धारी;
 बुद्धिसागरभावथी—,
 श्राद्ध लहे भवपारी.

प्रणमुं० ५

॥ पन्नरमी आंतरप्रतिबंधत्यागगुणपूजा ॥

द्रव्यक्षेत्रकालभावथी, अंतर प्रतिबन्ध त्याग;
 रागरोष प्रतिबन्ध छे, टळतां प्रगटे त्याग. ॥१॥

(ए व्रत जगमां दीवो मोरे प्यारे. ए राग.)

ज्ञानी प्रतिबन्ध टाळे हो दिलथी—,
 ज्ञानी प्रतिबन्ध टाळे;
 द्रव्यक्षेत्रकालभावथी प्रतिबन्ध,
 रागरोष बे खाळे;
 क्षणभंगुर सहवस्तु जाणी—,
 चडे न मोहना चालेहो. दिलथी ज्ञानी० १
 जडभावे जडवस्तु भाळे,
 आतम आप निहाळे;
 आतमनी ऋद्धि संभारे,
 निःसंगभावने धारे हो. दिलथी ज्ञानी० २

४३

विषयोमांही शुभाशुन्नवृत्ति,
 थाती न उपयोगकाले;
 शुभाशुन्नपरिणाम विना तो,
 विषयो न जीवने मारे हो. दिक्षथी ज्ञानी० ३
 शुभाशुन्नपणुं जडविषयोमां—,
 ज्ञानी न माने क्यारे;
 तीव्रनिकाचितपुण्यपापफल,
 नोगवे उपयोग धारे हो. दिक्षथी ज्ञानी० ४
 रागरोष वण बाह्यमां छे नहीं,
 प्रतिबन्ध, ज्ञानीने क्यारे;
 कर्म न बांधे निर्जरे बहुलां,
 मोहने जीती मारे हो. दिक्षथी ज्ञानी० ५
 आकाशपेठे निर्लेप भाले—,
 आतमजावने धारे;
 बुद्धिसागर अप्रतिबन्धी—,
 मौन चहे छे भारे हो. दिक्षथी ज्ञानी० ६

॥ सोळमी अनासक्तिगुणपूजा ॥

भोगादिकमां तृप्ति नहि, जाणी मनमां विरक्त,
 परानुरोधप्रवृत्ति पण, आंतर नहि आसक्त. ॥१॥

५४

(विमलाचलना वासी म्हाराब्हाला सेवकने विसारो
 नहीं विसारो नहीं. ए राग.)

गृहावासी प्रभुमहावीरजिणंद,
 धन्य त्हारी दशा त्हारी दशा,
 प्रभु भोगी छतां नहीं भोगी—,
 विरक्त दिखमांहि वस्या—, मांहि वस्या. ॥
 अनंतपुण्यविपाके शाता—,
 जोग अने उपभोग;
 जोगवतां तृप्ति नहिं करारे,
 भोगादिक गण्यो रोग, जिणंदधन्य० १
 पूर्वनिकाचितकर्मना प्रेर्या—,
 परानुरोधे प्रवृत्ति;
 कामजोगमां करे तथापि,
 वैरागी, नहीं आसक्ति. जिणंदधन्य० २
 पांचे इन्द्रियकामभोगमां—,
 तृप्ति न मानो लेश;
 सर्वविरति धरी आतमसुखनी,—
 चाहना धारी बेश. जिणंदधन्य० ३
 इन्द्रादिक पण कोटि उपाये—,
 जोगे तृप्ति न पाय;

४५

क्षणिकजरुविषयोधी न आनन्द,
 थयो न थाशे कदाय. जिणंदधन्य० ४
 एवी दशाए घरमां रहीने—,
 वते नरनेनार;
 बुद्धिसागरप्रभुमहावीर—,
 पद पांमे निर्धार. जिणंदधन्य० ५
 ॐ परम० जलं० य० स्वाहा ॥

॥ सत्तरमी सर्वविरतिचारित्रग्रहणेच्छा-
 गुणपूजा ॥

दुहा.

आजकाल घरत्यागीने—थाइश मुनि अनगार;
 तीत्रेच्छा प्रगटे खरी, निराशंस व्यवहार. ॥१॥

(तेजे तरणिथी वडोरे: ए राग.)

धन्य धन्य महावीरप्रभुरे—,
 इच्छुयो न घरमां वास;
 पराया पेठे वंर्ततारे—,
 जलपंकजवत् खासहो. जिनजी,—
 संसारसागर तारशोरे, शरणागतने उगारशोरे,
 एक छे तुज आधार. १
 वंदीखानाने पाशनीरे—,
 पेठे गृहस्थावास—;

४६

मानी नटनागरपैरेरे—,
 वर्त्या दिलमां उदासहो. जिनजी संसार० २
 वेश्यावत् परसाथमारै,
 अंतरथी नहीं राग;
 विश्वोद्धार ने आत्मनारे—,
 हेते इच्छूयो त्यागहो. जिनजी संसार० ३
 केदखानामां केदीनेरे—,
 रहेवानो नहीं राग;
 जात्रमां पंखीडां पड्यारै,
 इच्छेछे झट त्यागहो. जिनजी संसार० ४
 तेवी रीते नरनारीयोरे,
 तुजरीत ग्रहवा त्याग;
 बुद्धिसागर उल्लसेरे—,
 धारी ज्ञानवैराग्यहो. जिनजी संसार० ५

ॐ० प० जलं०—य० स्वाहा ॥

—*—

॥ कलश. धन्याश्री ॥

गाया गायारे महावीरजिनेश्वर गाया. ॥
 भावश्रावकना सत्तर गुणनी,—
 पूजा रची प्रभु ध्याया;

४७

सर्वविरति ग्रहवा अधिकारी—,
जावश्रावक दर्शयारे. महावीर०-१

प्रत्याख्यानीक्षयोपशमथी,
चरणरुचि प्रगटाया;
आठकषायना क्षयोपशमथी,
सात्विकगुण घट पायारे. महावीर० २

संवत् ओगणिश अग्न्याऐंशी—,
वसंतपंचमी गाया;
सानन्दशहेरे आनन्दल्हेरे;
पूजा रची सुख पायारे. महावीर०-३

महावीरपट्टपरंपरा तपगच्छ—,
हीरविजयसूरिराया;
पट्टपरंपरा रविसागर गुरु,
चारतमां वखणायारे. महावीर०-४

तस शिष्यपट्टधर सुखसागरगुरु—,
मुनिगणशान्त सुहाया;
तस शिष्य बुद्धिसागरमूरिण—,
पूजाधी प्रभुवीर गायारे. महावीर०-५

ॐ ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय परमेश्वराय श्रीमते
जिनेन्द्राय जलं चंदनं पुष्पं धूपं दीपं अक्षतं नैवेद्यं
फलं यजामहे स्वाहा ॥

४८

॥ श्रावकद्वादशव्रतपूजा ॥

दुहा.

- परमेश्वर परमात्मा, तीर्थकर जयकार;
 परब्रह्ममहावीरजिन, वीतरागसुखकार. १
- पूजी वंदी प्रेमथी,—सर्व जिनेशने सिद्ध;
 सद्गुरु वंदी स्नेहथी, पंचपरमेष्ठि प्रसिद्ध २
- श्रावकनां व्रत वारनी—, पूजा रचुं हितकार;
 वारव्रते प्रभु पूजीने—सद्गति लहे नरनार. ३
- गीतार्थ गुरुने ग्रहे—गुर्वाज्ञाअनुसार;
 शास्त्रविधि अनुसारथो,—समकित ग्रहे नरनार. ४
- देवगुरुने धर्मनो—, सेवा भक्तिमंत;
 अविरतिश्रावक जाणवा, व्रत अभिलाषी भक्त. ५
- व्रत ग्रहे प्रत्याख्यानी जे, देशविरतिधर जाण;
 पंचमगुणस्थानकतणा, अधिकारी ते प्रमाण. ६
- पंचाचारने पालता, टाळे सहु अतिचार;
 वारव्रतोमां उपज्या—टाळे प्रतिक्रमी धार. ७
- ज्ञानने दर्शनचरणना—आठ आठ अतिचार;
 तपना वार ने वीर्य व्रण, संलेशणा पंचधार. ८
- समकितना अतिचार पंच,—ओगणपचास ए जाण;
 द्वादशव्रत अतिचार सहु—पंचोत्तरठे मान. ९

४९

- सरवाळे अतिचार सहू-एकशोचोवीस जाण;
 षट् आवश्यककरणीए, टाळे श्राद्ध प्रमाण. १०
- यथाशक्तिभंगेसहित-, व्रत उच्चरे गुरुपास;
 देवगुरुदर्शन करी, खावे श्रावक खास. ११
- द्रव्यथकी व्रत उच्चरे, सद्गुरु सुणे उपदेश;
 मुनिव्रत ग्रहवा चाहना, टाळे कर्मना क्लेश. १२
- श्रावकव्रत पूजा रचुं-अनुक्रमे सुखकार;
 समकितपूर्वक व्रतक्रिया, मुक्तिफल दातार. १३

प्रथमसम्यक्त्वारीपणे प्रथमजलपूजा.

॥ दुहा. ॥

- देवगुरुने धर्मनो-श्रद्धा समकित खास;
 गुरु पासे समकितग्रहे-श्रावक धर्मावास ॥१॥
- नयव्यवहारे समकितो-श्रावक ते कहेवाय;
 श्रद्धाविवेकक्रियाबले, व्रतधरो शिवपुर जाय. २
- शंकाकंखा वारता, वितिगिच्छा परिहार;
 मिथ्यामतादि प्रशंसना-टाळे ते अतिचार. ३
- कृतीर्थिपाखंडीनो-परिचयादिक त्याग;
 देवगुरुने धर्मनो-चोलमजीठसम राग. ४

७

५०

(त्रीसवरस घरमां वस्या रे-ए राग.)

सर्वज्ञ परमात्म विभुरे,—
 महावीरदेव छो खास;
 वंदु पूजुं भावथी रे—,
 धार्यो ठे तुज विश्वासहो;--महावीर!!!
 देव खरो दिल धारियो रे,
 मिथ्यात्वमोहने वारियो रे;
 सत्य कथ्यो त्हे धर्म. १
 तुजजाषितदेवतत्त्वनी रे,
 गुरुनी श्रद्धा बेश;
 जैनधर्मश्रद्धा ग्रही रे—
 जेथी न रहे जवक्केशहो.--महावीरदेव २
 समकितवण व्रततपदया रे—
 साधने होय न मुक्ति;
 समकितयुतव्रततपथकी रे,
 मुक्ति निश्चय युक्तिहो. महावीरदेव ३
 सर्वज्ञभाषिततत्त्वमां रे—
 समकिती नहीं मुंझाय;
 शंकादिक अतिचारने रे,
 टाळी निर्मल थायहो. महावीरदेव ४

५१

देवगुरुधर्मतस्वनी रे—,

श्रद्धाप्रीति अपार;

बुद्धिसागरसमकिती रे,

प्रभुभक्तो नरनारहो.

महावीरदेव० ५

ॐ० प० सम्यक्त्वारोपणार्थं जलं, य० स्वाहा ॥

प्रथमस्थूलप्राणातिपातविरमणव्रतेद्विती- याचन्दनपूजा. ॥

दुहा.

- वध, बंधन, ठविठेदने, प्राणीपर अतिभार;
भक्तपानविच्छेद ए, पांच तजे अतिचार. ॥१॥
- स्थूलप्राणीहिंसा तजे, देशविरतिधरन्नव्य;
सवावसानी दया जली, श्रावकनुं कर्तव्य २
- देवगुरुधर्मसंघनी,—सेवाभक्तिकाज;
बाह्यथकी हिंसाछतां, धर्म अहिंसाराज्य. ३
- निरपराधीप्राणीसहु—, यतनाए रक्षंत;
देशथी अहिंसक छतो,—सापेक्षे व्रतवंत. ४
- प्रमादयोगथी प्राणना—,नाशे हिंसा थाय,
उत्सर्गने अपवादथी, व्रतसापेक्षा सुहाय ५

५६

(मारै दिवाळी थइ आज जिनमुख जोवाने. ए राग.

प्रभुमहावीरजिनजगवंत,

सेवुं सुखकारी;

माराप्राणतणा आधार,—

पूजुं हितकारी; ॥

स्थूलप्राणातिपातथी विरमुं—,

पंच अतिचार टाळुं रे;

दयासमो नहीं धर्म को मोटो,

जाणी व्रत अजुवाळुं. सेवुं०--प्रभु० १

सर्वकार्यमां यतना धारुं,

प्रगदया प्रमादने वारुं रे;

उत्सर्ग अपवादे व्रत धरी—

तुज आणाए चालुं. सेवुं०--प्रभु० २

आतम उपयोगे दोष टाळुं—,

पहेळुं व्रत शुच पाळुं रे;

हिंसा अहिंसाजेद विचारुं—,

साधनयोग संभारुं. सेवुं०--प्रभु० ३

अधर्मयुद्धथी दूरे रहेवुं,—

धर्मयुद्धथी चालुं रे,

देवगुरुधर्मसंघनी भक्ते—,

धर्म्यस्वार्थे न अकारु. सेवुं. प्रभु० ४

६३

षंदने पूजुं व्रतने धारी—,
 तुज भाक्त बहुप्यारी रे;
 बुद्धिसागर जगजयकारी—
 महावीर तुज बलिहारी. सेवुं०--प्रभु०--५
 ॐ० प० चंन्दनं य० स्वाहा ॥

द्वितीयस्थूलमृषावादविरमणव्रते तृतीयावासपूजा.

दुहा.

स्थूलमृषावादपंचथी—विरमवुं व्रत जयकार;
 द्रव्यादिक उत्सर्गने,—अपवादे हितकार. ॥१॥
 पंच तजी अतिचारने, प्रभु पूजे नरनार;
 आज्ञव परभव सुख लहे,—शिवपद मळे निर्धार. २

(चोमाक्षी पारणुं आवे, ए राग. ॥)

प्रभुमहावीरजिन जयकारी,
 पूजुं प्रेमथी जगहितकारी,
 सत्यव्रत भाख्युं सुखकारी,
 पाळे तेनी छे बलिहारी रे;
 महावीरप्रभु जयकारी—
 पूजुं वंद पावनकारी रे. महावीर० १

५४

कन्यालीक गोवालीक त्यागुं,
 जोमालीक तजी घट जागुं;
 न्यास अपहारथी दूर भागुं—,
 सत्यपंथनी लगनीमां लागुं रे. महावीर० १
 सहसा झूठ बोलवुं वारुं;
 गुप्तमर्मरहस्यने धारुं,
 दारासंबंधी जूठ निवारुं,
 मृषा उपदेशने झूट टाळुं रे. महावीर० ३
 जूठसाक्षी कूटलेख टाळुं—,
 व्रत ग्रही उपयोगे संजाळुं;
 सत्य जूठ सापेक्षे विचारुं—,
 अल्पदोष बहुधर्मने धारुं रे. महावीर० ४
 पांच मोटकुं जूठ निवारी,
 पंच अतिचार पडिकमी वारी;
 सत्यना बहु जेद विचारी—,
 वर्तुं प्रजु आणाने धारी रे. महावीर० ५
 बीजुं व्रत उच्चरी नरनारी;
 अंशथी सत्यव्रत आचारी;
 प्रभुमहावीरआणाधारी,
 बुद्धिसागरधर्माधिकारी रे. महावीर० ६
 ॐ परम० वासं य० स्वाहा ॥

५५

तृतीयस्थूलअदत्तादानविरमणव्रते चतु- र्थपुष्पमालपूजा ॥

दुहा.

स्थूलचोरीथी विरमवुं—त्रीजुं व्रत ते जाण;
पांच अतिचार टाळवा—व्यवहाररे व्रत मान
उत्सर्गे अपवादथी—त्रीजुं अणुव्रतन्याय
राज्यदंड जेथी थतो,—चोरी ते कहेवाय;

(हवे शक्र सुघोषा वजावे. ए. राग.)

प्रभुमहावीरजी जयकारी,
पुष्पमालथी पूजीए ज़ागी;
स्थूलचोरीने परिहरीए,
चोरीधनथी पेट न भरीए. ॥

प्रभुमहावीरदेवने ज़जीए,
निज आत्मगुणगण सजीए;
चोरीनो माल लइए न क्यारं,
चोरी करावीए नहिं क्यारं.

प्रभु०

भेळसेळ न मान्नां करीए—,
तेम तद्रूपता परिहरिए;
राज्यविरुद्ध दाणनी चोरी;
परचोरी न लइए न्होरी;

५६

कूडां तोल मान परिहरीए—,
प्रमाणिकपणे धर्म धरीए. प्रभु० २

उत्सर्गे पांच अतिचारो,
तजी धरीए नीति आचारो;
बुद्धिसागरव्रत शुभ धारी,
बने धर्मी जलां नरनारी. प्रभु० ३

ॐ प० पुष्पमालां य० स्वाहा.

चतुर्थस्वदारासंतोषपरस्त्रीत्यागरूपव्रत पंचमे दीपकपूजा ॥

दोहरा.

निजदारा संतोषी जे—करे परस्त्रीत्याग;
गृहस्थचोथुं व्रत जलुं, सहुव्रतमां वडभाग १
पांचे अतिचारो तजी, पाळे जे नरनार,
दीपके प्रभुने पूजतां, मुक्ति मळे निर्धार २

(ए व्रत जगमां दीवो, मेरे प्यारे. ए राग.)

चोथुं व्रत सुखकारी हो आतम !

चोथुं व्रत सुखकारी. ॥

सर्वव्रतो नदीयो जस आगळ,
सागरसम जयकारी;

निजनारी संतोषी श्रावक,

परदारा परिहारीहो.-- आतम ! चोथुं ?

५७

अपरिगृहीता इत्वरकामिनी—,
 क्रोडादोष निवारी;
 अन्यविवाहने तीव्रकामोदय—,
 पण अतिचार परिहारीहो. आतम! चोथुं० २
 गृहस्थनरनारीने परस्पर—,
 नववाडो हितकारी;
 धर्मशास्त्रवैदक अनुसारे,
 वीर्यरक्षण सुःखकारीहो. आतम! चोथुं० ३
 रोगशोकभीतिदुःखवारी,
 आयुष्यरक्षण भारी;
 आरोग्यबलसुख आपे सारुं—,
 वृत्ति टाळो विकारीहो. आतम! चोथुं० ४
 अत्यंतकामविचारप्रवृत्ति,
 त्यागी धन्य नरनारी;
 बुद्धिसागरप्रभु दीपकथी—,
 पूजो आनन्दकारी हो. आतम! चोथुं० ५

ॐ परम० दीपं यजामहे स्वाहा ॥

५८

॥ पंचमपरिग्रहपरिमाणव्रते षष्ठीधूपपूजा ॥

दुहा.

परिग्रह परिमाणव्रत, पंचम अणुव्रत सार;
 मूर्च्छानापरिमाणधी, मनस्थिरता सुखकार. ॥१॥
 पांचे अतिचारो त्यजी, धूपे प्रभु पूजंत;
 नरनारी स्वरशिववरे, अनंतशर्म लहंत. ॥ २ ॥

(शुं कहुं कथनी मारी हो राज ! शुं कहुं कथनी मारी. ए राग.)

प्रभुमहावीरजिनवर तारो हो राज,
 महावीर जिनवर तारो;
 प्रभु तार्यावण नथी आरो हो राज !!! महावीर०
 लाख चोराशी वार अचनंती,
 परिग्रहममताए फरियो;
 लक्ष्मीलोभे बहु लोभायो,
 मोही थैने मरियो हो राज !!! महावीर० ॥१॥
 परिग्रहग्रहवश ठाम न ठरियो,
 आधिउपाधि वरियो;
 हडकायाश्वानवत् वेंळे वळियो,
 मोहे मार्यो दुःखथी भरियो हो राज!!!महावीर०-॥२॥
 लोभनी संज्ञाए भव हार्यो,
 क्षण पण त्हने न संभार्यो;

५९

एकैन्द्रीआदि जन्मोमां,
 लोभथको लुंटायो हो राज !!! महावीर० ॥ ३ ॥
 परिग्रहपरिमाणव्रतने धारुं,
 पंच अतिचार वारुं;
 धन धान्य क्षेत्र वास्तु परिग्रह,
 बे अतिचार निवारुं हो राज !!! महावीर०--॥ ४ ॥
 रुप्य सुवर्ण कुप्य परिमाण,
 द्विपदादिकव्रत धारुं;
 उपयोगे अतिचार निवारुं,
 आतमधन गणुं प्यारुं हो राज !!! महावीर०--५
 नवविधपरिग्रह साथे न आवे,
 आतम एकलो जावे;
 जडमां सुख दुःख कल्पना जूठी,
 ज्ञानी निश्चय पावे हो राज !!! महावीर० -६
 ज्ञानानन्द आतमधन जाणी,
 तुज शरणे प्रभु आव्यो;
 बुद्धिसागर प्रभुमहावीर,
 तुज चरणे चित्त लाव्यो हो राज !!! महावीर०--७

ॐ०--प०--धूपं य०--स्वाहा ॥

६०

॥ छठे दिक्परिमाणव्रते सप्तमीपुष्पपूजा ॥

दुहा.

छठुं दिक्परिमाणव्रत--, उच्चरतां सुख थाय;
 उर्ध्व अधः दिक्चारनुं, परिमाण ज पञ्चखाय. १
 उर्ध्व अधः तिर्छिदिशा--, उल्लंघे अतिचार;
 ओल्लुं अधिक दिशिमां करे, चोथो अतिचारधार. २
 दिशिमागें स्मृतिफेरथी, संदेह पांचमो जाण;
 पहेलागुणव्रतने ग्रहे, आतमगुण छे प्रमाण. ३

(अली साहेली गुरूवाणी सांभळवा उभी रहेने. ए राग.)

महावीरप्रभु त्रिशलानन्दन सर्व जगत् उपकारी.
 केवलज्ञानी परमेश्वर परमात्म तुज बलिहारी—
 तुज सदुपदेशो गुणकारी, आदरतां धन्य ते नरनारी;
 हणी कर्म लहे शिवसुख भारी. महावीर० १
 दिशिविदिशिमोहे फरवानुं,
 परिमाण करे मन ठरवानुं;
 निर्मोहे क्यारे न मरवानुं. महावीर० २
 प्रभु तुजपर मुज लगनी लागी,
 मिथ्या व्रान्ति दूरे जागी;
 आतम चढती वेळा जागी. महावीर० ३
 मुजभक्तिथी खेंच्या आवो,

६१

त्रिशलानन्दन व्हारे थावो;
 गुणव्रतमां गुणगण प्रगटावो. महावीर०-४
 पुष्पे पूजी प्रभुगुण धरशुं,
 उपयोगे शुद्धगुणो करशुं;
 बुद्धिसागरप्रभुपद वरशुं.- महावीर० ५
 ॐ०-५०-पुष्पं यजामहे स्वाहा ॥

॥ सप्तमभोगोपभोगविरमणव्रते अष्टमी
 अष्टमाङ्गलिकपूजा ॥

दुहा ।

ज्ञोगोपभोगथी विरमवुं, रुचिशक्तिअनुसार;
 श्रावकनुं व्रत सातमुं-;गुणकारी सुखकार. १
 अष्टमंगलथी पूजीए-;महावीरजिनभगवान् ;
 सप्तमव्रतने उच्चरीए-;बनीए बहु गुणवान्. २

(सिद्धचक्रपदसेवाकीजे. ए राग.)

पूजी महावीरप्रभु जयकारी,
 सर्वविश्व उपकारीजी;
 ज्ञोगोपज्ञोगविरमणव्रतसातमुं-;
 उच्चरे नरने नारी. वीरप्रभु सेवोजी.
 चोवीशमा जिनराज, अरिहंत देवोजी. १

६३

मदिरामासमधुने माखण--,
 रात्रीभोजन त्यागोजी;
 अभक्ष्यवावीश बत्रीशअनंतकाय,
 त्यागी धरो जिनरागो. वीरप्रभु० २

सचित्तप्रतिबद्ध अप्पोल दुप्पोल,
 तुच्छौषधि नहि खावीजी;
 ए पांचे अतिचारने टाळी--,
 लेजो मनडुं मनावी. वीरप्रभु० ३

अन्नादिक भोग उपभोग जाणो,
 गृहनारी परिभोगोजी;
 यथाशक्तिरुचिथो विरमीए--,
 गणवा भोगने रोगो. वीरप्रभु० ४

इंगाल वनने साडी चाडी--,
 फोडोकर्मने तजीएजी;
 दंत द्याख रस केशने त्रिष पंच,
 कुवाणिज्य न ज्ञजीए. वीरप्रभु० ५

यंत्रपीलन निर्लाछन दवदान,
 सरद्रहशोषण चारोजी;
 पांचमुं असतीपोषण वारो--,
 टाळो पन्नर अतिचारो. वीरप्रभु० ६

६३

वीश अतिचार प्रगटतां वारी,
 धरीए व्रत गुणकारीजी;
 बुद्धिसागर धन्य छे एवा,
 श्रावक व्रत गुणधारी. वीरप्रभु० ७
 ॐ परम० अष्टमंगलानि य० स्वाहा ॥

॥ आठमी अनर्थदंडविरमणव्रते नवमी
 अक्षतपूजा ॥

दुहा.

स्वार्थविना दंडावहुं, अनर्थदंड ते जाण;
 मनवचकायथी विरमहुं, आठमुं व्रत गुणखाण. १
 कुटुंब आदि कारणे, पापनां कर्म कराय;
 अनर्थदंड न ते कछो, स्वार्थिकदंड गणाय. २

(भमरा भूधरसें नाव्यो. ए राग.)

महावीरजिनवर पूजीजे,
 व्रत आठमुं भावधरी लीजे;
 अनर्थदंडे नहि मन दीजेरे,
 महावीर पूजो सुखकारी;
 व्रत आठमुं ग्रहो नरनेनारीरे. महावीर० १

६४

अपध्यानाचरितने परिहरीए--,
 चउविकथा पाप नहीं करीए;
 प्रमादाचरित दूषण हरीएरे. महावीर० २
 हिंसाप्रदान न आचरीए,
 पाप उपदेशथी पाछा फरीए;
 एम अनरथदंडने परिहरीएरे. महावीर०-३
 निजस्वार्थविना अनरथकारी,
 शस्त्रादिबूटी परिहारी;
 तजीए कर्मों उपद्रवकारीरे. महावीर०-४
 वेश्यादिक नाटक त्यागीजे,
 द्यूतादिकथी दूर भागीजे;
 गुण व्रत आदरमां लागीजेरे. महावीर० ५
 कंदर्प कौकुच्य वे अतिचारो,
 मुखरी अधिकरणने झट वारो;
 भोग अतिरिक्त अतिचारने वारोरे. महावीर० ६
 निंदी गहीं सहु अतिचारो,
 मानवभव फोगट नहीं हारो;
 बुद्धिसागर आतम तारोरे. महावीर० ७

ॐ प० अक्षतं यजामहे स्वाहा ॥

६५

नवमेसामायिकव्रतेदशमीदपर्णपूजा.

दुहा.

उत्कृष्टासमजावथी—, सामायिकव्रतधारः;
क्षणमां केवलज्ञानने, पामे नरने नार. ॥१॥

(तप पदने पूजीजे हो प्राणी, तप पदने पूजीजे. ए राग.)

सामायिकव्रत धारुं हो बेघडी;
सामायिकव्रत धारुं;
प्रभुमहावीर पूजी वंदी,
सावद्ययोग निवारुं;
मनवचतनुना दुःप्रणिधानना,
त्रण्य अतिचार वारु हो.....बेघडी० १
अनादर न्यूनकाले पाळवुं,
अनवस्थानने टालुं;
उपयोगशून्य ए पांच अतिचार—,
प्रगट्ट्या झट संहारु हो.....बेघडी० २
दश दश मनवच वार तनुना—,
बत्रीशदोष निवारुं;
समभावे आतमने भावुं,
आतमरूप संभारुं हो.....बेघडी० ३

६

६६

बे घनी सामायिकनी तोले,—
 इन्द्रनी पदवी न आवे;
 समतायोग छे सौमां मोटो,
 क्षणमां मुक्ति थावे हो.....बेघडी० ४

समतार्थी रागरोष निवारुं,
 आतममां मन वाळुं;
 समभावे प्रभुरूप बनीने,
 आप प्रभुरूप भाळुं हो.....बेघडी० ५

मानवभव मळियो नहिं हारुं,
 मोह अरिने मारुं;
 परपुद्गलमां म्हारुं न त्हारुं,—
 शुभाशुभजाव टाळुं हो.....बेघडी० ६

शुद्धातम उपयोगने धारुं,
 आपोआपने तारुं;
 बुद्धिसागर ब्रह्म संभारुं,—
 घटमां प्रजुने निहाळुं हो.....बेघडी० ७

ॐ परम० दर्पणं यजामहे स्वाहा ॥

६७

दशमे देशावकाशिकव्रते अग्यारमी- नैवेद्यपूजा.

दुहा.

देशावगाशिकव्रतधरी, चउदनियमसंखेव;
करतां निजगुण संपजे, नासे मोहकुटेव. ॥ १ ॥

(श्री श्रेयांसजिन अंतरजामी. ए राग.)

प्रभुमहावीर वंदी पूजी,—

दशमुंव्रत धरुं सारुंरे;

चउदनियम संक्षेपी प्रतिदिन,

तृष्णामोह निवारुंरे.

प्रभु० १

आणवणे, प्रेषवण बे अतिचार,

शब्दानुपाति टाळुंरे;

रूपानुपाती पुद्गलउत्क्षेप—,

पांच अतिचार वारुंरे.

प्रभु० २

अन्यव्रतोना नियमनो संक्षेप,

दशमा व्रतमां धारुंरे;

गंठसी आदि सर्व समाता,

विवेके व्रतने विचारुंरे.

प्रभु० ३

मोहमहाविषधरविष हणवा,

जांगुलोसमव्रत जाणोरे;

६८

अन्तरमा आतम उपयोगे,
 रही निश्चय व्रत आणोरे. प्रभु० ४
 मोहादिपरभावथी न्यारुं-;
 शुद्धातमपद प्यारुंरे;
 बुद्धिसागरघट उजियारुं,
 परमानन्दघट भाळुरे. प्रभु० ५

ॐ०--परम०--नैवेद्यं यजामहे स्वाहा ॥

अग्यारमी पौषधव्रते बारमी ध्वजपूजा.

दुहा. ॥

पौषधव्रत अगियारमुं-, उच्चरवुं गुरुपास;
 अतिचार पंच वारवा, शिक्षाव्रत शुभखास. १
 (सांभळशा मुनि संयमरागे उपशम श्रेणि चडियारे. ए राग.)

प्रभुमहावीर पूजी वंदी,
 ज्ञावथी पौषध करिणरे;
 निरुपाधिक आतमगुण समरी,
 भवसागरने तरिणरे. प्रभु० १
 सावद्ययोगने पञ्चखीज्ञावे,
 सामायिक उच्चरियेरे;



- सर्वथी देशर्था आहार पौषध,
तनुसत्कार परिहरीएरे. प्रभु० २
- सर्वथकी ब्रह्मचर्यनो पौषध,
उच्चरी निवृत्ति धरीएरे;
सर्वथकी अव्यापार पौषध,
उच्चरी सावद्य हरीएरे. प्रभु० ३
- जावदिवस अहोरात्री वा पौषध,
दुविध त्रिविध चंगेरे;
पौषधशाला मंदिर घरमां—,
उच्चरिये मनरंगेरे— प्रभु० ४
- उपवास वा एकासण करीने—
धर्मव्यापारने करीएरे;
दर्शनज्ञानचरणनी शुद्धि—,
आतमध्यानने धरीएरे. प्रभु० ५
- अप्पडिलेहिअ दुप्पडिलेहिअ—,
शय्या संथार जाणोरे;
अप्पमज्जिअ आदि शय्या—,
बीजो मनमां आणोरे. प्रभु० ६
- अप्पडिलेहिअ आदि उच्चार—,
पासवण भू धारोरे;

७८

अग्रमाजित आदि उच्चार-,
 पासवण भूमि विचारोरे. प्रभु० ७
 षोअणान्तोए पांचमो जाणो,
 पंचने झट परिहरीएरे;
 बुद्धिसागर आत्मरमणता--,
 पुष्टि पौषध वरीएरे. प्रभु० ८

ॐ प० ध्वजंय० स्वाहा.

वारमा अतिथिसविभागव्रते त्रयोदश- मीफलपूजा.

दुहा.

अतिथि संविभागव्रत-, बारसुं छे सुखकार;
 स्वर्गने शिवफल आपतुं, उच्चरीए हितकार. १
 हर्षाश्रु गदगद वचन, रोमांच विकसित थाय;
 मुनिवरने वहोवरावतां, श्रावक मुक्ति पाय. २
 सच्चित्त निक्षेपने पिधान, व्यपदेश मत्सर चार,
 कालातिक्रम पांचमो, पांच तजो अतिचार. ३
 पौषधपारणे व्रततणो,-आचरवो आचार;
 वहोरात्रीने जमे पछी-,श्रावकव्रतव्यवहार. ४

७१

(मनमंदिर आवोंगे कहूं एक वातलडी. ए राग.)

मुनिने दान देइरे, श्रावक हर्ष धरे;
 मेघनी पेटे वर्षेरे—,श्रद्धाप्रीति बळे. मुनि० १
 साखी.

विनति करी सद्गुरु मुनि, पधरावे निजघेर;
 आसन आपे बेसवा, माने आनन्दल्हेर. १
 हर्षोल्लासथी राचेरे—,चढताभावे घणो;
 गृहावासनो सारजरे—मुनिने दान गणो. मुनि०—२
 साखी.

मुनि देखी सामो जतो—दश डगलां पूठ जाय;
 आदरने सत्कारथी,—भक्तिनुं फल पाय.
 मुनि दाने न आवेरे—खाय न श्राद्ध खरो;
 छेवटे दिशि देखीरे—जमे निश्चयने धर्यो. मुनि० ३
 साखी.

प्रतिदिन मुनिवर श्रमणोने—,आहारादिक दान;
 देवामां संतोष नहि—,उत्तम श्रावक जाण. १
 श्रावकपुणिया पेटेरे, दानने देतो सदा;
 खेदादिदोष टाळेरे—आस्तिकजावे मुदा. मुनि० ४
 साखी.

तद्धेतुने अमृते—,दान दिये नरनार;
 दाने मुक्ति नक्की छे, शंका नहीं लगार,

७२

जीरणशेठनी पेठेरे, दाननो राग धरे;
 बुद्धिसागरदानीरे, श्रावक सुखडां वरे. मुनि० ५
 ॐ० प० फलं० य० स्वाहा ॥

कलश.

गायो गायोरे महावीर जिनेश्वर गायो.
 श्रावक द्वादश व्रतनी पूजा,
 विरची प्रभुगुण ध्यायो;
 श्रावकव्रतकल्पवृक्षतरुना—,
 पुष्पे प्रभुने वधायोरे. महावीर०-१
 प्रभुमहावीरपट्टपरंपरा—,
 तपगच्छजगगुरुरायो;
 हीरविजयसूरिपट्टपरंपरा—,
 नेमिसागर मुनिरायोरे. महावीर० २
 रविसमरविसागरगुरुमहिमा,—
 भारत सुजश छवायो;
 तसशिष्यसुखसागरगुरु संघमां,
 सत्यचारित्रे सुहायोरे. महावीर० ३
 संवत् श्रौगणिश अगन्यापेंशी—,
 माघपुनम विरचायो;

७३

सानन्दशहेरमां आनंदल्हेरे,
 संघमां हर्ष वधायोरे. महावीर० ४
 पूजा भणेने भणावे सुणेजे--,
 संघ सकल नरनारी;
 बुद्धिसागर मंगलमाला--,
 पामो आनंद भारीरे. महावीर० ५

॥ बारभावनानीपूजा ॥

परमप्रभु परमातमा, महावीरजिनवरदेव;
 गौतमआदिगणधरा, पूजुं करुं शुभसेव. १
 जिनवाणी सद्गुरु नमुं, नमुं संघ जयकार;
 बारजावनानी रचुं, पूजा शिवसुखकार. २
 प्रत्येकपूजा अष्टधा,—पूजा साधन सार;
 द्रव्यभावथी पूजना—,आतमशुद्धिकार. ३
 अनित्य अशरण भव अने, एकत्व ज अन्यत्व;
 अशुचि आस्रव संवरा-- ,निर्जराए होय सत्त्व. ४
 लोकस्वभावनी भावना-- ,बोधिदुर्लभ जाण;
 धर्मकथक अरिहंत छे, बार छे ए गुणखाण. ५
 वारे भावना जावतां, प्रगटे छे वैराग्य;
 वैराग्ये विरति थती, प्रगटे चारित्रत्याग. ६

१०

७४

त्यागथी केवलज्ञाननो--;आविर्भाव ज थाय;	
सर्वकर्मना क्षयथकी--;आतम मुक्ति पाय.	७
द्वादशभावनाए प्रभु--;पूजीजे हितकार;	
आतमशुद्धि झट थती, ज्ञानानन्दपद सार.	८
बारजावना जावतां, ममता अहंता जाय;	
आतम ते परमातमा, शांतरसे प्रगटाय.	९

॥ प्रथमअनित्यभावनापूजा ॥

दुहा.

अनित्य जग सहुवस्तु छे, तनधनने घरबार;	
लक्ष्मी विद्युत्सम क्षणिक, स्वप्ननी लीला धार.	१
तनु यौवन प्रजुता क्षणिक,--नदीना पूर समान;	
जलना परपोटा समो, कुटुम्बनो परिवार.	२
बाहिर सुखनां साधनो, क्षणमां त्रिणशी जाय;	
एवुं जाणी चेतीने--;प्रभु पूजे सुख थाय.	३

(समकितनुं मूल जाणीएजी. ए राग.)

अनित्य तनधन कारमुंजी--,
 पुत्रादिक परिवार;
 विजळी चमकारा समुजी--,
 यौवन निश्चय धाररे.--

७५

चेतन!!! अनित्य सघळुं जाण--
कर नहीं मोहने मानरे. चेतन!! अ० १

देखाती सहु वस्तुओजी--,
राज्यादिक घरवार;
पाणीपरपोटा समुंजी,
इन्द्रजालसम धाररे. चेतन०-२

जन्मनी साथे मरण छेजी--,
प्रगटे तेनोरे नाश;
अमर न को जगमां रह्याजी--
जडमां न सुखनी आशरे.-- चेतन !०-३

वाजीगर बाजीसमाजी,
जडविषयोना संबन्ध;
मोहथी अज्ञानीजनोजी,
कर्मबन्धथी अन्धरे.-- चेतन !० ४

सर्वसंयोग वियोग छेजी,
ममता अहंता शी ? जोय;
आसक्ति करवी नहींजी,
जाणे निर्लेप होयरे.-- चेतन० ५

जिनवरमहावीरे उपदिशीजी,
अनित्यज्ञावना वेश;

७६

भावतां मोहाहिविष टळेजी,
 जन्ममरण टळे क्लेशरे. चेतन० ६
 भरत बाहुबली शिव वर्याजी,
 अन्निका गजसुकुमाल;
 प्रत्येकबुद्ध शिवसुख वर्याजी--,
 आतममां मन वाळरे. चेतन०-७
 अनित्यज्ञावना ज्ञावीएजी--,
 पूजीए वीरजिनेश;
 बुद्धिसागर उपदिशेजी,
 रहे नहीं रागने द्वेषरे.....चेतन!०-८

ॐ० प० जलं० य० स्वाहा ॥

बीजी अशरणभावनापूजा.

शरणं नहीं संसारमां,—मरता जीवने कोइ;
 परमात्म एक शरण छे—,जोशो जोइने जोइ. १
 मृत्युथी कोनहीं रक्षतुं—,जन्म्या मरता खास;
 जाणी चार शरण करी—,पामो शिवपुरवास. २
 (विपला नव करशो उच्चाट के वहेला आवशुरें. राग.)
 जगमां प्रभुवण शरणं न कोय--,
 खरुं ए विचारशोरे.

७७

- चेतन !!! चेती झटपटं--,
आतमने उद्धारशोरे. **जगमां०-॥**
- इन्द्र चक्री सुरनर जे बळीया,-
मृत्यु आगळ थै गया गळीया;
उगरिया कोइ न-,
अमर रह्या नहि नजरे भाळशोरे. **जगमां० १**
- मृत्युघंटीमां जीवो दळाता-,
कोटिउपाये न को बची जाता;
जन्म्या तेने मरवुं,
निश्चय ए निर्धारशोरे. **जगमां० २**
- मंत्रतंत्र औषधिने योगे-,
मरणथकी बचशो नहि भोगे;
सिंहे ग्रहीवकरीवतु,
बेंबें करतां चालशोरे. **जगमां० ३**
- मातपिता सुतदारा न रक्षे-,
काल जगत्मां सहुने भक्षे;
माटे चेती चालो,
मोहे आयु न हारशोरे. **जगमां० ४**
- आतमवडे आतमने तारो,-
आपोआपने झट उद्धारो;

७८

मोहे आशाए अरे,
 आतमने न संहारशोरे. जगमां० ५
 मुनिअनाथीए आतम तार्यो,
 अशरणनावे संयम धार्यो;
 उत्तराध्ययने अनाथी--,
 मुनिजीवन संचारशोरे. जगमां० ६
 अशरणभाव धरी प्रभु पूजो--,
 जडमांही रीझो नहीं खीजो;
 बुद्धिसागर आतमधर्मनुं--,
 शरण स्वीकारशोरे. जगमां० ७

ॐ० प० जलं० य० स्वाहा

॥ तृतीया भावनापूजा. ॥

अनंतशः जवमां भम्यो--जव ग्रहीने अनंत;
 चारगतिमां आथड्थो--तार तार जगवंत. १
 पूजुं वंदु सेवुं हुं, ध्यावुं गावुं नित्य;
 सर्वसाक्षी जगमां बनी, राखुं तुजमां चित्त. २

(मन मोहनजी जगतात. वात मुणो जिनराजजीरे. ए राग.)

परमेश्वर महावीर देव--
 करुणा करीने मुज तारशोरे;

७९

समरुं वंदु गुण गाउं,—

शरण ग्रह्याने उद्धारशोरे.

परमेश्वर०—१

जन्म मरणे भयों संसार--,

अनेकरोगदुःखे ज्योरे;

एकेन्द्रो आदि ग्रही जव—,

वार अनंती जवमां फ्योरे.

परमेश्वर० २

चउदराज एकेकप्रदेश—,

अनंतजन्ममरणो कर्योरे;

एकेकगतिमां अनंत—,

सगपण सहज्जीवोथी धर्योरे.

परमेश्वर० ३

देवनरतिरिनरकमझार--,

पुण्यने पापे उपज्यो मर्योरे;

लक्षचोराशीयोनिमझार,

अनंतवार दुःखे सड्योरे.

परमेश्वर० ४

मनुभवमां सद्गुरुसंग—,

पामी प्रभु तुज शरणुं ग्रह्योरे;

हवे तार तार प्रभु तार,

दुःख न जाए सघळुं सड्योरे.

परमेश्वर० ५

देवसद्गुरुधर्माधार,

रत्नत्रयीसाधन आदर्युंरे;

८०

विषयोमां न सुखनो राग,
 तुजप्रेमे मुजदिलडुं भर्युरे. परमेश्वर० ६
 थावच्चाइलाचीपुत्र--,
 महाबलजावनारसज्जर्योरे;
 अवन्तीसुकुमाल आदि--,
 संसारसागर झट तर्यारे. परमेश्वर० ७
 प्रभु लागी तुजथी लगन--,
 एक खरो तुज आशरोरे;
 बुद्धिसागरप्रभुमहावीर--,
 आतम माह्यरो उद्धरोरे. परमेश्वर० ८

ॐ० प० जलं० य० स्वाहा ॥

चतुर्थीएकत्वभावनापूजा.

दुहा.

एकलो आव्यो आतमा--,एकलो परजव जाय;
 कोइ न साथे आवतुं--,जाणे ते सुख पाय. ॥१॥
 शुद्धातम एक सत्य छे, बाकी जड भिन्न जाण;
 दर्शनज्ञानचरणमयी, आतम एक प्रमाण. ॥२॥
 पुष्पादिके प्रभु पूजीने--,आतमद्रव्य एकत्व;
 जावना जावतां भव्यजन, प्रगटावे शुद्धसत्त्व ॥३॥

८१

(दशमे देशवगासिकेरे, ए राग. तेजे तरणिथी वडोरे ए राग.)

वीरजिनेश्वर उपदिशेरे,
 आतम एकलो जाण;
 एकलो आव्यो एकलोरे—,
 जातो निश्चय मान हो. आतम !
 एकत्वभाव विचारशोरे,
 आपोआपने तारशोरे;
 एकला जवुं निर्धार. १
 माटीनी काया माटीमांरे,
 मळती निश्चय धार;
 तनु आदिरूपे ग्रह्यांरे,
 पुद्गलमायाजाळ हो. आतम !!! एकत्व०—२
 पुद्गल ग्रहीने छंडियांरे,
 जगमां अनंतीवार;
 अनंतरूपे ग्रह्यां तज्यांरे—,
 पुद्गलस्कंध अपार हो. आतम० ३
 दृश्य अदृश्य जड खेल छेरे,
 आतम भिन्न विचार;
 पुद्गलमाया कारमीरे—,
 त्यां मुंझे ते गमार हो. आतम० ४

११

८२

कर्मसंयोगे द्वैततारे—,
 अद्वैत आप विचार;
 कनककामिनीमोहथीरे—,
 आयु न एले हार हो. आतम० ५

कर्म संयोग वियोगछेरे—,
 ए सहु पुदल खेल;
 म्हारुं त्हारुं मोहवृत्तिथीरे—,
 ममताअहंता मेल हो. आतम० ६

कोनो न हुं को न माह्यरुंरे—,
 एकत्वभावना भाव !!!;
 सत्यने समजी आतमारे,
 मोहमायाने हठाव हो. आतम० ७

नमिराजर्षि शिववर्यारे,
 भावना भावी उदार;
 बुद्धिसागरबोधथीरे—,
 चेतो नरने नार हो. आतम० ८

ॐ० प० जल० य० स्वाहा ॥



८३

पंचमी अन्यत्वभावनापूजा.

आतमथी तनु आदि सहु—,छे अन्यत्व ए भाव !!!,
मोहाहिविषजांगुली; अन्यत्वभावना दाव ॥१॥

अन्यत्वभावना भावीए, आतमशुद्धिकार;
अरिहंतमहावीर पूजीए—,लहीए शांति अपार ॥२॥

पुद्रलजडमायासकल—, छे आतमथी अन्य;
भरत अट्टाणु भाइयो,—मुक्तिवर्या धन्य धन्य ॥३॥

(शुं कथुं कथनी मारी हो राज !!! शुं कहुं कथनी मारी. ए राग.)

प्रभु महावीरजिनवर तारो हो राज !!!,

महावीर जिनवर तारो;

म्हने आशरो एक छे त्हारो हो राज!!!-महावीर०॥

मनतनयौवनधन नहीं म्हारुं,—

पुत्रकुटुम्ब सहु न्यारुं;

जडमायामां म्हारुं न त्हारुं,—

अन्यत्वभावे विचारुं हो राज ! !-..... महावीर० १

घांचीनी घाणीना वृषभनीपेठे—,

चाल्यो ठामनो ठामे;

आस्रवकर्म करी अथडायो—,

पडियो मोहना भामे हो राज !!!-.....महावीर०॥ २

८४

म्हारुं त्हारुं मोह अंधारुं—,
 प्यारुं गण्युं थयुं न्यारुं;
 सद्गुरुज्ञाने थयुं उजियारुं,—
 हवे न मोहथी हारुं हो राज !!! महावीर०- ३
 जडमां म्हारुं मानी भूल्यो—,
 फोगट फूलण फूल्यो;
 भवदरियामां मोहे डूल्यो,—
 जडना मोहे झूल्यो हो राज !!!- महावीर० ४
 मरुदेवाए मोह निवारी—,
 अन्यत्वभावना धारी;
 सगरचक्रीए मोह निवारी,
 मुक्ति लही सुखकारी हो राज !!!-.... महावीर०-५
 जर जमीन जोरु सह्यु न्यारुं—,
 कोइ न साथ थनारुं;
 आतमवडे आतम उद्धारुं—,
 शरणुं त्हारुं स्वीकार्युं हो राज !!! महावीर०-६
 जडद्रव्योथी आतम न्यारो,—
 ज्ञानानन्द आधारो;
 बुद्धिसागर वीरजिनेश्वर—,
 प्यारामां तुं प्यारो हो राज !!! महावीर० ७
 ॐ प० जलं० य० स्वाहा ॥

६५

॥ छट्टी अशुचिभावनापूजा ॥

अशुचिथी तनुचर्युं—,त्यां शुं ? करवो राग;
 तनुरूपमां शुं राचवुं—,ज्ञानी धरे वैराग्य. ॥ १ ॥
 नरनारी नववार छे, अशुद्धिद्वार विचार;
 तनुनो मोह निवारीने; धर परमेश्वर प्यार. ॥ २ ॥
 चिदानंद आतमसमो,—पवित्र नहि जग कोय;
 जोगादिक अशुचिभर्या—,समजे मोह न होय॥३॥

(॥ भावना मालती चुसीए ॥ ए राग. विरतिए सुमति धरी
 आदरो. ए राग.)

वीरजिनेश्वर पूजीए—,
 मुंझीए नहीं देहमांहरे;
 चामडोरागे न राचीए—,
 माचीए नहीं जडमांहरे. वीरण १


देहना रूपे न रीझीए,—
 भींजीए वैराग्यमांहरे;
 देह पवित्र न फोड़नुं—,
 देह अशुचि जिहां त्यांयरे. वीरण २

कायागारव नहीं कींजीए,
 सीझीए धरी गुणरागरे;

८६

देहने साधन धारोए,— जाळीए ब्रह्म वडभागरे.	वीर० ३
देह अध्यासने टाळीए—, वाळीए कामनुं बीजरे; देहथी भिन्न निज भाळीए—, वाळीए ब्रह्ममां रीझरे.	वीर० ४
भोगनी वृत्तिने वारीए, हारीए नहीं शुद्धधर्मरे; आत्मतत्त्व विचारीए, धारीए जिनतनुकर्मरे.	वीर० ५
शुद्धआत्ममहावीरप्रभु—, सत्य पवित्र प्रमाणरे; प्रभुरूप थै प्रभु पूजीए, थाय आत्म भगवानरे.	वीर० ६
भोजनभरी हेम पूतळी—, पामिया बोधमल्लिमित्ररे; बुद्धिसागरप्रभुभक्तिथी— कीजीए आत्मपवित्ररे.	वीर० ७

ॐ प० जलं० य० स्वाहा ॥



૮૭

સત્તમી આસ્રવભાવનાપૂજા.

સત્તમી આસ્રવભાવના—,ભાવે જે નરનાર;
આતમ તે પરમાતમા, યાવે નિશ્ચય ધાર. ॥૧॥

આસ્રવભાવના ભાવતાં, થાતો આસ્રવ ત્યાગ;
વૈરાગી આતમ બને—,થતો સિદ્ધ વડભાગ. ॥૨॥

જલ્લચન્દનપુષ્પાદિકે, પ્રભુ પૂજી નરનાર;
આસ્રવજ્ઞાવના જ્ઞાવતાં, શુદ્ધ થતાં નિર્ધાર. ॥૩॥

(રઘુપતિ રામ હૃદયમાંહી રહેશોરે. એ રાગ)

જિનેશ્વર વીરજો જયકારીરે—,
પૂજું વન્દુ જગ ઉપકારી. જિને.
રાગ રોષે કર્મ બંધાયરે—,
જીવ ચારગતિ જટકાયરે;
ટલે આસ્રવ શિવપદ થાય. જિ૦ ૧

મિથ્યા અવિરતિ કષાય યોગરે—,
કર્મવન્ધના હેતુ સંયોગરે;
જાણો આસ્રવકર્મનો ભોગ. જિ૦ ૨

દ્રવ્યને જ્ઞાવ આસ્રવ ટાલોરે—,
રાગરોષપરિણામ ટાલોરે;
કામાદિમોહવૃત્તિયો ટાલો. જિ૦ ૩

८८

परमेश्वर महावीर ज्ञाखेरे—,
 रागरोष न मनमां-राखेरे;
 परमानंदरसने चाखे. जि० ४

रागरोषे नहीं परिणमवुंरे—,
 शुद्धनिजरूपमांही मळवुंरे;
 तेथी आस्रवथी होय टळवुं.—जि० ५

सहु आस्रवभेद विचारीरे—,
 द्रव्यभावास्रवने निवारीरे;
 लहे मुक्ति ज्ञवी नरनारी. जि० ६

शुभ आस्रव धरी शुद्धभावेरे—,
 परिणमतां निलेंप ज्ञावेरे;
 बुद्धिसागर सिद्धता पावे. जि० ७

ॐ० प० जलं० य० स्वाहा ॥

अष्टमीसंवरभावनापूजा.

संवरज्ञावना भावीने—,सिद्धया जीव अनंत,
 ज्ञावी अनंता सिद्धशे—,भाखे जिनजगवंत. ॥१॥

संवरभावना ज्ञावीने—,अइमुत्तामुनि सिद्ध,
 नागकेतु शिवपद वर्या, पाम्या शाश्वतऋद्धि. ॥२॥

संवरभावे पूजीए, शुद्धातमअरिहंत;
 अष्टप्रकारे पूजतां, स्वयं शुद्ध जगवंत. ॥३॥

८९

(मेरुशिखर नहरावे हो सुरपति मेरुशिखर नहरावे. ए राग.)
संवरभावना भावो हो आतम ! संवर भावना भावो.

महावीर जिनवर वंदी पूजो—,

महावीरसम निज भावो;

आतम पूरण शुद्धमहावीर—,

आपोआप सुहावो हो.

आतम० १

मिथ्यात्व अविरति योग कषायने—,

निज उपयोगे हठावो;

आतमना उपयोगे क्षण क्षण,

रहेवुं निश्चय लावोहो.—आतम !!

संवर०—२

संवरना सत्तावन भेदो—,

आस्रवयोग हठावो;

समितियुक्तिपरिषहयतिधर्मने—,

भावना चरणे सुहावो हो. आतम !

संवर०—३

भावना बार ने चार ने भावो,—

आतममां लय लावो;

समकितपूर्वकसंवरकरणी—,

करीने मुक्ति पावो हो.

आतम० ४

आतमना उपयोगे समपणुं—,

साक्षोजावे सुहावो;

१२

९०

वीतरागभावे परिणमीने—,
निःकर्मा थै जावो हो.

आतम० ५

मेतारज बाहुबलि सुकोशल—,
पेठे मन स्थिर लावो;
स्कंधकसूरिना पांचसे शिष्यो—,
पेठे समता पावो हो,

आतम० ६

शुद्धातम उपयोगे निर्वेप—,
आपोआपने जावो;
स्वाधिकारे कार्य करंतां,
निष्क्रिय अंतर थावो हो.

आतम० ७

संवरभावे आतमशुद्धि,—
करवामां लय लावो,
बुद्धिसागरब्रह्मस्वरूपे,—
आतमने प्रणमावो हो.

आतम० ८

ॐ प० ज० य० स्वाहा ॥

॥ नवमीनिर्जराभावनापूजा ॥

द्वादशधा तप निर्जरा—,तत्त्व कर्मक्षयकार;
कर्मनिकाचित झट टळे, मुक्ति लहे नरनार. ॥१॥
सर्वकर्म क्षय जे करे—,तप ते तपो नरनार;

९१

वीरप्रभु जिन तप तप्या- , धन्नादिक अनगार. ॥२॥
 ज्ञाननुं फल छे निर्जरा- , निर्जराथी छे मुक्ति;
 पच्चाशलब्धि उपजे- , निर्जरा भावना युक्ति. ॥ ३ ॥

(प्रभु सुप्रतिरे सुमति आपो प्यारा. मुज प्राणतणा
 आधारा. ए राग.)

प्रभु महावीररे मुज मन मन्दिर स्वामी,
 पूजुं वंदु आतमरामी-॥

इच्छारोधकतप तप्या भारीरे,-
 बारवर्ष अधिक हितकारीरे;

शुक्रुध्यानेरे केवल लही उपकारी- ,
 थया सर्व जगत् हितकारो. प्रभु० १

बहिरन्तर षड् षड् भेदरे,
 जावो भावना धारी उमेदरे;
 राग रोषने टाळो खेदरे,
 तप तपशोरे अंतर बनो निष्कामो;
 मुक्तिवरवाना थै कामो. प्रभु० २

सेवाज्ञक्तिज्ञानना योगेरे,
 अशुजवृत्तिकर्मवियोगेरे;
 मोक्ष बुद्धेरे सकामतप जयकारी,-
 धर्मकर्म मुक्ति थनारी. प्रभु० ३

९२

समकितीनी तप करणीरे,—
 मोक्षमन्दिरनी निःसरणिरे;
 शुद्धउपयोगे सहु करणीरे,
 जवसागरमांहि तरणीरे;
 निष्कामेरे कर्मयोगी नरनारी—,
 कर्म खेरवे समताधारी.

नमु० ४

सुख दुःख उदयमां आवेरे,—
 जश अपयश रोगादि थावेरे;
 पुण्यपापविपाकमां भावेरे,—
 समयोगेरे निर्जरा आत्मस्वजावे;
 शुद्ध आतमपरिणामदावे.

प्रमु० ५

घोरपरिषह उपसर्ग आवेरे,—
 समभावे आतमभावेरे;
 शुद्धातम उपयोगदावेरे;
 इन्द्र चक्रीनीरे पदवीनी इच्छा न थावे—,
 शुद्ध आतमपद प्रगटावे.

प्रमु० ६

स्वाधिकारे प्रवर्ते विचारीरे,
 निष्कामे नरने नारीरे;
 ममताने अहंता वारीरे,
 सर्वजीवो आतमसमधारीरे;

९३

आपो आपजरे सिद्ध बने निर्धारी,
बुद्धिसागर आनन्दकारी.

प्रभु० ७

ॐ० प० ज० य० स्वाहा ॥

॥ दशमीलोकस्वरूपभावनापूजा ॥

लोकस्वरूपनी जावना,—जावंतां शिव थाय;
समकितदृढ श्रद्धा यती,—मिथ्यामति दूर जाय.॥१॥

लोक अलोक विचारणा,—जैनागम अनुसार;
देवगुरुने धर्मनी,—श्रद्धा मुक्तिद्वार. ॥२॥

जैनागमश्रद्धाबळे,—धर्माराधन थाय;
प्रतिकुलसर्वकृतर्कने,—छंटे शांति सुहाय ॥३॥

(सिद्ध चक्रवर सेवा काजे. ए राग.)

केवलज्ञानी महावीर जिनवर,—पूजोए उपकारीजी;
लोकालोक स्वरूप प्रकाशयुं—,

सद्दहीए हितकारी;

महावीर पूजोजी. दोष अढार रहित—;

एवो न बीजोजी.

महावीर पू० १

षड्द्रव्यात्मक लोकस्वरूप छे—,

वैशाखसंस्थान जाणोजी;

९४

अदृश्य सूक्ष्मविषयमां श्रद्धा—,
साची मनमां आणो.

महावीर०—२

वीतरागप्रभु केवलज्ञानी—,
जूठ कदापि न भाखेजी;
एवी श्रद्धाधी आतमबल—,
प्रगटे भवी रस चाखे.

महावीर० ३

परोक्षसूक्ष्मविषयमां श्रद्धा—,
धारीने नरनारोजी;
देवगुरुने धर्मनी सेवा,
भक्ति करे सुखकारी.

महावीर० ४

देवगुरुने धर्मविषयमां—,
श्रद्धावण नहीं आरोजी;
लोक अलोकनी श्रद्धा धारी,
लोकस्वरूप विचारो.

महावीर० ५

चउदराजलोक असंख्यप्रदेशो,
अनंतजन्मने मरणेजी;
वार अनंती फरइया जवमां,
आव्यो प्रभु तुज शरणे.

महावीर०—६

परमेश्वरमहावीरजिनेश्वर,
तुज शरणुं में स्वीकार्युंजी;

९५

बुद्धिसागर परमानन्दमय—,
तुजस्वरूप दिल धार्युं.

महावीर०-७

ॐ० प० जलं० य० स्वाहा ॥

॥ अग्यारमी बोधिदुर्लभभावनापूजा ॥

कंचनकामिनी इन्द्रनी,—पदवी मल्लवी स्हेल;
जिनवरजाषितधर्मनी,—प्राप्ति छे मुश्केल. ॥ १ ॥
राज्यादिक सहु सुलज छे, दुर्लभजिनवरधर्म;
सम्यग्दृष्टिवोधिनी,—प्राप्तिथो शिवशर्म. ॥ २ ॥
समकित्ती नरनारियो, करे कुटुम्ब प्रतिपाल;
अंतर निर्लेपी रहे, धाव रमाडे ज्युं बाल. ॥ ३ ॥
बोधिदुर्लभ भावना,—भावंतां नरनार;
दर्शन ज्ञानने चरणनी,—प्राप्ति लहे निर्धार. ॥ ४ ॥

(उत्तम फल पूजा कीजे. ए राग.)

जिनवर महावीर पूजीजे—,
प्रभु ध्याइ दिल रीझीजे;
तुषीजे नही जडमां रीझीजेरे—,
बोधिदुर्लभ भावीजे;
अही बोधि प्रमाद हठावीजेरे—,

जिनवर महावीर पूजीजे. १

९६

दुर्लभ नरभव दश दृष्टांते,—
 पामी न पडो मिथ्यात्रान्तें;
 समकित लहो रहो निर्भ्रान्तरे. जिनवर० २

आर्यदेशमां जन्म भलो—,
 श्रावककुलमां जन्म खरो;
 धर्मसामग्रीयोग धरोरे. जिनवर० ३

मिथ्याबुद्धिने परिहरोए—,
 सत्संगत क्षण क्षण करोए;
 मोहना मार्या नहि मरीएरे. जिनवर०-४

शुद्धात्मनां मन दीजे—,
 प्रभुनुं स्मरण क्षण क्षण कीजे;
 आनन्दरस अमृत पीजेरे. जिनवर० ५

वीर बनी वीर समरीजे—,
 जन्म धर्यो नहीं हारीजे;
 वारंवार न जन्मीजेरे. जिनवर० ६

बोधि पामीने रीझीजे—,
 आत्मने प्रकट प्रभु कीजे;
 जयडंको जग वगडावीजेरे. जिनवर० ७

विजतेजे मोति परोवीजे,

९७

भावनाभावी मन वश कीजे;
बुद्धिसागर सद्गुण लीजेरे. जिनवर० ८

ॐ० प० ज० य० स्वाहा ॥

वारमी धर्मकथकभावनापूजा.

अरिहंत सर्वज्ञ छे,—धर्मकथक जिनराज;
अर्हन् आज्ञाधारको,—सद्गुरुमुनिवरराज. ॥१॥
षड्द्रव्यो ज प्रकाशियां,—नवतत्त्वो जैनधर्म;
मुनि श्रावक बे धर्मने—उपदेश्या शिवशर्म. ॥२॥
जैनधर्मने उपदिश्यो,—सर्वविश्व हितकार;
केवलीभाषित नान्यथा,—निश्चय ए निर्धार. ॥३॥

(आनन्द क्यां वेचाय चतुरनर. ए राग.)

अरिहंत छे सुखकार—,सर्वे अरिहंत छे सुखकार:
केवलीभाषित जैनधर्म सत्य,
सर्वविश्व हितकार;
दानशीयलतपभावनाचेदे,
श्राद्धयतिधर्म धार. सर्वे० १

१३

९८

अहिंसा सत्य अस्तेय संतोष—,
 ब्रह्मचर्य सुखकार;
 दुर्गुणदोष ने व्यसननिवृत्ति—,
 ज्ञानने जक्ति उदार.

सर्वे० २

आतमशुद्धिकारक उपयोग—,
 धर्मविचाराचार;
 दर्शनज्ञानने चारित्रधर्म छे—,
 तथा तेनो व्यवहार.

सर्वे० ३

गृहस्थ त्यागी स्वाधिकारे—,
 ज्ञाख्या धर्माचार;
 स्वाधिकारे स्वधर्माराधे—,
 तरतां नरने नार.

सर्वे० ४

धर्मसाधनवण जीवुं निष्फल,
 धर्मत्याग दुःखकार;
 प्राणपडे पण धर्म न छंडवो,—
 श्रद्धा धरो ए उदार.

सर्वे० ५

धर्मनाप्ताषक सर्वज्ञ अरिहंत,
 जूठ न बोले लगार;
 वीतराग अनुसारीसंतो—,
 जिनवाणी आधार.

सर्वे० ६

१९

समवसरणमां महावीरदेवे—,
 धर्म कथ्यो सुखकार;
 बुद्धिसागर पूजो वंदो,
 अरिहंतने नरनार.

सर्वे० ७

कलश.

(आशावरी.)

(अवसर बेर बेर नहीं आवे. ए राग.)

भावना पूजाए गाया—
 महावीर भावना पूजाए गाया ॥
 बारजावना भावतां आतम—,
 आनन्दगुणने पाया;
 गामगोधावी जावनापूजा—,
 रचतां मोह हठाया. महावीर० १

संवत् ओगणिस अग्न्याऐंशी—,
 विहार करंतां आया;
 माघवदितेरसजौमवारे,
 पूजा रची प्रभु गाया. महावीर० २

वीरजिनेश्वर मन्दिर मोडुं—,
 वीरप्रभुने ध्याया;

१००

वीरजिनेश्वरपट्टंपरंपरा—,
तपगच्छ छे शिवदाया.

महावीर० ३

पट्टंपरंपरानोमिसागरगुरु,—
रविसागरगुरुराया;
श्रीसुखसागरगुरुसुखकारी,
गुरुकृपा सुखदाया.

महावीर० ४

भावनापूजा भणशे जे गुणशे,
ते थाशे शिवराया;
बुद्धिसागरसर्वसंघमां,—
प्रगतो गुणसमुदाया.

महावीर० ५

ॐ० प०--जलं० य० स्वाहा !!



१०१

श्रीमहावीरपरमेश्वरपंचकल्याणक- पूजा.

- परमेश्वर परमात्मा, वर्धमान जिनराज;
प्रभु महावीर पूजतां, प्रगटे प्रभुसाम्राज्य. १
- प्रभुना गुणने गावतां, आतमगुण प्रगटाय;
आतम ते परमात्मा, सिद्धबुद्ध जिन थाय. २
- च्यवन जन्म दीक्षा अने, चोथुं केवलज्ञान;
निर्वाण पांच ए जाणवां, कल्याणक गुणखाण. ३
- प्रभुमहावीरदेवनां, पांच भलां कल्याण;
कल्याणकपूजा करे, आप बने भगवान्. ४
- कल्याणकभक्तिबळे,—निज प्रगटे कल्याण;
कल्याणकना महोत्सवे,—आतमशुद्धि प्रमाण. ५
- अष्टप्रकारी पूजना, प्रत्येक पूजा दीठ;
कल्याणकभक्तिबडे,—नासे सघळा रिष्ट. ६
- प्रभुगुणपूजायोगथी, निजगुण प्रगटे खास;
सेवाभक्ति प्रतापथी—ज्ञानानन्दविलास. ७

१०२

॥ प्रथम च्यवन कल्याणकपूजा ॥

दुहा.

समकितने पाम्या पछी, भवनी गणतरी थाय;
तीर्थकरपद पामवुं—,समकितयोगे सुहाय. ॥ १ ॥

सम्यग्दृष्टि थया पछी, देवगुरुपर प्यार;
धर्मनी श्रद्धा प्रगटती—,टळे मिथ्या अंधकार. ॥२॥

साधु श्रावक धर्मीपर—,प्रगटे अपूरवराग;
सांसारिकसगपण सहु—,मिथ्या लागे, त्याग. ॥ ३ ॥

प्रथम नयसार ग्रामणी,—साधुसंगे धर्म;
पाम्यो समकित निर्मळुं—नाटुं मिथ्याकर्म. ॥ ४ ॥

साधु सेवा भक्तिथी—,समकित्ती थयो गुणरंग;
पञ्चीशमा मनुजवविषे, चारित्री थयो चंग. ॥ ५ ॥

(पुस्कलवइ विजयो जयोरे. ए राग.)

पञ्चीशमा भवमां थयारे—,

नन्दन शुभ अन्नगार;

चारित्र ग्रही तपने तपेरे,

भावे भावना चाररे....

मुनिवर!!! नन्दन धन्य अवतार.

तपथी मंगलमालरे.

मुनिवर० १

१०३

एकलाख ऐंशी हजारनेरे—, छसें पिस्तालीश सार; मासखमण आदितप करीरे—, समता धरे सुखकाररे.	मुनिवर० २
धर्मरसी जगजीवनेरे—, करवा वीर्योह्लास; भावदया दिख उह्लसीरे—, उत्कृष्टी गुणवासरे.	मुनिवर०-३
आतमरूपे परिणमेरे,— धर्मध्यान धरी बेश; संयममां शूरता धरीरे—, टाले मोहना क्लेशरे.	मुनिवर० ४
सर्वजीवोने उद्धारवारे—, उत्कृष्टो परिणाम; प्रगट्ठो तीर्थकरनामनेरे—, बांध्युं रागे तामरे.	मुनिवर० ५
चारित्रशुभपरिणामधीरे—, प्राणतस्वर्ग मझार; वीशोदध्युपम आउखेरे, उपन्या देव उदाररे.	मुनिवर० ६



१०४

ढाल बीजी.

(चौमासी पारणुं आवे. ए राग.)

थया प्राणत सुर अवतारी—, भोगवे शातावेदनी भारी; मतिश्रुत अवधिज्ञानधारीरे—, महावीर प्रभु जयकारी. धन्य तीर्थकर सुखकारीरे.	महावीर० १
जंबुद्वीपे दक्षिणभरते—, क्षत्रिकुंड नगर शुच वर्ते; राजा सिद्धारथ गुणी वर्तेरे.	महावीर० २
त्रिशला राणी गुणखाणी—, पतिवृता निर्मल वाणी; दंपती जैनधर्मी ज्ञानीरे.	महावीर० ३
आषाढी सुदि छठीए आव्या—, त्रिशलाकुखमांहि सोहाव्या; सुरनर सहु हर्षने पायारे.	महावीर० ४
चौदस्वप्नने देखे राणी—, त्रिशला बहु हर्ष भराणी; तीर्थकरनी ए निशानीरे.	महावीर० ५

१०५

स्वप्नपाठकने बोलाव्या,—

चौदस्वप्नना जाव जणाव्या;

बुद्धिसागर प्रभु परखायारे. महावीर० ६

ॐ ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्म-
जरामृत्युनिवारणाय श्रीमते महावीरजिनेन्द्राय
चववनकल्याणके जलं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं,
अक्षतं, नैवेद्यं, फलं यजामहे स्वाहा ॥

द्वितीया श्रीमहावीरजन्मकल्याणक- पूजा ॥

त्रिशल्लाराणी स्नेहथी, सुणीने स्वप्ननो हार्द;
तीर्थकरप्रभु प्रगटशे—सांजळो लही आल्हाद. १

विधिपूर्वक खावेपोवे—,वैदकशास्त्रानुसार;

धर्मकर्म प्रेमे करे—, दान करे उपकार, ॥२॥

साधु संतने दान दे—,भय शोक द्वेषनो त्याग;

योग्याहारविहारथी—,धारे धर्माचार. ॥३॥

(अवसर बेर बेर नहीं आवे. ए राग. आशावरी.)

जिनेश्वर महावीर जगजयकारी—,

त्रण्यभुवन उपकारी.

जि० ॥

१०६

- गर्जविषे पण जननीजक्तिए,
स्थिर थया दुःखहारी;
उलटुं मातने दुःख थवाथी—,
करी प्रतिज्ञा विचारी. जिनेश्वर० १
- माता पिता जीवे ज्यांसुधी—,
दीक्षा न ग्रहु अनगारी;
द्रव्यने भावदयाजंकारी—,
सर्वविश्वहितकारी. जिनेश्वर० २
- चैत्रसुदितेरसमध्यरात्री—,
जन्म्या आनन्दकारी;
त्रण्यभुवनमां थयुं अजवाळुं,
आनन्द हर्ष अपारी. जिनेश्वर० ३
- छप्पन्नदिशिकुमरी तिहां आवी,
शुश्रिकर्म करे निर्धारी;
घोसठ इन्द्रादिक सुरगिरिपर,
करे प्रभुस्नात्रने जारी. जिनेश्वर० ४
- नाचे राचे हर्षे गावे,
प्रचुने निजघेर धारी;
माता पासे मूकी सुरवर,
नंदी उत्सव करे भारी. जिनेश्वर० ५

२०७

ढाल बीजी.

(प्रभु सुमतिरे सुमति आपो प्यारा. ए राग.)

प्रभु जन्म्यारे शांति आनंदकारी,
जग शांति बह्युं निर्धारीः ॥

चारतमां उत्सव भारीरे,
देशोदेश नगर सुखकारीरे;
थता उत्सवरे जनता हर्ष अपारी,
क्षत्रीकुंड उत्सव जयकारी. प्रभु० १

वर्धमान नाम शुभ आप्युंरे,
मातपिताए हर्षे थाप्युंरे;
सुरे महावीरनामने स्थाप्युंरे,
प्रभुरूपनेरे बलनी न करे कोइ होडी;
मळे सुरपति कोडाकोडी. प्रभु० २

लहे शांतिश्वास नरनारीरे,
प्रगट्यां जग मङ्गल चारीरे;
मोह अज्ञानरे—तम हरवा निर्धारी—,
प्रभु रवि प्रगट्या उपकारी. प्रभु० ३

कल्पवृक्षपेर प्रभु वाधेरे,
जगजीवोनां वांछित साधेरे;

१०८

क्रीडा करतारे आनंदथीज विचरता,
 लण्यज्ञानी प्रभु शुभ करता. प्रभु० ४

प्रभु शाळामां लीलाए जावेरे,
 गृहगुरुने त्यां समजावेरे;
 शब्दशास्त्रनी रचना थावेरे—
 त्यां इन्द्रेरे आवी प्रभुने वखाण्या,
 सर्वलोकोए सर्वज्ञ जाण्या. प्रभु० ५

प्रभु यौवनवयने पावेरे,
 यशोदासाथ लग्न ज थावेरे;
 त्रिज्ञानीरे महावीर प्रभु गृहवसिया—,
 बुद्धिसागर शिवसुखरसिया. प्रभु० ६

ॐ ह्रीं श्रीं परम पूरुषाय, परमेश्वराय जन्म-
 जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय जन्म
 कल्याणके जलं० य० स्वाहा

॥ त्रीजी महावीरदीक्षाकल्याणकपूजा ॥

दुहा.

नंदिवर्धन मोटका,—भाइ सद्गुण खाण;
 बेन सुदर्शना सद्गुणी, सुपार्श्व काका जाण. ॥१॥

१०९

पुत्री गुणी प्रियदर्शना, चेटक मामा सुजाण;
अष्टावैश वर्षे थयां, मातपिता निर्वाण. ॥ २ ॥

नंदिवर्धन आग्रहे, घरमां रह्या बे वर्ष;
दान संवत्सरी देइने, साधे गुण उत्कर्ष. ॥ ३ ॥

(मल्लिजिन वंदीए भवी भावेरे, ए राग. रहो मुनि फागण
मास चोमासुरे. ए राग.)

पहेली ढाल.

जिनेश्वर वीरजी जयकारीरे,
मोह छंडी दीक्षा धारी. जि० ॥

त्रीशवर्षसुधी गृह वसियारे,
संवत्सरीदाने उल्लसियारे;
थया चारित्र लेवा रसिया. जिनेश्वर० १

सुरनरवरकोडाकोडीरे,--
इन्द्र चोसठ बेकर जोडीरे;
वंदे पूजे आवी दोडी. जिनेश्वर० २

करे दीक्षोत्सव जयकारीरे,
चन्द्रप्रभा शिबिका सारीरे;
चढ्या वरघोडे प्रभु हितकारी. जिनेश्वर० ३

११०

गावे गोरीओ दीक्षागानोरे—,
 पुष्पवृष्टि करे सुरो जाणोरे;
 दीक्षा वरघोडो मझानो. जिनेश्वर० ४
 वृद्ध स्वजन वदे शिख सारीरे,
 मुक्ति वरशो मोहने मारीरे;
 पामो विजयपताका चारो. जिनेश्वर० ५
 क्षत्रिकुंड वच्चे थै जावेरे,
 ज्ञातखंड उद्यानमां आवेरे;
 प्रणमी लोक सहु गुण गावे. जिनेश्वर० ६
 वस्त्राभूषण त्यजी लोच कीधोरे—,
 छट्टतप शिवमार्गने लीधोरे;
 धरी चारित्रने मोह रुंध्यो. जिनेश्वर० ७
 मागशरवदि दशमी रूपाळीरे—,
 छेछा प्रहरे दीक्षा ग्रही सारीरे;
 बुद्धिसागरप्रभु उपकारी. जिनेश्वर० ८

ढाल बीजी.

(व्हेलां व्हेलां दर्शन देवोरे गुरु शातामां रहेशो. ए राग.)

मनथी ममता अहंता निवारी,
 सामायिक उच्चरे सुखकारी;

१११

सर्व सावद्य संहारीरे—,
 प्रभु दर्शन देशो.
 व्हेलां व्हेलां दर्शन देशोरे. प्रभु दर्शन० १
 बंधुवर्गने पुछे त्यारे—,
 वनमां विचरोश निरहंकारे;
 ध्यानसमाधिविचारेरे. प्रभु दर्शन० २
 नंदि कहे प्रभु शातामां रहेशो;
 समरीने संदेशा कहेशो;
 केवलज्ञानने लहेशोरे. प्रभु व्हेलां० ३
 क्षण एक जाइ न अळगा थइया,
 पल पल वीर वीर मुख कहिया,
 हवे अळगा हमे रहियारे. प्रभु दर्शन० ४
 नयणे वहे छे अश्रुनी धारा;
 स्मरशो मळशो बन्धु हमारा;
 तव वण घर शून्य, प्यारारे. प्रभु दर्शन० ५
 देवी यशोदा बोले विचारी,
 जग उद्धरशो केवल धारी;
 क्षण क्षण रहूं संभारीरे. प्रभु दर्शन० ६
 एक तमारो छे आधारो,
 प्राणपति मुज आतम प्यारो;

११२

सर्वजीवोने उद्धारोरे. प्रभु दर्शन॥ ७

त्यागी थै वनवाटे वळिया,
सगां संबंधी पाछां फरियां;
बुद्धिसागर बळियारे. प्रभु दर्शन॥ ८

ॐ० प० दीक्षा कल्याणके जलं० यजामहे स्वाहा ॥



चतुर्थी केवलकल्याणकपूजा ॥

सामायिक अंगोकर्युं—,वीर्योह्लासे भदंत;
मनःपर्यव प्रगट्युं तदा, सर्वविरति गुणवंत. ॥ १ ॥

उपसर्ग परिषह जीतता, अप्रतिबद्ध विहार;
करता धरता ध्यानने, निर्मोही अनगार. ॥ २ ॥

पंचेन्द्रिय मनवश करे, सुख दुःख सहे समजाव;
आत्मना उपयोगथी—,साधे मुक्तिदाव. ॥ ३ ॥

दश्यादश्य जगतविषे—,कर्ममां साक्षीभाव;
आत्म उपयोगे थया, जवपाथोधि नाव. ॥ ४ ॥

प्रगट्या प्रमादने वारता, मेरुवत् थै धीर;
द्वयोपशमादिनिजगुणे—,स्थिरता धरे महावीर. ॥ ५ ॥

११३

ढाल पहली.

(सांभळशो मुनि संयमरागे उपशमश्रेणि चढियारे. ए राग.)

वंदु महावीर मुनि वैरागी,

आतमध्यानी त्यागीरे;

इमशानउद्याननिर्जनवासी,

कोपर द्वेष न रागीरे.

वन्दु० १

शूलपाणि उपसर्गने सहेवे,

चंडकोशी दंश देवेरे;

समताजावे मनमां रहेवे,

कोइने कांइ न कहेवेरे.

वन्दु० २

गोवाळ कटपूतना व्यंतरीने,

संगमसुर दुःखकारीरे;

षट्मासी रद्या प्रभु निराहारी,

समतागुण भंडारीरे.

वन्दु० ३

काने खीला ठोक्रया गोपे,

तोपण रोष न धार्येरे,

पगपर खीरने रांधतां समता,

रोष गयो रोषे हार्येरे.

वन्दु० ४

खाढा आदि देश अनारज,

घोरपरिषह सहियारे;

१५

११४

लोको मारे गाळो देवे,
तोपण समता वहियारे.

वन्दुण ५

चंरुकोशिक आदि अपराधी,
उद्धर्या प्रभुए भावेरे;
मूठी बाकुला लेइने चन्दना,
उद्धरी जक्तिदावेरे.

वन्दुण ६

बेषद्मासी नवचोमासी,
बे त्रणमासी धारीरे;
दोढमासी अढीमासी बे बे,
षट् बेमासी विहारीरे.

वन्दुण ७

मासखमण बार पाक्षिक बहोतेर,
बार अठमतपयोगीरे;
बसे आंगणत्रिशतप भद्रादिक,
तप तपियो तुं अजोगीरे.

वन्दुण ८

त्रणसे आंगणपच्चाश पारणां,
चोविहारी कीधारे;
बुद्धिसागर प्रभुमहावीरनां—,
आत्मकारज सिद्धयारे.

वन्दुण ९

११५

ढल बीजी.-

(श्री श्रेयांस जिन अंतर्यामी. ए राग.)

- महावीर !!! धन्यदशा छे तहारी,
 आतमध्यानना धारीरे;
 पंचसमिति त्रणगुप्तिए गुता-,
 उत्कृष्टा अनगारीरे. महावीर० १
- धर्मध्यान श्रुतउपयोगे ज्ञारी,
 भावप्रतिमा धारीरे;
 कल्पातीतदशा हितकारी-,
 शुद्धोपयोगे विहारीरे. महावीर० २
- आर्तरोद्र बे ध्यान निवारो,
 त्यागी मोहनी यारीरे;
 उपशम क्षयोपशमे परिणम्या,
 देहाध्यासने वारीरे. महावीर० ३
- द्वादश वर्षाधिकषट्मासी-,
 ध्यानस्थस्थिति विहारीरे;
 आतम उपयोगी समभावी,
 आतमरस आहारीरे. महावीर० ४
- अनुक्रमे विचरंता ऋजुवालिक,-
 नदीनो पासे आठ्यारे;

११६

श्यामाककुटुम्बी क्षेत्रमां शालि-
वृक्षे छट्टतप भाव्यारे. महावीर० ५

धर्मध्यान पछी शुक्लध्याननो,-
बीजो पायो ध्यायोरे;
वैशाखसुदिदशमी चउघाती-
हणी केवल प्रगटायोरे. महावीर० ६

सुरगणे समवसरण शुभ रचियुं,
प्रभुए देशना दीधीरे;
अपात्रापुरीमां गणधर-
थाप्या तीर्थ प्रसिद्धिरे. महावीर० ७

समवसरणमां बेशो देशना,-
देइ नारत उद्धार्योरे;
बुद्धिसागर महावीर वन्दु-
आप तर्या म्हने तारोरे. महावीर० ८

ॐ० प० केवलज्ञानकल्याणके जलं० य० स्वाहा ॥

॥ पंचमी निर्वाणकल्याणकपूजा ॥

इन्द्रभूतिआदि थया,-एकादश गणधर;
छत्रीस सहस सुश्रमणीओ, मुनिवर चौदहजार. १

११७

- दौढलाखने सहसनव,—श्रावक व्रतगुण धार;
 तिलख अढारसहस मली,—श्राविका व्रतपाल. २
- चौदपूरवी व्रणसेंमुनि, तेरसे अवधि जाण;
 सातसे केवली सातसे—, वैक्रियधारी मान. ३
- पांचसे विपुलमति मुनि, वादी चउशत सार;
 राजा आदि कोटिजनो—, समकिती परिवार. ४
- चोत्रीश अतिशयवंत जिन, वाणी गुण पांत्रीश;
 सर्वदेश विचरे प्रभु, टाळे रागने रीस. ५

(दशमे देशावगासिकेरे. ए राग.)

गाम नगर पुर विचरियारे—,
 देशविदेश विहार;
 नरनारी प्रतिबोधियांरे—,
 टाळयो जग अन्धकार हो जिनजी—,
 महावीर प्रभुजी तारशोरे,
 मुज आतम उद्धारशोरे, तारशो दीनदयाल. १

हिंसायज्ञ निवारियारे,
 सात व्यसन कर्यां दूर;
 मिथ्यातम दूरे कर्युरे—,
 प्रगटाव्युं ब्रह्मनूर हो जिनजो; महावीर २

११८

आतमधर्म जणावीनेरे,
 मोहराज्य दूर कीध;
 विश्वमां शांति प्रसारीनेरे—,
 अरिहंतपदने लीध हो जिनजी; महावीर० ३
 षड्द्रव्य नवतत्त्वो कथ्यारे,
 केवलज्ञाने सत्य;
 संघ चतुर्विध थापीयोरे,
 समजाव्यां धर्म कृत्य हो जिनजी, महावीर० ४
 श्रेणिककोणिक नरपतिरे,
 प्रसन्नचन्द्र भूपाल;
 दशार्ण उदायन भलारे,—
 कीधा धर्मी दयाल हो जिनजी; महावीर० ५
 चंडप्रद्योत आदि घणारे,
 राजा राजकुमार;
 प्रधान क्षत्रिय श्रेष्ठियारे,
 ब्राह्मणादि परिवार हो जिनजी; महावीर० ६
 सर्व खंड दयामय कर्यारे,
 कीधो विश्वोद्धार;
 बुद्धिसागर धर्मनेरे,
 प्रगटाव्यो सुखकार हो जिनजी; महावीर० ७

११९

ढाल बीजी.

(प्रभु ढडिमा ढूजीने ढोसह करीएरे. ए राग.)

वोर जिनेश्वर वंदु जग उपकारीरे,
 त्रीशवरस घरमांहि वासो वस्या;
 बारवर्ष छद्मस्थदशा अनगारीरे,
 बेतालीश वर्ष सयोगी प्रभुदशा.
 त्हांरे शरण कर्युं शिव आपशो,
 व्हालारे वेगे दुःखडां कापशो,
 परमातमपदमां मुजने थापशो,
 उपयोगे मुज दिलमांहि व्यापशो. १
 श्रेणिक आदि नवने जिनपद आप्युंरे,
 तार्थारे मेघ कुमारआदिजना;
 अर्जुन रोहणियोने चन्दनवालारे,
 कौशिकने तार्येरे राखी नहि मणा. त्हांरं २
 अस्थिक प्रणितभूमि सावत्थी नगरीरे,
 आलभिका चोमासुं एकेक रद्या;
 त्रण चंपा, षट् मिथिला, बार वैशालीरे,
 षाण्डिज्य राजरहीमां चउदे शुभ वद्या. त्हांरं ३

१२०

चरमचोमासुं पावापुरीमां आव्यारे,
 अष्टादशगणराजा भेळा थया;
 कार्तिक अमावास्या नक्षत्र स्वातिरे,
 सोळप्रहर देशना देता शिवगया. त्हांसं ४
 ज्ञावोद्योत गयाथो द्रव्यदीवाळीरे,
 सुरपति नरपतिण् भावथकी करी;
 देवशर्म प्रतिबोधवा गौतम स्वामीरे,
 गया तिहां ते जाणी लह्या बहु दिलगीरो. त्हांसं ०५
 वीरजिनेश्वररागे शोकने पाम्यारे,
 उपयोगे शोक तजी केवल वर्या;
 भारतभानु आथम्यो फर्ज वजावीरे;
 बोतेर वर्ष आयु अंते शिववर्या. त्हांसं ६
 पार्श्वनाथ निर्वाणथी अढीमें वर्षेरे,
 वीरप्रभु मुक्तिवर्या जगजयकरी;
 बुद्धिसागर वीरप्रभुनुं शासनरे,—
 वतेंरे आनन्दमंगल गुणधरी. त्हांसं ७

१२१

कलश.

आशावरी.

(अवसर बेर बेर नहीं आवे, ए राग.)

महावीरपूजा रची सुखकारी,—
 आतम आनन्दकारी. महावीर०
 नयसारजवमां बहिरातम तजो,—
 समकितदृष्टि धारी;

अन्तरात्मपद पाभ्या जारी,
 मिथ्यादृष्टि संहारी.

महावीर० १

पच्चीशमाभवमां तीर्थकर,—
 नाम बांध्युं निर्धारी;
 वर्धमान अनगार बनीने,
 शुद्ध थया अविकारी.

महावीर० २

आतम ते परमातम कीधां,
 टाळ्यां घाती विकारी;
 विश्वजनो प्रतिबोध्या करोडो;
 भारत उद्धारकारी.

महावीर० ३

जैनधर्म संघतीर्थने स्थाप्युं,
 विश्व अहिंसा प्रचारी;

१६

१२२

- ज्ञानसेवा ऋक्ति सत्कर्मने—,
असंख्ययोग पसारी. महावीर० ४
- असंख्यश्रुतदृष्टिसापेक्षा,
समजावी हितकारी;
मिथ्यादृष्टिनो मोह टाळ्यो,
देशना देइ सुखकारी. महावीर० ५
- तुजमां लगनी लागी भारी—,
प्रगटी प्रेम खुमारी;
कोटि उपाय करे को कुतर्के,—
उतरे न होये उतारी. महावीर० ६
- आत्ममहावीर शुद्धि करवा,
तुजमां लगनी लगाडी;
चारनिक्षपे भक्तिथी तुजमां,
अंतरवृत्ति जगाडी. महावीर० ७
- पंचकल्याणक प्रेमे गायां,
पूजा रची जयकारी;
गाम गोधावी महावीरमन्दिर—,
वांच्या प्रभु हितकारी. महावीर० ८
- वीरजिनेश्वरपट्ट परंपरा—,
तपगच्छ गगनविहारी;

१२३

जगगुरु हीराविजयसूरिजानु,
तपतेजे सुखकारी. महावीर० ९

पट्टपरंपरा नेमिसागर,
रविसागर हितकारी;
श्रीसुखसागरगुरु गुणकारी,
मुनिगुणगणना धारी. स्रहावीर० १०

संवत् ओगणिश अग्न्याऐंसी,
फागण बीज अजवाळी;
बुद्धिसागर संघमां आनन्द—,
मंगल वर्तो अपारी. महावीर० ११

ॐ ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरा
मृत्युनिवारणाय श्रीमतेजिनेन्द्राय निर्वाणकल्या-
णक पूजार्थं, जलं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं,
नैवेद्यं, फलं यजामहे स्वाहा ॥

॥ पंचज्ञान पूजा ॥

परमेश्वर परमात्मा, वर्धमान जिनराज;
प्रभु महावीर जगपति, सर्वमुनिशिरताज. १
शासनपति चोवीशमा,—तोर्यकर अवतार;
ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा,—परब्रह्म निर्धार. २

૧૨૪

- વન્દુ પૂજુ જાવથી, શ્રોગૌતમ ગણધાર;
 સદ્ગુરુ ચરણકમલ નમું, શ્રુતદેવી સુખકાર. ૩
 પંચજ્ઞાન પૂજા રત્નું—,જૈનાગમ અનુસાર;
 પંચજ્ઞાનજ્ઞાત્રિકી, શિવ પામે નર નાર. ૪
 પ્રથમ જ્ઞાન પછીથી દયા, જ્ઞાને ક્રિયા પ્રમાણ;
 ક્રિયા જ્ઞાત્રિકી ને ત્યાગનું—,જ્ઞાન મૂલ છે જાણ. ૫
 જ્ઞાને મિથ્યાતમ ટલે, જ્ઞાને મુક્તિ થાય;
 જ્ઞાન તે આતમધર્મ છે, જ્ઞાન સદા સુખદાય. ૬
 મતિશ્રુત અવધિજ્ઞાન છે, મનપર્યવ સુખકાર;
 પાંચમુ કેવલજ્ઞાન છે, અનુક્રમે પૂજા સાર. ૭

॥ પ્રથમામતિજ્ઞાનપૂજા ॥

- મતિ અઠ્ઠાવીશ ભેદ છે, ત્રણસે ચાલીશ તેમ;
 સમ્યગ્ શ્રદ્ધાયોગથી, સમ્યગ્મતિ ગુણ ક્ષેમ. ૧
 ચઉભેદે મતિજ્ઞાન છે, સાપેક્ષાએ જાણ;
 કેવલજ્ઞાને પ્રકાશિયું, શ્રીવૌરે મતિજ્ઞાન. ૨
 વ્યંજનાવગ્રહ ભેદ છે, મન ચક્ષુવગ ચાર;
 અર્થાવગ્રહજ્ઞેદ છે, ચૌવીસ સત્ય વિચાર. ૩
 અર્થાર્થવગ્રહને ઇહા, અપાય ધારણા ચાર;
 પંચકરણ મન ચઉગુણે, ચૌવીસ નિશ્ચય ધાર. ૪

१२५

अष्टावीश प्रत्येकना,—चार बार ठे जेद;
तेमां चार उमेरतां, त्रणसो चालीश वेद. ५

(पारे दीवाली थे आज जिनमुख जोवाने. ए राग.)

॥ ढाल ॥

महावीर विभु जिनचंद,
जिनवर जयकारी;
मतिज्ञान प्रकाश्युं सत्य,
जगने हितकारी—॥
द्रव्यक्षेत्रकालजावथी मति ठे,
श्रुतनिश्चित सुखकारीरे;
सम्यग् मतिश्रुत बन्ने साथे,
प्रगटंतां निर्धारी. जिन० -॥महा०॥ १
समकितपूर्वक सम्यग् मतिश्रुत,
आगमशास्त्रे प्रकाश्युरे;
समकितवण नवपूर्वी अज्ञानी,—
ज्ञानी दिख सत्य जास्युं. जि०॥महा० २
चोथाथी बारमा सुधी मतिश्रुत,—
क्षयोपशमीभावेरे;
अन्तरात्मपद आतम पामे—
आतम ते सिद्ध थावे. जि० महावीर० ३

१२६

अप्राप्यकारी मन नयन छे,
 बाकी करण प्राप्यकारीरे;
 द्रव्यथो षड्द्रव्य क्षेत्रज्ञोका लोक,
 कालथो त्रणकालचारी. जि० महावीर० ४
 जावथी पांचे भाव अनंता,-
 पर्यव परोक्षे जाणरे;
 अंतर्मुहूर्त जघन्यथी रहेवे,
 एक जीवाश्रित माने. जि० महावीर० ५
 छासठसागर अधिक नरजव,
 उत्कृष्टं मतिज्ञानरे;
 बहुविधजीवाश्रित अनंतर,-
 असंख्यजीव मतिमान. जि० महावीर० ६
 मतिज्ञानी पडिवाइ अनंता,
 गुरुगमे अनुभव थायरे;
 बुद्धिसागर ब्रह्म महावीर-
 आतम प्रभुपद पाय. जि० महावीर० ७
 ॐ नमो ज्ञानाय, लोकालोकप्रकाशकाय, म-
 तिश्रुतावधिमनःपर्यवकेवलज्ञानाय जलं, चन्दनं,
 पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, यजामहे
 स्वाहा ॥

१२७

॥ द्वितीया श्रुतज्ञानपूजा ॥

- श्रुतना चउदशजेद छे, वीशभेद परमाणु;
जिनवाणी श्रुतज्ञान छे, मतिपूर्वकश्रुत जाण. १
- चउमुंगां श्रुत बोलतुं, स्वपरप्रकाशक सत्य;
स्याद्वादश्रुतज्ञानथी, सफलां धर्मनां कृत्य. २
- अकार आदि एकेकनी, पर्यायरशि अनन्त;
अनंत स्वपरपर्यायरूप,—वर्णमां विश्व समंत. ३
- अनादि अनन्त छे श्रुतभलुं,—द्रव्यनये भवी जाण;
सादि सांत पर्यवनये,—सापेक्षाए प्रमाण. ४
- जघन्य अन्तर्मुहूर्त छे,—एकजीवाश्रयी ज्ञान;
छासठसागर अधिक छे, उत्कृष्टी स्थितिमान. ५

(सिद्धचक्रपद सेवा कीजे नरभव लाहो लीजेजी. ए राग.)

निजपर उपकारक श्रुतज्ञानना—,
बोधक जिन जयकारीजी;
वीरजिनेश्वर पूजी वंदी,
श्रुत सेवो उपकारी;
महावीर भजीएजी,
मिथ्याश्रुतनो मोह; वेगे तजीएजी. १

पंचविदेहमां शाश्वतश्रुत छे,
सादि सांत अन्यक्षेत्रेजी;

१२८

दक्षिणभरतमा महावीरशासन—,
वर्ते छे श्रुतनेत्रे.

महावीर० २

जिनवरवीरे त्रिपदी भाखी,
अर्थथकी सुखकारीजी;
गणभरगणे द्वादशांगी रचना,
शब्दथी करी हितकारी.

महावीर० ३

दृष्टिवादमां पूर्वने अंगो,
सघळुं श्रुत समातुंजी,
अगियारअंग ने बार उपांग छे,
गुरुगमे श्रुत समजातुं.

महावीर० ४

दशपयन्ना छेद सूत्र षट्,
नंदी अनुयोगद्वारजी,
मूलसूत्र चारे पंचांगी,
परंपरागम धार.

महावीर० ५

पूर्वागादि उद्धृत ग्रन्थो,
रच्यां स्थविरे जेहजो;
सूरि आदि रच्यां धर्मनां शास्त्रो,
सापेक्षे गुणगेह.

महावीर० ६

दुःपहसूरिपर्यंत श्रुत रहेशे,
सर्वसंघ सुखकारीजी;

१२९

ज्ञानने निंदो ज्ञानी न निंदो,
आधार कलि श्रुत भारी.

महावीर० ७

श्रुतज्ञानथी ध्यानने केवल,
चारित्र श्रुत उपयोगेरे;
श्रुतउपयोगे धर्म प्रवर्ते;
श्रुतथी रहो सुखभोगे.

महावीर० ८

श्रुतज्ञानी केवलीसम संप्रति,
सुणीए श्रुत हितकारीजी;
बुद्धिसागर श्रुतज्ञानी श्रुत—,
सेवो नरने नारी.

महावीर० ९

ॐ नमो ज्ञानाय लोकालोकप्रकाशकाय मति
श्रुतावधि मनःपर्यव केवलज्ञानाय जलं० य० स्वाहा ॥

॥ तृतीया अवधिज्ञानपूजा ॥

मतिश्रुतज्ञान परोक्ष ठे, प्रत्यक्ष अवधिज्ञान;
रूपीद्रव्यने जाणवुं, अवधिलक्षण जाग. १
भवप्रत्ययी गुणप्रत्ययी, अवधि दोष प्रकार;
जवप्रत्ययी सुर नारकी, नरतिरि गुणथी मान. २
अवधि असंख्य प्रकार छे, षड्भेद शास्त्र प्रमाण;
मिथ्यात्वीने विभंग छे, समकीर्तीने ज्ञान. ३

१३०

जघन्य एक समय कथ्युं—कोइक जीवने जाण;
छासठ सागर अधिक छे,—गुरुठिइ अवधिज्ञान. ४
(सांभळशो मुनि संयमरागे उपशमश्रेणि चढियारे. ए राग.)

जिनवर महावीर पूजुं वन्दु,

प्रभुरूप उपयोग धारीरे;

अवधिज्ञानस्वरूप प्रकाश्युं,

लगनी लागी प्रभु त्हारीरे.

जिनवर० १

अनुगामी अवधि लोचनवत्,

ज्यां त्यां साथे जातुंरे;

अननुगामी स्थिरदीपकवत्—,

अन्यत्र साथी न थातुंरे.

जिनवर० २

वर्धमान गुण वृद्धि पामे,

वर्धमान ते जाणोरे;

अवर्धमान पूरव अधोघटतुं,

पडतुं प्रतिपाती मानोरे.

जिनवर० ३

अप्रतिपाती प्रगट्युं न जातुं,

लोकावधिनी उपरेरे;

केवलज्ञान अनंतर थावे—

प्रगटे शुद्धातम समरेरे.

जिनवर० ४

वीरपसाये शिव राजर्षि,

विभंगदोषने टाळेरे;

१३१

द्रव्यक्षेत्र कालजावथी अवधि,
जाणे ते सुख भाळरे.

जिनवर० ५

द्रव्यथकी रूपी द्रव्य अनंतां,
जघन्य जाणे देखेरे;

उत्कृष्टथी सर्वे पुद्गलने,
अवधिज्ञानी पेखेरे.

जिनवर० ६

क्षेत्रथी अंगुलजाग असंख्यने,
जघन्य जाणे पेखेरे;

उत्कृष्टा अलोकमां लोकसम,
असंख्य खंडने देखेरे.

जिनवर० ७

कालथी आवलीजाग असंख्यने—,
जघन्य गुरु तेम जाणोरे;

भूतजावी असंख्य उत्सर्पिणी—,
जावथी चारभाव आणोरे.

जिनवर० ८

जघन्य चारभाव उत्कृष्ट प्रत्येक—,
द्रव्य असंख्य पर्यायोरे;

बुद्धिसागर गुरुगम पामी—,
सम्यग्ज्ञान सुहायोरे.

जिनवर० ९

ॐ नमो ज्ञानाय लोकालोकप्रकाशकाय मति-
श्रुतावधिमनःपर्यवकेवलज्ञानाय जलं० य० स्वाहा ॥

१३२

॥ चतुर्थी मनःपर्यवज्ञानपूजा ॥

- ऋजुमति विपुलमति द्विधा—मनःपर्यव छे ज्ञान;
 सामान्यग्राही ऋजुमति, विशेष विपुलमति मान. १
- मनोद्रव्यने जे ग्रहे, मनःपर्यव ते जाण;
 मनचिंतितपदार्थनुं,—थावे सम्यग्ज्ञान. २
- सातमा गुणठाणे मुनि, ध्यातो धर्मध्यान;
 लहे मनःपर्यवज्ञानने, श्रुत उपयोगे जाण. ३

(दान सुपात्रे दीजे हो भविया. दान सुपात्रे दीजे. ए राग.)

वीरजिनेश्वर ध्यावो हो आतम !!

वीर जिनेश्वर ध्यावो. ॥

संयमठाणविशुद्धि ए चोथुं—,

मनःपर्यव प्रगटावो;

वीरने वंदी पूजी ध्याइ,

स्वयं महावीर थावो हो आतम ! वीर० १

तिनाणी जिनवर सर्वसंयम—,

दीक्षा ग्रहे छे ज्यारे;

अध्यवसायशुद्धिवृद्धिथी,

मनःपर्यव लहे त्यारे हो आतम ! वीर० २

१३३

- संज्ञीपंचेन्द्रीमनपणे परिणम्या,
 अनंत मनद्रव्य जाणे;
 क्षेत्रथी तिच्छु मनुष्यक्षेत्रने,—
 ज्योतिष व्यंतरठाणे हो आतम !!! वीर० ३
- साधिकशतयोजन अधो जाणे,
 अतीत अनागत काल;
 पत्य असंखितजागने जाणे,
 आगमथी धर ख्याल हो आतम !! वीर० ४
- भावथो सर्व पर्यायना अनंत,—
 जागने ज्ञाने जाणे;
 ऋजुमतिथी अधिकापर्यव,—
 विपुलमति जाणे ज्ञाने हो आतम ! वीर० ५
- मतिश्रुतज्ञानी तथा त्रिज्ञानी,
 मनपर्यव प्रगटावे;
 साकार उपयोगी मनपर्यव,—
 क्षयोपशम सद्भावे हो आतम ! वीर० ६
- अप्रमत्तदशाए प्रगटे,
 उपयोग सातमे नावे,
 अवधि मनपर्यव उपयोगे,
 कोइ न केवल पावे हो आतम ! वीर० ७

१३४

विपुलमति निर्मलपरिणामी,

ते जव मुक्ति जावे,

क्षयोपशमभावे मनःपर्यव,

प्रगटे चारित्रभावे हो आतम !

वीर० ८

अंतर्मुहूर्त व्यक्तोपयोगज,—

मनपर्यवनो जाणो;

मनुष्यगतिमां चारित्री पामे,—

शास्त्रभाव प्रमाणो हो आतम !

वीर० ९

निःसंग वैराग्यश्रुतउपयोगे,—

मनःपर्यव प्रकाशे;

बुद्धिसागर आत्ममहावीर,

आपोआप विलासे हो आतम !

वीर० १०

ॐ नमो ज्ञानाय लोकालोकप्रकाशकाय मति
श्रुतावधिमनःपर्यव केवलज्ञानाय जलं० य० स्वाहा ॥

॥ पंचमी केवलज्ञानपूजा ॥

घातिकर्मनो क्षयकरी, पाम्या केवलनाण;

नमो नमो अरिहासकल, परमशुद्धभगवान् १

अनंत दर्शनज्ञानीजे, क्षायिकसमकित धार;

क्षायिकचारित्री नमो, पूजो जगदाधार. २

१३५

(सहिष्य सुणिणरे भगवती मूत्रनी वाणी. ए राग.)

केवलज्ञानीरे महावीर पूजीए भावे,
 जिनरूपे आतमरे प्रणमावे प्रभु थावे;
 मिथ्या निंददशाने निवारी,
 स्वप्नदशाने टाळी;
 शुद्धातम उपयोगे जाग्रत्,
 ध्यानसमाधि धारी.

केवल० १

शुक्लध्यानथी चोथी उजागर,
 लही मोह शत्रु हठायो;
 केवलज्ञानने केवलदर्शन,
 परमानन्द प्रगटाव्यो.

केवल० २

क्षायिकनवलब्धिना धारी,
 अनंतशक्तिदरिया;
 परमेश्वर महाविष्णु परब्रह्म,
 अनंतगुणगण भरिया.

केवल० ३

चार अघातीयोगे जवस्थ ठे,
 अभवस्थ ठे सिद्धा;
 पश पश्यंती पामी झांखी-
 पापे प्रगट प्रसिद्धा.

केवल० ४

१३६

द्रव्य तत्त्व सहु नात्र प्रकाश्या,
 क्षायिककेवलज्ञाने;
 सापेक्षाए सहु तुज वचनो,
 तुज भक्तो सत्य जाणे.

केवल० ५

परा पश्यंती अंतर गायो,
 वैखरी बाहिर गायो,
 पंचज्ञानथी प्रभु तुज पूजा,
 नावे करीने ध्यायो.

केवल० ६

रूपारूपी नामी अनामी,
 अनंतरूपे सुहायो;
 बुद्धिसागर आत्ममहावीर,
 परमप्रभु परखायो.

केवल० ७

कलश.

गायो गायोरे महावीरजिनेश्वर गायो.
 पंचज्ञाननी पूजा रचीने—,
 प्रभु पूजा सुख पायो;
 समकित साथे मतिश्रुत युगपत्,
 प्रगटे गुण समुदायोरे.

महावीर० १

१३७

समकितवण मति श्रुत अज्ञान छे,
 अवधि विजंग कहायो;
 समकित साथे सम्यग्मातिश्रुत,
 अवधिज्ञान लहायोरे. महावीर० २

सम्यग् श्रुतज्ञाने जैनशासन,
 संघ सदा वर्तायो;
 सम्यग्ज्ञानी गीतार्थसद्गुरु—,
 सेवाए ज्ञान वहायोरे. महावीर० ३

ज्ञानी ज्ञाननी सेवा भक्ति—,
 करतां मोह हठायो;
 ज्ञान मा निंदो ज्ञानी मा निन्दो—,
 ज्ञान ते धर्म सुहायोरे. महावीर० ४

ज्ञानी श्वासोच्छ्वासमां अनंत—,
 भवनां कर्म खपावे;
 ज्ञानानन्द ते आतमरूप छे,
 संतो भक्तो गावेरे. महावीर० ५

मतिश्रुत पश्चात् अवधि प्रगटे,
 मनपर्यव सुहायो;
 मतिश्रुत पश्चात् शुक्लध्याने,
 केवल प्रगटे जणायोरे. महावीर० ६

१८

१३८

सम्यग्ज्ञानी, मिथ्याश्रुतने,-

सम्यक्पणे प्रणमावे;

मिथ्याज्ञानी सम्यग्श्रुतने-

मिथ्यापणे प्रणमावेरे०

महावीर० ७

पंचमआरे गीतार्थ सद्गुरु-

श्रुतआधार सुहायो;

संघचतुर्विधजिनवरप्रतिमा,-

आधार छे समजायोरे.

महावीर० ८

वीरजिनेश्वरपट्टपरंपरा-

तपगच्छजगगुरुरायो;

हीरविजयसूरिपट्टपरंपरा,-

नेमिसागरमुनिरायोरे.

महावीर० ९

प्रौढप्रतापीरविसागरगुरु,-

विश्वमां सुजशे ठवायो;

श्रीसुखसागरगुरुसुखकारी-

मुनिसंघश्रेष्ठ सुहायोरे.

महावीर० १०

ओगणिश अग्न्याऐंशी फागणवदि-

पंचमी बुधवार गायो;

पुण्यवंत पेथापुरमध्ये,

पूजा रची सुख पायोरे.

महावीर० ११

१३९

जणशे गणशे जे सांभळशे,-

पामशे गुण समुदायो;

बुद्धिसागर संघमां मंगल,

वर्तो पुण्य पसायोरे.

महावीर० १२

ॐ नमो ज्ञानाय लोकालोकप्रकाशकाय
मतिश्रुतावधिमनःपर्यवकेवलज्ञानाय जलं० य०
स्वाहा ॥



जंगमस्थावरतीर्थपूजा.

- पानसरा श्री जिनवरा,-महावीर जगदाधार;
वर्धमान शासनपति, चौवीशमा जयकार. १
- अतीत अनागत संप्रति, विद्यमान जिनराय;
सर्वसिद्ध त्रण कालना, प्रणमुं प्रेमे पाय. २
- जंगमस्थावरतीर्थनी-, पूजा रचुं सुखकार;
आतमशुद्धिकारिका, शिवगतिनी दातार. ३
- जंगमस्थावरतीर्थ छे, निश्चय तारणहार;
जेवडे तरीए तीर्थ ते, निमित्तपुष्ट विचार. ४
- नमो तित्थस्स कही सकल, वंदे अरिहंतदेव;
जंगमतीर्थ ते संघ छे, करीए भावे सेव. ५

१४०

तीर्थकरप्रतिमा अने,—कल्याणकथी थाय;
 अनेक हेतुयोग्यथी,—स्थावरतीर्थ सुहाय. ६
 जंगमस्थावरतीर्थनी, सेवाथी शिव थाय;
 आतमतीर्थनी शुद्धिमां, निमित्ततीर्थो गणाय. ७

॥ चतुर्विधसंघरूपजंगमतीर्थपूजा ॥

संघ चतुर्विध तीर्थ छे, सर्वतीर्थशिरताज;
 अरिहंत वीरे थापियुं, जंगमतीर्थ सुराज्य. १
 जंगमतीर्थनी पूजना, करतां शिवपद थाय;
 तीर्थनी सेवा भक्तिथी, आतम प्रभुपद पाय. २

(सहियर सुणीएरे भगवती सूत्रनी वाणी. ए राग.)

संघने पूजारे प्रेमधरी नरनारी,
 तीर्थनी सेवारे भक्ति सदा सुखकारी.
 अनंत तीर्थकरनी खाणी,
 बोले महावीर वाणी;
 गुणमणिरत्नरोहणसम जाणी,
 नमीए प्रीति आणी. संघने० १
 चौदसो बावन गणधर नमीए,
 मोहनी वृत्तिने दमीए;

१४१

वाचक साधु श्रमणी प्रणमीए—,

आपस्वभावमां रमीए.

संघने० २

चउविहाहारे सेवा करीए,

अर्पाइजे स्मरीए;

खेदद्वेषभीति परिहरीए,

संघरक्षार्थे मरीए.

संघने० ३

अतीत अनागत वर्तमान जे—,

सूरिवाचकमुनिवर्ग,

दोषदृष्टि त्यागो थै रागो,

सेवंतां अपवर्ग.

संघने० ४

संघ आशातना द्रोह न करीए,

संघभक्तिए तरीए;

संघसेवार्थे जीवन धरीए,

तनधनमन वापरीए.

संघने० ५

साधु श्रमणी श्रावक श्राविका,

देखी हर्षे उल्लसीए;

संघनी सेवाभक्तिमां मरीए,

डगळुं न पाछळ खसीए.

संघने० ६

संप्रतिजीवंतसंघ छे तीर्थ ज,

व्यवहारनये दिल धरीए;

१४३

पंचमारिक अनुसारै वर्ते, तीर्थकरसम स्मरीए.	संघने० ७
अनेकरीतिए संघनी सेवा—, भक्ति करंतां तरीए; नमो तिथ्यस्स कहीने नमोए, निज आतम उद्धरीए.	संघने० ८
साधु श्रमणी श्रावक श्राविका, देखी प्रेमे गहगहीए; प्रभुदर्शनसम हर्षने वहीए, समकिते छाना न रहीए.	संघने० ९
अडताघ्नीश गुणे गुणवंतो—, सर्वोपमाए छाजे; बुद्धिसागरजंगमतीर्थने—, पूजो महावीरराज्ये.	संघने० १०

ढाल बीजी.

(धन धन संपत्ति साचो राजा. ए राग.)

संघ चतुर्विध जग उपकारो, समकित्ती नरनारीरे; श्रावक श्राविका ठे तीर्थ ज, मुनि श्रमणी व्रतधारीरे.	संघ० १
---	--------

१४३

श्रावकने देखी जे श्रावक,—
 मनमां हर्ष न लावेरे;
 समकित त्यां प्रगट्युं नहि जाणो,
 जैन रहे जैनभावेरे. संघ० २

मुनिने देखी मुनिना मनमां,
 शुद्धप्रेम ज्यां जागेरे;
 अर्पाइ जाता एकताए,
 त्यांथी मोह दूर जागेरे. संघ० ३

गच्छक्रियामतभेदे न निन्दा,
 द्वेष भेद नहीं प्रगटेरे;
 मैत्री प्रमोद मध्यस्थता गुणनी,—
 दृष्टिण दोषो विघटेरे. संघ० ४

गुणरागीने दोष उपेक्षक,
 समय विचारी चालेरे;
 जैनधर्म जगमां फेलावे,
 संघधर्म अजवालेरे. संघ० ५

जैनागमशास्त्रोनी श्रद्धा,—
 गीतार्थश्रद्धा धारेरे;
 सूरिआदि आणाए संघनी,—
 चडती छे कलिकावेरे. संघ० ६

१४४

साधु श्रमणी श्रावक श्राविका,—
तीर्थ जीवंतु जगमारे;
एवा तीर्थनी श्रद्धाप्रीति,—
भक्ति धरो रगोरगमारे.

संघ० ७

संघतीर्थ आशातना नास्तिक—,
बुद्धिने परिहरीएरे;
संघना अणुसम सेवक थैने,
संघाज्ञा शिर धरीएरे.

संघ० ८

देशकाल अनुसारे संघमां
व्रतगुण किरिया वर्तेरे;
वर्तमानमां वर्ते ते संघ ज,
मानीए सापेक्ष शर्तेरे.

संघ० ९

देवगुरुने धर्मनी श्रद्धा—,
व्रतधारकरनारीरे;
जैनशास्त्र श्रद्धाबु अविरत—,
जनता तीर्थ ठे भारीरे.

संघ० १०

ज्यां त्यां जैन ते तीर्थ गणीने,
सेवा भक्ति करीएरे;
साधर्मिक सगपण ठे साचुं,
मिथ्यामति परिहरीएरे.

संघ० ११

१४५

संघचतुर्विधतीर्थने वंदो,
 पूजो अर्पाई जावोरे;
 अवगुण दोषना सामुं न जोशो,
 गुणदेखी हरखावोरे.

संघ० १२

पन्नरक्षेत्रमां संघ चतुर्विध,
 विहरमान परिवारोरे;
 सद्गुरुसमकितदायकमुनिवर,
 वंदु कयो उपकारोरे.

संघ० १३

संघचतुर्विध जगजयकारो,
 पूजकनी बलिहारीरे;
 बुद्धिसागरजंगमतीर्थने,
 वंदु वार हजारीरे.

संघ० १४

ॐ ह्रीं श्रीं चतुर्विधसंघाय, जंगमतीर्थस्व-
 रूपाय, सर्वतीर्थाधाराय, अर्हदादिपरमेष्ठिपूज्याय,
 जलं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, यजा-
 महे स्वाहा ॥



१४६

॥ द्वितीया स्थावरतीर्थपूजा ॥

चोपाइ.

शत्रुंजय बीजुं गिरनार, समेतशिखर अष्टापद चार,
आबु पंचतोर्य ठे सार, वन्दु पूजुं वारंवार. ॥ १॥

(सिद्धचक्रपद सेवा कीजे नरभव लाहो लीजेजी. ए राग.)

स्थावरतीर्थमां सर्वथी मोटुं,

शत्रुंजय जयकारीजी;

रैवत सम्मेत अष्टापदने,

आबु छे सुखकारी-;यात्राकरीएजी;

वारी सर्व प्रमाद,

भक्ति धरीएजी.

१

पंचतीर्थयात्रापूजाथी,

आतमशुद्धि करीएजी;

निरुपाधिकता अनुभव आवे,

गुरुसाथे संचरीए.

यात्राणावारोणा २

तारंगां श्रोअजितजिनेश्वर,

श्रीसंखेश्वरपासजी;

पाटणमां पंचासराप्रभुजी,

पूजे होय गुणवास.

यात्राणावारो ३

१४७

प्राचीनचारुप तीर्थ छे चारु,
कुंभारीया जयकारीजी;
विमलशाहे देरां कराव्यां,
पूजो भाव वधारी.

यात्राणावारी० ४

इडरगढ केशरियासाबळीया,
पोसीना सुखकारीजी;
पानसरा जोयणी शेरीसा,
मेत्राणा रंतेज भारी.

यात्राणावारी० ५

खंभायतमां थंभणपासजी,
मातर साचादेवाजी;
भरुचमां मुनिसुव्रतस्वामी,
करीए भावे सेवा.

यात्राणावारी० ६

जघडिया ने तीर्थ अगाशी-,
अंतरिक्ष हितकारीजी;
तीर्थफलोधी मक्षीजी भारी,
वरकाणा उपकारी.

यात्राणावारी० ७

नाडुलाइनाडोल राणकपुर,
नादिया ओशिया सारुंजी,
पावा राजगृही क्षत्रीकुंड,
चंपाकुंडलपुर चारु.

यात्राणावारी० ८

१४८

चंद्रावती सिंहपुरी विशाला,
गुणायाकाकंदी प्रणमुंजी;
मथुरा ऋजुवालिका साचोर,
भद्रावती नमी विरमुं.

यात्राणावारी० ९

उपरियाळा कापडहेरा,
जोराउला वन्दोजी;
भीलडिया अजारापासजी,
वंदे टळे चवफन्दो.

यात्राण्वारी० १०

अमीजरा नाशकने मांडव,
अवंतीने प्रभासोजी;
चिंतामणिपास विजापुरमां,
मेसाणा मनरंग वासो.

यात्राण्वारी० ११

कुल्पाक इलोरा रींगणोद शेमली,
नवखंड मुहरीपासजी,
काशीतीर्थने दादापासजी,
कावीगंधार खास.

यात्राणावारी० १२

तीर्थ तळाजा सानंद मांडल,
मुंबाई गोडीपासजी;
पालणपुरमां पास पट्टविया;
सिद्धपुर सुल्तानपास.

यात्राणावारी० १३

१४९

डभौइ पादरा खैडा कपडवंज,
भावनगर वढवाणजी,
महुवा लींवडी जामनगरने,
वडनगर चैत्यमान.

यात्रा॥वारी० १४

शिरोही सादडी विकानेरने,
जोधपुर जयपुर देरांजी;
पाली जालोर जावरा खेडा,
दील्ली चैत्य भलेरां.

यात्रा॥वारी० १५

विसनगर खेराळुं उंझा,
वीरमगाम कछोलजी;
माणसा चाणस्मा हिंमतपुर,
वडाली प्रांतिज आजोल.

यात्रा॥वारी० १६

पाटण राजनगर खंभायत,
सुरत जेसलमेरेजो;
एम अनेकपुरनगरगाममां—,
चैत्य नमो दिल लहेरे.

यात्रा॥वारी० १७

गुर्जर मालव मरुधर सोरठ,
कच्छ बंगाल विहारजी;
पंजाव आदिस्थचैत्यो पूजुं—,
मनमां धरीने प्यार.

यात्रा॥वारी० १८

१५०

कच्छमा भद्रेश्वर सिन्ध कांगरा,

मेरु रुचक जयवंताजी;

कोरंट वर्धा विस्फुलिंग पास,

शाश्वतेतरसन्ता.

यात्रा०वारी० १९

शिरोही जोधपुर पाली मेडता,

चितोड वांकानेरजी,

उदेपुर डुंगरपुर रतलाम,

चैत्य नमे सुखल्हेर.

यात्रा०॥वारी० २०

खेटक भिन्नमाल सहु चैत्यो,

गिरिकुट प्रकट जे छानांजी;

बुद्धिसागरचैत्यने प्रणमुं,

वर्ते जेह मझानां.

यात्रा०वारी० २१

ढाल बीजी.

(राग आशावरी०॥ अवसर बेर बेर नहीं आवे. ए राग.)

स्थावरतीर्थ नमुं हितकारी,

आतमशुद्धिकारी.

स्थावर. ॥

ऋषभ चंद्रानन वारिषेणने;

वर्धमान जयकारी;

नंदीश्वर मेरु रुचक द्वीप,

अंजनगिरि सुखकारी.

स्थावर० १

१५१

पहले स्वर्गे बत्रीशलाख छे,
 अट्टावीश लाख बीजे;
 वार लाख त्रीजे चोथे आठ,
 पांचमे लाख चउ रीझे स्थावर० २

अर्धलाख छठे जिनचैत्य छे,
 चालीश सहस्र प्रमाणो;
 सातमे आठमे ठ हजार छे,
 शत चार नव दशे जाणो स्थावर० ३

अग्यार बारमे त्रणसें त्रणसें,
 त्रणशे अठार त्रैवेके;
 पांच अनुत्तर मळी सहस्रचैत्यो,
 वांदो विनय विवेके. स्थावर० ४

चोराशीद्वालाख ने सहस्रसत्ताणु,—
 अधिक चैत्य सरवाळे;
 लांबां शतयोजन ने उंचां,
 पच्चास पूजो प्यारे. स्थावर० ५

सभा सहित एकचैत्ये एकशो,—
 ऐंशी बिंब परिमाणो;
 सोकोड बावन कोड चोराणु,—
 लाख उपर ठे जाणो. स्थावर० ६

१५२

चौआलसहसने सातसैं षष्टि,
 वंडु त्रिकाले भावे;
 सातकोड लाखत्रोंतेर देवत्र,
 भुवनपतिमां सुहांवे.

स्थावर० ७

एकेक चैत्ये एकशो ऐंती—,
 प्रतिमा प्रमाण विचारो;
 तेरसैंकोटि नग्याशी कोटि,
 तिर्छांशोकमां धारो.

स्थावर० ८

त्रणलाख एकाणुसहस ने त्रणसे—,
 वीश प्रतिमा वन्दु;
 ड्यंतरज्योतिषीमां बिंत्र वन्दु,
 भवोत्तवपाप निकन्दु.

स्थावर० ९

पन्नरक्षेत्रमां जिनवरचैत्यो,
 सघळां प्रेमे जुहारुं;
 वीशविहरमःन संप्रति जिनवर,
 कल्याणक संभारुं.

स्थावर० १०

अतीतअनागत चोवीश जिनवर—,
 कल्याणकभूमि वन्दु;
 अतीत अनागत संप्रति सर्वे,
 तीर्थसेवनरढ मंडु.

स्थावर० ११

१५३

भरतादिकसर्वविश्वमांस्थावर—,
 तीर्थ नमुं उपकारी;
 बुद्धिसागरतीर्थथी तरीण,
 प्रगटे चिदानंद जारी.

स्थावर० १२

कलश.

गाइ गाइरे सर्वतीर्थनो पूजा गाइ.
 जंगमतीर्थ जीवतां सर्वे—,
 तीर्थ जीवे सुखदाइ;
 तीर्थ तीर्थकरभक्ति सरखी,
 समजुने समजाइरे.

सर्व० १

तीर्थशब्दवाच्य ज श्रुतज्ञान छे,
 संघ चतुर्विध जाणो;
 प्रथम गणधर जाणी भठयो,
 तीर्थभक्ति मन आणोरे.

सर्व० २

तीर्थने तीर्थकरनी एकता,
 सापेक्षाए विचारो;
 प्रत्येकदेहदेवलमां समकितो,
 आत्म तीर्थ धारोरे.

सर्व० ३

१५४

सम्यग्दृष्टि देशवतीने,
साधुतीर्थ जीवता;
व्यवहारे तीर्थी संघसर्वे,
माने ते जैन जीवंतारे.

सर्व० ४

तीर्थनी रक्षा सेवा भक्ति,
तीर्थकरपददाइ;
जंगमस्थावरतीर्थनी पूजा,
करतां प्रभुता जणाइरे.

सर्व० ५

तीर्थनी सेवाभक्तिथी निर्जरा,
संवरने पुण्य थावे;
सातक्षेत्रमां तन धन अपे,
आतम सिद्ध सुहावेरे.

सर्व० ६

तीर्थमां तीर्थकर सातक्षेत्रो,
स्थानक वीश समातां;
तीर्थनी सेवा भक्ति करंतां,
सर्वयोगो प्रगटातारे.

सर्व० ७

तीर्थनी सेवाभक्तिविना कोइ,
सिद्ध थयो नहीं थासे;

१५५

जंगमतीर्थनी वृद्धियोगे, स्थावरतीर्थ रक्षाशेरे,	सर्व० ८
तेमाटे तीर्थकर जगमां, तीर्थने स्थापे नारी; तीर्थकरदेव तीर्थने नमता, तीर्थ भजो नरनारीरे.	सर्व० ९
वीरजिनेश्वरपट्टपरंपरा, श्वेतांबर जयकारी; तपगच्छजगगुरुहीरविजयसूरि, पट्टपरंपराधारीरे.	सर्व० १०
नेमिसागरगुरुरविसागरगुरु, उत्कृष्टचारित्रधारी; श्रीसुखसागरगुरुगुणकारी, धर्मक्षमा अवतारीरे.	सर्व० ११
ओगणिश अग्न्याऐंसी फाल्गुन—, सुदि सप्तमी सुखकारी; पेथापुरमां तीर्थनी पूजा, सम्यग् रची जयकारीरे.	सर्व० १२
जणशे माशे जे सांजळशे, आचरशे नरनारी;	

१५६

बुद्धिसागर मंगलमाला,

पामे ऋद्धि अपारीरे.

सर्व० १३

ॐ ह्रीं श्रीं अर्हदादिपरमेष्ठिपूज्याय सर्वजं-
गमस्थावरतीर्थाय जलं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं,
अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, यजामहे स्वाहा ॥

सर्वशुभकार्यारंभमामङ्गलपूजा ॥

दुहा.

- परमप्रभु परमात्मा—, महावीर जिनवर्धमान;
परब्रह्म मंगलकरा, प्रणमं शक्तिनिधान. १
- असंख्यसुरासुरदेवीओ, योगिनी बावनवीर;
ए सहृदास बनी नमे, जय जय प्रभुमहावीर. २
- विश्वेश्वरमहावीरजिन, नामथी मङ्गल थाय;
मंगलनी पूजा रचुं, भक्तो मंगल पाय. ३
- देवगुरु ने धर्मनी, श्रद्धावंत नरनार;
मंगलपूजा भणी सुणी,—मंगल ले निर्धार. ४
- सरुलकार्यप्रारंभमां,—मंगल पूजा बैश;
करतां करावतां गावतां, सुणतां नासे क्लेश. ५

१५७

(साहियर सुणिणरै भगवती सूत्रनी वार्णा, ए राग ॥ ढाल पहेली.)

मंगल करशारे चोवीश जिन जयकारो;
विघ्नो निवारोरे नामस्मरण अघहारो.

ऋषभ अजित संजव अभिनन्दन,
सुमतिप्रभु सुखकारी;
पद्मप्रज सुपार्श्व जिनेश्वर,
चन्द्रप्रभ हितकारी.

मंगल० १

सुविधि शीतल श्रेयांस जिणंदा,
वासुपूज्य वसुकारी;
विमल अनंतने धर्मने शान्ति,
कुन्थुअर अघहारी.

मंगल० २

मल्लिजिन मुनि सुव्रत नमि विभु,
नेमि पार्श्व शुभकारी;
वर्धमान महावीर मंगलकर,
मंगल करो निर्धारो.

मंगल० ३

अतीत अनागत तीर्थकर सह,
पापोदय संहारो;
गणधर चौदसे बावन समरुं,
मंगल द्यो निर्धारो.

मंगल० ४

१५८

गौतम गणधर मंगल करशो;
 नाम छे मंगलकारी;
 बुद्धिसागरसूरिवाचकमुनि,—
 जक्ति मंगलकारी.

मंगल० ५

ढाल बीजी.

(सिद्धचक्रवर सेवा कीजे. ए राग.)

अरिहंत चोवीस प्रचुना भक्तो,
 चोसठ इन्द्रो विवेकीजी;
 अरिहंतभक्तिना प्रेर्या मंगल,
 करशो निश्चय टेकी;
 मंगल करशोजी,—
 संकटने उपसर्ग; विघ्नो हरशोजी. ॥१॥

नवग्रहोने दशदिकूपालो,
 प्रभुभक्ते अहीं आवोजी;
 साधर्मिक तमे प्रभुना जक्तो,
 मंगलकारी थावो.

मंगल० २

लोकपाल तमे उपयोग देइ,
 उपसर्गोने निवारोजी;

१५९

धर्मीजनाने करवी सहायो,
ए अधिकार तमारो.

मंगल० २

शांतिजिनेश्वर शांति करशो,
सर्व अशांति हरशोजी;
संघ चतुर्विध मंगलमाला,
मंगल शांति करशो.

मंगल० ३

देवी सरस्वती लक्ष्मीदेवी,
विद्यालक्ष्मी आपोजी;
विष्णोसहिपत्ताणं मंत्रे,—
घर घर मंगल व्यापो,

मंगल० ४

खेलोसहिपत्ताणं मंत्रे,—
भक्तो शांति पावेजी,
सूरिमंत्रना वासक्षेपे,
ऋद्धि सिद्धि सुहावे.

मंगल० ५

रोहिणी प्रज्ञप्ति वज्रशृंखला,
वज्रांकुशी शुभकारीजी;
चक्रेश्वरी नरदत्ता काली,—
महाकाली सुखकारी.

मंगल० ६

गोरी गांधारी महाज्वाला—,
मानवी ने वैरुष्टाजी;

१६०

अल्लुप्ता मानसिकादेवी—, महामानसिकायुक्ता.	मंगल० ७
गौमुखमहायक्षत्रिमुख ईश्वर, तुंबरु कुसुम मातंगाजी; विजयाजित ब्रह्मा मनुज ज सुर, षण्मुख पाताल चंगा.	मंगल०॥ ८
किंनर गरुड गंधर्व यक्षेन्द्र, कुबेर वरुण भ्रुकुटीजी; गोमेध पार्श्व मातंग ए यक्षो—, शांति समर्पो स्फूर्ति.	मंगल०॥ ९
चक्रेश्वरी अजिता दुरितारि, काक्षी ने महाकाक्षीजी; अच्युता शांता ज्वाला सुतारा—, जैनशासन रखवाळी.	मंगल०॥ १०
अशोका श्रीवत्सा चंडा, विजया अंकुशा देवीजी; पद्मा निव्वाणी अच्युता धारिणी, वैरुद्धा शुभ देवी.	मंगल० ११
अच्छुप्ता गांधारी अंवा, पद्मावती जयकारीजी;	

१६१

सिद्धायिका मंगलकारी,
देवीओ हितकारी.

मंगल॥ १२

जिनपद्भ्रमरी विजयादेवी,
सुजया स्हाये आवोजी;
अजिता ने अपराजितादेवी,
मुज रक्षा हित लावो.

मंगल० १३

ॐ वीर वीर महावीर जयवीर,
सेनवीर वर्धमानजी;
जया विजया ने जयंता अपरा—,
जिता करशो कल्याण.

मंगल॥ १४

संघचतुर्विधजैनशासननी—,
चढती निशादिन करशोजी;
स्हाय अमारी वेगे करशो,
आधिव्याधिदुःख हरशो.

मंगल॥ १५

धार्मिक व्यावहारिक सहकाजमां,
वेगे मंगल आपोजी;
शांति तुष्टि पुष्टि करशो,
दारिद्र दुःख कापो.

मंगल० १६

२१

१६२

ऋद्धि सिद्धि कीर्ति कांति—,
 आपो मंगलमालाजी;
 बुद्धिसागरसूरिशक्ति—,
 वृद्धि जय दो विशाला.

मंगल० १७

ढाल त्रीजी.

(आतम भक्ते मल्या केइदेवा ए राग.)

जिनवर महावीर मंगल करशो,
 दुर्गुण पाप निवारो;
 दुर्व्यसनोने दूर निवारो—,
 टाळो दुष्टाचारो.

जिनवर० १

असंख्यसुरासुर इन्द्रादिक सहु—,
 प्रणमे महावीर पाया;
 महावीर नामे ज्यां त्यां मंगल,
 महावीर मंगलराया.

जिनवर० २

परब्रह्म महावीरने प्रणमुं,—
 महावीर विश्वना त्राता;
 गौतम आदि गणधर मंगल,
 करझो शांति शाता.

जिनवर० ३

१६३

स्थूलभद्रादिकमुनिवर सर्वे,
संकट दुःख निवारो;
संघ चतुर्विध मंगलरूपी—,
करशो विश्वोद्धारो.

जिनवर० ४

सर्वतीर्थरूपजैनधर्म ठे,
ज्यां त्यां मंगलकारी;
उपसर्गोने विघ्न टळो सह,
टळो दुर्भिक्षने मारी.

जिन० ५

सर्वविश्वमा शांति याशो,
धर्मी बनो नरनारी;
मनुष्यपशुपक्षीजीव सघळा,—
शांति लहो सुखजारी.

जिन० ६

ॐ ह्रीं घंटाकर्ण महावीर,
जागंतो कलिकाखे;
जैनसंघनी व्हारे चडतो,
स्मरण करे दुःख टाळे.

जिन० ७

ॐ ह्रीं माणिभद्रमहावीर,
जैनसंघ रखवाळा;
स्मरण करंतां सहाये आवो,
करशो मंगलमाला.

जिन० ८

१६४

थाशो सुवृष्टि सर्वदेशमां,—
 रोग उपद्रव नासो;
 धर्मी बनो जगलोको सर्वे,
 थाशो पुण्यप्रकाशो.

जिन० ९

पुण्यधर्म करवाथी मंगल,
 महावीर आणा धारो;
 जैनधर्म सेव्याथी मंगल,
 ज्यां त्यां प्रगटे अपारो.

जिन० १०

साधुसंघनी सेवाजक्ति,
 सर्वथा मंगलकारी;
 परमेष्ठीमहामंत्रना जापे,
 मंगल आनन्द भारी.

जिन० ११

घारनिकायना दुष्ट देव ते,—
 उपशांतिने पामो;
 शत्रुदुष्टगण उपशमी जाओ,—
 सिद्ध थशो शुभकामो.

जिन० १२

परमेश्वरमहावीरजिनेश्वर,—
 मंगलरूपी नक्की,

१६५

सर्वमंगलनुं मंगल महावीर,
एवी श्रद्धा पक्की.

जिन० १३

ज्यां त्यां चारनिक्षेपे मंगल,
महावीर आनन्दकारी.
बुद्धिसागरसेवाजक्ति,
सुख पामो नरनारी.

जिन० १४



कलश.

आशावरी.

(अवसर बेर बेर नहीं आवे. ए राग.)

मंगलपूजा रचो सुखकारी,
विश्वमां मंगलकारी.

मंगल० ॥

परब्रह्म परमेश्वर महावीर—,
मंगल छे जयकारी,
गौतम गणधर मंगल निश्चय—,
स्थूलजद्र मंगल भारी.

मंगल० १

जैनधर्मने संघचतुर्विध—,
मंगल आनन्दकारी;

१६६

मंगलपूजा ज्ञेने भणावे—,

मंगल लहो नरनारी.

मंगल० १

सर्वसंघमां मंगल घर घर,

प्रगटो विघ्ननिवारी;

सर्वकार्यप्रारंभमां मंगल—,

पूजा मंगलकारी.

मंगल० ३

मंगलपूजाने श्रद्धाथी—,

करशे जे नरनारी;

इच्छितकार्यनी सिद्धि करशे,

फलशे मनोरथ भारी.

मंगल० ४

लक्ष्मीराज्यविद्यादेनारी,

कीर्तिसिद्धिकरनारी;

पुत्रादिक इच्छितदेनारी,

पुण्यधर्म सुखकारी.

मंगल० ५

परमेश्वरमहावीरजिनेश्वर,

वीरप्रभु उपकारी;

श्वेतांबरसत्यपट्टपरंपरा—,

तपगच्छ जग हितकारी,

मंगल० ६

तपगच्छनजमणि हीरविजयसूरि,

जगगुरुपदवी धारी;

१६७

पट्टपरंपरा प्रौढप्रतापी,
नेमिसागर क्रियोद्वारी.

मंगल० ७

संवेगीमुनिवरमां महामान्य,
चारित्री उपकारी;
रविसमरविसागरगुरु भारी,
वचनसिद्ध हितकारी.

मंगल० ८

दर्शनज्ञानचरणगुणधारी,—
उत्कृष्टा आचारी;
गुरुसुखसागर समताचारी,
वैरागी उपकारी.

मंगल० ९

पेथापुरमां सुविधिजिनेश्वर,
मंदिर ठे मनोहारी;
तास पसाये मंगलपूजा—,
रची जग आनन्दकारी.

मंगल० १०

संवत् ओगणिश अगन्याऐंशी,
फाल्गुन बुध शुक्रकारी;
अजवाळी दशमी दिनपूजा,
रची मंगल करनारी.

मंगल० ११

१६८

द्रव्यज्ञाव सर्व मंगलकाजे,
मंगलपूजा सारी;
बुद्धिसागरसूरिमंगल,
ऋद्धिसिद्धि शिवकारी.

मंगल० १२

ॐ ह्रीं श्रीं सर्वजिनेश्वरेभ्यः सर्वसुरासुरेन्द्र
परिपूजितेभ्यः सर्वतीर्थकरेभ्यो मंगलार्थं जलं,
चंदनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, यजा-
महे स्वाहा ॥

अष्टादशपापस्थानकनिवारकपूजा.

प्रणमं पानसराप्रभु, महावीर जगदाधार;
सद्गुरु पदपंकजनमं, नमं जिनवाणी उदार. ॥१॥
अठारपापस्थाननो, करवाने परिहार;
महावीरप्रभुपूजा रचुं, आत्मशुद्धि करनार. ॥ २ ॥

प्रथमाप्राणातिपातनिवारकजलपूजा.

हिंसा दुःखनी वेखडो, अहिंसा सुख खाण;
दयाधर्मसम धर्म नहि, अधर्म हिंसा जाण. ॥ १ ॥
हिंसाथी प्रभु नहि मळे, मुक्ति न क्यारे थाय;
प्राणीओना नाशथी, जत्रोभव दुःख सदाय. ॥ २ ॥

१६९

[राग आशावरी.]

(अवसर बेर बेर नहीं आवे. एा राग.)

प्रभु महावीरजिनेश्वर तारो,
 जवोदधि पार उतारो. प्रभु ॥

भवसागरमां नौका डुबंती,
 पेलीपार उतारो;
 हिंसासागरपार उतारी,
 करशो मुज उद्धारो. प्रभु० १

प्राणीओनी हिंसा न करवो,
 मांसजक्षण परिहारो;
 सर्वजीवो आतमसम गणवां,
 धर्म प्रकाश्यो त्हें सारो. प्रभु० २

प्राणीओना प्राण हणोने—,
 लह्यो न जवोदधि पारो;
 हवे तुज शरणे आव्यो नक्की,
 हिंसाबुद्धि निवारो. प्रभु० ३

प्राणातिपात करुं न करावुं,
 संशु न मुजने उगारो;
 दयाथकी प्रभुद्वार खूले छे,
 मळता प्रभु निर्धारो. प्रभु० ४

२३

१७०

आत्ममहावीर पामवा साचा,
 अहिंसा आचारो;
 बुद्धिसागर आत्मप्रभु छे,
 टळतां हिंसाविचारो.

प्रभु० ५

ॐ ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्म-
 जरामृत्युनिवारणाय, श्रोमते जिनेन्द्राय जलं
 यजामहे स्वाहा ॥

द्वितीया मृषावादनिवारकचन्दनपूजा ॥

असत्य महातम दुःख ठे, असत्य दोषनुं मूल;
 असत्यथी प्रभु दूर ठे, असत्य नरकनो पूल. ॥१॥
 पापनुं स्थान असत्य ठे, असंख्यदुःखनुं द्वार;
 सुखनुं द्वार ते सत्य ठे, सत्य प्रहो नरनार. ॥२॥

(लागी लगन गुरु कैसे छटे तुम चरणकमलकी सेवासें. ए राग.)

लागी लगन प्रभु तहारी साथे,
 जूठथकी दूरे भागुं;
 साचुं जाणुं ने साचुं बोलुं,
 निश्चय ए मुज मन लागुं.

लागी० १

१७१

जूठ वदंतां पाप अनंतु,
अनेकदोषो प्रकटाता;
तेथी आतमप्रभु ढंकाता,
जूठे नहीं देख्या जाता.

लागी० १

प्रभु आज्ञाना लोपक थावुं,
सत्य अवाजो दवावाता;
विश्वासघातादिकदोषोर्था,
भवमां फेराओ थाता.

लागी० ३

जूठार्थी विरमुं बुं निश्चय,
तुज आज्ञा शिरपर धारो;
मोहशयतानना फंदे फसुं नहीं,
लाखच लाखो परिहारी.

लागी० ४

भववाजीमां रहुं नहि राजी,
जूठनी बाजी नहीं ठाजी;
बुद्धिसागरप्रभु रह्यो गाजी.
हवे न कहुं जूठनी हाजी.

लागी० ५

ॐ ह्री श्री परमपूरुषाय, परमेश्वराय, जन्मजरा
मृत्युनिवारणाय, श्रीमते जिनेन्द्राय, चन्दनं यजा-
महे स्वाहा ॥

१७२

तृतीया अदत्तादानपापस्थानक निवारक पुष्पपूजा.

दुहा.

संकटवध दुःखोत्पणं, चोरो मूल छे जाण;
दुष्टगति महाद्वार छे, चिंता भयनो खाण. ॥ १ ॥
चोरीथी व्यसनो घणां, पाप घणुं बंधाय;
चोरनो विश्वासज नहीं, चोरी तजे सुख थाय. ॥१॥

(फाग राग. रंग मच्यो जिन दरबाररे चालो खेलीए होरी ए राग.)

प्राणजीवन आधारे,
दिल महावीर प्यारा;
चोरी तजे प्रभु प्राप्तिरे,
टळे दुःख अपारा. ॥
चोरी करवाथी सुखशांति,
थइ न कोने न थाशेरे; दिल. ॥
हिंसा जूठ ने बीजां व्यसनो,
प्रगट थतां परखाशेरे. दिल० १
चोरीनुं धन स्थिर न रहेतुं,
जीति शोक वपुनाशेरे; दिल. ॥
चोरने स्वप्ने पण नहीं शांति,
धरे न कोइ विश्वासेरे. दिल० २

१७३

चंचल चित्तुं ठाम ठरे नहीं,
ज्यां त्यां जटकतुं थायरे; दिल. ॥
निर्दय नफफट नवरो नागो,
भूतपेठे जटकायरे.

दिल० ३

प्रभु तुज आजा शिरपर धारी,
चोरी तजो निर्धाररे; दिल. ॥
द्रव्यजावथी अस्तेयजावे—,
देख्यो तुज देदाररे.

दिल० ४

मनमोहन प्रभु मळीया महावीर,
प्रभु लाग्यो तुज प्याररे; दिल. ॥
बुद्धिसागर आतम बळिया,
अलवेला आधाररे.

दिल० ५

ॐ ह्रीं श्रीं परमं पुष्पं यजामहे स्वाहा ॥

॥ चोथी मैथुननिवारकदीपकपूजा ॥

मैथुन आस्रव कर्मनुं, भवतुं मूल पिठान;
मैथुनत्यागे संत ते, स्वयं बने जगवान्. ॥ १ ॥
जडथां सुखनी बुद्धिथी, मैथुनवृत्ति थाय;
आतममां सुखबुद्धिथी, मैथुनमोहविलाय ॥ २ ॥

१७४

(राग होरी.)

(रविसागर गुरुराया, जग जश डंका बजाया. रवि० ए राग.)

ब्रह्मचर्य जयकारी, चिदानन्दशक्तिधारी ब्रह्मचर्य. ॥

प्रभुमहावीरनुं शरण स्वीकारी,

मैथुनवृत्ति निवारी;

आतमआनन्दरस घट धारी,

पापस्थानक तजो भारी.

जोगनी इच्छा वारी.

ब्रह्म० १

प्रथम रुहुं परिणामे बूरुं,

किंपाकसम दुःखकारी;

सघळो दुनिया मुंझो तेमां,

तजे तेनो बलिहारी.

बूरो ठे कामनी यारी.

ब्रह्म० २

रावणनी वृत्ति व्यभिचारी,

समज्यो न कामे लगारी;

अंते युद्धमां पाम्यो खुवारी,

मरी गयो नरक मझारी;

समजशो नरने नारी.

ब्रह्म०

मंत्र फले जगजश वधे भारी,

वचननी सिद्धि थनारी;

१७५

चिंतव्युं सिद्ध थतुं निर्धारी,
जोशो शास्त्रो विचारी;
जवुं नहीं जन्मने हारी.

ब्रह्म० ४

शेठ सुदर्शन वर्या शिवनारी,
मैथुन इच्छा वारी;
जंबू स्थूलजद्र धन्य अवतारी;
नेमिजिन सुखकारी;
मैथुन छे बलहारी.

ब्रह्म० ५

मनवचकाया धरो अविकारी,
आतममां सुखधारी;
बुद्धिसागर ब्रह्मचारी सिद्ध,
थातो जग उपकारी;
महावीर आणाधारी.

ब्रह्म० ६

ॐ परम० दीपकं यजामहे स्वाहा ॥

पंचमी परिग्रहनिवारकधूपपूजा.

ज्ञावथी मूर्छा परिग्रह, द्रव्यथी नवविध जाण;
परिग्रहत्यागथी मुक्ति छे, निर्ममता सुख मान. ॥१॥
परिग्रहमोह त्यां प्रभु नहीं, परिग्रह पापनुं मूल;
आत्मप्रभु प्रीतिविना, मूढ करे महाभूल. ॥ २ ॥

१७६

(देखी देखी पद्मणी नारी हो. ए राग.)

महावीर प्रभु जयकारी,
 जाउं तुजपर सघळुं वारी हो. महावीर०
 ममताअहंतापरिग्रह धारी,
 पाम्यो जन्म मरण दुःख नारी हो. महावीर० १
 परिग्रहग्रह छे महादुःखकारी,
 मळी तेथी न शांति लगारी हो. महावीर. ॥
 मूच्छा एज परिग्रहक्यारी,
 जडपुद्गलसंगनी यारी हो. महावीर. २
 चारगतिमां अनंतीवारी,
 भम्यो बह्वस्वरूपविसारी हो; ॥ महावीर. ॥
 हुं मारुं करी उमर हारी,
 नाखी शिरपर धूळी अपारी हो. महावीर० ३
 हवेतो तुज शरण स्वीकारी,
 तजी परिग्रहवृत्ति नठारी हो; महावीर. ॥
 पुद्गलऋद्धिगणुं नहीं प्यारी,
 प्यारी आतमऋद्धि भाळी हो. महावीर० ४
 परिग्रहराग त्यां प्रभुनी न यारी,
 धनधूळनी व्रान्ति निवारी हो; ॥ महावीर.
 नवविधपरिग्रहममतानारी,
 जाणी जगमाया धूसारी हो. महावीर० ५

१७७

दर्शनज्ञानचरणरुद्धि सारी,
 मेंतो शाश्वत लक्ष्मी संभारी हो; महावीर ॥
 बुद्धिसागरब्रह्ममहावीर,
 चिदानंद मळ्या मनोहारी हो. महावीर० ६
 ॐ परम० धूपं यजामहे स्वाहा ॥

॥ छट्टी क्रोधपापस्थानकनिवारक वासपूजा ॥

क्रोध समो शत्रु नहीं, क्रोध समो नहीं काल;
 क्रोध समुं विष को नहीं, क्रोध कर्मजंजाल. ॥१॥
 क्रोधथकी मैत्री टळे, क्रोधे शक्ति हणाय;
 क्रोधे कोडीपूरवतणुं, संयम निष्फल जाय. ॥२॥

(सखी सुणो प्रेमथी शीख सारीरे. ए राग.)

प्रभु महावीर जिन दिल प्यारारे,
 मुज आतमना आधारा. प्रभु० ॥
 काल क्रोध महाविकराळोरे,
 तेनी प्रलय अग्निसम ज्वाळोरे;
 कृपा लाबीने क्रोधने टाळो.

प्रभु० १

१७८

जवमां क्रोध करीने भटक्योरे,
 आडो आवळो ज्यां त्यां अटक्योरे;
 मुक्ति जातां वचमां लटक्यो. प्रभु० २
 क्रोधर्था थयुं अनंतु मरवुंरे,
 क्रोधात्तावे भवोदधि तरवुंरे;
 आपोआपस्वत्तावे उगरवुं. प्रभु० ३
 पूर्वकोटिचरणगुण हरतोरे,
 क्रोध कोडनुं सारुं न करतोरे;
 क्रोध, बलप्रीतिगुण संहरतो. प्रभु० ४
 क्रोध संहारी तुज साथ मळवुंरे,
 ज्योतिज्योतें तुजमांहि मळवुंरे;
 बुद्धिसागर प्रभु अनुसरवुं. प्रभु० ५

ॐ परम० वासं यजामहे स्वाहा ॥

सप्तमीमानपापस्थानकनिवारक- सुगंध चूर्णपूजा ॥

मान अहंता धारतां, आतमशुद्धि न थाय;
 लघुता विनयपणुं टळे, प्रभुता नहीं प्रगटाय. ॥१॥
 माने मूढता संपजे, अगुरुत्वघु न पमाय;
 मान टळ्ळाधी सद्गुणो, प्रगटे मुक्ति थाय. ॥ २ ॥

१७९

(निशदिन जोउं तोरी बाटडी, ढोला अम घेर आवो. ए राग.)

परम प्रभु परमात्मा,

महावीर परखायो;

मानने सर्वथा टाळीने,

शुद्ध ब्रह्म सुहायो,

परम० १

मान टळ्याथो नम्रता,

विद्याज्ञान थावे;

माने रावण हारियो,

माने धर्म न थावे.

परम० २

बाहुवलीए मानथी—,

केवल अटकाव्युं;

बेनना बोधथी आत्ममां—,

केवल प्रगटाव्युं.

परम० ३

तहारुं ध्येय स्वीकारीने,

मानवृत्ति हठावुं;

मानना अंधाराविषे,

ज्ञान पापी न जावुं.

परम० ४

लघु गुरु नहीं हूं आत्मा,

मानवृत्ति ठे भ्रान्ति;

१८०

बुद्धिसागर ब्रह्ममां,
चिदानन्द शिवशान्ति.

परम० ५

॥ ॐ ह्रीं श्रीं परम० सुगन्धचूर्णं यजामहे स्वाहा ॥

अष्टमी मायानिवारकस्वस्तिकपूजा.

माया पापनी वेलडी, सर्वकर्मनी खाण;
तप जप संयम फोक सहु, दंभ छतां दिलजाण. १
कपट करीने मल्लिजिन, पाम्या छी अवतार;
दंभथी दिलनी न शुद्धि छे, कपट तजो नरनार. २

(मुखडा क्या देखे दर्पणमें. ए राग.)

जिनवर महावीर छो जयकारी,
मारी नौका बूडतां तारी. जिन० ॥
कपटकलानी क्रिया निवारी,
शुद्ध थया सुखकारी;
तेथी तुजपर लगनी लगाडी,
माया जाणी नठारी. जिनवर० १
मायाथी नहीं बुद्धि सारो,
दुर्गुण दोषनी क्यारी;
माया महाधूतारी नारी,
दुनियानी खानारी. जिनवर० २

१८१

दंभछतां नहीं मुक्ति थनारी,
 तप तपतां कै भारी;
 कपटे निन्दामति थनारी,
 कर्म थतां दुःखकारी. जिनवर० ३

परमात्म ! तुज शरण स्वीकारी,
 तजी मायानी यारी;
 मायाद्वार उघाडी अंतरू—,
 प्रभु भेदया निर्धारी. जिनवर० ४

दिलथी दंज जतां प्रभुयारी,
 थाती आनन्दकारी;
 बुद्धिसागरब्रह्मविचारो,
 प्रकट प्रभु हितकारी. जिनवर० ५

ॐ परम० स्वस्तिकं यजामहे स्वाहा ॥

नवमी लोभनिवारकनैवेद्यपूजा.

सर्वपापनुं मूल छे, लोभ महादुःखकार;
 लोभी जीवो चउगति, अटके अनंतीवार. ॥ १ ॥
 लोभे पापो सहु थतां, नभथी इच्छा अनंत;
 लोभ तज्याथो आत्म, आप बने भगवंत. ॥ २ ॥

१८२

लोच तजंतां सहु तज्युं, लोभे गुण सहु जाय;
लोभे सहु दोषो वधे, लोभ टळे शिव थाय. ॥३॥

(चन्द्रप्रभुजीसे ध्यानरे मोरी लागी लगनवा. ए राग.)

लोभ तजो नरनाररे,
तजी कुमति यारी; तजी कुमति यारी;
लोचने पाप अपाररे,
सत्य जोशो विचारो. लोच. ॥
पंचेन्द्रियविषयोना जोगे,
स्वार्थनी मारामारीरे. सत्य० ॥
जर जमीन ने जोरुना मोहे,
देता स्वभाइ संहारीरे. सत्य०॥लोभ० १
आशातृष्णा इच्छानो अंत न,
सुख न तेथी लगाररे; सत्य० ॥
लोभे लासच हिंसावृद्धि,
दुःख अशांति अपाररे. सत्य०॥लोभ० २
जर जमीन कोइ साथे गइ नहीं,—
पडो रहे अहीं सर्वरे. सत्य० ॥
मारुं मारुं करो मुंइयो फोगट,
मिथ्या करो नहीं गर्वरे. सत्य०॥लोभ० ३

१८३

सागरचन्द्र दरियामां डूब्यो,
 सिकंदर गयो रोइरे. सत्य० ॥
 नंदनीसाथे सोवन कुंगरी,
 एक न गइ जुओ जोइरे. सत्य०॥लोभ० ४
 आखरे जावुं खाली हाथे,
 लोभथो शांति न थायरे. सत्य०
 रेती पीले तेल न नोकळे,
 जडमां नहीं सुख क्यांयरे. सत्य० ५
 प्रभुमहावीर शरण स्वीकारी,
 करुं न लोभनी यारीरे;
 बुद्धिसागरप्रभुप्रीतधारी,
 लइशुं जन्म सुधारोरे.
 प्रभुप्रेम वधारी, प्रभुप्रेम वधारी. लोभ० ६
 ॐ परम० नैवेद्यं यजामहे स्वाहा ॥

दशमी रागपापस्थानकनिवारक पुष्पमालापूजा ॥

जगमांहि शत्रु नथी, जरुना रागसमान;
 विषयजोगनी कामना, आदिमूल ते जाणः ॥१॥
 राग त्यां द्वेषनी वृत्ति ठे, राग ठे भवनुं मूल;
 रागने टालघावण अरे, तप ठे आवळफुल्ल ॥२॥

१८४

(आनन्द क्यां वेचाय चतुरनर, आनन्द क्यां वेचाय-ए राग)

महावीर जगदाधार,
 जिनेश्वर महावीर जगदाधार,
 वीतराग सुखकार. जिनेश्वर० ॥....
 रागरोषनो क्षय करीने,
 यथा जिनेश्वरदेव;
 राग हणी अर्हन्थवारे,-
 करुं चरणनी सेव. जिनेश्वर० ॥ १ ॥
 देव गुरुने धर्मनोरे,
 राग प्रशस्य गणाय;
 अप्रशस्यराग जडविषेरे,
 प्रशस्य ऋक्तिमां थाय. जिनेश्वर० ॥२॥
 सद्गुरुसंतमां रागतारे,
 वीतरागताहेत;
 शुद्धातमना प्रेमथीरे,-
 शिवसुंदरीसंकेत. जिनेश्वर० ॥३॥
 सर्ववस्तुसंबंधमांरे,
 वर्ते नहि दिलराग,
 अनासक्ति निष्कामतारे,
 प्रगढे त्यारे त्याग. जिनेश्वर० ॥ ४॥

१८५

अनंतकालथी रागथीरे,
 भवमां भटक्यो अनंत;
 प्रभु तुज शरणुं स्वीकारियुंरे,
 थाशे रागनो अंत. जिनेश्वर० ॥५॥
 शुद्धातमप्रभु रागथीरे,
 बाह्यरागरंग जाय;
 बुद्धिसागर आतमारे,
 आनन्दरसे उल्लसाय. जिनेश्वर० ॥६॥
 ॐ ह्रीं श्रीं परम०-पुष्पमालां यजामहे स्वाहा ॥

॥ अग्यारमी द्वेषनिवारकफलपूजा ॥

दुर्जनथी पण दुष्ट ठे, द्वेष महादुःखकार;
 अनंतकर्म करावतो, द्वेष तजो नरनार. ॥ १ ॥
 द्वेषथी अंधा जीवन्ना, भूले धर्मनुं भान;
 द्वेष टळ्याथी आतमा, स्वयं बने भगवान् ॥ २ ॥

(जीवळडा घाट नवा शीद घडे. ए राग.)

प्रभुनो वाटे जे जन वळे,
 द्वेषने त्यागी जिनपद वरे. ॥
 रागने रोषने टाळ्या वण कोइ,
 जवसागर नहीं तरे;

३५

१८६

मोहने मार्या वण नहीं मुक्ति,

द्वेष धरी जव फरे.

द्वेषने० १

रागने द्वेषविना शुद्धातम,

कदी न जन्मे मरे;

द्वेष कर्याथी कर्मबन्ध ठे,

कर्मोदयदुःख मळे.

द्वेषने० २

द्वेष कर्याथी निजनी परुती,

थाती कर्मना वळे;

कर्मनी अकळकळा ठे न्यारी,

ज्ञानी द्वेष न करे.

द्वेषने० ३

द्वेषथकी जे खाडो खोदे,

ते तेमांही पडे;

अन्यनी निन्दा इर्ष्या द्वेषे,

धवळपरे पडे धरे.

द्वेषने० ४

पुण्यपापथी चरुती परुती,

द्वेष करी केम मरे;

शुद्धातममहावीरशरणथी,

दुर्जन द्वेषी न छळे.

द्वेष० ५

द्वेष तज्यावण तपजपज्ञके,

थाती न मुक्ति खरे;

१-धरामां-दुःखना खाडामां.

१८७

बुद्धिसागरमहावीर वाटे,
ज्योति ज्योतमां भळे.

द्वेष० ६

ॐ परम० फलं यजामहे स्वाहा ॥

बारमी कलहनिवारकध्वजपूजा.

कलह कंकास कुसंपथी, सघळी शक्ति विनाश;
दंतकलह झघडाथकी, पडती दुर्गति खास. ॥१॥
क्लेशथी कर्मनो बंध छे, प्रगटे दोष अनेक;
मैत्री संप सुख धन टळे, नासे सत्यविवेक. ॥२॥
शुद्धप्रेमनीति टळे, सज्जनता दूर जाय;
शठता क्रूरता प्रगटती, प्रगट्थो धर्म हणाय. ॥३॥

(ए गुण वीरतणो न विसारं. ए राग.)

पूजुं महावीर जिन जयकारी,

सर्व जगत उपकारीरे;

वारमुं पापस्थानक टाळी,

सिद्धि वर्या सुखकारीरे.

पूजुं० १

रागने द्वेषनो पुत्र कलह छे,

मैत्रीघातक भारीरे;

प्रमोदमाध्यस्थभावसंहारी,

झघडा टंटाकारीरे,

पूजुं० २

१८८

क्लेशयकी वैरनिन्दा युद्धो,
प्रगटे पाप अपारीरे;
समता क्षमाथी क्लेश टळे छे,
मनडुं बने अविकारीरे.

पूजुं ३


मनवाणी वशमां राखंतां,
टळती टेव नठारीरे;
कलह कुसंप ने झघडा टळता,
धरतां सहनता सारीरे.

पूजुं ४

अरिहंतमहावीरशरण स्वीकारी,
कलहनी वृत्ति वारीरे;
बुद्धिसागर आनन्द मंगल,
पामुं उपयोग धारीरे.

पूजुं ५

ॐ परम० ध्वजं यजामहे स्वाहा ॥



तेरमी अन्याख्याननिवारकअष्टमंगल- पूजा ॥

अभ्याख्याननुं जाणवुं, ऋषिहत्या समपाप;
आळथी पापपरंपरा, प्रगटे महासंताप. ॥ १ ॥
आळथी वैरने युद्ध छे, परभव वैरी थाय;
कलंकवृत्तिप्रवृत्तिने, त्यागे शिवसुख पाय. ॥ २ ॥

१८९

(जोगी थैने जंगलमांही फरवुंरे. ए राग.)

प्रभुमहावीर सेवन करवुंरे, अभ्याख्यानथी पाळा फरवुंरे.	प्रभु ॥
परने कूडुं कलंक न देवुं, आळ देवाथी थाय न तरवुंरे.	प्रभु० १
आळथी आळना फळने वरवुं, थाय भवमांही जन्मने मरवुंरे.	प्रभु ॥
पूर्वकर्म उदये सीतापर, चढयुं कलंक वनमां विचरवुंरे.	प्रभु० २
दुर्जन निजपर आळ चढावे, तदा तेपर आळ न उच्चरवुंरे.	प्रभु ॥
आघात तेवो थाय प्रत्याघात, आळहिंसाकर्म परिहरवुंरे.	प्रभु० ३
कलंक समुं नहीं पापकर्म छे, तेथी मनुहिंसाफळ वरवुंरे.	प्रभु ॥
समताजावे कलंक सहीने, शुद्धमहावीररूप समरवुंरे.	प्रभु० ४
शुद्धातममहावीर उपयोगे, आळवृत्ति निवारी विचरवुंरे.	प्रभु ॥

१९०

बुद्धिसागर आत्ममहावीर,
आपोआपस्वभावे उगरबुरे. प्रभु० ५

ॐ परम० अष्टमंगलानि यजामहे स्वाहा ॥

चौदमी पैशुन्यनिवारककपूरपूजा.

चाडी चुगली पापनुं—,स्थानक चौदमुं जाण;
अनेकदुर्गुणदोषनी, पेटी मोहनी खाण. ॥ १ ॥

दुर्जनदुष्टनी वृत्ति छे, आळने पैशुन्यदान;
पैशुन्यवृत्ति त्यागतां, आत्म बने भगवान् ॥ २ ॥

(जिन दर्शन मोहनगारा. ए राग.)

प्रभु महावीर छो आधारा,
मुज आत्म पूर्ण छो प्यारारे. प्रभु ॥

पापनुं स्थानक पैशुन्यवारी,
थया जगत् जयकारा;
चाडीचुगली दोष जणात्री,
कोटि लोकने तार्यारे. प्रभु० १

चाडी चुगलीथी पाप घणुं छे,
प्रगटे हिंसाचारा;

१९१

परनुं बूरुं करवानी बुद्धि,
प्रगटे वैरविचारारे. प्रभु० २

चाडी चुगली मोहेयाती,
दुर्जनना आचारा;
विश्वासघातादिपापपरंपरा,
प्रगटे दोष विज्ञाळारे. प्रभु० ३

पैशुन्यवृत्तिना धरनारा,
दुर्जन पापावतारा;
परनुं बूरुं करतां पोते,
दुःख लहे निर्धारारे. प्रभु० ४

महावीर त्हारुं शरण स्वीकार्युं,
पैशुन्यभावने टाळ्या;
बुद्धिसागरमहावीर दिलमां,
आतम उपयोगे धार्यारे. प्रभु० ५

ॐ परम० कर्पूरं यजामहे स्वाहा ॥

॥ पन्नरमी रतिअरतिपरिहारक
दर्पणपूजा ॥

शुभाशुभ कर्मोदये, रति अरति प्रगटाय;
हर्ष शोकथी मुंझतां, नवां कर्म बन्धाय. ॥ १ ॥

१९२

रति अरतिमा समपणे, वर्तेतां नरनार;
करे कर्मनी निर्जरा, शुद्ध बने निर्धार ॥ २ ॥

(आज सखी मोंये वालमा, मुज मंदिर आवे. ए राग.)

रति अरति आवे मनविषे,

हर्ष शोक न करीए;

शुद्धातम महावीरने,

पूजी पापने हरीए.

रति० १

शुभ अशुभ कर्मोदये,

रति अरति थावे;

कर्मनी बाजी जाणीने,

ज्ञानी रहे समभावे.

रति० २

जेवां गगनमां वादळां,

आवे ने लय थावे;

नभनिलेंप तथा दशा,

ज्ञानी निलेंपभावे.

रति० ३

रतिथी प्रभुता न मानीए,

अहंकारी न थावुं;

अरतिथी दीनता धरी,

मोडे मरी नहीं जावुं.

रति० ४

१९३

वाजीगर बाजी समा,
जेवा जलपडछाया;
रति ने अरतिनी कल्पना,
इन्द्रजालनी माया.

रति० ५

नामजिन्न शुद्धआतमा,
रति अरति न्यारो;
बुद्धिसागरसमरसी,
पूर्ण ब्रह्माधारो.

रति० ६

ॐ परम० दर्पणं यजामहे स्वाहा ॥

सोळमी परपरिवादपरिहारकवस्त्रपूजा.

निन्दा दुर्गति वेलडो, निन्दा अधर्मनी खाण,
परपरिवादनी टेवथी, प्रगटे न निर्मलज्ञान. ॥१॥

समिति गुप्ति मेंली बने, सद्वर्तनमां हान;
निंदात्यागतां आतमा, बने शुद्ध जगवान्. ॥२॥

(प्रभु निर्मल दर्शन कीजीए. ए राग.)

प्रभु महावीर जिनवर पूजीए,
निन्दा करंतां धूजीए.

प्रभु०

१५

१९४

- निन्दात्याग ए ठे प्रभुपूजा,
निन्दावृत्ति हरीजीए;
गुणरागो थै परगुण देखो,
मनमांहो बहु रीझीए. प्रभु० १
- अन्यमां दुर्गुण व्यसनो देखो,
मन अचरिज न धरीजीए;
परमां दोषो छतां गुण एकने,
देखी अचरिजे रीझीए. प्रभु० २
- श्वानदंतने कृष्ण बखाणे,
समकितीदृष्टांत लीजीए;
मिथ्यात्वो अद्गुणने ग्रहशे,
नाम देइ न निन्दीजीए. प्रभु० ३
- काकसरिखी दृष्टि न धरीए,
सज्जनरीते रहीजीए;
निन्दक चोथो चंडाल जाणी,
परनिन्दा नहीं कीजीए. प्रभु० ४
- सद्गुण सद्वर्तनथी मुक्ति,
दोषे न मुक्ति वरीजीए;
निजमां रह्या दोषकर्मने निन्दी,
प्रभुवचनामृत पीजीए. प्रभु० ५

१९५

प्रभुमहावीरनुं शरण स्वीकारी,
 प्रभुना मार्गें वहीजीए;
 बुद्धिसागर गुणरागी थै—,
 उपयोगे धर्म धरीजीए.

प्रभु० ६

ॐ परम० वस्त्रं यजामहे स्वाहा ॥

॥ सत्तरमी मायामृषावादनिवारिका आभरणपूजा ॥

कपट करी जूठ बोलवुं, मान पूजानेकाज;
 तेथी कर्मनो वन्ध ठे, मळे न शिवसाम्राज्य, १
 धर्मादिकमां वंचवा, कपटकळाथी अन्य;
 तेथी मुक्ति न थाय छे, त्यागे ते धन्य धन्य २

(सब जन धर्म धर्म मुख बोले. ए राग.)

प्रभु महावीरनी सेवा सारी,
 आतमशुद्धिकारी. प्रभु०
 दंभ धरीने धर्मीना डोंळे,
 जूठां वचनो उचारी;
 अन्यजनोने छेतरवार्थी,
 पाप वधे बहुजारी.

प्रभु० १

१९६

मायामृषावादत्याग ए प्रभुनी—,
 पूजा सेवा सारी;
 मायामृषावादत्यागथी मुक्ति,
 सरल ने सत्य थनारी. प्रभु० २

धर्मीपणुं मान पूजा अर्थे,
 मायामृषा दुःखकारी;
 मायामृषाथी भवपरंपरा,
 पामे नरने नारी. प्रभु० ३

सत्यने समजी सत्यने बोली,
 खेवो जन्म सुधारी,
 प्रभुमहावीर भाखे एवुं,
 जइए न जन्मने हारी. प्रभु० ४

प्रभुमहावीरनुं शरण स्वीकारी,
 मायामृषा परिहारी;
 बुद्धिसागरप्रभुगुणधारी,
 प्रभु बनीए निर्धारी. प्रभु० ५

ॐ ह्रीं श्रीं परम० आचरणं यजामहे स्वाहा ॥

१९७

अढारमीमिथ्यात्वशल्यनिवारिका विलेपन पूजा.

मिथ्यामति महाशल्य छे, अनंतत्रवनुं मूल;
दयादानतपजपक्रिया, मिथ्यात्वे प्रतिकूल. ॥ १ ॥
मिथ्याबुद्धि टळ्याविना, आतम मुक्ति न पाय;
सम्यग्दृष्टि प्रगटतां, आतम मुक्ति सुहाय ॥ २ ॥

(धन्य धन्य जगमां ते नरनार, निर्मल ब्रह्मचर्यधरनार. ए राग.)

धन्य धन्य महावीरप्रभु जयकार,

बंदु पूजु वारंवार;

टाळ्या दुःखकर दोष अढार,

जिनेश्वर परमेश्वर सुखकार. ॥

पहेली मिथ्यापरिणति जाखी,

अनंतदुःख दातार;

ज्यां सुधी मिथ्यात्वदशा छे,

तावत् दिल अंधकार;

अंधो करे शुं ? रणमां व्हार,

मिथ्यामति तेवी निर्धार. धन्य धन्य १

मिथ्यात्वीनी तप जप करणी,

दयाधर्म आचार;

१९८

तेथी मुक्ति थाय न क्यारे,
 मिथ्यात्व ज दुःखकार;
 समकितयोगे धर्माचार,
 तप जप संयम शिवकरनार. धन्य० २

भेद घणा मिथ्यात्वना ज्ञाख्या,
 देखो शास्त्रमज्ञार;
 द्रव्यभावमिथ्यात्व टळ्याथी,
 प्रगटे समकित सार. धन्य० ३

शुद्धदेवगुरुधर्मनी श्रद्धा,
 प्रीति प्रगटे उदार;
 सातप्रकृति उपशम आदि,
 प्रगटे महावीरप्यार. धन्य० ४

देवगुरु ने धर्मनी सेवा,—
 भक्तिरुचि श्रद्धान;
 बुद्धिसागर आतममांही,
 जागे अनुभवज्ञान. धन्य० ५

१९९.

कलश.

(मान मायाना करनारारे. ए राग.)

गाया गायारे महावीर प्रभु उपकारी, ॥

अष्टादशपापठाणनिवारक,

पूजा रची सुखकारी;

पापनां स्थानक सेवुं न सेवावुं,

अनुमोदुं न मनथी लगारीरे.

महावीर० १

मारे जीवे पाप सेव्युं सेवराव्युं,

अनुमोद्युं तलभारी;

मनवचतनुथी मिच्छामिदुक्कड,

देउं पश्चात्ताप धारीरे.

महावीर० २

पाप करेलां निंदु गर्हुं—,

आतमरूप विचारी;

आतमसाक्षीभावे प्रवर्तुं,

अशुद्धपरिणति वारीरे.

महावीर० ३

परमेश्वरवीरदेवपरंपरा—,

श्वेतांबर सुखकारी;

तपगच्छजगगुरुहीरविजयसूरि,

शासन शोभाकारीरे.

महावीर० ४

पट्टपरंपरासंवेगी नभमणि,

उम विहाराचारी;

२००

- श्रीनेमिसागरचारित्रीयोगी,
यतिशिथिलता निवारिरे. महावीर० ५
तस शिष्यमुनिवरसंघप्रतिष्ठित,
सर्वसंघहितकारी;
रविसम रविसागरगुरुगिरुआ,
भारत महिमा भारीरे. महावीर० ६
तस शिष्यशांतआवालब्रह्मचारी,
सर्वगुणी अघहारी;
श्रीसुखसागर गुरु गुणवंता,
संघमां मान्य जयकारीरे. महावीर० ७
संवत् ओगणिश अग्न्यापेंशी,
फागणत्रयोदशी सारी;
पुण्यवंत पेथापुरमां पूजा,
रची जगत् हितकारीरे. महावीर० ८
श्रीसुखसागरगुरुकृपाए,—
पूर्ण पूजा सुविशाला;
बुद्धिसागरसंघऋद्धिवृद्धि,
आनंदमंगलमालारे. महावीर० ९
- ॐ ह्रीं श्रीं परम० विलेपनं यजामहे स्वाहा ॥

२०१

जैनाचार्य बुद्धिसागर सूरिकृत

स्नात्रपूजा.



स्नात्रविधि.

प्रथम दुध, दहिं. घी, केशर, फुल अने जळनुं पंचामृत करी बे कलश एक पाटली उपर चोखाना बे स्वस्तिक करी ते उपर मूकवा. कळशने महोडे नाडाछडी बांधवी. एक त्रण बाजोठनुं सिंहासन करी ते उपर प्रभुनी पधरामणीनुं सिंहासन मूकी तेमां एक रकेवीमां केशरना बे स्वस्तिक करी, त्रण नव-कार गणी एक धातुनी पंचतीर्थी प्रतिमाजी तथा एक सिद्धचक्रजीनी प्रतिमाजी पधराववां. प्रतिमा-जीनुं मुख उत्तर वा पूर्व तरफ राखी पधराववां. प्रतिमाजी नीचे एक पैसो मूकवो. सिंहासनना वचला बाजोठ उपर चोखानो एक स्वस्तिक करी एक फळ मूकवुं. प्रतिमाजी पधराववाना सिंहास-नना एक छेडे नाडाछडी बांधवी. एक रकेवीमां थोडां तूटां फुल तथा केशरवाला चोखा करी राखवा अने चामर, दर्पण, पंखो, घंट, विगरे सामान

૨૦૨

સિંહાસન પાસે રાખવો. જ્યાં વસ્ત્ર ચઢાવવાનાં યાવે ત્યાં નાડાછડીનો કકડો મૂકવો, ફૂલની અઠત હોય ત્યાં કેશરવાળા ચોલાનો ઉપયોગ કરવો. સ્નાત્ર ત્રણાવવાવાળો માણસ હાથમાં ફૂલ લઈને ઊભો રહે અને વિધિભણાવનાર માણસ વિધિ શરૂ કરે. કુસુમાંજલિ બોલી 'ફૂલ ચઢાવવું'— વિધિ ભણાવનાર માણસ કુસુમાંજલિ ચઢાવવાનું કહે ત્યારે ભગવાનને કુસુમાંજલિ ચઢાવવી. સાત વચ્ચે કુસુમાંજલિ ચઢાવી રહ્યા પછી સ્નાત્રો-યો હાથ જોડીને ઊભો રહે અને વિધિ ત્રણાવનાર વિધિ બોલ્યે જાય, જ્યારે 'શુભ લગ્ને જન્મ્યા પ્રભુ' એ ટુહો પૂરો થાય ત્યારે સ્નાત્રિયો ત્રણ ચમાસમણ દેઈ ચૈત્યવંદનની વિધિ પ્રમાણે ચૈત્યવંદન કરે ને જયવીયરાયનો પાઠ 'આભવ મચંડા' સુધી કહી હાથમાં કલ્પલ લેઈને ઊભો રહે ને વિધિ ત્રણાવનાર જ્યારે 'સૌધર્મેન્દ્રે પંચ રૂપ કરી' એ પદ પૂરું બોલી રહે ત્યારે જલનો પ્રભુને અન્નિષેક કરે. પછી તે ઢાલ પૂરી થયા પછી ભગવાનને સિંહાસનમાંથી બહાર લઈ ચોલા પાળીથી નહવણ કરાવી અંગલૂહણાં ત્રણ કરી ચન્દન પૂજા કરે. પછી આરાતિ મંગલ દીત્રો કરવો.

२०३

आ विधि सामान्य प्रकारे लखी छे. परंतु ज्या नाडाछडी लखी छे त्यां उत्तम वस्त्रोनो उपयोग करे वा उत्तम उत्तम द्रव्यनो उपयोग शक्ति प्रमाणे करे तो ते उत्तम छे.

“ अथ जैनाचार्य बुद्धिसागर सूरिकृत ”

अथ स्नात्रपूजा प्रारंभः

दुहा.

सर्वातिशये शोभता, प्रभु महावीर जिनेश,
शासन नायक जगपति, प्रणमुं हुं विश्वेश. ॥ १ ॥
प्रभु स्नात्रनी चावना—, करतां शान्ति थाय; रोग
शोक दूरे टले, स्नात्रपूजा महिमाय. ॥ २ ॥

कुसुमांजलि ढाळ.

ऋषभदेव पूजा.

आठजाति कलशे न्हवरात्रे, इन्द्रो मनमां आ-
नन्द पावे; प्रभु पूजा समकित प्रगटावे, प्रभु जाणी
प्रभुने दिल लावे; कुसुमांजलियी ऋषभ पूजीजे,
ग्रही प्रभुगुण मन रीझीजे. ॥ १ ॥

(फूल चढाववुं.)

२०४

शान्तिजिनपूजा.

दुहो.

क्षायिकनवलब्धि प्रभु, शान्तिनाथ जगदेव;
द्रव्यभावथो शान्तिने, पामो करीने सेव. ॥ १ ॥

ढाल.

सहजानन्दस्वजावे शान्ति, केवलज्ञाननी शोभे
कान्ति; टाले सर्वजीवोनी व्रान्ति, आपे तन्मय
थातां क्षान्ति; चोसठ इन्द्रो सारे सेवा, पूजुं प्रणमुं
शान्ति देवा. ॥ २ ॥

(फूल चढाववुं. ४)

नेमिनाथ पूजा.

दुहा.

केवलज्ञानमां चासतुं, अणुसम विश्व सदाय,
ते नेमि प्रभुपूजीए, भावब्रह्म प्रगटाय. ॥ १ ॥

ढाल.

वालयथकी जे ब्रह्मव्रतधारी, अनन्तशक्तिमय
अवतारी, केवलज्ञानथी जगहितकारी; मोहशत्रु हणी
ए मोहारि, नेमिजिनेश्वरने पूजीजे, प्रभुस्वरूप थै
प्रजु प्रणमीजे ॥ २ ॥

(फूल चढाववुं ३)

२०५

पार्श्वनाथ पूजा.

दुहा.

पार्श्वप्रभु प्रणमं सदा, त्रेविसमा जिनराय;
वन्दे पूजे भावथी, सिद्धे वांछित काज. ॥ १ ॥

ढाल.

पार्श्वप्रभु जगमां जयकारी, परब्रह्म जगने सुख-
कारी; चोत्रिश अतिशयथी अवतारी, पांत्रिशवाणी
गुणना धारी, पार्श्व पूजीजे ध्याने रहीजे, आत्मिक
गुण प्रगटावी लीजे ॥ २ ॥ कुसुमांजलिपूजा
कीजे, प्रभुस्वरूप थावा दील कीजे. ॥ २ ॥

(फूल चढाववुं. ४)

वीरप्रभु पूजा.

दुहा.

शासननायक जगधणी, परब्रह्म महावीर, सर्व-
देवना देव जे, सर्वधीरमां धीर. ॥ १ ॥

ढाल.

प्रभुमहावीरदेव समरीजे, आविर्भावे आत्म

२०६

कीजे; वीर बनी. महावीरने ञ्जोए, कायरता दुर्गु-
णने तजीए, प्रभुचरणे कुसुमांजलि धरीए, धीर
वीरता वेगे वरीए; देहाध्यास तजी वीर थावुं. ते
माटे वीर गावुं ध्यावुं. ॥ १ ॥

(फूल चढाववुं ५)

॥ अथ सर्वजिनपूजा ॥

सकलजिनेश्वर प्रेमे पूजो, अशुभकर्मथी भवि-
जन धूजो; कुसुमांजलि जिनचरणे धरीए, सहज
स्वभावे शिवपुर वरीए ॥ २ ॥ कुसुमांजलि पूजो सर्व
जिनन्दा, तुज चरणकमल सेवे चोसठ इंदा.

(फूल चढाववुं. ६)

इति चोवीश जिनपूजा.

॥ सर्व जिनपूजा ॥

ढाल,

पन्नरक्षेत्रे अतीतकालमां, वर्तमानमां वर्त्तंजी,
भाविकाले थाशे जे जिन; वीतरागगुण शर्तेजी,
एकसो ने सित्तेरतीर्थकर, उत्कृष्टा जे कालेजी. पूजुं

२७

वांष्टुं गावुं ध्यावुं, आतम जे अजवाले जी ॥ १ ॥
 जन्मोत्सव कल्याणक उजवे, इन्द्रादिक बहुभावे जी;
 जन्मकाले तीर्थकर सहुने, मेरुपर लेइ जावेजी;
 सर्वजातिकलशा अभिषेके, प्रेमे प्रभु न्हवरावेजी.
 एवा अरिहंत त्रण कालना, पूजीजे एकभावेजी ॥२॥

(फूल चढावुं ९)

आतम भक्ति मल्या केइ देवा. ए राग.

त्रीजेजव तीर्थकरकर्मने, वांध्यु वीरे भावे,
 द्रव्यभाववरथानकतपथी, प्रशस्यरागनादावे, सर्व-
 जीवोने धर्मी बनावुं, सर्वविश्व उद्धारुं, रहे न
 जगमां कोइ दुःखी, सर्वजीवोने तारुं. ॥ १ ॥ शुभ
 उत्कृष्टा हर्षोद्धासे, जिनवरनामने वांधे, अनन्त
 पुण्य ग्रहीने प्रभुजी, सकलजीव हित साधे, मानव
 आयुः पूर्ण करीने, दशमास्वर्गमां जावे, पुष्पोत्तर
 वैमानिक सुरवर, स्वर्गतणां सुख पावे. ॥२॥ त्यांधी
 चवीने दक्षिणचरते, क्षत्रिकुंडपुरमांहे, त्रिशला-
 राणी कुखमां आव्या, ज्ञातकुले उत्साहे, त्रिशला-
 माता स्वप्नो देखी, आनंद अतिशय पावे, चारतने
 उद्धरवा प्रगट्या, प्रभुजी शक्ति प्रजावे ॥ ३ ॥ हाथी

२०८

वृषभने केशरो सिंह, लक्ष्मी पुष्पनी माला, चन्द्र
 रवि ध्वज कलश मनोहर, सरोवर पूर्ण विशाला,
 सागर रत्ननो राशी अग्नि-, निर्धूम चौद निहाळे,
 चौदे स्वप्ननो अर्थ सुणीने, आनंदजीवन गाळे,
 ॥ ४ ॥ सिद्धारथराजाना हुकमे, जोषीओ त्यां आ-
 व्या, पुर बाहिर सुरम्य सभामां, अर्थविचारे फाव्या,
 ज्योतिषिओ भेगा थड्ने, बोले साची वाणी; तीर्थकर
 वा चक्रवर्ती तुज, पुत्र थशे गुणखाणी. ॥५॥ राजा
 राणी अति हरखायां, ज्योतिषी संतोष्या; दानादि-
 कथी धर्मिलोको, याचकने संतोष्या; भारतमां सहु
 घरघर लोको, जाणी आनन्द पाया, त्रिशलामाता
 गर्भने पोषे, धरे निरोगी काया. ॥ ६ ॥ चैत्रशुदि
 तेरशना दिवसे, मध्यरात्री थड् जातां; सर्व दिशाओ
 उज्वलशान्ति, आनन्दवाळी सुहातां; नवमाहिनाने
 साडासात ज, दिवस पूरा थातां; त्रिशलामाताए
 प्रभु जनम्या, त्रिलोके थड् शाता. ॥ ७ ॥ भारतदेशे
 घरघर मंगल, घरघर हर्ष वधाड्, सिद्धारथराजा
 मन आनन्द, प्रगट्यो विश्व न माय. ॥ ८ ॥ शुभ
 लग्ने जनम्या प्रभु, त्रणभुवन उद्योत; नारकी पण
 आनन्दीया, जेनी अनंत ज्योत. ॥ ९ ॥

२०९.

हवे चैत्यवन्दन करवुं तेनि विधि.

बोर आसने बेसी बे हाथ जोडी प्रभुजो सामी दृष्टि राखी 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् चैत्यवन्दन करुं' इच्छं एम कही 'सकळ कुशळवल्लि' कही जगचिन्तामणि कहेवुं. पळी जं किंचि, ननश्शुणं—, जावन्ति चेइआइं, जावन्त केविसाहु, नमोऽर्हत् कही उवसग्गहरं कहेवुं, पळी आजवमखंडा सुधी अर्धा जयवीयराय कहेवा. अहिं सुधि कही पळी उभा थइ स्नात्रीआए कलश हाथमां लइ प्रभुजीना डावा अंग तरफ उभा रहेवुं पळी विधि करनार विधि भणे.

राग उपरनो.

ठप्पन दिक्कुमरी तीहां आवे, प्रभु जन्मोत्सव हेते; प्रभु माताने प्रणमे प्रेमे, सूतिकर्म संकेते. आठे दिक्कुमरी वायुथी; कवरो करतो दूरे, आठे कुमरी गंधोदकथी, सुगंधी जलने पूरे. ॥ १ ॥ आठ कुमारी कलशा धारे, दर्पण आठे धारे; आठकुमारी चामर बीजे, भाव भक्ति अनुसारे. आठ कुमारी पंखा क-

२७

२१०

रती, रक्षा करती चारे; चार दीपकने धारे प्रेमे,
 निज आतमने तारे. ॥ २ ॥ कदलीनां घर करी
 मनोहर, बाल प्रजुने लावे; पवित्र कर्मने करवा माटे,
 जल कलशे न्हवरावे; जलपुष्पे आभरणे पूजी, प्रभु
 शरीर शणगारे; प्रभुना करमां राखडी बांधी, (वधावी
 नाडाढडी मूकवी;) जय जय शब्दोच्चारे. ॥ ३ ॥
 माता पासे प्रभुने मूकी, निज निज स्थानक जावे,
 इंद्रासन ते वखते कंफे, महापुण्य सदभावे; अवधि
 ज्ञाने इंद्रे जाण्यो, प्रभुजन्म सुखकारी; सुघोषा
 आदि घंटाओ, वगडावे जयकारी. ॥ ४ ॥ पालक
 नाम विमानमां बेसी, इन्द्र बहु परिवारे; अन्य वि-
 मानने वाहन बेसी, निज ऋद्धि अनुसारे; अन्य
 सुरोने देवीओ आवे, प्रभुने देखी वंदे; प्रभु अने
 प्रभु मात वधावी, इंद्र वदे गुण छंदे. ॥ ५ ॥ (फूल
 तथा केसरवाळाचोव्यायी वधाववा.) जय जय
 माता जगमां जय जय, जय जय शब्दो बोले; त्हारो
 बालक जगतीर्थकर, को नहि तेना तोले; प्रतिबिंब
 मातानी पासे, मूकी प्रभु कर लीधा; पंचरूप इंद्रे

२११

निज कीर्थां, चावे कारज सिद्धथां. ॥ ६ ॥ मेरु उपर
पांडुक वनमां, शिला सिंहासन ठावे; सौधमेंद्रे खोळा
मांहि, प्रभु धर्या शुभ भावे; चोसठ इन्द्रो, भाव धरीने,
आव्या त्यां उल्लासे; निज निज शक्ति ऋद्धि भावे, इंद्रो
पूर्ण विकासे. ॥ ७ ॥ अच्युतेंद्रे औषधि तीर्थनी—,
माटी जल मंगाव्यां; आठजातिना कलश जरीने,
इंद्रोए न्हवराव्या; फूल चंगेरी थाळ रकेबी, उपका-
रणो बहु जाति; प्रभुनी जक्ति करतां विध विध, निर्मल
करता छाति. ॥ ८ ॥ भुवनपति ने व्यंतर ज्योतिष,
वैमानिक बहुदेवा; अच्युतपतिनी आज्ञा पामी,
करता बहुविध सेवा; एकक्रोड ने साठलाख सहु,
कलशानो अभिषेक; अढीसे अभिषेक सहु मळी,
सुर नहि चूके विवेक ॥ ९ ॥ (थोडो जळ अभिषेक
करवो) इशान इन्द्रे करमां लीधा, प्रभुनी भक्ति कीर्धी;
सौधमेंद्रे पंचरूप करी, भक्ति करी प्रसिद्धि; (संपूर्ण
जळनो अभिषेक करवो.) पुष्पादिकथी प्रभु वधाव्या,
आनंदना कळोले; मंगलदीवो आरति करीने, सुर-
वर जय जय बोले ॥ १० ॥ अनेक वाजींत्रोने

२१२

वजावे, अनेक नाचो नाचे; प्रभुनो जन्मोत्सव करीने,
 सर्व सुरासुर राचे, करमां धारण करीने प्रभुने, त्रिशला
 माता पासे; इंद्रादिक आधीने बोले, पूरण हर्षोद्धासे
 ॥११॥ पुत्र तमारो प्रभु अमारो, सर्व विश्व आधार; तुज
 कुखे प्रभु जन्म्यामाटे, विश्वमात निर्धार; पंच धाव
 सोंपो प्रभु ऋडा, -करवा माटे वेश; बत्रीश कोटि
 रत्नादिकनी; वृष्टि करे हरे क्लेश. ॥१२॥ (फूल केश-
 रवाळा चोखा, नाडाठकी विगरे प्रभु सन्मुख उठा-
 ल्ळुं.) इंद्रादिक प्रभु वांदि पूजो, नन्दीश्वरमां जावे;
 अष्टान्हिकामहोत्सव करीने, आनंद मंगल पावे;
 निज निज कल्प सधावे सुरवर, दीक्षोत्सव अजि-
 लाषे; केवलज्ञान महोत्सव इच्छा, राखी हर्ष विकासे.
 ॥१३॥ प्रभु जन्मोत्सव चारतदेशे, भक्ते कीधो जावे;
 घर घर आनंद मंगल वर्तो, स्नात्र महोत्सवदावे;
 सकल संवमां शांति वर्तो, इति उपद्रव शामो; स्नात्र
 महोत्सव सुणनाराने, गानारा सुख पामो. ॥ १४ ॥
 परब्रह्ममहावीरप्रतापे, रोग टळो सहजाति; दुष्ट
 देवना टळो उपद्रव, व्हेम टळो बहूजाति; गाम

२१३

नगर पुरदेशमां शान्ति, वतों प्रभुप्रतापे; आधि
 व्याधि संकट टळतां, प्रभु महावीरजापे ॥ १५ ॥
 सर्व जःत्मां शान्ति वतों, धर्मी वनो नरनारी, दोषो
 क्षय पामो भक्तियो, जनो वनो उपकारो; झगडा
 युद्धो उपशम थाओ, वृष्टि थशो मनमानी; पुण्यकर्म
 वधशो जगमांहि, वधशो शक्ति मझानो. ॥ १६ ॥
 तपगच्छहीरविजयसूरिजगगुरु,—पट्टपरंपराधारी; पूज्य-
 गुरुरविसागर प्रगट्या, सर्वोपमजयकारी; शान्ति-
 दायकसुखसागरगुरु, घरघरमंगलकारी; बुद्धिसागर-
 सूरि आशी, शान्ति लहो नरनारी ॥ १७ ॥

फूल तथा केशरवाळा चौखाथो प्रभुने वधाववा.

पठी सिंहासनमांथो प्रभुजी तथा सिद्धचक्रजीने
 लड् चौखा पाणीथी पखाळ करी त्रण अंगलुहणां
 करी केशर (चंदन)थी पूजा करी फूल चढाववां अने
 सिंहासन मध्येनी रकेवीमांथी पाणी काढी नांखी
 धोड् साफ करी फरी केशरना स्वस्तिक करी पधरा-
 ववा. आरती मंगळदीवो प्रगटावी वंत्रे नामाछडी

૨૧૪

બાંધી એક રકેવીમાં મૂકી કંકુના ઠાટા નાચી ચો-
 ચાથી વધાવવા, રકેવીમાં સાંપારી તથા એક પૈસો
 મૂકી રકેવી વચ્ચે રાચી સ્નાત્રિયાને સન્મુખ વેસારવો.
 રકેવીની એક વાજુ સાત માટીની કાંકરી તથા સાત
 મીઠાની કાંકરી લઈ એક મીઠાની કાંકરી અને એક
 માટીની કાંકરી એ રોતે દરેક ઢગલીમાં મૂકી સાત
 ઢગલીઓ કરવો. પઠી બીજી તરફ જલની કુંડી
 રાચવી. સ્નાત્રિયાને ઉત્તાપગે વેસાડો ઢાબા હાથ
 ઉપર જમણો હાથ રાચવી વિધિ જ્ઞાવનાર માણસ
 સ્નાત્રિયાના હાથમાં દરેક વચ્ચે એક મીઠાની અને
 એક માટીની કાંકરી આપી તે સાથે હથેલીમાં
 ચોચા પાણીના કલશમાંથી થોડું પાણી આપે અને
 આરતી મંગલ દીવાની રકેવી ફરતું લૂણ ઉતરાવે.
 તેની વિગત.

લુણ ઉતારો જિનવર અંગે, નિર્મલ જલધારા
 મનરંગે. ॥ લુણ ॥ ૧ ॥ જિમ જિમ તડતરુ લુણ જ
 ફૂટે, તિમતિમ અશુભ કર્મ વંધ ત્રુટે. ॥ લુણ ॥ ૨ ॥
 નયન સલુણાં શ્રી જિનજિનાં, અનુપમરૂપદયારસ

२१५

भीनां. ॥ लुणा ॥ ३ ॥ रूप सलुणुं जिनजिनुं दीसे,
 लाज्युं लुण ते जलमां वेसे. ॥ लुण ॥ ४ ॥ त्रण प्रद-
 क्षिणा देइ जलधारा, जल निखेधीए लुण उदारा
 ॥ लुण ॥ ५ ॥ जे जिन उपर दूमणो प्राणी, ते एम
 थाजो लुण ज्युं पाणी. ॥ लुण ॥ ६ ॥ अजर कृष्णागरु
 कुंदरु सुगंधे, धूप करीजे त्रिविध प्रबंधे. ॥ लुण ॥ ७ ॥
 एम सात वखत लूण उतारवुं पछी आरती उतारवी.

आरती.

जय जय वीरजिनेश्वरदेवा, सुरनर इन्द्र
 लहे सेवमेवा, बार गुणे गुणवंता प्यारा, त्रण भुवनना
 छो आधारा. जय जय. ॥ १ ॥ चोत्रीश अतिशय गुण-
 गणधारी, पांत्रीशवाणी गुणे जयकारी. जय जय. ॥ २ ॥
 त्रिशलानंदन शिवसुखकारी, सिद्धारथ कुलशोभा-
 कारी०॥ जय जय. ॥ ३ ॥ द्रव्यभावथी आरति करीए,
 मंगलमांला सहेजे वरीए. जय जय. ॥ ४ ॥ बुद्धिसागर
 प्रभुगुण देवा, संवचतुर्विध करे नित्य सेवा. ॥
 जय. ॥ ५ ॥

२१६

पढो प्रभुजी न देखे तेवी रीते पढखे जइने
 अगरे प्रभुजीना अने स्नात्रीया वच्चे अंतर पडदो
 राखो स्नात्रीयाना जमणा अंगुठा उपर कंकुनो चां-
 डलो कराववो. पढो मंगलदीवो उतारवो. मंगलदीवो
 उतारतां कपूर लावेला होय ते सळगावो रकेबीमां
 मूकी मंगलदीवो उतारवो.

मंगलदीवो.

मंगलदीवो मंगलकारो, करीये जिन आगळ
 जयकारो, अरिहंत मंगल पहेळुं जाणो. वोजुं सिद्ध
 मंगल मन आणो. ॥१॥ साधु मंगल त्रोजुं लहोए,
 सद्गुण पामो शिवपुर वहीए. ॥ मं० ॥ २ ॥ धर्म मंगल
 चोथुं सुखकारी, चार मंगलनो छे बलिहारी. ॥ मं०
 ॥ ३ ॥ जावमंगल हेते चित्त धारी, मंगलदीप करे नर-
 नारी. ॥ मं० ॥ ४ ॥ बुद्धिसागर आनंदकारी, संघ चतु-
 विध शोभाकारी. ॥ ५ ॥

इति स्नात्रपूजा समाप्त.

२१७

अथ नवपदपूजाप्रारंभः

॥ प्रथम अरिहंतपदपूजा ॥

नमुं स्तुवं अरिहंतने, गेय ध्येय अरिहंत; प्राप्य
प्रभुपद एह ठे, जेना रागी संत. ॥१॥ विशस्थानकमां
कोइ पण, एकाराधनयोग; तीर्थकरपद संपजे,
अनंतपुण्यनो जोग. ॥ २ ॥ त्रीजेजव आराधना,
अरिहंत आदि थाय; शुभ उंचापरीणामथी, अर्हत्
पद बंधाय. ॥ ३ ॥ सर्वजीवो उच्चारवा, धर्मी करवा
काज; उत्कृष्टापरिणामथी, बांधे पद जिनराज. ॥ ४ ॥
तीर्थकर परमात्मा, त्रणकालना जेह; अरिहंत ते
सर्व ठे, घाती हणायथी एह. ॥ ५ ॥

श्री अरिहंतपद गाइए, ध्याइजे सुखकाररे;
अरिहंत जेवा थाइए, दोष रहे न लगाररे. श्री अरि-
हंत ॥ १ ॥ नमणठवणद्रव्यजावथी, अरिहंत
गानां ध्यातारै; आत्म अरिहंतपद वरे, कर्म सकल
दूर जातारै. श्री अरिहंत ॥ २ ॥ वीशस्थानकने
सेवतां, द्रव्यभावथी भावेरे; तीर्थकरकर्मबंध ए,
पूर्व त्रीजानव थावेरे. श्री अरिहंत ॥ ३ ॥ वीश
स्थानमय आत्मा, जावथी हर्षोल्लासेरे; उज्ज्वल

२१८

शुद्धपरिणामथी, अर्हत् पदवी प्रकाशेरे. श्री अरि-
 हंत० ॥ ४ ॥ अरिहंतनामना जापथी, स्थापनामां
 प्रभु ध्यावेरे, द्रव्य भाव बेजेदथी, आत्म जिनवर
 थावेरे. श्री अरिहंत० ॥ ५ ॥ तीर्थकरनामकर्मने,
 आत्म ज्यारथी बांधेरे, द्रव्यतीर्थकर त्यारथी,
 क्षीणमोही गुण साधेरे. श्री अरिहंत० ॥ ६ ॥ जन्म-
 थकी त्रणज्ञान ठे, मतिश्रुतअवधि प्रमाणोरे;
 चोश्रुं दीक्षा ग्रहे थके, मनपर्यव दित्र जाणोरे. श्री
 अरिहंत० ॥ ७ ॥ गुणस्थानक चोथाथकी, वारमा
 पर्यंत जाणोरे; द्रव्यथी तीर्थकरपणुं, आलंबन शुद्ध
 आणोरे. श्री अरिहंत० ॥ ८ ॥ उपशम क्षयोपशम
 अने, क्षायिकसमकित भावेरे; चरणमां क्षयोपशम
 पणुं, द्रव्यतीर्थकर दावेरे. श्री अरिहंत० ॥ ९ ॥
 जावथी तीर्थकर प्रभु, समवसरणमां सोहेरे; क्षा-
 यिकनवलब्धिधणी, भव्योनां मन मोहेरे. श्री
 अरिहंत० ॥ १० ॥ अंतर क्षायिकभाव ठे, औद-
 यिककर्म प्रवर्तेरे, आत्मपणुं परीणामथी, आराधीए
 शुभरीतेरे. श्रीअरिहंत० ॥ ११ ॥ प्रारब्धकर्म
 अघातियां, तीर्थकर भोगवतारे, जीवन्मुक्त जिने-
 श्वरा, ध्यातां कर्मो टळतारे. श्री अरिहंत० ॥ १२ ॥
 वारगुणे प्रभु शोद्धता, विश्वोद्धारक देवारे, असंख्य

२१९

देवोने देवीश्री, करती प्रभुनी सेवारे. श्री अरिहंत०
 ॥ १३ ॥ मिश्रय अरिहंत आतमा, रागद्वेषने हण-
 तारे; क्षयोपशम उपशम क्षये, शुद्धातमपद वरतारे;
 वीर जिनेश्वर उपदिशे, आतम अरिहंत देवारे;
 बाहिरमां मुंझो नहीं, निज निजनी दिलसेवारे. वीर०
 ॥ १४ ॥ मिश्रय समकित चरणथी, आपोआप प्रका-
 शरे. असंख्ययोगनो जे पति, आतम ज्योते विलासेरे.
 वीर० ॥ १५ ॥ शुद्ध ब्रह्म निजातमा, असंख्यप्रदेशी
 पोतेरे; सेवा भक्ति ज्ञानथी, प्रगटे अनंतीज्योतेरे.
 वीर० ॥ १६ ॥ आतम ते अरिहंत ठे, प्रेमे गावो
 ध्यावारे; बुद्धिसागर आतमा, अनंत आतम पावारे.
 वीर० ॥ १७ ॥

अर्हत्पदं नौमि गुणैर्युतं च ।

स्वाभाविकं शुद्ध मनन्तरूपम् ॥

पूज्यंपरब्रह्म जिनेश्वरं च ।

द्रव्येणभावेनचपूजयामि. ॥ १ ॥

ॐ अर्हपरमेश्वराय, सर्वदेवाधिदेवपूजितायच,
 श्रीमतेजिनेन्द्राय, जलं, चंदनं, पुष्पं, धूपं, दीपं,
 अक्षतं, तण्डुलं, नैवेद्यं, फलं, यजामहे स्वाहा ॥

इति अर्हत्पूजा समाप्ता ॥

२३६

द्वितीया सिद्धपूजा.

अरिहंत उपदेशार्था जेह जाण्या, नमुं सिद्ध ते शुद्धरूपे प्रमाण्या; अतःआदिमां पूज्य अरिहंतदेवा, पछीथी करुं सिद्धनी शुद्धसेवा, ॥ १ ॥ अनंता यथा सिद्ध थाशे अनंता, परब्रह्म ज्योतिस्वरूपी नदंता, परिपूर्णज्ञाने यथा जेह सिद्धा; अयोगी अज्ञोगी अवेदी प्रबुद्धा. ॥ २ ॥

वाजे भव वरथानकतपकरी. ए राग.

कर्मातीत निरंजन निर्मल, निःसंगी निष्कामी; सापेक्षाए रूपी अरूपी, वर्ते आत्मरामीरे; भविका सिद्ध प्रभु आराधो, आत्मशुद्धि साधोरे. नविका, सिद्ध० ॥ १ ॥ एकसमयमां सर्वद्रव्यना, गुणपर्यायने जाणै; देखे आनंदज्ञोगे वर्ते, वर्ते आत्मिक प्राणैरे. नविका, सिद्ध० ॥ २ ॥ द्रव्यथी सिद्धो शोभे अनंता, सिद्धक्षेत्रे प्रसिद्धा; एकसिद्धने आश्रयी आदि, अनंतगुण समृद्धारे. नविका, सिद्ध० ॥ ३ ॥ अंतर रहितने अजर अमर जे, नहीं मन वाणी काया; संसारीजीवोना जेओ, अनंतभागे सुहायारे. भविका, सिद्ध० ॥ ४ ॥ क्षायिकभावे सिद्ध थया जे, पुद्गलसंगथी न्यारा; परिणामिकचावे जीवन्ता,

२११

जैहने नहीं आकारारे. भविका० ॥ सिद्ध० ॥५॥ वर्ण
 गंध रस स्पर्श रहित जे, आपस्वरूपे रूपी; पुद्गल
 रूपे जेह अरूपी, वतें रूपारूपीरे. भविका. सिद्ध० ॥६॥
 आठे कर्मनो नाश करीने, आठगुणे जे शोभे; व्य-
 तिरेकी एकत्रिंशगुणी जे, जविजननां मन थोभेरे.
 भविका. सिद्ध० ॥ ७ ॥ अनंतगुणपर्याये जेओ,
 आविर्भावे सुहावे; प्रणमुं गावुं ध्यावुं सिद्धो, मोह
 टळे सुख थावेरे. भविका. सिद्ध० ॥ ८ ॥ अनंत
 सिद्धनी ज्योतिमांही, अनंतसिद्धो ज्योते; त्रण
 कालमां नित्य छे जेओ, जीव भावोद्योतेरे. जविका,
 सिद्ध० ॥ ९ ॥ सिद्धस्वरूपी आतम भावी, सिद्धा-
 नंदने पामे; एक समयमां ऊर्ध्वगतिथी, सिद्ध स्था-
 नमां जामेरे. जविका. सिद्ध० ॥ १० ॥ आत्मिक शुद्ध
 समाधि प्रकटे, मुक्तिनुं सुख प्रगटे; निर्विकल्प समा-
 धिज्ञाने, सर्वावरणो विघटेरे. भविका. सिद्ध० ॥११॥
 नाम स्थापना दव्यने भावथी, सिद्धो वंदो ध्यावो;
 आपोआप स्वरूपे सिद्धो, परमानंदने पावोरे. भविका.
 सिद्ध० ॥ १२ ॥

वीर जिनेश्वर उपदिशे. ए राग.

प्रभु महावीर उपदिशे, त्रणभुवननो राणोरे;
 अनंतगुणपर्यायी छे, आतमप्रभु घट मानोरे.

२२२

प्रभु० ॥ १३ ॥ निज आतम ते सिद्ध छे, जीव छे
 ते शिव जाणोरे; शुद्धोपयोगे आतमा, परब्रह्म प्रमा-
 णोरे. प्रभु० ॥ १४ ॥ आरोपित पुद्गलदशा, तेथी
 आतम न्यारोरे; शुद्धातम उपयोगथी, सिद्ध स्वयं
 आधारोरे. प्रभु० ॥ १५ ॥ अनंत ज्ञानानन्दनो, आ-
 विर्जाव स्वभावेरे; बुद्धिसागर आतमा, परमेश्वर
 निजजावेरे. प्रभु० ॥ १६ ॥

विरहितानपि कर्मजिरष्टाभिः सहजसिद्ध गुणाष्टक
 धारिणः । समयदेशपदान्तरमस्पृशः, सकलसिद्धि
 गतान्परिपूजये ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय, परमेश्वराय, श्रीमते
 सिद्धाय जलं० यजामहे स्वाहा ॥

तृतीया आचार्यपदपूजा.

बत्रीशी बत्रीशी गुणवडे, सूरिपद सुखकार;
 गातां पूजतां ध्यावतां, सूरिपणुं निर्धार. ॥ १ ॥
 द्रव्य क्षेत्रने कालथी, भावथी सूरि महंत; तीर्थेश्वर
 पाछळ प्रभु, राजा शोत्रे संत. ॥ २ ॥ जिनशासन
 साम्राज्यमां, संघ चतुर्विध भूप; वर्तमानमां संघना,
 प्रभु जे धर्मस्वरूप. ॥ ३ ॥

२२३

धन्य धन्य संप्रति साचो राजा. ए राग.

प्रेमे प्रणमुं श्रीसूरीश्वर, जैनधर्मना धोरीरे;
 चार प्रकारे संघोन्नतिनी, जेना हाथमां दोरीरे. प्रेमे०॥
 ॥ १ ॥ सूरिमंत्रनो जाप करेने, धर्माचारप्रचारेरे;
 पंचाचारने पाळे पळावे, संघनुं श्रेय विचारेरे, प्रेमे०॥
 ॥ २ ॥ द्रव्यादिक अनुसारे वर्ते, संघने जे वर्तावेरे;
 बत्रीश उपमा जेने छाजे, धर्मने रक्षे जावेरे. प्रेमे०॥
 ॥ ३ ॥ गौणने मुख्यपणे सहु आशये, सर्वधर्म
 समजावेरे; सर्वनयोनी सापेक्षाए, स्वाधिकार जणा-
 वेरे. प्रेमे० ॥ ४ ॥ द्रव्यभावथी सर्व संघनी, प्रगतिने
 उपदेशेरे; कार्यो करंता निलेंपी थै, रहे न मनमां
 क्लेशेरे, प्रेमे० ॥ ५ ॥ त्यागी गृहस्थी वन्ने संघने,
 उत्सर्गने अपवादेरे; धर्माचारविचार जणावे, आ-
 त्मिकसुख आस्वादेरे. प्रेमे० ॥ ६ ॥ तीर्थपति
 सम संप्रतिकाले, धर्म करावे बोधेरे; तीर्थकरसम
 आज्ञाकारक, संघने रहे अक्रोधेरे. प्रेमे० ॥ ७ ॥
 द्रव्यने भावथी संघजीवन ने, शासन उन्नतिकाजेरे,
 जे काले जे क्षेत्रे करवुं, आज्ञा करी जग गाजेरे,
 प्रेमे० ॥ ८ ॥ प्रतिरूपादिक चौदगुणोना, धारक
 योगी ज्ञानीरे; क्षमाप्रमुखदशधर्मना धारक,

२२४

समजावीने ध्यानीरे. प्रेम० ॥ ९ ॥ चारजावना
 चारभावना, जावे विकथा वारीरे; चार अनुयोगने
 वर्तावे, सर्वप्रमादने वारीरे. प्रेम० ॥ १० ॥ करवुं
 करावुं ने अनुमोदवुं, जे जे योग्य ते करतारे;
 गाढरीयाप्रवाहे न चाले, स्वतंत्रता दिल धरतारे.
 प्रेम० ॥ ११ ॥ सूत्रो शास्त्रो ग्रन्थो आदि, परंपरा
 सहु जाणेरे; अनुभवथी एकनिश्चयधारी, संघनुं
 अक्य जे मानेरे. प्रेम० ॥ १२ ॥ निश्चयने व्यवहारे
 वर्ते, संघना अक्यने सांधेरे; एवा आचारोने विचारो,
 बोधो गुणोथी वाधेरे, प्रेम० ॥ १३ ॥ सारण वारण
 चोयणने जे, पढिचोयण गुणधारीरे; जे श्रुतकेवली
 स्वपर समयना, ज्ञाता गुणगण धारीरे. प्रेम० ॥ १४ ॥
 तीर्थकर सम सूरि करे ते, क्षेत्रने कल्पानुसारेरे; धर्मा-
 चारमां जेह सुधारो, करता स्वाधिकारेरे, प्रेम०
 ॥ १५ ॥ पड्या पडंता क्षुद्रप्रभेदो, टाळे उदार
 विचारेरे; बाह्यराज्यसम धर्मराज्यना, उन्नतिहेतु
 धारेरे, प्रेम० ॥ १६ ॥ चारनिक्षेपे सूरिवर पूजो,
 वंदो गावो ध्यावोरे, बुद्धिसागरपरमप्रभुता, परमानं-
 दने पावोरे, प्रेम० ॥ १७ ॥

आतम ते आचार्य ठे, उपादान स्वभावेरे,
 क्षयोपशमने उपशमे, क्षायिक गुणगणदावेरे. आ-

२२५

तम० ॥ १८ ॥ पूजो वंदो भावयी, गात्रोने मन
ध्यावोरे, आत्मस्वजावे सहजयी, शुद्धोपयोगे सुहा-
वोरे, आतम० ॥ १९ ॥ आतमना एकतानयी, सर्व
शक्तियो उल्लसेरे, बुद्धिसागर आतमा, सूरिपद
गुणयी विकसेरे. आतम० ॥ २० ॥

स्वपरशास्त्ररहस्यनिवेदिनः चरितपञ्चविधा-
चरणानपि, जिनसुधर्मधुरीणतया स्थितान्, सकल
सूरिवरान्परिपूजये ॥ ॐ ह्रीं श्री परमपुरुषाय,
परमेश्वराय, श्रीमते सूरिवराय जलं० यजामहे स्वाहा ॥

चोथी उपाध्यायपदपूजा.

पंचविंशति सद्गुणे, उपाध्यायनगवंत, भणे
भणावे शास्त्रने, पूजो वंदो संत. ॥ १ ॥ गुणो अने
आचारयी, आत्मशुद्धि करनार, उपाध्याय जगमां
जयो, युवराजा जयकार ॥२॥ उपाध्यायनी भक्तियी,
प्रगटे दर्शनज्ञान, वाचंयम पाठक नमो, पूजो धरी
एकतान ॥ ३ ॥

सिद्धचक्रनी सेवा कीजे, ए राग.

उपाध्यायनी सेवा कीजे, विद्यमान सुखकारीजी,
विद्यमान पाठकनी जक्ति, करतां तरे नरनारी, जवि-

२९

२२६

जन सेवोजी, त्यागी सर्वप्रमाद, ल्हावो लेवोजी. ॥
 ॥ १ ॥ अंग उपांगना पाठकज्ञानी, भणे भणावे
 जावेजी, जैनधर्म फेलावे जगमां, पुण्ये दर्शन थावे.
 भवि० ॥ २ ॥ ज्ञानावरणीआदिकर्मां, अनंत
 क्षय झट थातांजी; पाठकप्रभुना वैयावच्चथी,
 आत्मस्वभावे सुहातां. जवि० ॥ ३ ॥ वर्तमानमां
 तरतमयोगे, वर्ते पाठकदेवाजी, गुणनी दृष्टि
 धारी घटमां, करीए जावे सेवा. भवि० ॥ ४ ॥
 विनयने बहुमानथी सेवा, चारनिक्षेपे करीएजी.
 जीवंता वाचंयम सेवो, समकित चारित्र वरीए. भवि०
 ॥ ५ ॥ निश्चयथी निश्चयमां वर्ते, व्यवहारे व्यवहर-
 ताजी; उत्सर्गने अपवाद विचारी, क्षेत्रकाळ अनुसर-
 ता. भवि० ॥६॥ पंच समिति त्रण गुप्ति धारे, जैनधर्म
 विस्तारेजी; निज निज अधिकारे सहु वर्णने, राखे स्थिर
 आचारे. जवि० ॥७॥ सर्व संघनी द्रव्यभावथी—चढती
 हेतु प्ररूपेजी; कर्म करे सहु अक्रिय थैने, निष्कार्मां
 निजरूपे. भवि० ॥ ८ ॥ शासन सेवा संघनी सेवा,
 करता अर्पाइ जाताजी; वेपक्रियाक्षुल्लकमतजेदे,
 संघजेदे न रहाता. जवि० ॥ ९ ॥ भव्यजीवोनी
 द्रव्यभावथी, आतमशुद्धि करताजी; ज्ञानक्रिया
 भक्तिने समाधि, अनेकयोगने धरता. भवि० ॥१०॥

२२७

सूरिजी राजाने मंत्री, पाठक संघना हेतेजी, पूजी
 वंदी स्तवीने ध्याइ, रहीए शिव संकेते. भवि० ॥११॥
 तरतमयोगे द्रव्यभावयुत, उपाध्यायने भजीएजी;
 पंचमकालने क्षेत्रानुसारे, वर्तताने यजीए. नवि० ॥१२॥

निज आतम निश्चय प्रभु, पाठक जाणी ध्यावोरे;
 उपाध्याय ते आतमा, अंतरमां लय लावोरे. निज०
 ॥ १३ ॥ अनंतगुणी आतमप्रभु, अनंतपर्यवी पोतेरे,
 धारणा ध्यान समाधिथी, वर्ते आनंद ज्योतेरे. निज०
 ॥ १४ ॥ शुद्धातम उपयोगथी, सहजे आत्मस्वभा-
 वीरे, सर्व करे निर्बंध जे, मोहनी वृत्ति हठावीरे. निज०
 ॥१५॥ अशक्य कांइ न आत्मने, अनंतशक्ति स्फुरा-
 वोरे, बुद्धिसागर आतमा, श्रद्धा भक्तिथी जावोरे. नि०१६

जमिमवैर्यविनेयगणेषु ये ।

प्रथितबुद्धिबलाश्च गतस्मयाः ॥

श्रुतमुपाठसुधारसवाहिनः ।

प्रतिदिनं प्रणमामि सुपाठकान् ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय, परमेश्वराय, श्रीमते
 वाचकाय, जलं० यजामहे स्वाहा ॥

११८

पंचमसाधुपदपूजा.

दोहरा.

अप्रतिबद्ध जे विश्वमां, कर्मयोगी निष्काम;
साधे आतम साधना, रमता आतमराम. ॥ १ ॥
मुनि तपसी अनगारी जे, साधु संयत नाम; यति
ऋषि त्यागी श्रमण, आर्य भिक्षुक गुणधाम. ॥ २ ॥
आश्रमत्यागी महंत जे, अनेक जेनां नाम; वंदो
पूजो प्रेमथी, संत प्रभु विश्राम. ॥ ३ ॥

॥ औधवजी संदेशो कहंजो श्यामने. ए राग ॥

प्रीतलडीने सांधो साधु साधमां, साधु संगते
प्रभुनां दर्शन थाय जो, पंचम आरे दुर्लभ साधु सं-
गति, मुनि जजंतां जन्म जरा दुःख जाय जो, प्रीत-
लडी० ॥ १ ॥ साधुसंगतथी समकित प्रगटे खरुं,
ज्ञान अने चारित्र जलुं प्रगटायजो, संतनी संगे
रहीए श्रद्धाप्रेमथी, एकपलकमां धार्यु निश्चय
थाय जो. प्रीतलडी ॥ २ ॥ पंचमआरे मुनिनी
श्रद्धा प्रीतडी, करतां आतम परमातम झट थाय
जो, संस्कारी भव्योने भक्ति सांपडे, गुणरागे सवळी
बुद्धि प्रगटाय जो, प्रीतलडी० ॥ ३ ॥ यम नियमने
आसन प्राणायामथी, प्रत्याहारने धारणा ध्यानथी

३२६

जैहजो, आत्मसमाधि योगे घटमां वर्तता, निष्का-
 मीने सम ठे वनने गेहजो, प्रीतलडी० ॥ ४ ॥ धीरे
 धीरे मनने साधे साधुजी, सद्गुण साधे करता दुर्गुण
 त्यागजो, आसक्ति वण आचारोमां वर्तता, मुनिपर
 धारो स्वार्पण करीने रागजो, प्रीतलडी० ॥ ४ ॥
 आत्मशुद्धिहेते सापेक्षे साधना, गौणने मुख्यपणे
 जाणे जे योगजो, उत्सर्गेने जे अपवादे वर्तता,
 निलेंपी थै जोगवे सुख दुःखजोगजो, प्रीतलडी० ॥६॥
 आपत्काले आपद्दुर्धमे वर्तता, बाह्यसंगमां जे
 दिलमां निःसंगजो, ध्येयपणे निजदिलमां प्रभु
 प्रगटावता, प्रगटे मुनिनी संगे आत्मरंगजो;
 प्रीतलडी० ॥ ७ ॥ अंतर बाह्यनी ग्रन्थिमां समता
 नहीं, गुरु आज्ञाए सर्वे कर्ता कर्मजो. निर्भय खेद-
 रहित अद्वेषी साधुजी, समताभावे अनुभवे शिव
 शर्मजो. प्रीतलडी० ॥८॥ समभावे मुक्ति छे सहु दर्शन
 विषे, क्रिया पंथ मत बाह्यथकी पण होयजो, तो पण
 मुनिभावे निश्चयसमकितवडे, समभावीने नरु न
 बाह्यनुं कोयजो. प्रीतलडी० ॥ १ ॥ गच्छनी नि-
 श्राए स्थविरो वर्ते सदा, गच्छोमां समभावे मुक्ति
 होयजो, सापेक्षाए हठ कदाग्रह त्यागीने, मुख्यपणे
 आत्म उपयोगी जोयजो. प्रीतलडी० ॥ १० ॥ जे

२३०

काले जे क्षेत्रे जे करवुं घटे, स्वपरजीवोना धर्म
 हितार्थे जेहजो, तेह करावे करे अने अनुमोदता,
 अल्पदोषने धर्म घणो करे तेहजो, प्रीतलडी० ॥११॥
 सूरि गुरुनी आज्ञाए वरें मुनि, यता कषायो रोधे
 साधे धर्मजो; आत्मराज्यनी स्वतंत्रता जे साधता,
 करे कर्म पण उपयोगे जे अकर्मजो. प्री० ॥ १२ ॥
 पूर्णानंदी आत्मज्ञाने अनुजवे, साधक बाधक
 कृत्याकृत्य विवेकजो; जैनधर्म उपदेशे जक्तोने भलो,
 रहे समाधि एवी धारे टेकजो. प्री० ॥ १३ ॥ पूजो
 वंदो गावो मुनिपदने जलुं, निश्चयदृष्टिने धारी
 व्यवहारजो; बुद्धिसागरमुनिसेवाजक्तिबळे, क्षणमां
 प्रभुपद पामे नरने नारजो. प्री० ॥ १४ ॥

साधु ते निज आतमा; शुद्धातम उपयोगेरे;
 शुं मुंने शुं लोचथी, त्यागे शुं बाह्यभोगेरे. साधु०
 ॥ १४ ॥ शुद्धातमरमणी मुनि, मोहनी वृत्ति रोकेरे;
 हर्षे नहि जे बाह्यमां, रहे न बाह्यमां शोकेरे. साधु०
 ॥ १६ ॥ समभावी भवमुक्तिमां, सहजानंदता भो-
 गीरे; रागने त्यागथी भिन्न जे, आत्म देखे योगीरे.
 साधु० ॥ १८ ॥ निःसंगी निष्कामी जे, घटमां
 सिद्धि प्रकाशेरे; आनंदथी उभराइने, प्रसन्नताए

२३१

विकासेरे. साधु० ॥ १९ ॥ आशा तृष्णा कामना,
तेथी गणे निज न्यारोरे; बुद्धिसागर आतमा, सिद्ध
बुद्ध निर्धारोरे. साधु० ॥ २० ॥

स्वपरकार्यसुसाधनतत्परान् ।

शिवभवस्थितिसाम्यसमन्वितान् ॥

विदितपञ्चमहाव्रतधारिणः ।

प्रणिदधे प्रतिसाधुमतद्विकान्

ॐ ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय, परमेष्ठिने साधवे जलं०
यजामहे स्वाहा ॥

षष्ठी दर्शनपदपूजा.

शुद्धातम दर्शन यतुं, निश्चय दर्शन तेह; देव
गुरुने धर्मनी, श्रद्धा दर्शन एह. ॥ १ ॥ दर्शन छे
व्यवहारथी, निश्चयथी सुखकार; सरुसठबोले
अलंकर्युं, धारो नरने नार. ॥ ३ ॥ दर्शन पाम्यो
आतमा, निश्चय मुक्ति जाय; जडचेतन सम्यक्पणे,
जाणी नहि मुंझाय. ॥ ४ ॥

ए गुण वीरतणो न विसारं. ए राग.

सम्यग् दर्शन जग जयकारी, सर्वजीव हित-
कारीरे; प्रभु श्री महावीर जिन उपदेशे, पामो नरने

२३२

नारीरे. सम्यग्० ॥ १ ॥ द्रव्यभाव बे जेदे दर्शन,
 निश्चयने व्यवहारेरे; देव गुरुने धर्मनी श्रद्धा, भेदे
 त्रण्यप्रकारेरे. सम्यग्० ॥ २ ॥ आतम ते निश्च-
 यथी देव ज, आतम ते गुरु जाणोरे; आतममांही
 सत्यधर्म छे, निश्चयदर्शन मानोरे. सम्यग्० ॥ ३ ॥
 मुनिभावे छे निश्चयसमकित, रत्नत्रयी अभेदेरे;
 सापेक्षाए जाणी पामो, रहो न आतम खेदेरे, सम्य-
 ग्० ॥ ४ ॥ मुनिजावे समकितपणुं ठे, आचारांगे
 जाख्युरे; उक्कष्टे कृणमां छे मुक्ति, एवुं प्रभुए दाख्युरे.
 सम्यग्० ॥ ५ ॥ दर्शनथी ज्ञान चारित्र प्रगटे, तेथी
 मुक्ति नकीरे; माटे दर्शन पामो भव्यो, राखो श्रद्धा
 पकीरे. सम्यग्० ॥ ६ ॥ गुरुने सेवे दर्शन प्रगटे,
 जिनवाणी सांभळतारे; साधुसंत गुरुसेवा करतां,
 दर्शन कारण फळतारे; सम्यग्० ॥ ७ ॥ श्रद्धा प्री-
 तिथी गुरु सेवे, जिनप्रतिमा अवलंबेरे; समकित
 दर्शन पामे भक्तो, पके न मिथ्य। अचंभेरे. सम्यग्०
 ॥ ८ ॥ आतमथी मिथ्यात्व टळे तेम, श्रद्धा साची
 प्रगटेरे; आत्मानुभव थातां पूर्वे, मिथ्यामोहनी
 विघटेरे. सम्यग्० ॥ ९ ॥ सर्वसंघनी सेवा भक्ति,
 करतां हर्षोल्लासेरे; आतम समकित पामे निश्चय,
 आविर्जावे विकासेरे. सम्यग्० ॥ १० ॥ सम्यग्

१३३

दर्शनीनो संग करशो, समकितनी करो जक्तिरे;
बुद्धिसागर आतम सम्यग्—, दर्शन प्रगटे शक्तिरे.
सम्यग्० ॥ ११ ॥

सांभळशो मुनि संयमरागे. ए राग.

निश्चयथी दर्शन ते आतम, उपशमने ह्यो-
पशमेरे; ह्याधिकदर्शनरूपी आतम, पको न भिथ्या
भर्मेरे. नि० ॥ १२ ॥ आत्मप्रतीति अनुजव आवे,
जलपंकजवत् न्यारोरे; निर्लेपी आतमगुण खेले,
आनंद अपरंपारोरे. नि० ॥ १३ ॥ निकचित जे
कर्मना भोगो, त्यां नहीं शोकने प्रीतिरे; निर्जरतो
कर्माने भोगवे, आतमसुख प्रतीतिरे. नि० ॥ १४ ॥
पंचवार उपशम घट प्रगटे, ह्यायोपशमी असंख्यरे;
एकवार ह्याधिकसमकितनी, प्राप्ति थतां निःशंकरे;
नि० ॥ १५ ॥ चारनिक्षेपे सातनयोथी, सम्यग्दर्शन
समजोरे; बुद्धिसागरआत्मस्वभावे; श्रद्धा प्रेमेरमजोरे;
नि० ॥ १६ ॥

सकृदपि प्रतिपत्तिरहो नृणां ।

भवति यस्य भवस्थितिमापिका ॥

३०

२३४

शिवसुखं प्रतिकन्दलतां दधत् ।

नमत तद्गुरुदर्शनमादरात् ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय, परमेश्वराय, जन्म-
जरामृत्युनिवारणाय, श्रीमते जिनेन्द्राय, सम्यग्-
दर्शनपूजार्थं जलं यत् स्वाहा ॥

सप्तमी ज्ञानपदपूजा.

ज्ञान ते आत्मस्वरूप छे, चेतन गुण छे ज्ञान,
ज्ञान विना नहीं मुक्तिछे, वीर कहे जगवान्. ॥ १ ॥
ज्ञानथी आनंद उपजे, ज्ञानथी विश्व प्रकाश; ज्ञान
विना जगजीवडा, पग पग दुःखी दास ॥२॥ ज्ञानीने
पूजो जवी, सेवो नरने नार; ज्ञानावरणना नाशथी;
व्यक्त ज्ञान सुखकार. ॥ ३ ॥

ध्यान क्रिया मनमां आणीजे. ए राग.

ज्ञानने सेवो ज्ञानीने सेवो, ज्ञान जणोने भणा-
वोरे; ज्ञानाभ्यासीने स्हाय करो भवी, शास्त्रो लखावो
छपावोरे. ज्ञान० ॥१.॥ जैनधर्म जगमां फेलावो, ज्ञा-
नीओ प्रगटावीरे; ज्ञान विना नहि शासन चाले,
ज्ञान छे मुक्तिनी चावीरे. ज्ञान० ॥ २ ॥ श्रुतकेवली

३३५

केवलीसम जाणो, ज्ञानर्था धर्म प्रचारोरे; जीवता
 तीर्थो ज्ञानीओ, जैनधर्म आधारोरे. ज्ञान० ॥ ३ ॥
 ज्ञान विमानुं जीवन जड ठे, आत्मजीवन छे ज्ञानेरे;
 ज्ञानी ध्यान समाधि पामे, वर्ते शुद्धात्मतानेरे; ज्ञान०
 ॥४॥ ज्ञानीनो जे विनय न सेवे, तेने छे अतिचाररे;
 ज्ञानीनी आशातना टाळो, सफल करो अवताररे.
 ज्ञान० ॥ ५ ॥ भानु आगळ तम नहि रहेतुं, ज्ञानी
 आगळ अज्ञानेरे; ज्ञानीघटमां दोष रहे नहीं,
 ज्ञान स्वतंत्र प्रमाणरे. ज्ञान० ॥ ६ ॥ ज्ञानर्था चारित्र
 प्रगटे साचुं, ज्ञान छे श्रेष्ठ पवित्ररे; स्वपरप्रकाशक
 ज्ञान ठे सुंदर, तेथी वशमां ठे चित्तरे. ज्ञान० ॥७॥
 ज्ञानीनी आज्ञाए हलाहल—, पीतां मुक्ति थातीरे;
 अज्ञानी वचने अमृतने, पीतां न शांति सुहातीरे.
 ज्ञान० ॥ ८ ॥ पिंडस्थादिकध्यानने ध्यावे, धर्म शुकल
 वे ध्यावेरे; ज्ञानी ध्याननी सूक्ष्मक्रियाथी, क्षणमां
 मुक्ति पावेरे. ज्ञान० ॥ ९ ॥ ज्ञाननी दासी सर्वक्रिया
 ठे, ज्ञानी पासे किरियारे; ज्ञाने जगमां अनंतत्रव्यो,
 भवसागरने तरियारे. ज्ञान० ॥ १० ॥ असंख्ययोग
 छे मुक्तिना हेतु, ज्ञानयोग सहु मोटोरे; ज्ञानीनी
 सेवा त्रक्तिथी, रहे न कोई त्रोटोरे. ज्ञान० ॥ ११ ॥
 ज्ञानीने पूजो ज्ञानीने वंदो, ज्ञानी छे अप्रमादीरे;

२३६

शुष्कज्ञानी एकांतवादी, क्रियाजडी उन्मादीरे.
ज्ञान० ॥१२॥ परोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान बे जेदे, श्रुत स्व-
पर उपकारीरे; बुद्धिसागरसद्गुरुसंगे, रहेशो नरने
नारीरे. ज्ञान० ॥ १३ ॥

वीरजिनेश्वर उपदिशे, ज्ञान सकल उपकारीरे;
चारनिक्षेपे ज्ञानने, समजो नर अने नारीरे. वीर०
॥१४॥ मति अट्टावीश जेदे ठे, श्रुत ठे चउदश भेदेरे;
अवधि असंख्यप्रकार ठे, रूपी वस्तु वेदेरे. वीर०
॥ १५ ॥ मनपर्यव बे जेदे ठे, मननां पुद्गल जाणेरे;
केवल रूपारूपीना, सहु पर्याय पिछानेरे. वीर०॥१६॥
अध्यातमज्ञाने जवी, केवलज्ञानने पामोरे; बुद्धि-
सागर आतमा, परमप्रभु थै जामोरे. वीर० ॥ १७ ॥

सकलवस्तुसमूहविभासनं ।

प्रचितकर्मविनाशनकर्मठम् ॥

युगलजावगतं मतिमुख्यकं ।

विरतिदं रतिदं प्रणिदध्महे ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्री परमपुरुषाय, परमेश्वराय, जन्म-
जरामृत्युनिवारणाय, श्रीमते जिनेन्द्राय, ज्ञानार्थच
ज्ञानपूजार्थं जलं यं स्वाहा ॥

२१७

अष्टमी चारित्रपदपूजा.

सदाचार सद्गुणमयी, चारित्र छे सुखकार;
गावो ध्यावो आचरो, भावे नरने नार. ॥ १ ॥ द्रव्य-
भाव चारित्र ठे, निश्चयने व्यवहार; स्वर्गने मुक्ति-
फल मळे, तजो दुर्गुण आचार. ॥ २ ॥

सिद्धिये नमो सिद्ध अनंता. ए राग.

चारित्र एवुं मळो सुखकारी, जाउ चारित्रीनी
बद्धिहारीरे; चारित्र० समभावे जग सघळुं लागे,
रागद्वेष न मनमां जागेरे. चारित्र० ॥ १ ॥ परभावे-
रस रीझ न आवे, रीऊ लागे आत्मस्वजावेरे; चा-
रित्र० क्रोधना उपर क्रोध जागे ज्ञाने, मन रहेतुं नहीं
अभिमानेरे. चारित्र० ॥ २ ॥ निर्दमने निलोचभावे
रहेवुं, सुख दुःख समजावे सहेवुंरे; चारित्र० देश-
विरति सर्वविरतिजेदे, आठ बार कषाय न वेदेरे.
चारित्र० ॥ ३ ॥ रांक जीवो पण चारित्रने पाळी,
पाम्या मुक्तिवधू लटकाळीरे; चारित्र० शुक्ल शु-
क्ल परिणाम वधंता, एतो अनुभवे ज्ञानीसंतारे.
चारित्र० ॥४॥ मैत्री प्रमोदने माध्यस्थजावे, करुणाए
हृदय शुद्ध थावेरे; चारित्र० निर्मम निरहंकारे प्रणामे,

३३८

सत्य अप्रतिबद्धता जामेरे. चारित्र० ॥ ५ ॥ अस्तेय
 ब्रह्मचर्य संतोषे, तजी व्यसनने सदगुण पोषेरे.
 चारित्र० मित्र शत्रुपर राग न रोष, नहीं निन्दक
 दृष्टिनो दोषेरे. चारित्र० ॥ ६ ॥ तृणमणिपर सम-
 भावनी वृत्ति, रहे मनमां न विषयासक्तिरे; चारित्र०
 आवे अनुभवसुखनी घटमां खुमारी, थाय कर्मो
 सकल उपकारीरे. चारित्र० ॥ ७ ॥ थाय परमार्थ-
 पदनी योगप्रवृत्ति, दोष अल्पने बहुधर्मनीतिरे.
 चारित्र० बाह्यकर्म करे पण मोह न एमां, फल
 आशा रहे नहीं तेमांरे. चारित्र० ॥ ८ ॥ अतिचार
 दोष सहु प्रगट्या वारे, मळयो मानवभव नहीं
 हारेरे. चारित्र० शुद्धउपयोगथी निज आत्म प्रकाशे,
 शुभ अशुच न मनमां भासेरे. चारित्र० ॥ ९ ॥
 पूजो गावोने एहं मनमां ध्यावो, लेवो चारित्रनो सत्य
 ल्हावोरे; चारित्र० ॥ संयमीमुनिनां दर्शन दुःखहारी,
 सेवो चारित्रिने नरनारीरे. चारित्र० ॥ १० ॥ समकी-
 वंताने चारित्रनी इच्छा, करी पुरुषार्थ ग्रहे दीक्षारे.
 चारित्र० धर्म शुक्लध्याने आतमक्रुद्धि, बुद्धिसागर
 मंगलसिद्धिरे. चारित्र० ॥ ११ ॥

२३९

माया कार्मीरे माया न करो चतुरसुजाण ए राग.

आतमगुणो विनारे, होळी राजा सरखो वेष;
भवोभव जीवडारे, पाम्या आधिव्याधि कलेश. ॥ गुण-
वण आडंबर शा खपनो, बाह्यक्रिया व्यवहारेरे; वेष
क्रिया छे गुणनेमाटे, जाणे ते निज तारे. आतम०॥
॥ १२ ॥ मोह वने नहि मनडुं भमतुं, ध्यान समाधि
योगेरे; जडमां सुखनी रहे न इच्छा, आतमसुखना
भोगे. आतम० ॥ १३ ॥ दुर्गुण दोषो टाळी सघळा,
आत्मगुणो प्रगटावोरे; चिदानंद उपयोगरमणता,
चारित्र ज ते च्हावो. आतम० ॥ १४ ॥ मोहनों
उपशम क्षयोपशमने, क्षायिकजाव जे करवोरे; नि-
र्विकल्पसमाधियोगे, परमानंदने वरवो. आतम०
॥ १५ ॥ आत्मोपयोगे आत्मरमणता, निश्चयथी
चारित्रेरे; बुद्धिसागर पूर्णानन्दी, आतम पूर्ण पवित्र.
आतम० ॥ १६ ॥

रमणतात्मगुणेषु हि यत्रवै ।

विगतनूतनकर्मपथं च यत् ॥

जगति जीवसमूहसुवह्वभं ।

सुललितं चरणं हृदि धारये ॥ १ ॥

२४०

ॐ ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय, जन्मजरामृत्युनिवा-
रणाय, श्रीमते जिनेन्द्राय, चारित्र्यपदलाभार्थं पूजार्थ-
स्वजलं० य० स्वाहा ॥

नवमी तपपदपूजा.

द्रव्यजावधी तप तपे, सकलविघ्न दूर जाय;
पञ्चाशलब्धि उपजे, जय जय तप महिमाय. ॥ १ ॥
तप तपतां कष्टो टळे, दुःखो दूरे जाय; सर्वकर्म दूरे
टळे, पग पग मंगल थाय. ॥ २ ॥ तपना भेद
अनेक ठे, तपना बार प्रकार; पूजो वंदो तपस्वीने,
तप तपशो नरनार. ॥ ३ ॥

नमोरे नमो श्री शत्रुंजय गिरिवर. ए रागमां.

पूजो वंदो तपगुण धारी, तप तपशो जयका-
ररे; तप तपतां अट्टावीश पञ्चाश-, लब्धि प्रगटे सा-
ररे. पू० ॥ १ ॥ सर्वशुजाशुभइच्छारोधक, तपथी
शक्ति प्रकाशेरे; निष्कामी थै कार्यो करंतां, तप ठे
जाणो पासेरे. पू० ॥ २ ॥ देव गुरुने संघनी सेवा,
भक्ति तप ठे बेशेरे; धार्मिक कर्म करंतां संकट-सहवां
दुःखो कलेशेरे. पू०॥३॥ आत्मार्थे परमार्थे प्रवृत्ति, करंतां
जय नहि खेदरे; द्वेष न प्रगटे तप ए तपतां, नासे

२४१

मोहना जेदरे. पू० ॥ ४ ॥ मन वाणी कायानी शुद्धि,
 धरधी तप जयकाररे; सर्वशुभाशुभ फलनी इच्छा-
 त्यागथी तप ठे उदाररे. पू० ॥ ५ ॥ तीर्थंकर त्रिज्ञा-
 नी पण जे, ते जव मुक्ति जाणरे; तप तपता जाणी-
 ने भव्यां, तप तपशो गुणखाणरे. पू० ॥ ६ ॥ मरण
 जीवनपर नहीं आसक्ति, सर्व समर्पण थायरे; पर-
 मार्थे जीवननी करणी, शुद्धोपयोगे सुहायरे. पू०
 ॥ ७ ॥ सर्वजीवोना हितनेमाटे, कायामननी
 प्रवृत्तिरे; जैनधर्मनी सेवा भक्ति, करवानी ठे रीतिरे.
 पू० ॥ ८ ॥ सर्वलोकनां दुःखो हणवा, सहेजे सम-
 पाई जायरे; सुख दुःख आवे हर्षे न शोचे, साक्षी
 भाव सुहायरे. पू० ॥ ९ ॥ नामने रूपमां मोह रहे
 नहीं, कर्तव्यो ज करायरे; ज्ञानाग्निमां मोहकाष्ठने होमी,
 मुक्ति क्षणमां पायरे. पू० ॥ १० ॥ मान पूजानी
 होय न वृत्ति, धार्मिक होय प्रवृत्तिरे; बाह्याभ्यंतर
 तपने तपतां, प्रगटे अनंती शक्तिरे. पू० ॥ ११ ॥
 आत्मने परमात्म करवा, तप छे साधन सत्यरे;
 बुद्धिसागर मंगल पामो, तपथी करी शुभकृत्यरे.
 पूजो० ॥ १२ ॥

३१

२४२

वीरकुमरनी वातडी कोने करीए, ए राग.

वासनारोधक तप तपो नरनारी, मनथी इच्छा-
 ओ निवारी; करो आत्मशुद्धि जयकारी, शुभाशुभ
 परिणति वारी, रहो आत्म मगन्न, वासना० ॥१३॥
 निश्चय तप क्षण मात्रमां शिव आपे, शुद्धकेवल
 ज्ञाने छापे; पूर्ण आनंद घटमां व्यापे, रहो तपथी
 प्रसन्न. वास० ॥ १४ ॥ कामादिक मोहवृत्तियो सहु
 टाळो, शुद्ध आत्मस्वरूप निहाळो; जेदभावनी
 वृत्ति बाळो, राखो निर्मल मन. वास० ॥ १५ ॥
 आत्मज्ञानने ध्यानथी ठे समाधि, टळे आधि व्याधि
 उपाधि; लहो मुक्ति तप आराधी, बनो जीवन्मुक्त.
 वास० ॥ १६ ॥ निश्चयतप पुरुषार्थथी भवी पामे,
 बनी निर्विषयी दुःख वामे, परब्रह्म बनी ठरो गामे;
 बुद्धिसागर बेश. वास० ॥ १७ ॥

गीत. धन्याश्रीराग.

गायां गायारे एम नवपद भावथी गायार्; प्रभु
 महावीरदेवे प्रकाश्यां, ते में जावथी ध्यायारे. एम.
 चारनिक्षेपे सातनये जे, नवपदनुं करे ज्ञान; सिद्ध
 चक्र आराधी ध्याई, पोते बने जगवानूरे. एम०॥१॥

२४३

आंत्रिल ओळी आदितपथी, नवपदने आराधे. पद-
 पद मंगल ऋद्धिसिद्धि, मुक्तिने ते साधेरे. एम० ॥२॥
 गुरुगत्र यंत्रने मंत्र ग्रहीने, जप जपतां एकताने;
 जे जे चावे आराधे ते ते, भावे फळे छे ज्ञानेरे. एम०
 ॥ ३ ॥ संवत् ओगगिश सत्तोत्तरनी, साले आश्विन
 मासे, विजया दशमी चढता पहोरे, पूजा रची उल्ला-
 सेरे. एम० ॥ ४ ॥ सानंद शहरे आनंद ल्हेरे, चो-
 मासुं कर्तुं भावे, संघनी सेवा भक्ति सारी, नवपद
 पूजा जगाधेरे. एम० ॥ ५ ॥ तपगच्छहीरविजय सू-
 रिपाटे, सहजसागर उवझाय, पट्टपरंपरा योगी म-
 हासिद्ध, नेमिसागर गुरुरायरे. एम० ॥ ६ ॥ सागर
 शाखामां रवि सरखा, रविसागर गुरुराज. गुर्जर देशी
 संघ सुधार्यो, जेनां उत्तम काजरे. एम० ॥ ७ ॥ ते-
 मनी पाटे वैयासची, धर्मक्रियामां धोरी. श्री सुख
 सागर गुरुजी वंदु, ज्ञाननी हाथमां दोरीरे. एम०
 ॥ ८ ॥ गुरु सुखसागर पूर्ण कृपार्थी, नवपद महिमा
 गायो, बुद्धिसागरसूरिण भावे, सिद्धचक्र वधायोरे.
 एम० ॥ ९ ॥

दहति यत्किल कर्म निकाचितं,
 विविधसिद्धिविधायकमप्यहो;

२४४

जिनवरैरपि सेवितमादरात्,

हृदि वहामि तपो बहुभेदकम् ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परमघुरुषाय, परमेश्वराय, जन्मजरा
मृत्युनिवारणाय, श्रीमते जिनेन्द्राय, चारित्रलाजार्थं
पूजार्थंचजलं यं स्वाहा ॥

॥ पंचाचारपूजा प्रारंभ. ॥

मङ्गलम्.

प्रभु महावीर जिनवरा, तीर्थकर जयकार; सर्व
विश्व शासन प्रभु, परब्रह्म सुखकार. ॥ १ ॥ प्रणमी
वंदी पूजीने, गावुं पंचाचार, पंचाचारे वर्ततां, मुक्ति
लहे नरनार. ॥ २ ॥ द्रव्यभाव आचार छे, साधन
साध्य प्रकार; सापेक्षे साधन सकल, आत्मशुद्धि
करनार. ॥ ३ ॥

प्रथम ज्ञानाचारपूजा.

दुहा.

मोहनजी मोकळोरे मोसाळुं अथवा ओहि जिन पूजीए
मनरंगे-ए राग.

प्रभु महावीर जगहितकारी, प्रतिबोध्यां
नरने नारी, धन्य महावीर जग उपकारी, मनो-

२४५

रथ माह्वरा सहु फळीया- मनवंडित मेळा म-
 ल्लिया. । मनोरथ माह्वरा० ॥ १ ॥ ज्ञानाचारने
 शुभ समजाव्यो, ते प्रेमे मनमांही लाव्यो. द्रव्यने
 भावथकी ए भाव्यो- मनोरथ० ॥२॥ काल विनय
 अने बहुमाने, गुरुगम पामी उपधाने, सत्य अनि
 ह्वताना ताने. मनोरथ० ॥ ३ ॥ शब्दअर्थ तदुभय
 धारो, श्रुत जणतां सुख निर्धारो, तजीए आठे अति-
 चारो. मनोरथ० ॥ ४ ॥ आगमशास्त्रादि श्रवणयोगे,
 गुरुसेवा स्वार्पणभोगे, ज्ञान वधे मन आरोग्ये०
 मनोरथ० ॥ ५ ॥ गुरु श्रद्धा प्रीतिभक्ति, प्रगटे ज्ञान
 विज्ञान शक्ति, प्रगटे परमप्रभु व्यक्ति. मनोरथ० ॥६॥
 ज्ञानावरण सकल दूर नासे, आगम अनुभव अभ्यासे,
 भावथी आतम उल्लासे. मनोरथ० ॥ ७ ॥ तुज
 आगम गुरुमुख सुणतां, कर्म सघळां वेगे टळतां,
 बुद्धिसागर गुरु अनुसरतां. मजोरथ० ॥ ८ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय, परमेश्वराय, जन्म-
 जरामृत्युनिवारणाय, श्रीमते जिनेन्द्राय, ज्ञानाचार
 पूजनाय, जलं० यजामहे स्वाहा.

२४६

द्वितीयदर्शनाचारपूजा.

दुहा.

दर्शनाचारने पाळीए, आठ तजी अतिचार;
 द्रव्यभाव वे भेदथी, समजी दर्शन सार. ॥ १ ॥
 निश्चयने व्यवहारथी, दर्शनना बहुभेद; दर्शनना
 आचारने, पाळी टाळो खेद. ॥२॥ देवगुरुने धर्मनी,
 जक्ति करतां भव्य, आत्मिकदर्शन प्रगटतुं, करतां
 शुज कर्तव्य. ॥ ३ ॥

बिनति धरजो ध्यान जगपति बिनति धरजो ध्यान. ए राग.

दर्शनना आचार, जवी जजो दर्शनना आचार
 निःशंकित थै निःकांक्षित थै, रुमो धरो व्यवहार.
 जवी० ॥ १ ॥ बित्तिगिच्छा दोष निवारी, साधीए
 धर्माचार. जवी० मूढपणानी दृष्टि त्यागी, धरो प्रजु-
 पर प्यार. जवी० ॥ २ ॥ उपबृंहणथी दर्शनपुष्टि,
 जिनशासन जयकार. जवी० सकल संघनी सेवा
 जक्ति, निष्कामि आचार. जवी० ॥ ३ ॥ जिनशास-
 नना आठप्रजावक, सेवो नरने नार, जवी०
 उपयोगी थै दर्शनाचारे; रहेतां कर्मसंहार. भवी०
 ॥४॥ लज्जा खेदने द्वेष निवारी, निर्भय थैने उदार.
 भवी० तनमन धननुं अर्पण करवुं, संघोन्नति हित-

२४७

कार. भवी० ॥ ५ ॥ अर्पाइ जाओ सहु जैनो, त्यागी
 देहाध्यास, जवी० देवगुरुने जैनधर्मनो, तजो नही
 निश्वास. जवी० ॥ ६ ॥ स्थिर करीए धर्मे सधने,
 यथाशक्ति नरनार, भवी० साधर्मिकनी ऋक्ति करीए,
 की प्रजावना सार. भवी० ॥ ७ ॥ निश्चय शुद्धातम
 अनुभवतां, रहे न दर्शन दोष, जवी० बुद्धिसागर
 दर्शन पामे, सहु रीते संतोष. भवी० ॥ ८ ॥

ॐ ह्रीं श्री परमपुरुषाय, परमेश्वराय, जन्मजरा
 मृत्युनिवारणाय, दर्शनाचारलाभार्थं जलं० य० स्वाहा ॥

तृतीया चारित्राचारपूजा.

दुहा.

द्रव्यभाव चारित्र छे, निश्चयने व्यवहार,
 चारित्राचारे रमो, आठ तजी अतिचार. ॥ १ ॥
 पांच समिति त्रणगुप्तिनो, उत्तम जगमां योग,
 जे योगे रमतां थकां, आतम होय अयोग. ॥ २ ॥
 अपवादे समिति कही, उत्सर्गे त्रणगुप्ति; गुप्ते गुप्ता
 मुनिवरा, पामे क्षायिक शक्ति. ॥ ३ ॥

सांभळजो मुनि संयमरागे-ए राग.

जिनवर महावीर विभु उपदेशे, समिति गुप्ति

२४८

साचीरे, असंख्ययोगनी प्रवचन माता, रहेशो तेमां
 राचीरे॥ जिनवर०॥१॥ ज्ञानने भक्ति कर्म उपासना,
 हठयोगादिक योगोरे, त्रणगुप्तिमां सर्व समाता,
 जेथी रहे नहीं भोगोरे॥ जिनवर०॥१॥ गृहस्थ त्यागी
 बेने हितकर, योग क्षेम प्रदातारे; सिद्धया सिद्धशे
 सिद्धे तेओ, पाळी प्रवचन मातारे ॥ जिनवर० ॥३॥
 ज्ञावथकी त्रण गुप्ति साधे, मुक्ति अनुभव आवेरे,
 द्रव्यने भावथकी निजमुक्ति, सहजानंद सुहावेरे;
 ॥ जिनवर ॥४॥ रागद्वेष संकल्प विकल्पो, दूर थतां
 मनगुप्तिरे, निर्विकल्प स्वभावे समाधि, केवल प्रगटे
 शक्तिरे ॥ जिनवर ॥५॥ आत्म ज्ञानोपयोगे रहेतां,
 समिति गुप्ति पासेरे, ज्ञानी सर्वे कर्मों करतो, ज्ञाने
 गुप्ति उपासेरे ॥ जिनवर० ॥६॥ ज्ञानी समिति धारे
 ज्यां त्यां, द्रव्यज्ञावथी जाणीरे, उत्कृष्टभंगे क्षणमां
 मुक्ति, ज्ञाखे केवलज्ञानीरे ॥ जिनवर० ॥७॥ समिति
 गुप्ति साधे सर्वे, योग सधाता जाणोरे, बुद्धिसागर
 आत्म उजागर, प्रगटे ज्ञाव प्रमाणोरे ॥ जिनवर॥८॥

ॐ ह्रीं श्री परमपुरुषाय, परेश्वराय, जन्मजरा
 मृत्युनिवारणाय, श्रीमते जिनेन्द्राय, चारित्राचार
 लाभार्थं पूजार्थं च जलं य० ॥ स्वाहा ॥

२४९

चतुर्थी तपआचारपूजा.

दुहा.

बारे भेदे तप भलो, बाह्य अभ्यंतर बेश; तप
 तपतां नासे घणा, कर्मनिकाचितक्लेश. ॥ १ ॥
 अशुभशुभइच्छासकल, सर्वक्रियाफलत्याग; निश्चय
 तप ते जाणवुं, तपता महासौजाग. ॥ २ ॥ बारे
 अतिचारो तजी, धारो तप आचार, दुःख सही
 आतम चहो, तप तपशो नरनार. ॥ ३ ॥

चोमासी पारणुं आवे. ए राग.

प्रभुमहावीर जिनजयकारी, तप तपिया बनीं अ-
 नगारी, बन्या केवली जगहितकारी, जाखुं तप वर्तन
 सुखकारीरे, तप सेवो सकल नरनारी, जाउं तपि-
 यानी बलिहारीरे; तप० ॥ १ ॥ द्रव्यभावथी तप
 आचरवुं, जवसागर वेगे तरवुं, निश्चय निजगुणमां
 भळवुं, समजावे रही सह करवुरे, तप० ॥२॥ परपुद्-
 गलमोह न धरवो, निश्चयतप गुण ए वरवो, द्रव्य-
 भावकाम संहरवो, प्रभु पूजी तप दिल करवोरे.
 तप० ॥ ३ ॥ द्रव्यभावे तपस्वी सेवा, करवा प्रगटे
 दिल हेवा; एतो अनुजवअमृतमेवा; तपसीनी
 सहाये देवारे. तप० ॥ ४ ॥ जे जे कर्म उदयमां

३२

२५०

आवे, सुखदुःखपणं दर्शावे; शुभाशुभबुद्धि नहीं
 लावे, रहे ज्ञानी समतपभावेरे. तप० ॥ ५ ॥ नाम
 रूपमां मोह न धारे, करे कर्मने स्वाधिकारे; उपका-
 रमां जीवन गाळे, संघ सेवा तप ते भारेरे. तप०
 ॥ ६ ॥ करे सद्गुरु साधुभक्ति, कोइमां नहीं धारे
 आसक्ति; राखे नहीं सातजातनी भीति, एवी
 ज्ञानी तपस्वी रीतिरे. तप० ॥ ७ ॥ शुद्ध उपयोग
 छे तपभारी, पामे ज्ञानीजन संस्कारी; ध्यान सहज
 समाधि सारी, रहे वृत्ति न कोइ विकारीरे. तप०
 ॥ ८ ॥ पुरुषार्थथी तप आचरशो, यथाशक्ति जावथी
 करशो; लब्धिसिद्धिप्रकटता करशो, बुद्धिसागर
 मंगल वरशोरे. तप० ॥ ९ ॥

ॐ ह्रीं श्री परम० तपआचार लाभार्थं जलं
 य० स्वाहा ॥

पांचमी वीर्याचारपूजा.

दुहा-

आतमशक्ति फोरवो, त्रण तजी अतिचार,
 सर्वप्रमादो परिहरो, धर्म करो नरनार. ॥ १ ॥ देव
 गुरुने धर्मना, आराधनमां शक्ति, फोरवतां शक्ति

२५१

वधे, प्रगटे प्रभुपदव्यक्ति. ॥ २ ॥ टीटोडी उत्साहथी,
अनंतगुणो, उत्साह, धारी आतमशुद्धिनो, राखो
मनमां चाह. ॥ ३ ॥

(ध्यान क्रिया मनमां आणी जे-ए राग.)

जिनवर महावीर विष्टु उपदेशे, वीर्याचारने धा-
रोरे. धर्ममां शक्ति फोरवो लोको, करशो पर उपकारोरे.
जिन० । १॥ दुःख पडंतां नहिं मुंझाशो, परनी व्हारे
धाशोरे, संकट पडतां भारी न जाशो, करवा धर्म
उजाशोरे ॥ जिन० ॥२॥ व्रत तप भक्तिमां ढीला न
थाशो, उत्साहे सुख पाशोरे; कायर थै थाओ नहीं
दासो, चूको न निजविश्वास्तोरे. जिन० ॥ ३ ॥
अनंतशक्तिनो स्वामीआतम, कायरथी न पमा-
तोरे; जीवतां मरजीवा ज्ञानी, तेथी आत्म लहातोरे.
जिन० ॥ ४ ॥ देहाध्यासथी मरतां मुक्ति, पडे न
पाछा नीतिरे, शूराजननी एवी रीति, धरे न कयांये
भीतिरे. जिन० ॥ ५ ॥ गोपवो नहीं बलवीर्यने धर्मे,
उत्साही सत्कर्मैरे; थैने रहेशो आतमशर्मे, पडो न
मिथ्याभर्मेरे. जिन० ॥ ६ ॥ भावीभाव हशे ते
थाशे, कर्मे लख्युं ते थाशोरे; एकांतमिथ्या एवी

२५३

बुद्धि, टाळी रहो उद्धासेरे; जिन० ॥७॥ आतमना
 पुरुषार्थे सवे, यातुं निश्चय राखोरे; प्राण पडे पण
 कार्य न मूको, आतमसुखने चाखोरे. जिन० ॥८॥
 वीर्याचारे कर्म टळे सह्यु, आतमशक्तियो प्रगटेरे;
 आतम ते परमातम थावे, मिथ्याकर्मा विघटेरे.
 जिन० ॥ ९ ॥ सर्वप्रकारे धर्मप्रवृत्ति, करतां धैर्यने
 धारोरे; बुद्धिसागर आनंदमंगल, सिद्ध प्रभु निर्धा-
 रोरे. जिन० ॥ १० ॥

कलश. धन्याश्री राग.

गायो गायोरे महावीर जिनेश्वर गायो. ॥ पंचा-
 चार सदाचार जगमां, ते गातां हरखायो; वीरप्रचु-
 वचनामृत पीतां—, तृप्ति न मनमां पायोरे. महा-
 वीर० ॥ १ ॥ पंचाचारना धारक पूजो, पंचमी गति
 सुखकारी; वीरप्रभुए समकित पामी, पाळ्या दुर्गति
 हारीरे. महावीर० ॥२॥ दर्शन ज्ञानने चारित्रमांही,
 पंचाचार समाया; पंचाचारने पाळे मुक्ति, सहजानंद
 सुहायारे. महावीर० ॥ ३ ॥ अंतर आतम पंचाचारे,
 पूजी वीरने जावे; परमातम पोते घट थावे, ध्याता
 ध्येय सुहावेरे. महावीर० ॥४॥ सानंद शहेरे आनंद

२५३

लहेरे, पूजा रची गुणदावे; ओगणीश सितोत्तेर आशो
 वदि—, बीजदिने बहुभावेरे. महावीर० ॥ ५ ॥
 भणतां गणतां ने सांजळतां, पामो शिव नरनारी; संघ
 चतुर्विध मंगल पामो, समकृती व्रतीअवतारीरे.
 महावीर० ॥ ६ ॥ चउनिक्षेपे सातनये में, पंचा-
 चारने जाण्या; गुरुसुखसागरपूर्णकृपाथी; घटमां
 ज्ञावे आप्यारे. महावीर० ॥७॥ गावो जाणो मनमां
 आणो, आचारने आचारो; बुद्धिसागर आनंदमंगल,
 ऋद्धि वृद्धि अपारोरे. महावीर० ॥ ८ ॥

ॐ० प० वीर्याचारलाभार्थं जलं० य० स्वाहा.

२५४

अथ विंशतिस्थानकपदलघुपूजा प्रारंभ.

प्रथम अरिहंतपद पूजा.

श्री महावीर जिनेश्वरा, चोवीशमा जिनराज;
त्रिशत्वानंदन जयकरा; प्रणमुं जिनशिरताज. ॥ १ ॥
बहुविधतप शास्त्रे भण्यां, कर्मदुरितहरनार; विंशति
स्थानक तप वडुं, सहुतपमां शिरदार. ॥ २ ॥
विशस्थानकपूजा रचुं, पूज्यपणुं दातार; पूज्यनी
पूजा भक्तिथी, तीर्थकरपद सार. ॥ ३ ॥



प्रथम अरिहंतपदपूजा.

परमेष्ठीमां प्रथम छे, अरिहंत भगवंत. नय
निक्षेपे ध्याइए, आविर्भावे संत. ॥ १ ॥

(संभव जिनवर विनति. ए राग.)

प्रभु अरिहंत जिन पूजीए, वारगुणे जयकारीरे,
चोत्रीश अतिशयवंत जे, केवलज्ञानना धारीरे ॥
प्रभु० ॥ १ ॥ पांत्रीशवाणीगुणोवडे, जग बोधे
सुखकारीरे; त्रणकाल अर्हन् विभु, सर्वजगत् उप-
कारीरे. प्रभु० ॥२॥ क्षायिक नवलब्धि धणी, तारण

२५५

तरण झहाजरे. तीर्थ प्रवचन संघने, स्थापे भवी
 हितकाजरे. प्रभु० ॥ ३ ॥ इन्द्र असंख्य सुरासुरा,
 सेवे प्रभु हितकारीरे; घातीकर्म चउ क्षय करी,
 भावप्रभुता धारीरे. प्रभु० ॥ ४ ॥ दोषअढाररहित
 प्रभु, सर्वशुभोपम छाजेरे. बुद्धिसागरध्यावतां,
 आतम जगमां गाजेरे. प्रभु० ॥ ५ ॥

ॐ परम० अर्हत्पद पूजार्थं जलं० य० स्वाहा.

द्वितीया सिद्धपदपूजा.

सकलकर्मनो क्षय करी, सिद्धया सिद्धशे जेह;
 त्रिकरणयोगे पूजीए, वंदीजे गुणगेह. ॥ १ ॥

(प्रभु निर्मल दर्शन कीजीए. ए राग.)

ध्याइए ध्याइए ध्याइए, सिद्ध परमातम प्रभु
 ध्याइए. ॥ आठकर्मक्षये आठगुणोर्था, सिद्ध थया
 दिल लावीए; व्यतिरेकीएकत्रीशगुणो जे, अस्ति
 नास्तिमय भावीए. सिद्ध० ॥ १ ॥ जन्म जरा नहीं
 मृत्यु न जेने, हृदय धरीने रीझीए; शुद्धगुणो
 पर्यायो अनंता, आविर्जावे ते लीजीए. सिद्ध०

२५६

॥ २ ॥ पूर्णानंदमयी परमेश्वर, आदि न अंत न
पाइए; आतम सत्ताए परमातम, सत्ताध्याने सुहा-
इए. सिद्ध० ॥ ३ ॥ आतमगुणपर्यायथी अस्ति—,
नास्ति परनी जाणीए; उत्पत्तिव्ययध्रुवतारामी,
समथे समथे चित्त आणीए. सिद्ध० ॥ ४ ॥ सिद्ध
प्रभुओ गावो ध्यावो, प्रभु आजा शिर धारीए;
बुद्धिसागरसिद्ध प्रभु त्रिभु—, थैने जन्म सुधारीए.
सिद्ध० ॥ ५ ॥

ॐ० प० सिद्धपदपूजार्थं जलं० य० स्वाहा ॥

तृतीया प्रवचनपदपूजा.

प्रवचन पूजतां वंदतां, ध्यावतां मंगलमाल.
प्रवचनपद दिलमां वस्युं, सर्वपापहणनार. ॥ १ ॥

(विमला नव करशो उच्चाट ए राग.)

प्रेमे प्रवचन पूजो गावो, मनमां धारशोरे;
भावे तीर्थसंघसेवार्थी, संकट टालशोरे. प्रेमे० ॥ संघ
चतुर्विधसेवा भक्ति—, करतां प्रगटे सघळी शक्ति;
करीने शासनसेवा, आतमने उच्चारजोरे ॥ प्रेमे० ॥

२५७

॥ १ ॥ तीर्थंकर पण तीर्थने नमता, तीर्थ नमे ते
 भव नहि भमता; भावे प्रवचनश्रुतने मनमांहीं
 अवधारशोरे प्रेमे० ॥२॥ धर्मक्षेत्र साते शुत्र पोषो,
 टाळो संशय आदिदोषो; आतम उपयोगी थे
 कर्मकटकसंहारशोरे. प्रेमे० ॥ ३ ॥ जैनधर्म फेलावो
 करशो, तीर्थंकर गणधर पद वरशो; प्रभुनी वाणीने
 जगमां सर्वत्र प्रचारशोरे. प्रेमे० ॥ ४ ॥ प्रवचन सेवा
 माटे सर्वे, मळ्युं गणो, नहि रहेशो गर्वे; भावे बुद्धि-
 सागर आप तरो पर तारशोरे. प्रेमे० ॥ ५ ॥
 ॐ० प० प्रवचनपदपूजार्थं जलं० य० स्वाहा ॥

अथ चतुर्थी आचार्यपदपूजा.

नमो नमो श्रीसूरिवर, गणधरसंघप्रधान;
 तीर्थंकर पाछळ प्रभु, अर्हन्सम भगवान्. ॥ १ ॥

(जीवलडा घाट नवा शीद घडे, ए राग.)

सूरिवर शासनवृत्तिज्ञर्या, हृदयमां ते में
 अंगीकर्या. ॥ देशकाल अनुसारे शासन—, धर्म प्रचा-
 रक खरा. ठत्रीशीछत्रीशीगुणेकरी, आतमगुणथी

३३

२५८

भर्या. हृदयमां० ॥ १ ॥ देशकाल तरतम गुणकि-
रिया, शोत्रे जे जयकरा; बत्रीश उपमा जेने ठाजे,
गीतार्थ ज सुखकरा. हृदयमां० ॥ २ ॥ धर्मशास्त्रना
अर्थ प्रकाशे, शासनशोभावर्या, स्वतंत्रताए वर्ते
जगमां, अनंतज्योते भळ्या. हृदयमां० ॥ ३ ॥ सर्व
शास्त्रनी एक वाक्यता—, करता अनुभव भर्या; आतम
उपयोगे सहु करणी—, करता ध्याने ठर्या. हृदयमां०
॥ ४ ॥ ध्यानसमाधियोगे योगी, कदि न जावे डर्या;
बुद्धिसागरसूरिसेवा, भक्तिमगलधर्या. हृदयमां० ॥ ५ ॥

ॐ परम० सूरिपदपूजार्थ जलं० य० स्वाहा ॥

अथ पंचम उपाध्यायपदपूजा.

पञ्चीशगुणथी शोभता, उपाध्याय जयकार;
भणे भणावे साधुने, युवराजा सुखकार. ॥ १ ॥

(आतमभक्ति मळ्या केइ देवा. ए राग.)

वाचकपद पूजो नरनारी, स्वयं बनो जग तेवा;
पुरुषार्थे वाचकपद प्रगटे, कर्मक्षये गुण लेवा. वा-

२५९

चक० ॥ १ ॥ जीवंता वाचक सहु पूजो, द्रव्यथी
 जावथी जावे; गुणीनी संगे गुणीना ध्याने, गुण निज
 घटमां आवे. वाचक० ॥ २ ॥ वाचक वैयावच्च क-
 रीने, मानवभव ल्यो लहावो; सर्वस्वार्पण करीने
 चक्ति, करतां गुण प्रगटावो. वाचक० ॥ ३ ॥ मिथ्या
 संशय तर्क वितर्को, तजीने वाचक सेवो; लोकविषय
 संज्ञाने त्यागो, वाचकसेवा मेवो. वाचक० ॥ ४ ॥
 अनेकसद्गुणदरियावाचक, सेवो नरने नारी;
 बुद्धिसागरवाचकपदनी, जाउं हुं बलिहारी.
 वाचक० ॥ ५ ॥

ॐ० प० वाचकपदपूजार्थं जलं० य० स्वाहा ॥

छठीस्थविरपदपूजा.

स्थिर करता मुनि आदिने, जैनधर्ममां जेह;
 स्थविरोने सेवो सदा, स्थिरतादिक गुणगेह. ॥ १ ॥

(श्रुतपद नमिये भावे भविया. ए राग.)

स्थविरमुनि जगमां उपकारी, मुनिजन स्थि-
 रताकारीजी; स्थविर साधुनी संगति करतां, चंच-

२६०

लता टलनारी; स्थविरने जजीएजी, पशुने करता
 देव, स्थविरने यजीएजी. ॥ १ ॥ वीशवर्षदीक्षा
 पर्यायी, साठवर्षवयधारीजी; आपार आदि अं-
 गना ज्ञाता, श्रुतस्थविरा सुखकारी. स्थविर० ॥२॥
 बालकगलान संशयी चंचलने, धर्मविषे स्थिरकारीजी;
 परिणामिकबुद्धि अनुजवी जे, बालमुनि हित-
 कारी. स्थविर० ॥ ३ ॥ प्रभुमहावीरे मेघकुमरने,
 संयममां स्थिर कीधाजी; ठाणांगे दश स्थविरा भा-
 ख्या, आतमरमणी प्रसिद्धा. स्थविर० ॥ ४ ॥
 ज्ञानी ध्यानी मुनिवरा जे, स्वपरसमयना दरि-
 याजी; बुद्धिसागर स्थविरमुनि शुभ, तारे ने जे
 तरिया. स्थविर० ॥ ५ ॥

ॐ ० ० ० स्थविरपदपूजार्थं जलं ० यं स्वाहा ॥

सप्तम साधुपदपूजा.

आत्मस्वज्ञावे जे रमे, परोपकारी महान्;
 सत्तावीशगुणधारका, प्रणमो मुनि गुणखाण. ॥ १ ॥

२६१

(ए गुण वीरतणो न विसाहं. ए राग.)

मुनिवर देखी प्रणमो वंदो, पूजो ध्यावो भा-
 वोरे; मुनिवरनी संगत करवामां, श्रद्धा प्रीति लावोरे.
 मुनिवर० ॥ १ ॥ वर्तमानमां तरतमयोगे, वर्ते
 साधु जेहरे; तेनी सेवा भक्ति करतां, आशो स्वयं
 गुणगेहरे. मुनिवर० ॥ २ ॥ मुनिआशातना
 हेलना त्यागो, वर्ततानी संगरे; करशो गुणरागी थै
 लोको, गुणनो धरो मन रंगरे. मुनिवर० ॥ ३ ॥ सर्व
 जीव उपकारी साधु, क्षांति आदि धरे धर्मरे; शुद्धा-
 तम उपयोगे वर्ती, करता धर्मनां कर्मरे. मुनिवर०
 ॥ ४ ॥ अप्रतिबद्धपणे जे वर्ते, गुरुनिश्राय्ये संतरे;
 बुद्धिसागरमुनिवरसेवा, अनंतपुण्ये मळंतरे.
 मुनिवर० ॥ ५ ॥

ॐ० प० साधुपदपूजार्थं जलं० य० स्वाहा ॥



अष्टम ज्ञानपदपूजा.

ज्ञानने पूजो भविजना, सकलधर्म आधार;
 ज्ञानप्रकाशी आतमा, परमातम निर्धार. ॥ १ ॥

२६२

(सिद्धचक्र पद सेवा कीजे. ए राग.)

सर्वगुणोमां ज्ञान छे मोटुं, ज्ञाने परमानंदोजी;
 आत्मज्ञान छे सर्वमां मोटुं, टाळे जे भवफंदो;
 ज्ञानने नजीएजी, ज्ञान छे आत्मरूप; निजगुण
 सजीएजी. ॥ १ ॥ ज्ञानोपयोगे आत्मरमणता,
 स्वरूपक्रिया छे सार्चीजी; ज्ञानोपयोगे ध्यानक्रिया-
 थी, रहेशो निजगुण राची. ज्ञान० ॥ २ ॥ ज्ञानो
 पयोगे सहजसमाधि, निलेंपे सहुकरणीजी; नय-
 निक्षेपे ज्ञानने जाणो, जे छे भवमां तरणी. ज्ञान०
 ॥ ३ ॥ निजपरने उपकारी श्रुत ठे, जाणे ठे स्या-
 द्वादीजी; अनेकान्तपणे सहु जाणो, थाओ नहीं
 उन्मादी. ज्ञान० ॥ ४ ॥ ज्ञाने सर्वकर्म क्षय क्षणमां,
 करे छतां नहि कर्ताजी; बुद्धिसागरसद्गुरु सेवो,
 ज्ञानी भवोदधि तरता. ज्ञानने० ॥ ५ ॥

ॐ ॥ ५० ज्ञानपदपूजार्थं जलं० य० स्वाहा ॥

नवमी दर्शनपदपूजा.

द्रव्यभावदर्शन नमु, निश्चयने व्यवहार, स-
 म्यगुदर्शन पामीने, मुक्ति लहे नरनार. ॥ १ ॥

२६३

(तपपदने पूजीजे हो प्राणी. ए राग.)

दर्शन दिल प्रगटावो हो सुखकर, दर्शन दिल प्रगटावो॥उपशम क्षयोपशमने क्षायिक, द्रव्यने भाव सुहावो; व्यवहार निश्चयसमकित पावो, अजरामर थइ जावो हो. सुखकर दर्शन० ॥ १ ॥ सम्यग् दर्शन योगे मिथ्या—, शास्त्रो पण होय सवळां. मिथ्यादर्शन योगे सम्यक्—, शास्त्रो पण होय अवळां हो. सुखकर दर्शन० ॥ २ ॥ सम्यक्पणे सघळुं परिणमतुं, समकित्तीने भावे अल्पबंधने निर्जरा ज्ञाज्ञी, प्रवृत्तिमां यावे हो. सुखकर दर्शन० ॥ ३ ॥ सात आठ त्रण चारभवोमां, समकित्ती लहे मुक्ति. उत्कृष्टुं अंत मुहूर्तमां, पामे मुक्ति झटिति हो. सुखकर दर्शन० ॥ ४ ॥ समकित्तीनी सेवा भक्ति, करवा स्वार्पण करवुं; बुद्धिसागरआतमशुद्धि, मंगलपदने वरवुं हो. सुखकर दर्शन० ॥ ५ ॥

ॐ० प० दर्शनपदपूजार्थं जलं० य० स्वाहा ॥

२६४

दशमी विनयपदपूजा.

बाह्याभ्यन्तरविनयने, सेवो नरने नार. सर्व
धर्मनुं मूळ छे, सद्वगुणमां शिरदार ॥ १ ॥

(जीवलडा घाट नवा शीद घडे. ए राग.)

विनयनी वाटे जे जन वळे, जगत्मां पाठो ते
नहीं पडे. ॥ देव गुरुने संतविनयथी, मारग धर्मनो
जडे; विनये विद्याज्ञानने पामे, संसारे नहि समे.
विनयनी० ॥ १ ॥ पांचने दशविध तेरने बावन, जेदे
विनयने करे; शमदम आदिगुणने पामे, वांछित
वेळा वळे. विनयनी० ॥ २ ॥ आहारी पण उपवासी
छे, विनयी मुक्ति वरे; गुरुविनये ज्ञानादिक पामे,
श्रद्धाप्रीतिवळे. विनयनी० ॥ ३ ॥ सर्वसंघ गुणी-
जनना विनये, मोहनी वृत्ति टळे; शुद्धातम उपयोगे
करणी, थावे निजगुण चळे. विनयनी० ॥ ४ ॥ सर्व
शक्तिनुं मूळ विनय ठे, भक्तोने सांपडे; बुद्धिसागर
मंगलमाला, अनंतसुखटां मळे. विनयनी० ॥ ५ ॥

ॐ० प० विनयपदपूजार्थं जलं० य० स्वाहा ॥

२६५

अग्यारमी चारित्रपदपूजा.

सर्वगुणी चारित्रथी, मुक्ति लहो नरनार; चा-
रित्रसम जग को नहीं, पूर्णमुक्ति दातार. ॥ १ ॥

(कानुडो न जाणे मोरी प्रीत. ए राग.)

चेतन धारी ले चारित्र, दुर्गुणदोष हरीनेरे,
चेतन ॥ द्रव्यने भावथी धारे, कर्मों सघळां संहारे;
एवुं रुकुं धर चारित्र, शाने मोह धरे छे रे. चेतन०
॥ १ ॥ सर्वप्रमादो वारी, चेती ले आत्म सुधारी;
गृही वा त्यागीनुं चारित्र, धरी ले स्वाधिकारेरे. चे-
तन० ॥ २ ॥ मोहकादवमां खूंच्यो, भूंडनी पेठे मुं-
इयो; गगद्वेषे पडियो मूढ, शीदने निज विसरेछेरे.
चेतन० ॥ ३ ॥ हजी ठे हाथमां वाजी, हारे शुं
थैने पाजी; जीवो मुक्ति पाम्या अनंत, शाने वार
करेछेरे. चेतन० ॥ ४ ॥ शुद्धस्वभावमां रमवुं,
एथी न जवमां भमवुं; बुद्धिसागरगुरुचारित्र, पामी
भव्य तरेछेरे. चेतन० ॥ ५ ॥

ॐ० प० चारित्रपदपूजार्थं जलं० य० स्वाहा ॥

२६६

वारमी ब्रह्मचर्यपदपूजा.

रत्न मणिमय मंदिरो, प्रतिमाओ करनार; तेथी
अनंतु फल लहे, ब्रह्मचर्य धरनार. ॥ १ ॥

(धन्यधन्य जगमां नरनेनार, विपलाचळ दर्शन करनार. ए राग.)

धन्य धन्य जगमां ते नरनार, निर्मल ब्रह्मचर्य
धरनार; पूजो ब्रह्मचारी नरनार, धारो ब्रह्मचर्य सुख-
कार ॥ रत्नमणि कंचननी प्रतिमा, चैत्य करावणहार;
अनंतगणुं फल तेथी पामे, ब्रह्मचर्य धरनार. धन्य०
॥ १ ॥ सहसचोराशीमुनिवरदाने, जे फल नक्की
थनार; ते फल विजयने विजयाभक्ते, थयुं धन्य
अवतार. धन्य० ॥ २ ॥ द्रव्यथी कायिकवीर्यनी
रक्षा, आत्मरमणता सार—; जावथी ब्रह्मचर्य छे एवुं,
सहु शक्ति दातार. धन्य० ॥ ३ ॥ सर्वप्रकारे विष-
यनी वांछा, त्यागी जे रहेनार; अनासक्ति करे
कृत्य सहु, ब्रह्मचारी शिरदार, धन्य० ॥ ४ ॥ देश
थकी ने सर्वथकी जे, ब्रह्मचर्यधरनार; इन्द्रादिक
तेना पद पूजे, देवो स्हाये थनार, धन्य० ॥ ५ ॥
दिव्यऔदारिकत्रिकरणयोगे, सर्वकाम हरनार, बुद्धि-
सागर ब्रह्मचर्यनी, अनंत शक्ति उदार, धन्य० ॥ ६ ॥

ॐ प० ब्रह्मचर्यपदपूजार्थं जलं य० स्वाहा ॥

२६७

त्रयोदशमी क्रियापदपूजा.

आत्मज्ञानथी सत्क्रिया, करतां कर्मविनाश;
साध्योपयोगे साधना, आपे सिद्धिविलास. ॥ १ ॥

(ध्यानक्रिया मनमां आणी जे. ए राग.)

धर्मक्रिया करीए उपयोगे, निजपरने हितकारी रे, आवश्यक जे धर्मनां कार्यो, करीए फर्ज विचारी रे. धर्म० ॥ १ ॥ निजपर उपकारकशुभकार्यो, सर्वसंघ उपकारी रे; करतां मरतां मोह न धरीए, फलनी इच्छा निवारी रे. धर्म० ॥ २ ॥ निजपर उपकारक छे प्रवृत्ति, व्यवहारे व्यवहरीएरे. क्रियाउत्थापे संघ रहे नहीं, समजी सर्वे करीएरे. धर्म० ॥ ३ ॥ शुभपरिणामे शुभफल थातुं, आत्मोपयोगे मुक्तिरे; व्यवहारिक धार्मिककर्तव्यो, करवां व्यवहारीतिरे. धर्म० ॥ ४ ॥ ध्यानक्रिया ध्यानी घट धारे, निज उपयोगे सुधाररे; ज्ञानी बाह्याभ्यंतर किरिया, करतो धर्म वधाररे. धर्म० ॥ ५ ॥ अशुभक्रिया ध्यान वारी संतो, करता आत्मशुद्धिरे; बुद्धिसागर सहजस्वभावे, रमतां आनंद ऋद्धिरे. धर्म० ॥ ६ ॥

ॐ ० ० क्रियापदपूजार्थं जलं० थ० स्वाहा ॥

२६८

॥ चौदमी तपपदपूजा. ॥

तपथी प्रगटे लब्धियो, अट्टावीश पच्चाश; कर्म
तपात्रे चीकणां, तप ते तपशो खास. ॥ १ ॥

(फाग. रंग मच्यो जिन दरवाररे चालो खेलीए होरी. ए राग.)

तप तपशो नरनाररे, तप छे सुखकारी; तपथी
अनंती शक्तिरे, प्रगटे हितकारी ॥ तपण ॥ बाह्याभ्यंतर
तप बहुजेदे, जन्ममरणदुःखहारी; फल इच्छानो रोध
कर्याथी, कर्म खरे बहुभारीरे. तप छे सुखकारी.
तपण ॥ १ ॥ कर्म निकाचित क्षय बहु थातां, करो कर्तव्य
विचारी; धर्म करंतां दुःखसहन तप, परपरिणति
संहारी रे. तपण ॥ २ ॥ परीषह उपसर्गोने सहीने,
कार्य करो उपकारी; मनवाणीकायानी प्रवृत्ति,
परमार्थे जयकारीरे. तपण ॥ ३ ॥ भव मुक्तिमां सम
परिणामी, आशो मोहने मारी; उत्कृष्ट तपनुं फल
ए ठे, मुक्ति निश्चय धारी रे. तपण ॥ ४ ॥ तप त-
पिया शासनना प्रभावक, बंदु वार हजारि; बुद्धिसा-
गर मंगलमाला, पद पद आनंदकारीरे. तपण ॥ ५ ॥

ॐ पठ तपःपदपूजार्थं जलं यं स्वाहा ॥

२६९

पन्नरमी गौयमपदपूजा.

वर्तमान जे वर्तता, साधु श्रमणी जेह; दान
दियंतां तेहने, पामो स्वर शिवगेह. ॥ १ ॥

(ए व्रत जगमां दीवो मेरे प्यारे. ए राग.)

जावथी दानने दीजे हो, जविजन ! जावथी
दानने दीजे॥ अभय सुपात्र वे दानप्रज्ञावे, आतम
उज्वल कीजे; हर्षोल्लासे तीर्थकरपद, बांधी मुक्ति
वरीजे हो. भविजन० ॥ १ ॥ संघ चतुर्विध सेवा-
भक्ति, करतां निश्चय मुक्ति; दानथी त्यागने त्यागथी
शिवपद, आतमशुद्धि प्रयुक्तिहो. भविजन० ॥ २ ॥
आंखे अश्रु रोमांच विकसित, हृदये हर्ष न मावे;
गदगदवाणी दानी एवो, सर्वोत्कृष्ट कहावे हो.
भविजन० ॥ ३ ॥ स्वार्पणज्ञावे दानने देतां, शिव-
पद सहेजे थावे; सातक्षेत्रमां दान दियंतां,
परमानंदपद पावे हो. भविजन० ॥ ४ ॥ दान
दीधुं तेणे सघळुं दीधुं, दान करो नरनारी;
बुद्धिसागर ऋद्धिवृद्धि, पामो शिववधू सारी हो.
भविजन० ॥ ५ ॥

ॐ प० गौयमपदपूजार्थं जलं० य० स्वाहा ॥

२७०

सोळमी जिनपदपूजा.

नमो नमो जिनपदं भङ्गं, पूजो ध्यावो चित्तः;
दोष अढाररहितप्रभु, परमातम जे पवित्र. ॥ १ ॥

(श्री श्रेयांसजिन अंतर्दामी. ए राग.)

जिनपद गावो जिनपद ध्यावो, आतम तेवो
जावोरे. सोळकषायो जीते जिन ते, जिनपद घट
प्रगटावोरे. जिनपद० ॥ १ ॥ श्रुतज्ञानी अवधि मन
नाणी, छद्मस्था वीतरागीरे; जिनपद आराधकने
पूजो, आतमरंगी त्यागीरे. जिनपद० ॥ २ ॥
विद्यमान आचार्यने वाचक, बालस्थविरने मांदारे;
वैयावृत्य करो बहुभावे, होय न चक्तिमां वांधारे.
जिनपद० ॥ ३ ॥ वैयावच्चफल नाश थतो नहीं,
वैयावच्ची न परतारे; सकलसंघनी वैयावच्चे,
कोइ न भवमां रखडतारे. जिनपद० ॥ ४ ॥ चढता
भावे जिनपदसाधक, सर्वजैननी सेवारे; करतां
महापापी पण मुक्ति, पामे निश्चय देवारे. जिनपद०
॥ ५ ॥ जैनोमां जिनपदने जावो, आतमने जिन
करशोरे; बुद्धिसागर आतम जिनवर, पोते थै शिव
वरशोरे. जिनपद० ॥ ६ ॥

ॐ प० जिनपदपूजार्थं जलं० य० स्वाहा ॥

२७१

सप्तदश संयमपदपूजा.

शुद्धातमगुणरमणता, संयम छे सुखकार;
धारणध्यानसमाधिमय, साधो नरने नार. ॥ १ ॥

(त्रीजे भव वरथानरु तय करी. ए राग.)

संयम आराधो नरनारी, आतमगुद्धिकारी;
ध्यानसमाधिमयसंयम ठे, निजपरने उपकारीरे.
भविजन ! संयमने प्रगटावो, लेशो नरभव ल्हावोरे.
जविजन० ॥ १ ॥ द्रव्यसमाधिथी जावसमाधि,
अनंतगुणी हितकारी; सविकल्पक विकल्परहित जे.
सेवो समाधि विचारीरे. भविजन० ॥ २ ॥ हठ
आदि अज्ञानसमाधि, वीशदोष परिहरीए; गृहस्थने
त्यागीभेदे संयम, व्यवहारनिश्चय धरीएरे. भवि-
जन० ॥ ३ ॥ चारनिक्षेपे सातनये नव—, तत्त्व
सामायिक धारो; मनवश करतां आत्मसमाधि,
शुद्ध यता आचारोरे. भविजन० ॥ ४ ॥ संयमीनी
सेवा जक्तिथी, शक्तियो प्रगटावो; बुद्धिसागर आतम
संयम, आविर्भावे लावोरे. भविजन० ॥ ५ ॥

ॐ० प० संयमपदपूजार्थं जलं० य० स्वाहा ॥

२७२

अष्टादशमी अज्ञिनवज्ञानपदपूजा.

प्रतिदिन अज्ञिनवज्ञानने, पामो नरने नार;
अभिनवज्ञान विना कदा, रहीए नहि क्षणवार. १

(सिद्धचक्रपदसेवाकीजे. ए राग.)

अज्ञिनवज्ञान भणो भवी भावे, गुरुगम लही
सुखकारीजी, स्वर्ग अने शिवसुख झट लहीए,
स्वाध्याय पंचविध धारी; श्रुतने त्रणिएजी—, त्यागी
सर्व प्रमाद, नवश्रुत गणीएजी. ॥ १ ॥ बुद्धिना
गुण आठ वधारो, आठदोषने टाळोजी; सर्वधकी
आराधक ज्ञानी, क्रिया रहित पण भाळो, श्रुतने०
त्यागी० ॥ २ ॥ देश आराधककिरिया नाखी,
ज्ञाननी किरिया दासीजी; ज्ञानी ज्ञान आशातना
टाळो, शुद्ध स्वरूप उल्लासी. श्रुतने०—त्यागी० ॥ ३ ॥
ज्ञानथी आतम शुद्धि अनंती, कार्य करंतां थावेजी;
अज्ञानी संवरने आस्रव—, रूपे मन प्रणमावे. श्रुतने ॥
त्यागी. ॥ ४ ॥ अनुभवज्ञानी सूरिवाचकमुनि,
संगे निशदिन रहेशोजी; बुद्धिसागर आत्मप्रभुता,
चिदानंदपद लेशो. श्रुतने० ॥ त्यागी० ॥ ५ ॥
ॐ० प० अज्ञिनवज्ञानपदपूजार्थं जलं० य० स्वाहा ॥

२७३

ओगणिशमी श्रुतपदपूजा.

पंच ज्ञानमां श्रुत छे, स्वपरोपकारक बेश, चउ
मुंगां श्रुत बोलतुं, टाळे सर्वे क्लेश. ॥ १ ॥

(चंद्र प्रभुजीसे ध्यानरे मोंये लागी लगनवा. ए राग.)

श्रुत स्वपर उपकारीरे, ज्ञवी भावथी सेवो; भवी
भावथी सेवो; जगमां छे जयकारीरे. भवी०॥ केवलज्ञा-
नीना मुखनी वाणी, चउदने वीश प्रकाररे. भवी० ॥
नवतत्त्व ज षड्द्रव्य प्रकाश्यां, नयनिक्षेपे उदाररे.
भवी० ॥ १ ॥ तत्त्व फरे नहीं त्रण्यकालमां, फरता
रहे आचाररे. भवी० दुःषमकाले श्रुत छे भानु, भणो
भणावो साररे. भवी० ॥२॥ श्रुतज्ञानी केवली सरखो,
सेवो नरने नाररे. ज्ञवी० ॥ बत्रीशदोष रहित आगम
छे, वर्ते जगदाधाररे. ज्ञवी० ॥३॥ वीरप्रभुए अर्थ प्र-
काश्या, सूत्र रच्यां गणधाररे. भवी० श्रुतकेवली
आदि मुनियोए, शास्त्र रच्यां जयकाररे. भवी० ॥४॥
श्रुतज्ञानीनो विनय करो बहु, प्रेमे करो सत्काररे.
भवी० बुद्धिसागर शुद्धात्मपद-, हेते स्याद्वादधाररे.
ज्ञवी० ॥ ५ ॥

ॐ० प० श्रुतपदपूजार्थं जलं० य० स्वाहा ॥

२७४

वीशमी तीर्थपदपूजा.

संघ चतुर्विधतीर्थ छे, सर्वविश्वसुखकार; अरिहा
नमता तीर्थने, तीर्थ जजो नरनार. ॥ १ ॥

(वीरकुमरनी दातडी कोने कहीए. ए राग.)

संघ चतुर्विध तीर्थ ठे जयकारी, पंच परमेष्ठी
हितकारी; सर्वविश्वविषे उपकारी, सेवो नरने
नार. संघ० ॥ १ ॥ जंगमतीर्थ आराधना शिवका-
री, श्रद्धाप्रतिथी सेवा सारी; जाउ संघनी जग
बलिहारी, सेवे नासे पाप. संघ० ॥ २ ॥ स्थावर
तीर्थने रक्षतो संघ शक्तें, रहो संघनी निशदिन
जक्ते; संघर्था जैनशासन वर्ते, जीवो संघना हेत.
संघ० ॥ ३ ॥ स्थावरजंगमतीर्थपर प्रेम लावो,
मोति पुष्पे संघ वधावो; जावे तीर्थकरपद पावो,
बनो संघना दास. संघ० ॥ ४ ॥ सूरि वाचक
मुनि सेवजो सुखकारी, करी स्वार्पणने दोष वारी;
बुद्धिसागर तीर्थनी यारी, करे मंगलमाल. संघ० ५

२७५

कलश.

(गायो गायोरे महावीर जिनेश्वर गायो. ए राग. धन्याश्री.)

गायुं गायुंरे वीशस्थानकपद तप गायुं; गातां
 पूजतां ध्यातां दिलडुं, आनंदथी उभरायुंरे. वीश० ॥
 आतममां वीश स्थानक जाण्यां, अनुभवमां एम
 आव्युं; साधनयोगे साध्यनी सिद्धि, जाणंतां मन
 ज्ञाव्युंरे. वीश० ॥ १ ॥ एकमां वीशने वीशमां एकज,
 एक साधे वीश साध्यां; साध्योपयोगे साधन सफळां,
 भावथकी आराध्यांरे. वीश० ॥ २ ॥ आतममां
 वीश द्रव्यने भावे, निश्चयने व्यवहारे; शुद्धातम
 उपयोगे घटमां, गुणपर्याय प्रकारे. वीश० ॥ ३ ॥
 वीशस्थानक पैकी एक स्थानक, आराधंतां जावे;
 तीर्थकरपद पामे ज्ञव्यो, मुक्ति अनंता पावेरे.
 वीश० ॥ ४ ॥ सिद्धया सिद्धशे जीव अनंता,
 एकेकपद आराधे; गुण एक सेवे गुण अनंता,
 प्रगटे साधन साधेरे. वीश० ॥ ५ ॥ ओगलिश
 सत्तोत्तर आश्विननी, चोथवदि गुरुवारे; सानंद
 शेहेरे चोमासुं करी, पूजा रची भवी तारेरे वीश०
 ॥ ६ ॥ पूर्णप्रतापीतपगच्छनायक, जगगुरु विरुद
 धराया; हीरविजयसूरि प्रणमुं पाया, अकवरे

२७६

गुणगण गायारे. वीश० ॥ ७ ॥ सहज सागर-
 पाठक जयकारी, सागरशाखा धारी; पट्ट परंपरा
 रविसागरगुरु, रविसम प्रगट्या चारीरे. वीश०
 ॥ ८ ॥ पूर्णप्रतापी सुखसागरगुरु, करुणा आशी
 प्रजावो; बुद्धिसागर पूजा रची शुभ, संघमां थाओ
 वधावोरे. वीश० ॥ ९ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं पमर० तीर्थ
 पूजार्थं जलं० यजामहे स्वाहा.

१७७

अथ दशविधयतिधर्मपूजाप्रारंभः.

प्रणमुं श्री परमात्मा, महावीर जगदाधार;
 चोवीशमा तीर्थकरा, शासनपति सुखकार. ॥ १ ॥
 जेणे संघने स्थापियो, सर्वधर्म आधार; जिनवर
 महावीर जग जयो, अनंतगुणदातार. ॥ २ ॥ यति
 धर्म दशविध कह्यो, आत्मशुद्धि करनार, जगजय
 श्री महावीर जिन, वंदु वार हजार. ॥ ३ ॥ सम-
 वसरणमां बेसीने, कीधो तीर्थ प्रचार; जंगमतीर्थ
 ते मुनिवरा, तेना दशगुण धार. ॥ ४ ॥ दश
 गुणथी मुनि शोचता, पूजा दशविधधर्म; दश
 विध धर्मे आत्मनुं, प्रगटे ज्ञान ने शर्म. ॥ ५ ॥ ते
 माटे दशधर्मनी, रचुं पूजा सुखकार; अष्टप्रकारे
 पूजशो, वीर प्रभु जयकार. ॥ ६ ॥

प्रथम क्षमापूजा.

जिनवर महावीर भाखता, धर्मक्षमा सुखकार;
 आराधो भवी भावथी, अनंत गुण दातार. ॥ १ ॥
 (सहियर मुणिएरे भगवती मूर्तनी वाणी. ए राग.)

जिनवर महावीर विभु उपदेशे, सर्व जगत्
 हितकारी; धर्मक्षमा धारो नरनारी, क्रोधकषायने

२७८

वारी. आत्मस्वभावनेरे, समर्जी क्षमागुण धारो;
 क्षमावंत साधुरे, बाकी वेषाचारो. आत्म० ॥ १ ॥
 अपकारे उपकारे क्षमाने, धारे बहुला लोको;
 धर्मक्षमा सहजे घट प्रगटे, ज्ञाने क्रोधने रोको.
 आत्म० ॥ २ ॥ कूरगडु खंधकना शिष्यो, धन्य
 मेतार्य मुनीन्द्रा; काने गोपे खीला मार्या, सहिया
 वीर जिनेन्द्रा. आत्म० ॥३॥ अच्चंकारी जटा मोटी,
 धन्य क्षमागुणदरिया; अहंवृत्ति ममता नहि
 जेने, क्षमागुणी मुनि तरिया. आत्म० ॥ ४ ॥
 वेषक्रियातपजप सहस्राधन, धर्मक्षमाथी सफळां;
 शुजअशुभवृत्ति नहि रहेतां, साधन नहि छे
 खपनां. आत्म० ॥ ५ ॥ देहादिक अध्यासो
 छंडी, आतमना उपयोगे; रहेतां धर्मक्षमा गुण
 प्रगटे, समताना संयोगे. आत्म० ॥ ६ ॥ चिदानंद
 आतम प्रगटावो, असंग आतम भावो; बुद्धिसागर
 पूर्णानंदे, रमता मुनिवर ध्यावो. आत्म० ॥ ७ ॥
 ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं परमपुरुषाय, परमेश्वराय, जन्म-
 जरामृत्युनिवारणाय, श्रीमते जिनेन्द्राय, क्षमा
 लान्नार्थं जलं, चंदनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं,
 नैवेद्यं, फलं, यजामहे स्वाहा ॥

२७९

द्वितीया मार्दवधर्मपूजा.

द्रव्यभाव अहंकारना, त्यागथकी छे त्याग;
 मुनि श्रमणी लघुता धरो, थावो प्रभु वडभाग.
 ॥ १ ॥ आठजातिना मद तजी, थावो निरहंकार;
 अगुरु लघु निज आतमा, समजीने सुखकार. ॥२॥
 मानमां अने अपमानमां, वर्ततां समजाव; अनंत
 गुण प्रगटे खरा, साधो मार्दवदाव. ॥ ३ ॥

(श्रावकं व्रत सुरतरु फळियो. ए राग.)

परमेश्वर वीर उपदेशे, रहो न मुनि रागद्वेषे;
 मान तजे ते सुख लेशेरे, मुनिवर मान परिहरशो.
 क्षण क्षण आतमगुण स्मरशोरे, मुनि०॥ भवसागर
 वेगे तरशोरे. मुनिवर० ॥ १ ॥ आठजातिमद परि
 हरता, आतमशुद्धि ते करता; परमब्रह्म वेगे
 वरतारे. मुनिवर० ॥ २ ॥ रावण मानथकी हायो,
 भीमे दुर्योधन मार्यो; मन पेसे मद अणधार्योरे.
 मुनिवर० ॥ ३ ॥ ज्ञानने ध्यानना अहंकारे, तरे
 नहीं पर नहि तारे; गारवे जीव करे भारेरे. मुनिवर०
 ॥ ४ ॥ उंच नीच जेदे आवे, अज्ञानी मनमां फावे;
 मदकेफे निज भूलावेरे. मुनिवर० ॥ ५ ॥ हुं मां

२८०

ज्यां नही जागे, त्यांची मद दूरे जागे; जयमंको
घटमां वागेरे. मुनिवर० ॥ ६ ॥ हुं त्यांची प्रभु
छे आघा, बाहुवली समजी जाग्या; केवलज्ञानी
धीतरागारे. मुनिवर० ॥ ७ ॥ मद वण मनडुं रहे
ज्यारे. आत्मप्रभु प्रगटे त्यारे; आप तरे मुनि पर
तारेरे. मुनिवर० ॥ ८ ॥ प्रभु महावीर कथे एवुं.
समजी लक्ष्यविषे देवुं; बुद्धिसागरसुख लेवुंरे.
मुनिवर० ॥ ९ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं परमं मार्दवगुण
लाभार्थं जलं०—यजामहे स्वाहा ॥

तृतीया आर्जवर्धमपूजा.

द्रव्यज्ञाव आर्जवगुणे. रमतां केवलज्ञान; मु-
निवर आर्जव गुण रमो, स्वयं यशो जगवान् ॥ १ ॥
जनमनरंजनस्वार्थधी, कपटक्रियाओ थाय;
मानादिकना त्यागधी, आर्जव गुण प्रगटाय ॥ २ ॥
मद्विनाथ पूरवन्नवे, कपटे स्त्री अवतार, पाभ्या
जाणी मुनिवरो, धरो सरलता सार ॥ ३ ॥

२८१

(जीरण श्रेष्ठ भावना भावेरे, महावीर प्रभु वेर आवे. ए राग.)

प्रभु महावीरने दिल धारो, प्रभुने कृण कृण
 संभारो; उपयोगे आत्म सुधारो, धरी आर्जव गुण
 निज तारोरे; एवो वीरप्रभु उपदेशो, माया त्यागी
 मुनि शिव लेशोरे. एवो० ॥ १ ॥ निष्कपटे कहेवुं ने
 रहेवुं, दुनियानुं कहुं सहुं स्हेवुं; मान पूजामां लक्ष्य
 न देवुं, जेवुं अंतर बाहिर तेवुरे. एवो० ॥ २ ॥
 माया त्यागे प्रभु दिल आवे, अन्य दोषो वेगे जावे;
 शोभे आतम आविर्जावे, शुद्धसरलता आत्म
 स्वभावेरे. एवो० ॥ ३ ॥ दुनिया भले वंदे निंदे, करे
 हेलना रागी ठंढे, वध बंधन मारवा मंडे, त्हांयें
 पडशो नहीं मुनि फंदेरे. एवो० ॥ ४ ॥ मर्या पहेळां
 माया मारो, निर्मायी वनी निज तारो. मळूयो मा-
 नव भव नहि हारो, मन कपटवृत्ति संहारोरे. एवो०
 ॥ ५ ॥ मायासंगे क्षण क्षण मरवुं, कदि दंभथी
 होय न तरवुं; मायामारी जीवन धरवुं, पठी मरवुं
 नहीं अवतरवुरे. एवो० ॥ ६ ॥ त्यागो सर्वप्रकारे
 माया, बुरा तेना छे पडगाया; मायात्यागथी प्रभु
 घटछाया, समजी संतो सुख पायारे. एवो० ॥ ७ ॥
 वसे कपट त्यां दुःखना दरिया, माया त्यागी मुनि

३६

२८२

गुण चरिया; बुद्धिसागर मुनि केशरिया, निष्कपटी
केवल वरियारे. एवो० ॥ ८ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं—आर्ज-
वप्राप्त्यर्थं जलं० यजामहे स्वाहा ॥

चतुर्थी मुक्तिधर्मपूजा.

लोभ तजे सर्वे तज्युं, लोभ टळतां मुक्ति; जड
लोभे नहीं मुंझता, तेने नहीं छे भीति. ॥१॥ लोभ
तज्याथी जीवतां, मुक्ति अनुभव थाय; जीवतां
मुक्ति नहीं, देह तजे शुं ? पाय. ॥ २ ॥ सर्वप्रकारे
लोभनो, कीधो जेणे त्याग; जीवता ते मुक्त ठे,
सिद्ध बुद्ध वडजाग. ॥ ३ ॥

(वीरकुपरनी बातडी कोने कहीए. ए राग.)

वीरप्रभु परमातमा जयकारी, जे ठे विश्वविषे
उपकारी; प्रतिबोध्यां नरने नारी, भजो मुक्ति हेत;
लोभ तजीदो साधुओ सुखकारी. ॥ १ ॥ लोभथी
मुक्त ते मुक्त छे नरनारी, तजो लोभने महादुःख-
कारी; रहो निःसंग मनहुं धारी, रही जग समचाव.
लोभ० ॥ २ ॥ मूर्च्छा परिग्रह जाणशो वीर बोले,

२४३

नहीं संतोषना कोइ तोले; चरुशां नहीं लोभहिं-
 चोळे, मुनि मुक्त स्वतंत्र. लोभ० ॥ ३ ॥ सर्व जग-
 त्ना संगथी नहि संगी, अनासक्तिए आत्म सुरंगी;
 होय धनी पण चित्त निःसंगी, जरुमां नहीं मोह.
 लोभ० ॥ ४ ॥ जडवस्तुनी लालचे जीव भटक्यो,
 लाख चोराशीमां लटक्यो; संत पासे जतां पण अ-
 टक्यो, धर्यो नहि प्रभु प्रेम. लोभ० ॥ ५ ॥ लोत्रे
 लक्षण जाय ठे सत्य नासे, दुर्वृद्धि रहे दिल पासे;
 हिंसादिक पाप प्रकाशे, लोभे सर्व विनाश. लोभ०
 ॥ ६ ॥ लोभी पापो सहु करे एम जाणो, अनास-
 क्तिने मनमां आणो; धरो संतोष दिल मझानो,
 करो उपयोगी काज. लोभ० ॥ ७ ॥ देवगुरुसंघ
 भक्तिनो लोभ करशो, निज फर्ज अदा करी फरशो;
 धर्म्य लोभने पहेलां धरशो, पछी निर्लोभजाव. लोभ०
 ॥ ८ ॥ मुक्तिने जवमां समपणुं दिल धारो, सर्व
 संग छतां लोभ वारो; शुद्ध आत्मपरिणति धारो,
 बुद्धिसागर गाय. लोत्र० ॥ ९ ॥

ॐ ह्रीं श्री परम० मुक्ति गुण प्राप्त्यर्थं जलं—
 यजामहे स्वाहा ॥

२८४

पंचमी तपोधर्मपूजा.

मोह टळे शुद्धि वधे; तप ते धर्मने मान; दुर्गुण दोषो सहु टळे, तप करबुं गुणखाण. ॥ १ ॥ परो-कारी साधुनां, तप रूपी सहु काज; सर्व दुःख सहेवां शमे, तप ते गुण शिरताज. ॥ २ ॥ बाह्याभ्यंतर तपथकी, शक्ति प्रगटे अनंत; तपने पूजो आदरो. ध्यावो मुनिवर संत. ॥ ३ ॥

(कर्म परीक्षा करण कुमर चलयारे. ए राग.)

निष्कामे तप तपशो मुनिवरारे, भाखे वीर जिनेश; कर्म निकाचित क्षणमां क्षय थतारे, नासे सघळा क्लेश. निष्कामे ॥ १ ॥ परोपकारी कर्मो तप क्यारे, विश्वर्जावोनी सेव; सर्वशुजाशुभ अभिलाषा विनारे, वर्ते थाओ देव. निष्कामे ॥२॥ संघनी सेवा भक्ति तप जळुरे, वैयावच्चने ध्यान; प्रायश्चित्तने विनये राचशारे, करो स्वाध्यायथी ज्ञान. निष्कामे ॥ ३ ॥ देहाध्यासविना आतमप्रभुरे, देखाता भगवंत; बाह्य तपो पण आत्मविशुद्धि-नारे, हेते ठे गुणवंत. निष्कामे ॥ ४ ॥ ज्ञानी मुनिने तप सहु कार्यमारे, भोगविषे पण योग; जोगो पण सहूरोगसमा गणारे, वर्ते योगे अयोग.

२८५

निष्कामे० ॥ ४ ॥ कार्य करे पण अक्रिय जे रहेरे,
 धरी आतम उपयोग; सर्वविषयनी वांछावण रहेरे,
 शोचे न हर्षे भोग. निष्कामे० ॥ ६ ॥ मुनिने मन
 दमतां तप ठे सदारे, करतां सर्वप्रवृत्ति; अन्तर
 तप अज्ञो नहि जाणतारे, मनमां नहीं आसक्ति.
 निष्कामे० ॥ ७ ॥ मुनिनी सर्वप्रवृत्ति तपमयीरे,
 क्षेत्रकाल अनुसार; बाह्यथी अंतर अनंतगणु जलंरे,
 टाळे कर्म विकार. निष्कामे० ॥ ८ ॥ ज्ञानीने सहु
 धंधन कारणारे, निर्जरहेते थाय; बुद्धिसागर तपसी
 पूजतारे, ध्यातां तप प्रगटाय. ॥ निष्कामे० ॥ ९ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं प० तपोगुणलाभार्थं जलं० यजा-
 महे स्वाहा ॥

छठी संयमधर्मपूजा.

संयम साधो संयमी, वश करी मनवचकाय;
 संयमथी झट सिद्धि ठे, लब्धि सकल प्रगटाय.
 ॥ १ ॥ आत्मिकबल संयम जलं, टाळे आटे कर्म;

२८६

संयमी क्षणमां मुक्ति पद, पामे शाश्वत शर्म. ॥१॥
धारणा ध्यान समाधिमय, संयम छे सुखकार; संयम
धर्मनी पूजना, करशो नरने नार. ॥ ३ ॥

(गंगातट तपो वनमारे वनी रचना भारी. ए राग.)

साधो संयम साधुरे, के आतम उपयोगे; पडो
नहि मोह वनमारे, रहो मन वैराग्ये. साधो० ॥१॥
(साखी)लीन बनो निज आत्ममां, गुण पर्यायने ध्याइ;
मोहपरिणति वारतां, प्रगटे मुक्तिवधाइ; ॥ आतम
श्रद्धा प्रेमेरे, के मस्तदशा प्रगटे; निजशक्ति अनंतीरे,
प्रकटे तम विघटे. साधो० ॥२॥ (साखी) क्षण पण
संयमी संगवण, जीवो नहि नरनार; संयम साधन
साध्य छे, आत्मशुद्धता सार. ।पंच समतिने गुप्तिरे, के
साधन जेह वरे; पूर्णानन्दी आतमरे, अनुभव तेह करे.
साधो० ॥३॥ (साखी) व्रत तप जपदम साधनो, सापेक्षे
छे सत्य; मुनिवरनां संयममयी, सघळां जाणो कृत्य॥
भक्ति कर्मने ज्ञानेरे, संयम शक्ति वधे; शुद्ध आत्मो
पयोगेरे, साधन सत्य सधे. साधो० ॥४॥ (साखी) उप-
चारिक धर्मज भलो, संयमरूपी सर्व; तेमां पण संय-
मीजनो, करो न क्यारे गर्व ॥ हठधर्म निवारीरे,
संयम सहेजे सजो; बुद्धिसागरप्रेमेरे, महावीरदेव

२८७

भजो. साधो० ॥ ४ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं परम० संयम
लाभार्थं जलं० यजामहे स्वाहा ॥

सप्तमी सत्यधर्मपूजा.

द्रव्यभावसापेक्षथी, सत्य असंख्यप्रकार; सत्य
समो नहीं धर्म ठे, सत्य ग्रहो नर नार. ॥ १ ॥
सत्य वदोने आचरो, जैनधर्म छे सत्य; प्राणांते
नहि ठंडशो, सत्यधर्मनां कृत्य. ॥ २ ॥ ज्ञानथकी
साचुं ग्रहो, करो असत्यनो त्याग; पक्षपात ठंकी
करी, धरो सत्यनो राग. ॥ ३ ॥

(तेजे तरणिथी वडोरे. ए राग.)

वीर प्रभुए ज्ञाखियोरे, सत्यधर्म जयकार,
मिथ्या जूठने परिहरोरे, सत्य धरो आचार हो जत्रि-
जन !!! सत्य धर्मने धारजोरे, मानवभव नहि
हारजोरे, समजो सत्य प्रकार. ॥ १ ॥ सत्य वसे त्यां
शक्तियोरे, देवो करता सहाय; देशने सर्वथी
सत्यनेरे, स्वाधिकारे ग्रहाय हो. जत्रिजन !!! सत्य०

२८८

॥ २ ॥ क्रोध मान माय लोभथीरे, कामथी जूठ
 वदाय; प्रभु वीतरागी आतमारे, बोले सत्य सदा-
 यहो. भविजन!!! सत्य० ॥३॥ सत्य ते सेवा भक्ति
 ठेरे, सत्यसमी नहीं शक्ति; सत्यसमुं बळ नहि
 कश्युंरे, सत्यसमी नहि नीति हो. भविजन!! सत्य०
 ॥ ४ ॥ भयने हास्यथी जूठनेरे, बोलंतांछे अधर्म;
 स्वार्थे अज्ञाने जनारे, बांधे अशाताकर्म हो. भविजन
 सत्य० ॥ ५ ॥ दुःख पडे प्राण जो पडेरे, तोपण
 ठंडो न सत्य; उपसर्गों थातां घणारे, ठंमो न
 साचां कृत्य हो. भविजन सत्य० ॥ ६ ॥ ज्ञान अने
 माध्मस्थथी रे, सत्य तत्त्व समजाय. बलिहारी सत्य-
 वादीनी रे, जूठाथी दूर जाय हो. भविजन० ॥ ७ ॥
 सत्य ग्रही मुनियोगीओरे, पाम्या पामशे मुक्ति;
 अनंत महिमा सत्यनोरे, रविथी अनंतीश्रुति हो.
 भविजन० ॥ ८ ॥ सत्य वदो सत्य आदरोरे, दुःख
 सहीने अनंत; सुवर्णपेठे कसोटीएरे, चढीने थावो
 भदंत हो. भविजन० ॥९॥ रवि पहेला ते उगतारे,
 सत्यवादी नरनार; बुद्धिसागर आतमारे, पूर्णानन्द
 अपार हो. भविजन० ॥ १० ॥ ॐ सत्य लानार्थ
 जलं० यजामहे स्वाहा ॥

२८९

अष्टमी शौचधर्मपूजा.

द्रव्यज्ञावव्यवहारने, निश्चयशौच छे धर्म,
 ज्ञावशौच सेव्याथकी, विघटे सर्वे कर्म. ॥ १ ॥
 द्रव्यथी ज्ञाव अनंतगुण, आत्मशुद्धिकरनार;
 उपादाननिमित्तथी, समर्जी ग्रहो नरनार. ॥ २ ॥
 आत्मशुद्धिकर शौच छे, लक्ष्य न भूलो लेश;
 साध्योपयोगे शौचने, धरतां टळता क्लेश. ॥ ४ ॥

(श्रुतपद नभिये भावे भविया, श्रुत छे जगत आधारजी. ए राग.)

समवसरणमां बेसी वीरजिन, केवलज्ञाने
 प्रकाशेजी; भावशौचथी निश्चय मुक्ति, परमानंद
 विलासे; शौचने धारोजी, तजी परपरिणतिटेव,
 आत्म सुधारोजी० ॥ १ ॥ सातनयोने चउनिक्षेपे,
 शौचधर्मने जाणोजी; देहनी शुद्धि बाह्यशौच ठे,
 अंतर शुद्धता आणो. शौच० ॥ २ ॥ द्रव्यथकी
 पण ज्ञावशौच ठे, अनंतगुणो हितकारीजी; काय
 थकी मननी ज अनंतगुण—, शुचिता ठे सुखकारी.
 शौच० ॥ ३ ॥ भावशौच ज्यां ठे त्यां दर्शन,
 ज्ञानचरण जयकारीजी; ज्ञावशौच धरता मुनि वंदो,
 पूजो जग उपकारी. शौच० ॥४॥ आत्मशौच विना
 कायाना,—शौचथी थाय न मुक्तिजी, हिंसादिक

२९०

क्रोधादिकदोषो, टळतां शौचनी रीति. शौच० ॥५॥
 आंतरमळमनमोहने टाळो, पवित्र करी मन
 म्हालोजी; वाहिरशौचकदाग्रह टाळां, अंतरने
 अजवाळो. शौच० ॥ ६ ॥ मननो मेल टळ्याथी
 मुक्ति, जेनी तेनी थातीजी; एकली पंढिताइ न
 खपनी, निर्मल करशो ठाती. शौच० ॥ ७ ॥ राग-
 द्वेषमलीनता टाळो, दोष प्रगटता खाळोजी, का-
 मवासनावीजने वाळो, प्रभु जिन आतम भाळो.
 शौच० ॥ ८ ॥ जावशौचवण वेपाचारे, मुंझो
 नहीं नरनारीजी, आतमशुद्धि करे ते शौच ठे,
 समजो त्रांति निवारी. शौच० ॥ ९ ॥ शौचधर्मथी
 साधु अनंता, मुक्त थयाने थाशेजी; बुद्धिसागर
 आत्मरमणता, करतां शौच छे पासे. शौच० ॥ १० ॥

ॐ—परम० शौचधर्मलाभार्थं जलं यजा-
 महे स्वाहा.

३९१

नवमी अकिंचनधर्मपूजा.

मूर्छापरिग्रहग्रहथकी, मुक्त यतां छे मुक्ति;
 अकिंचन ते धर्म छे, त्यागीनी ए रीति. ॥१॥ द्रव्य-
 ज्ञावपरिग्रहथकी, न्यारा वर्ते संत; आत्मानंदरस
 अनुभवे, नमो नमो गुणवंत. ॥ २ ॥ मूर्च्छावण न
 परिग्रही, उपयोगी मुनिराज; उपधि देहादिक ठतां,
 निःसंगी शिरताज. ॥ ३ ॥

(दान सुपात्रे दिजेहो भवियां, दान सुपात्रे दीजे. ए राग.)

परिग्रहमूर्च्छात्यागी हो मुनिवर, परिग्रह
 मूर्च्छा त्यागी; अंतर बाहिर ममता रहित थै, वर्ते
 ठे वडभागी हो. मुनिवर ॥ परिग्रह ॥ १ ॥ नवविध
 परिग्रहमां नहि ममता, वर्ते सकलपर समता; देहा-
 दिकगच्छसंगी ठतां पण; निःसंगज्ञाने रमता हो.
 मुनिवर ॥ २ ॥ साधन उपयोगी उपधि सहु, ज्ञानी
 न त्यां बंधाता; तारु तरे जेम सरवरमांही, संवर
 भावे सुहाता हो. मुनिवर ॥ ३ ॥ मूर्च्छा ए ठे सर्वे
 उपाधि, मूर्च्छावण निरुपाधि; ज्ञानीने आम्रव पण
 संवर, उपयोगे नहि आधि हो. मुनिवर ॥ ४ ॥
 जदमां शुजाशुभभाव रहित जे, ते नहि जग

३९२

बंधातौ; बाह्य परिग्रह तेने करै शुं ? जै नहीं पुढलै
 रातो हो. मुनिवर० ॥ ५ ॥ ममतावण नहीं कर्मबंध
 ठे, ममतात्यागे त्यागी; जडनी ममतात्यागी सु-
 ज्ञाने, थाशो आतमरागी हो. मुनिवर० ॥ ६ ॥
 यावत् मूर्च्छा अंतर तावत्, कोइ न मुक्ति पाये;
 मूर्च्छावण मणि पर्वत उपर, बेठो ठरे शिव ठामे हो.
 मुनिवर० ॥ ७ ॥ परिग्रहत्यागी मुनिवरसेवा,
 जक्ति करो बहुभावे; क्षण एक साधुनी संगत करतां,
 निश्चय मुक्ति थावं हो. मुनिवर० ॥ ८ ॥ अणुसम
 गृहीने मेरु सरीखा, मुनिवर मोटा जाणो; संतोषे
 नहीं कोनी परवा, आनंद जोगी मानो हो. मुनिवर०
 ॥ ९ ॥ निश्चयने व्यवहारथी त्यागी, सेवो पूजो
 ध्यावो; बुद्धिसागर शुद्धातमपद, पूर्णानंदी पावो
 हो. मुनिवर० ॥ १० ॥ ॐ-परम० अकिंचनधर्म
 द्वाभाय जलं० यजामहे स्वाहा.

१९३

दशमी ब्रह्मचर्यधर्मपूजा.

ब्रह्मचर्य सम को नहीं, सर्वधर्ममां श्रेष्ठ, द्रव्य-
जावब्रह्म आगळे, अन्य सकल छे हेठ. ॥ १ ॥ नेमि
सुदर्शन जंबुने, स्थूलिजद्र ज अनगार; गावो पूजो
भावथी, ध्यावो नरने नार. ॥ २ ॥ ब्रह्म मळे ब्रह्म-
चर्यथी, भाखे वीरजिनेश; द्रव्यभावथी धारतां,
नासे सघळा क्लेश. ॥ ३ ॥

(ए व्रत जगमां दीवो मेरे प्यारे, ए व्रत जगमां दीवो. ए राग.)

ब्रह्मचर्य सुखकारी हो जगमां, आतम आनंद-
कारी; ॥ द्रव्यथकी देहवीर्यनी रक्षा, स्त्रीमैथुन
परिहारी; भावथकी परपरिणतित्यागे, ब्रह्मव्रती
जयकारी हो. जगमां ब्रह्मचर्य सुखकारी ॥ १ ॥
पांचे इन्द्रिय त्रेवीश विषयो, शुभ अशुभ नहीं लागे;
स्वप्ने पण नहीं कामनी वृत्ति, ब्रह्मभाव घट जागे
हो. जगमां ॥ २ ॥ मैथुनजोगे सुख नहीं शांति,
आधि व्याधि उपाधि. जाणी मुनिवर ब्रह्मस्वरूपे,
वर्ते ठे निरुपाधि हो. जगमां ॥३॥ कामी व्यभिचारी
महादुःखी, रूप राग जरमाया; हडकाया कूतरनी पेठे,
क्यांये सुख नहीं पाया हो. जगमां ॥४॥ कामभोगथी
याय न शांति, उल्टी कामनी वृद्धि; जाणी कामनी

२९४

वृत्ति शमावो, पामो आत्मिक ऋद्धिहो. जगमां० ॥५॥
 चामकीरागी जन चामकिया, आतमना नहि प्रेमी;
 आतमरागी जग वैरागी, वतें योगी हेमी हो.
 जगमां० ॥ ६ ॥ आतमरागी प्रेमी ज्ञानी, भक्त संत
 मुनिराया; शुद्धब्रह्ममां निशदिन रमता, प्रणमो
 तेना पाया हो. जगमां० ॥ ७ ॥ निराकार शुद्धातम
 ब्रह्ममां, रमवुं ब्रह्म ठे भावे, पूर्णानंदनी मोंझे रमतां,
 पोते प्रभुजी सुहावे हो. जगमां० ॥ ८ ॥ ब्रह्मसे
 रसिया मुनिवरजी, बाह्यरसे दूर खसिया; एकवार
 आतम आनंदरस, पाम्या ब्रह्म उद्धसिया हो. जगमां०
 ॥ ९ ॥ ब्रह्मचर्यथी शक्ति अनंती, नासे दूरे रोगो,
 ब्रह्मचर्य छे सर्वनुं जीवन, एथी सबळा योगो हो.
 जगमां० ॥ ११ ॥ द्रव्यथी भाव अनंतगुण उत्तम,
 कारणे कार्यनी सिद्धि, अष्ट सिद्धि नवनिधियो प्रगटे,
 आत्मिक क्षायिक लब्धि हो. जगमां० ॥ ११ ॥ इन्द्रा-
 दिक सह्रु देवो पूजे, ब्रह्मचारीने रागे; मुनिवरसेवा
 भक्ति करतां, ब्रह्मव्रत दिल जागे हो. जगमां०
 ॥ १२ ॥ भावब्रह्मधारी उपकारी, भोगी जेह
 अभोगी; बुद्धिसागर ब्रह्म अलखने, पूर्ण जगावे
 योगी हो. जगमां० ॥ १३ ॥

२९५

कलश गीत. धन्याश्री राग.

गायो गायोरे महावीर जिनेश्वर गायो ॥ दश
विधसाधुधर्मनी पूजा-पुष्पे प्रभुजी वधायो. त्रिशला
नंदन वंदन करतां, सहजानंदने पायोरे. महावीर०
॥ १ ॥ अोगणिशसत्योत्तरआश्विनवदि, छठ
शनिवार शुहायो; दशविधमुनिवरधर्मनी पूजा,
रचतां हर्षे उमाहोरे. महावीर० ॥ २ ॥ सानंदमां
आनंदनी ल्हरे, दशविधधर्मने ध्यायो; संघनी
भक्तिए चोमासामां, मंगल जय वर्तायोरे. महावीर०
॥ ३ ॥ सदसद्भूत ज आतमधर्मनो, अनुभव
निश्चय आयो; आपोआप स्वरूपे खेली, जन्मी जगमां
फाव्योरे. महावीर० ॥ ४ ॥ तपगच्छहीरविजय
सूरि जगगुरु, धर्मना तेजे सवायो; पट्टपरंपरा रवि-
सागरगुरु, झळहळज्योति सुहायोरे. महावीर० ॥ ५ ॥
दर्शन ज्ञानने चारित्रमयश्री, सुखसागर गुरुरायो;
तेना चरणकमळमां व्रमरसम, थातां ब्रह्म जगायोरे.
महावीर० ॥ ॥ ६ ॥ गुरुकृपाने आशीर्वादे, जगमां
धर्म फेलायो; बुद्धिसागर आनंदमंगल, जंगमसंघ
वधायोरे, महावीर० ॥ ७ ॥

ॐ परम० ब्रह्मचर्यलाभाय जलं० य० स्वाहा ॥

२९६

चारभावनानी पूजा.

परमब्रह्म परमात्मा, जिनवर महावीर देव, सर्व सुरासुरनतविभु, इन्द्रो करता सेव. ॥ १ ॥ जिनवर महावीरे कह्यो, चारभावना बोध; भावे चारे भावना, थातो मोहनरोध. ॥ २ ॥ चारभावना जावतां, प्रगटे आतमशुद्धि; ते कारण चउ भावना-पूजानी ठे सिद्धि. ॥ ३ ॥ मैत्री मुदिताजावना, भाव मध्यस्थ विचार; करुणा चोथी भावना, जावतां भवपार. ॥४॥ अष्टप्रकारी पूजना, प्रत्येक पूजा दीठ; जिनवर महावीर पूजतां, प्रगटे सम्यग्दृष्टि. ॥ ५ ॥ चार भावना जावतां, त्यागी गृही नर नार; क्षणमां केवल ज्ञानने, पामंतां निर्धार. ॥ ६ ॥

प्रथम मैत्रीभावनापूजा.

(अरणिक मुनिवर चाल्या गोचरी. ए राग.)

चरम जिनेश्वर महावीर पूजीण, जेणे तार्या नर-नाररे, भावना चारेरे जेणे उपदिशी, जावे शिव निर्धाररे; मैत्रीभावना जावो जविजना. ॥१॥ सर्वजीवोनेरे मित्रसमा गणो, ठंडो वैर विरोधरे; शत्रुदृष्टिरे दिलथी

२९७

परिहरो, एवो प्रभुनोरे बोधरे. मैत्री० ॥ २ ॥ आतम सरखारे सर्वे जीव छे, कर्मवमे परतंत्ररे; अज्ञाने ते रे सत्य न जाणता, जपता मोहनो मंत्ररे. मैत्री० ॥ ३ ॥ कर्मप्रमाणेरे सुख दुःख संपजे, जीवो निमित्त होयरे; कर्मविना कोइ निमित्त नहीं थतुं, शत्रु न मानो कोयरे. मैत्री० ॥ ४ ॥ सम्यग्दृष्टिने सवळीबुद्धिथी, सर्वजीवो होय मित्ररे; आत्मोन्नतिमारे हेतु परिणमे, कोइ न होय अमित्ररे. मैत्री० ॥ ५ ॥ सातनयो-थीरे मत्रीभावना, चउनिक्षेपेरे जाणरे; द्रव्यने भावेरे निश्चय व्यवहर, प्रगटे केवलज्ञानरे. मैत्री० ॥ ६ ॥ जेना मनमारे मित्र जगत् बन्युं, ते छे जग-नोरे मित्ररे; भव बंधनथीरे मुक्त प्रभु थयो, ज्ञानी संत पवित्ररे. मैत्री० ॥ ७ ॥ खमो खमावोरे सर्वे जीवने, टाळी रागने रोषरे; जैनधर्मनोरे ए व्यवहार छे, करवो आतमपोषरे. मैत्री० ॥ ८ ॥ मैत्रीज्ञावना वर्तन आदरो, टाळी मोहनी वृत्तिरे; दुःख सहीनेरे सघळाजीवनी, करशो प्रेमेरे भक्तिरे. मैत्री० ॥ ९ ॥ परमातम सत्ताए सहुजीवो, आतममां एम भावरे; बुद्धिसागर मैत्रीभावना, भवसागरमांही नावरे. मैत्री० ॥ १० ॥ ॐ—मैत्रीभावलाज्ञाय ज० य० स्वाहा.

२०८

द्वितीया प्रमोदभावनापूजा.

प्रमोदभावना पुष्पथी, पूजो वीरजिनेन्द्र;
 प्रमोदजावे जे रहे, थाता तेह महेन्द्र. ॥ १ ॥ दोष
 दृष्टिने टाळवा, प्रमोदजावना वेश; निंदादिक दूरे
 टळे, नासे मिथ्याकलेश. ॥ २ ॥ गुणने गुणीने
 देखतां, मनडुं हर्षित थाय; ए ठे मुदिताभावना,
 आचरतां दुःख जाय. ॥ ३ ॥

(ते जे तरंगिथी वडोरे. ए राग.)

वंदु प्रभु महावीरनेरे, जेणे ओळखाव्यो धर्म;
 उपकारी नहीं तुज समारे, टाळ्यो मिथ्या भर्म हो.
 दिलमां. मुदिता भावना जावीएरे, आत्मप्रभु प्रग-
 टावीएरे; टाळी दोषनी दृष्टि. ॥ १ ॥ कर्मवशे सहु
 प्राणियारे, दोषी काल अनादि; अचरिज शुं त्यां
 मानवुंरे, गुण देखो निरुपाधिहो. दिलमां मुदिता०
 ॥ २ ॥ सर्वसंसारजीवमारे, दोषने गुण वे साथ;
 गुण देखी चित्त रीझीएरे, रीझे त्रिभुवननाथ हो.
 दिलमां मुदिता० ॥ ३ ॥ परगुण परमाणु समारे,
 जाणी गिरिसम चित्त; खुशी थता जग सज्जनारे,
 करता आत्म पवित्र हो. दिलमां मुदिता० ॥ ४ ॥

२९५

कृष्णं श्वानना दंतनेरै, प्रशंस्या धरी रागः गुणरागे
 प्रगटे गुणोरे, जीव बने महाभाग हो. दिलमां
 मुदिता० ॥ ५ ॥ नयनिक्षेपे जाणीनेरे, आदरशो
 नरनार; समकितवंता जीवनोरे, एवो छे आचारहो.
 दिलमां मुदिता० ॥ ६ ॥ मिथ्यादृष्टिपणुं टळेरै,
 टळती दोषनी दृष्टि; सर्वगुणो प्रगटाववारे, पुष्करा
 वर्तनी वृष्टि हो. दिलमां मुदिता० ॥ ७ ॥ निन्दा
 थती नहीं कोडनीरे, सद्गुण लेश जणाय; सर्व जी-
 वोनी साथमारे, आतमभाव सुहायहो. दिलमां
 मुदिता० ॥ ८ ॥ सर्वकषायो उपशमेरे; क्षयोपश
 क्षय थाय; आत्मस्वभावे आतमारे, प्रणमे सुख
 प्रगटाय हो. दिलमां मुदिता० ॥ ९ ॥ क्षपकश्रेणि
 चढे आतमारे, समजावे वर्तमान; क्षीणमोही अंत-
 रातमारे, पामे केवलज्ञान हो. दिलमां मुदिता०
 ॥ १० ॥ कोटि दोष छतां गुणोरे, देखंता संत धार;
 दोष त्यजी गुणहर्षथीरे, राचो नरने नार हो.
 दिलमां मुदिता० ॥ ११ ॥ शत्रुना पण गुण जुवोरे,
 करो न नामथी निंद; प्रभुमहावीरना बोधथीरे,
 गुण गुणी मानो वंद्य हो, दिलमां मुदिता० ॥ १२ ॥
 जैनधर्मनी ज्ञावनारे, गुणरागे प्रगटाय; बुद्धिसा-

३००

गर आतमारै, ज्योतिज्योते सुहाय हों. दिलमां
मुदिता० ॥ १३ ॥ ॐ-प्रमोदभावलाजाय.
ज० य० स्वाहा.

तृतीया माध्यस्थभावनापूजा.

दुहा.

माध्यस्थ त्रीजीभावना, आदरे जे नरनार;
सर्वप्रकारे सत्यने, पासे शांति अपार. ॥ १ ॥ मिथ्या
दुर्बुद्धि टळे, पक्षपात दूर जाय; दुराग्रहो सर्वे टळे,
रागने रोष पलाय. ॥ २ ॥ ज्यां त्यां सत्य प्रकाशतुं,
रहे नहीं अज्ञान; नयनिक्षेपे धर्मने, जाणंतां छे
ज्ञान. ॥ ३ ॥

(धन धन संप्रति साचो राजा. ए राग.)

जेम जेम राग अने द्वेष विघटे, तेम प्रगटे
समजावरे; दृष्टिरागनो त्याग थतां दिल, प्रगटे
मध्यस्थभावरे. वीरप्रभुए ए गुण भाख्यो, आदरो
नरने नाररे; मध्यस्थभावे सत्य प्रकाशे, आनंद
अपरंपाररे. वीरो ॥ १ ॥ पक्षपात आय रागने द्वेषे,

३०१

मानव स्वार्थे अन्धरे; मिथ्याबुद्धियोगे लोको,
 अक्लीदृष्टिण बन्धरे. वीर० ॥ २ ॥ सर्व कदाग्रह
 दूरे नासे, प्रगटे सत्य प्रकाशरे; सत्यनेमाटे सर्व
 समर्पण, शुद्धातमविश्वासरे. वीर० ॥ ३ ॥ द्रव्य
 क्षेत्रने कालने जावथी, सत्यासत्य जणायरे; सत्यनां
 सर्वे दृष्टि बिंदुओ, प्रगटे सत्य ग्रहायरे. वीर० ॥ ४ ॥
 सत्यने न्याय ग्रहे मध्यस्थी, पकसे न गद्धापुच्छरे;
 जूतुं ते साचुं नहीं माने, सत्य आगळ सहु तुच्छरे.
 वीर० ॥ ५ ॥ नयनिक्षेपने भंगप्रमाणे, जैनधर्म
 ठे सत्यरे; सर्वनयोनी सापेक्षाए, समजो दर्शन कृ-
 त्यरे. वीर० ॥ ६ ॥ ज्ञानी संतनी सेवा ऋक्ति, करतां
 मध्यस्थभावेरे; प्रगटे सर्वकर्म व्यवहारे, समजाता
 सत्यदावरे. वीर० ॥ ७ ॥ काल स्वभावने नियति
 कर्मे, उद्यमे थातुं काजरे; पंचना समवाये ठे कार्यनी-
 सिद्धिनुं साम्राज्यरे. वीर० ॥ ८ ॥ माध्यस्थभावे
 वर्तो लोको, करशो धार्मिककर्मरे; सुणशो वांचशो
 जोशो चिंतशो, दिलमां प्रगटशे शर्मरे. वीर० ॥ ९ ॥
 सर्वबाजुथी सत्य तपासो, करो मध्यस्थे काजरे;
 दर्शन ज्ञान चरणनी प्राप्ति, प्रगटे शिव साम्राज्यरे.
 वीर० ॥ १० ॥ मध्यस्थभावे वीरप्रभुने, पूजो ध्यावो
 हमेशेरे; बुद्धिसागरशुद्धातमपद, पामो अक्ष

३०३

प्रदेशरे. वीर० ॥ ११ ॥ ॐ-माध्यस्थ जावलाभाय
ज० य० स्वाहा.

चोथी करुणाभावनापूजा.

दुहा.

चोथी करुणाभावना, सर्वधर्मनुं मूल; करुणा
वण समकित नहीं, सर्वधर्म अनुकूल. ॥ १ ॥ दया
धर्ममां सत्यने, दान शीयल तप भाव; सर्वे धर्म
समाय ठे, करुणामां सुखदाय. ॥ २ ॥ प्रभु महावीर
प्रकाशियो, दयाधर्म दिलभाव, भवोदधि तरवा
खरुं, करुणा उत्तमनाव. ॥ ३ ॥

(सांभळशो मुनि संयमरागे उपशम श्रेणि चढियारे. ए-राग.)

जिनवर महावीर जग जयकारी, तीर्थकर उप-
कारीरे, करुणाभावने उपदेश्यो शुभ, आदरशो
नरनारीरे. जिनवर० ॥१॥ द्रव्य करुणा सर्वजीवोनां,
दुःखो दूरे करवारे; सर्वजीवोना प्राणनुं रक्षण,
करवुं कर्म आचरवारे. जिनवर० ॥ २ ॥ यथाशक्ति
उपकारो करवा, रोगादिकने हरवारे; द्रव्यकरुणा
एवी पहेल्ली, भावी गुण अनुसरवारे. जिनवर० ॥३॥

३०३

भावकरुणा निज आतमपर, कर्मशत्रु संहरवारे;
 सर्वलोकने आतमज्ञाने, प्रतिबोधी उद्धरवारे. जिनवर०
 ॥ ४ ॥ जैनधर्म जगमां फेलावे, जावकरुणा
 थातीरे; निजपर आतमशुद्धिमाटे, जावदया प्रग-
 टातीरे. जिनवर० ॥ ५ ॥ सातनये करुणाने जाणी,
 कहेणी रहेणीए रहेवुंरे, शत्रु उपर पण करुणाबुद्धि,
 राखी दुःखने सहेवुंरे. जिनवर० ॥ ६ ॥ ज्ञानथकी
 करुणा घट प्रगटे, हिंसाबुद्धि विघटेरे; ज्यां करुणा
 त्यां प्रभु छे निकटे, आतम भवमां न चटकेरे.
 जिनवर० ॥ ७ ॥ नेमिप्रभुए परणवा जातां, मृगनी
 करुणा कीधीरे; वीरप्रभुए चंडकौशिकपर, करुणा
 कीधी प्रसिद्धिरे. जिनवर० ॥ ८ ॥ द्रव्यदयाथी जाव
 दया छे, अनंतगुणी हितकारीरे; जे जे भावे करवी
 घटे ते, जावे करशो विचारीरे. जिनवर० ॥ ९ ॥ दया
 विनानो धर्म नहीं छे, धर्म न हिंसा कर्मरे; रागने द्वेष
 विना निष्कामी, रहे आवश्यक धर्मरे. जिनवर० ॥ १० ॥
 अल्प दोषने धर्ममहालाज, दयाकर्म आचरवारे;
 स्वाधिकारे तरतमयोगे, कर्म विवेके करवारे. जिनवर०
 ॥ ११ ॥ जिनवरमहावीर श्रद्धाभक्ति, पामी करुणा
 करशोरे; बुद्धिसागरपरमब्रह्मने, शुद्ध बनीने वर-
 शोरे. जिनवर० ॥ १२ ॥

३०४

कलश गीत.

गाथा गायारे प्रभुमहावीर प्रेमे ध्याया ॥ चार
 चावनापुष्पथी पूज्या, वीरजिनेश्वर राया; आतम
 ते महावीरप्रभुजी, घटमां व्यक्त सुहायारे. प्रभु०
 ॥ १ ॥ चार चावना द्रव्यने भावे, चावंतां प्रभु पाया;
 आत्मसरीखुं जग सहु चास्युं, अनुभवरंग वधा-
 यारे. प्रभु० ॥ २ ॥ संवत् ओगणिश सत्योतरमां,
 साणंद रही चोमासुं; आश्विनवदिसातम रवि-
 वारे, पूजा रची सुख चास्युरे. प्रभु० ॥ ३ ॥ चार
 चावना भावता घटमां, आनंद अनुभव आयो;
 जिनवर महावीरदेवने चावे, भावना भावी वधायोरे.
 प्रभु० ॥ ४ ॥ महावीरपट्टपरंपरातपगच्छ, हीर-
 विजयसूरिराया; जगगुरुपदवी पास्या साची,
 अकबरशाहे वधाव्यारे. प्रभु० ॥ ५ ॥ वाचक सहज
 सागरगुरुपट्टनी, परंपराए आव्या; श्रीरविसागर
 गुरुमहंता, जगमां प्रसिद्धि पायारे. प्रभु० ॥ ६ ॥
 तस शिष्यवैयावच्चीशिरोमणि, चारित्रीशिर
 राजा; श्रीसुखसागर शांतसुधाकर, क्रियावंत शिर

३०५

ताजारे. प्रभु० ॥ ७ ॥ गुरुसुखसागरपूर्ण कृपार्थी,
 पूजा रची सुखकारी; भणे गुणे जे सांभळे ते सुख-
 पामो मंगल जारीरे. प्रभु० ॥ ८ ॥ आत्मोपयोगी
 जावना भावी, आतम शुद्धिकारी; बुद्धिसागर ऋद्धि
 वृद्धि, शांति लहो नरनारीरे. प्रभु० ॥ ९ ॥ ॐ
 करुणालाभाय ज० य० स्वाहा ॥

३०६

दानशीयलतपभावनी पूजा.

प्रथम दानपूजा.

जय जगमां महावीर जिन, सर्वविश्व आधार;
 परमब्रह्म तीर्थकरा, परमेश्वर जयकार. ॥१॥ केवल-
 ज्ञानी जिनपति, सुरनर पूजे पाय; वीतराग परमा-
 तमा, सेवतां सुख थाय. ॥ २ ॥ समवसरणमां
 बेसीने, सत्य जणाव्यो धर्म; दान शीयल तप भा-
 वनां, सत्य जणाव्यां मर्म. ॥ ३ ॥ दान शीयल तप
 ज्ञावथी, मुक्ति लहे नरनार; एमां शंसय नहि जरा,
 समजाव्युं निर्धार. ॥ ४ ॥ ते माटे पूजा रचुं, दान
 शीयलतपज्ञाव; द्रव्यभावथी पूजतां, प्रगटे गुण
 सद्रभाव. ॥ ५ ॥

प्रथम दानपूजा.

दान समो नहि धर्म जग, दान दियो नरनार;
 दानथी ज्ञात्रे त्याग ठे, दानथी जग उपकार. ॥ १ ॥
 दीक्षा ग्रहतां पूरवे, तीर्थकर दे दान; दानथी निश्चय
 मुक्तिपद, भाखे छे जगवान्. ॥ २ ॥ दान सुपात्रे

३०७

वापरो, धारी सत्य विवेक; दान विना नहीं सिद्धि
ठे, दाने समकितटेक. ॥ ३ ॥

(सांभळशो मुनि संयमरागे. ए राग.)

नमो नमो महावीर उपकारी, जगमांही जय-
कारी रे. दानस्वरूप प्रकाश्युं साचुं, द्रव्यभाव सुख-
कारी रे. नमो० ॥ १ ॥ अभय सुपात्र उचित अनु-
कंपा, कीर्ति पांच ए भाख्यांरे; यथायोग्य सेवे नर-
नारी, उत्तम फल तस दाख्यांरे. नमो० ॥ २ ॥ अन्न
वस्त्रने औषधदाने, परोपकार करातोरे; ज्ञानदान
सहुदानमां मोटुं, महिमा न वर्णव्यो जातोरे. नमो०
॥ ३ ॥ ज्ञावथी समकितदान अज्ञय ठे, चारित्रा-
दिक जाणोरे; जन्ममरणथी नूटे आतम, दान ते
भावप्रमाणोरे. नमो० ॥४॥ ममता टळतां दान ज
थातुं, अगियारमो प्राण आपेरे; सर्वप्राणार्पण ज्यां
दाने, त्यां प्रभु प्रगटी व्यापेरे. नमो० ॥ ४ ॥ राचे
माचे दान करीने, ते उत्तमपद पांमेरे; आतमगुण
आतमने आपे, ते ठरतो शिवठामेरे. नमो० ॥६॥
दानथकी गुण सर्वे प्रगटे, दुर्गुण दोषो टळतारे;
वैरीजन पण व्हाला थाता, वांछित मेळा मळतारे.
नमो० ॥ ७ ॥ सातनयेने चउनिक्षेपे, दानस्वरूप

३०८

विचारोरे; सर्वधर्ममां दान ठे पहेलुं, त्रिकयोगे ते
 धारोरे. नमो० ॥ ८ ॥ दानने देतां सर्वे दीधुं, धन
 धन जगमां दानीरे; दाने तीर्थकरपद बांधे, समजे
 धर्मी ज्ञानीरे. नमो० ॥ ९ ॥ संघचतुर्विध शासन
 भक्ति, दानने देतां थातीरे; देवगुरुने संतनी सेवा,
 तरतमयोगे सुहातीरे. नमो० ॥ १० ॥ अरस्परस
 उपकारकहितकर, दान समुं नहीं कोइरे; प्रभु
 महावीरदेवे प्रकाश्युं, आदरशो शुभ जोइरे. नमो०
 ॥ ११ ॥ द्रव्यने भावथी धर्मदानथी, दानीनी बलि-
 हारीरे; बुद्धिसागर दानने आपो, धर्मी नरने नारीरे.
 नमो० ॥ १२ ॥

ॐ ह्रीं श्री परमपुरुषाय, परमेश्वराय, जन्मजरा
 मृत्यु निवारणाय, श्रीमते जिनेन्द्राय, दानलाभाय
 जलं चंदनं पुष्पं धूपं दीपं अक्षतं नैवेद्यं फलं यजा-
 महे स्वाहा ॥

३०९

द्वितीया शीयल तपपूजा.

शीयलसम नहीं धर्म कोइ, सकलकर्महरनार.
 शीयल सागरसम भलुं, अन्यनदीसम धार. ॥१॥
 शीयल पाळे पाळ्युं सहु, पाळ्या व्रत आचार, शीय-
 लवंताने नमो, पूजो नरने नार. ॥ २ ॥ शीयलव्र-
 तथी मुक्ति छे, स्वर्ग तो सहेजे होय; दुष्ट उपद्रव
 झट टळे, नडे न निजने कोय ॥ ३ ॥

(श्री त्रिनभापित वचन विचारीए-ए राग.)

आत्मप्रभुमहावीरने पूजीए, ध्याइ जे बहु
 ज्ञाव-भविकजन; प्रभु गुण लेतां प्रभुसम शोभिए,
 लक्ष्य न चूको एह दाव. भविकजन!!! शीयलने
 पाळो साचो भावथी. ॥ १ ॥ सीतादिकसतीयो
 संभारीए, ध्याइए तीर्थकर आदि, भविक० ॥ शेठ सुद-
 र्शन जंबुने स्मरो, कामनी वारोरो व्याधि. भविकजन!!!
 शीयल० ॥ १ ॥ धन्य धन्य स्थूलीजद्र महंत जे,
 शीयलधारीमांही श्रेष्ठ, जविकजन!! ॥ कामना घरमां
 पेसी कामने, पाड्यो पटकीरे हेठ. जविकजन!!
 शीयल० ॥३॥ विजयने विजयाने धन्य धन्य छे, टाळ्युं
 कामनुं मूल; भविक० ॥ शीयलवंतां नरने नारीओ,
 टाळो कामनुं शूल. जविकजन!!! शीयल० ॥४॥ शीय-

३१०

लधारी जनने पूजीए, वंदीए करीने संग; भविकजन !;
 संगे रंग प्रगटतो दिलविषे, प्रभुवचने दृढरंग.
 भविकजन !! शीयल० ॥५॥ सातनयोने चउनिक्षेपथी,
 जाणी शीयलनुं रूप; ऋविकजन!!; द्रव्यभावथी सेवे
 शिव मळे, नासे भवभय धूप. ऋविकजन !! शीयल०
 ॥ ६ ॥ द्रव्य ते भावनुं कारण जाणवुं, कारणे कार्यनी
 सिद्धि; ऋविक० ॥ कायिक वीर्यनी रक्षा धारतां, प्रगटे
 बाह्यनी ऋद्धि. ऋविकजन !! शीयल० ॥७॥ पतिव्रता
 पत्नी व्रत शीयल छे, गृही आश्रमहितकार; भविकजन!!
 द्रव्यभावथी शीयल छे त्यागीने, दुर्गुणनो परिहार.
 भविकजन !! शीयल० ॥८॥ सद्वर्तन चारित्र ते शीयल
 छे, उत्तमगुणना आचार; भविकजन !! दोष व्यसनदुर्गु-
 णना त्यागथी, शीयल छे सुखकार. भविकजन !!
 शीयल० ॥९॥ द्रव्यने चावशीयल पूजावडे, पूजा महा-
 वीर देव; भविकजन !! आत्ममहावीर प्रगटे आत्ममां,
 निजगुणपर्यायसेव. भविकजन !! शीयल० ॥ १० ॥
 आत्म शुद्ध उपयोगे वर्तीए, भावशीयल छे ए बेश.
 ऋविकजन ! बुद्धिसागरपरमानंदनी, प्राप्ति होय हमेश.
 भविक० शीयल० ॥ ११ ॥ ॐ शीयललाजाय जलं०
 य० स्वाहा ॥

३११

तृतीया तपपूजा.

तप पूजो भवी ज्ञावथी, सेवो ध्यावो बेश; तपथी प्रगटे सिद्धियो, नासे सघळा क्लेश. ॥ १ ॥
अनेकजातनां तप भलां, द्रव्यज्ञाव व्यवहार; कार्य-
सिद्धिपुरुषार्थता, दुःखसहनतपसार. ॥ २ ॥ तन-
मनधनना भोगथी, करतां शुभपुरुषार्थ; संकट
दुःखोने सहे, तप प्रगटे परमार्थ. ॥ ३ ॥

(ओधवजी संदेशो कहेजो श्यामने. ए राग)

द्रव्यज्ञावथी तप तपशो नरनारीओ, कार्यनी
सिद्धि तप वण कोइ न होय जो; मोहपरिणति
रोधक निश्चयतप भलुं, कर्तव्यो करतां सहेजे तप
जोयजो. द्रव्य० ॥ १ ॥ बाहिर तप षड्भेदे सुखकर
ठे सदा, जव्यजीवो तेनो धरता व्यवहारजो; अभ्यं-
तर तप षड्भेदे छे निर्मलुं, शुद्धातम कारक ते ठे
सुखकारजो. द्रव्य० ॥ २ ॥ देवगुरुने संघनी सेवा
भक्तिमां, सर्व समर्पण करवुं तप ए बेशजो; निष्का-
मे निज अधिकारे फजो अदा,—करतां तप ते पडता
सहेवा क्लेशजो. द्रव्य० ॥ ३ ॥ प्राण परे पण धर्म
कर्म नहीं मूकवां, निर्जय निश्चल भावे रहेवुं चि-
त्तजो; सर्वशुजाशुजज्ञावविषेसमभावना, धरवी

३१२

तप ए जाणो श्रेष्ठ पवित्रजो. द्रव्य० ॥ ४ ॥ दुर्गुण
 दोषने सर्व व्यसनने टाळवां, उपकारी कर्मो करवां
 सही दुःख जो; लाभालाभमां मान अने अपमा-
 नमां, समताए रहीए ने सहीए भूखजो. द्रव्य०
 ॥ ५ ॥ रोगी आदि जीवोनां दुःख टाळवा, तनमन
 धनशक्तियो देवो भोगजो; परमार्थो करवामां
 स्वार्थो होमवा, एवो साचो दुष्करतपनो योगजो.
 द्रव्य० ॥ ६ ॥ फलनी इच्छा राख्या वण परमार्थनां
 करवां कृत्यो त्यागी जयने द्वेषजो, खेद विना शुच
 धर्मप्रवृत्ति धारीए, साध्योपयोगे मुक्तियो उद्दे-
 शजो. द्रव्य० ॥ ७ ॥ नामरूपमां निर्मोही बनी
 वर्तवुं, सर्वशुजाशुच इच्छानो करी रोधजो; अर्पाइ
 जावुं गुरु आदिभक्तिमां, योग्यजनोने देवो घटतो
 बोधजो. द्रव्य० ॥ ८ ॥ प्रायश्चित्तने विनये वैया-
 वृत्यथी, स्वाध्याय ध्यानथी प्रकटे आतमशुद्धिजो;
 देहादिकमां निर्मोही थै वर्ततां, प्रगटे आतमनी
 नवहायिकलब्धिजो. द्रव्य० ॥ ९ ॥ मनवाणीने
 कायाथी तपयोग ठे, तपथी शुद्ध करो आचार
 विचारजो; बुद्धिसागरप्रभुमहावीरदेवनो, जाख्यो
 तप एवो छे जगसुखकारजो. द्रव्य० ॥ १० ॥

ॐ तपोलाभाय जलं यं स्वाहा ॥

३१३

चौथी भावपूजा.

भावथकी कृणवारमां, प्रगटे केवलज्ञान;
क्षणमां जावथी मुक्ति ठे, वीर कये जगवान् ॥ १ ॥
वीरो शाळवी भाव वण, पाम्पो कायाक्लेश; भाव
रुचिरसप्रेमथी. विघटे रागने द्वेष. ॥ २ ॥ जाव
विना किरिया सकल, निष्फलता देनार; हर्षोल्लासे
जावना, भावो नरने नार. ॥ ६ ॥

(जीरण शेट भावना भावेरे. महावीरप्रभु घेर आवे-ए राग.)

महावीर प्रभु जयकारी, जावे उपदेशे सुख-
कारी; जावथी सर्वसिद्धि थनारी, जाव दिलमां
धरो नरनारीरे; जावनी जगमां बलिहारी, भाव
अमृत आनंदकारीरे. जाव० ॥ १ ॥

चक्री भरते जावना जावी, क्षणमां घातिकर्म
हठावी; थै केवली मुक्तिने पावी, जाव त्किनी छे
चावीरे. जाव० ॥ १ ॥ जावे भावना जावतां ज्ञानी,
थया आषाढामुनि ध्यानी; थया क्षणमां केवल-
ज्ञानी, रही खप नहीं बीजा कशानीरे. भाव० ॥ २ ॥
वांस उपर नाटक करता, इलापुत्रजी ध्यान धरंता;
भावथी श्रेणिए संचरंता, एकक्षणमां केवल वरतारे.
भाव० ॥ ३ ॥ प्रभुमहावीर पारणुं आवे, जीरण

४०

३१४

शेठ भावना भावे; पूरणघेर दानने पावे, जीरण
 शेठ स्वर्ग सिधावेरे. जाव० ॥ ४ ॥ भावथी धर्म
 कोइ न मोटो, भावरसवण सर्वमां तोटो; थाय
 व्रततपमांही गोटो, भाववण आडंबर खोटोरे.
 भाव० ॥ ५ ॥ भाव आनंद रस रुचि प्रीति, जेमां
 द्वेष नहीं खेद जीति; हर्षोल्लासनी उत्तमरीति,
 उज्वलपरिणाम प्रवृत्तिरे. जाव० ॥ ६ ॥ भाववण
 कोइ मुक्ति न पामे, भाववण नहीं शक्तिथी ज्ञामे; कोइ
 किरीया न आवे कामे, भाववण वळतुं नहि दामेरे.
 भाव० ॥ ७ ॥ जाव चढतीरसनी धारा, सेवा भक्तिथी
 सुखकारा; वहे आनंद अपरंपारा, रसवेधकसिद्धि
 उदारारे. जाव० ॥ ८ ॥ श्रद्धा प्रीतिवडे जाव आवे,
 शुष्कज्ञानीने जरु शुं? पावे; सत्य आनंदरस उप-
 जावे, तेनी घेन खुमारी न जावेरे. जाव० ॥ ९ ॥
 जेथी जाव वधे ते करशो, एवुं सांभळी व्रत आच-
 रशो; जावरस ज्यां त्यां मन धरशो, तेथी आतम
 जीवन वरशोरे. भाव० ॥ १० ॥ शुद्धभाव आनंद
 रस व्यापे, क्षणमां मुक्तिरस छापे; कर्म अनंत
 भवनां कापे, बुद्धिसागरआनंद आपेरे. भाव०
 ॥ ११ ॥ ॐ जावलाभाय जलं० य० स्वाहा ॥

३१५

गीतकवचश.

राग. धन्याश्री.

गायो गायोरे महावीरजिनेश्वर गायो ॥ दान
 शीयलतपभावपूजाए, अतिशय आनंद पायो;
 द्रव्यपूजाने भावपूजानो, ए अधिकार रचा-
 योरे. महावीर० ॥ १ ॥ द्रव्यपूजाने भाव
 पूजानो, गृहस्थ छे अधिकारी; भावपूजाना अधि-
 कारी मुनि, शुद्धात्म सुखकारीरे. महावीर० ॥ २ ॥
 दानशीयलतपभावना योगे, मुक्ति लहे नरनारी;
 सर्वस्वाधारण धर्म ठे जगमां, सर्वजीवहितकारी रे.
 महावीर० ॥ ३ ॥ एकदिवसमां पूजा रची शुभ;
 सर्वभवी उपकारी; आश्विनवदि आठम सोम-
 वारे, वर्ते जग जषकारी रे. महावीर० ॥४॥ ओग-
 णिशसत्तोत्तरमां साणंद, चोमासुं कर्तुं जावे;
 संघनी भक्तिए उपदेशे, रहेतां आनंददावेरे.
 महावीर० ॥ ५ ॥ प्रभुमहावीरपट्टपरंपरा, तपग-
 च्छसंघना राजा; जगगुरुहीरविजयसूरि शोत्ते,
 सर्वगच्छ शिरताआरे. महावीर० ॥ ६ ॥ तपगच्छ
 सागरपट्टपरंपरा, रविसम पूर्णप्रतापी; रविसागर
 गुरु प्रेमे प्रणसुं, जगमां कीर्ति व्यापीरे. महावीर०

३१६

॥ ७ ॥ तश शिष्य चारित्रीशिरशेखर, सुखसागर
 गुरु धीरा; शांतने दांत महंत मुनीश्वर, सर्वमुनिमां
 वीरारे. महावीर० ॥ ८ ॥ गुरुसुखसागरपूर्णकृपा-
 र्थी, आत्मामृतरस पीधो; बुद्धिसागर आनंदमंगल,
 पामी पूर्ण प्रसिद्धारे. महावीर० ॥ ९ ॥

३१७

अष्टागयोगनीपूजा.

प्रणमुं तीर्थंकरविभु, चोवीशमाजिनराज;
 परमेश्वरमहावीरदेव, योगेश्वरसम्राट्. ॥१॥ योगनां
 अंगो आठ ठे, तेह प्रकाश्यां बेश; समवस-
 रणमां बेसीने, दीधो शुभ उपदेश. ॥ २ ॥ हठनां
 अंगो चार छे, राजनां अंगो चार; निश्चय ने व्यवहा-
 रथी, समजी ग्रहो नरनार. ॥ ३ ॥ दर्शनज्ञानने
 चरणमां, अंगो आठ समाय; पंचाचारने समितिमां,
 गुप्तिमांही सुहाय. ॥ ४ ॥ स्याद्वादी समकितीने—,
 सम्यक्पणे प्रणमाय; साधननी उपयोगिता, स्वाधि-
 कारे जणाय. ॥ ५ ॥ त्यागी गृहस्थने योगनुं, आरा-
 धन सुखकार; असंख्ययोग वीरे कह्या, मुक्तिहेतु
 निर्धार. ॥ ६ ॥ ज्ञानीगुरुगमने लही, जैनशास्त्र
 अनुसार; योगाष्टक पूजा रचुं, स्वर्गने शिवदातार.॥७॥

प्रथम यमयोगपूजा.

अहिंसा सत्य यम कथ्या, अस्तेय छे जयकार;
 ब्रह्मचर्य संतोषने, आदरतां शिवसार. ॥ १ ॥ पाप
 कर्मने रोधतो, यम ते संवर जाण; आदरतां आस्त्रव

३१८

टळे, प्रगटै अनुजवज्ञान. ॥ १ ॥ सर्वयोगनुं मूल छे,
सर्वयोग आधार; प्रथम पगथियुं मुक्तिनुं, पाळो
नरने नार. ॥ ३ ॥

(देखो गति दैवनीरे. ए राग.)

प्रणमो पूजो वीरनेरे, जेने जणाव्यो योग; पंच
महाव्रतयमथकीरे, नासे कर्मनो रोग. भवी यम
आदरोरे; टाळी दुःखकर जोग. जवी यम आदरोरे.
॥ १ ॥ हिंसा दुःखनी वेलडीरे, अहिंसा सुखखाण;
वैर विरोध रहे नहींरे, मुक्तिनुं छे प्रमाण. जवी०
॥ २ ॥ सत्य समो नही धर्म छे रे, सत्य जगत् आ-
धार; सत्यथी धर्मो प्रगटतारे, सत्य ग्रहो धरी प्यार.
भवी० ॥ ३ ॥ सर्वप्रकारनी चोरीथीरे, विरमे
शांति सुहाय; चोरी करतां प्राणियारे, सुख शांति
नहि पाय. भवी० ॥ ४ ॥ द्रव्यथी मैथुन त्यागीएरे,
नववाको धरी बेश; आधि व्याधि उपाधिनेरे, नासे
रोगने क्लेश. जवी० ॥ ५ ॥ जावथकी ब्रह्मचर्य
छेरे, मोहपरिणतित्याग; शुद्धब्रह्ममां म्हालबुंरे,
सर्वयागशिरयाग. जवी० ॥ ६ ॥ मूर्च्छापरिग्रह
त्यागथीरे, मनचंचलता जाय; द्रव्यपरिग्रह पण
टळेरे, आत्मानुभव थाय. भवी० ॥ ७ ॥ भोगोप-

३१९

ज्ञोगथी विरमतांरे, पापकर्मनो अंत; यमत्रडे प्रभु
पूजीनेरे, मुक्तिवर्या बहुसंत. भवी० ॥ ७ ॥ देहनी
शुद्धि यमथकीरे, मनवचकायनी शुद्धि; बुद्धिसा-
गर आत्मनीरे, प्रगटे चिदानंदऋद्धि. भवी० ॥ ९ ॥

ॐ० प० यमयोगलाभाय जलं० य० स्वाहा ॥

द्वितीया नियमपूजा.

बीजी नियमनी पूजना, करतां दुःखनो नाश;
मन इन्द्रिय वशमां रहे, नियम ते जाणो खास.
॥ १ ॥ जे जे उपाये मन तनु, आतमवश वर्ताय;
नियम ते जाणो सही, पाळंतां सुख थाय. ॥ २ ॥
नियमयोगने आदरी, पाम्या मुक्ति अनंत; नियम
सिद्धि ठे यमथकी, भाखे वीर नदंत. ॥ ३ ॥

(सुत सिद्धारथ भूपनोरे, सिद्धारथ भगवान्—ए राग.)

शुभनियम बहुजातनारे, द्रव्यने भावथी
जाण; मोहपशुबळ झट टळेरे, आदरतां गुण खा-
णरे, नियमने पाळशो, टाळी विषयकषायरे, दोषो
टाळशो. ॥ १ ॥ बाह्याभ्यंतरतप तपेरे, षड् आव-

३२०

इयककर्म, सहजकर्मसदोषीनेरे, करतो साधे ध-
 र्मरे. नियम० ॥ २ ॥ घोर अभिग्रह धारतोरे, गुर्वा-
 दिकनीरे भक्ति, परोपकारी कार्यमारे, फोरवतो निज
 शक्तिरे. नियम० ॥३॥ देवगुरुने साधुनारे, दर्शननी
 शुभ टेक; आवश्यक सहु फर्जनेरे, धारे धरीने विवेकरे.
 नियम० ॥ ४ ॥ सकल साधन नियमनारे, द्रव्यने
 जावथी जेह, साध्योपयोगे धारतोरे, देह ठतां वैदे
 हरे. नियम० ॥ ५ ॥ द्रव्यभावथी शौचनेरे, धारे
 मनसंतोष; निन्दादिकदुर्गुण त्यजेरे, धरी गुण
 दृष्टिपोषरे. नियम० ॥ ६ ॥ धर्मकर्म करवां घटेरे,
 ते ते करतोरे सर्व; दुष्ट जे कामनी वासनारे, टाळे
 प्रगट्यो गर्वरे. नियम० ॥ ७ ॥ सूरिवाचकमुनि
 सेवतारे, करतो हर्षोद्धास; जिनप्रतिमा अवलंब-
 तोरे, प्रभुवचने विश्वासरे. नियम० ॥ ८ ॥ सम-
 कितवण हठयोगथीरे, पामे नहि कोइ मुक्ति;
 सम्यग्ज्ञाने नियमनीरे, पाळे जे शुचरीतिरे.
 नियम० ॥९॥ हठयोगी अज्ञानथीरे, निष्कामी नहीं
 थाय; सम्यग्ज्ञानी नियमनेरे, पाळंतो शिव जा-
 यरे. नियम० ॥ १० ॥ द्रव्यक्षेत्रने जावथीरे,
 सातनयोथीरे जेह; जाणी नियमने आदरेरे, सिद्ध

३२१

बने छे तेहरे. नियम० ॥ ११ ॥ पाळो नियमना
योगनेरे, जेथी आस्रव जाय; बुद्धिसागरआतमारे,
परमेश्वरपद पायरे. नियम० ॥१२॥ ॐ० प० नियम
योगलाजाय जलं० य० स्वाहा ॥

तृतीया आसनयोगपूजा.

आसनथी आरोग्यता, देहनी पुष्टि थाय; रो-
गादिक दूरे टळे, देहथी धर्म सधाय. ॥ १ ॥ ते
माटे आसन घणां, जेने घटे जे तेह; करतां देहनुं
बळ वधे, निमित्तसाधन एह. ॥ २ ॥ आसनजय
करीने जनो, सेवाभक्तियोग; साधे पंचाचारने,
टाळे कर्मना रोग. ॥ ३ ॥

(इडर आंवा आंबलीरे. ए राग.)

आसनजयथी योगनीरे, भूमिशुद्धि थाय;
देह आरोग्यता संपजेरे, वायुरोगो जायरे; भविजन !!!
आसनजयने साध्य, तेवडे प्रभु आराध्यरे. जवि०
॥ १ ॥ गोदुहिकासनथी प्रभुरे, वीरजिने कर्तुं ध्यान;

४१

३२२

पर्यकासन बेसीनेरे, वीर लह्या निर्वाणरे. भवि०
 ॥ २ ॥ काउसग्गना आसनेरे, कीधां अनेके ध्यान;
 पद्मासनथी साधुओरे, लह्या घणा निर्वाणरे. जवि० ॥ ३ ॥
 योगवहन देववंदनेरे, आसननो उपयोग; प्रतिक्र-
 मणने मंत्रनीरे, साधनामांहि योग्यरे. जवि० ॥ ४ ॥
 कायिकआसन जय करेरे, वायुरोगो जाय; अनेक
 रोगो न उपजेरे, धर्मसाधनमां सहायरे. भवि०
 ॥ ५ ॥ भावथी आसन जाणवुंरे, आतमस्थिर
 परीणाम; आशावण मन ध्येयमांरे, वर्ततां स्थिर
 धामरे. भवि० ॥ ६ ॥ मननी चंचलता मटेरे, ठरी
 रहे स्थिरठाम, भाव आसन ते जाणवुंरे, निश्चरु-
 ता निष्कामरे. भवि० ॥ ७ ॥ पद्मासन वेग प्रभुरे,
 वंदो पूजो जव्य; बुद्धिसागरयोगनुंरे, साधो झट
 कर्तव्यरे. भवि० ॥ ८ ॥ ॐ० प० आसनयोगलाजाय
 जलं० य० स्वाहा.

३२३

चतुर्थी प्राणायामपूजा.

प्राणायामथी प्राणनी, मनतनुशुद्धि थाय;
 अष्टधा प्राणायामना, भेद कह्या गुणदाय. ॥ १ ॥
 जैनशास्त्रमां चाखिया, ते रीते नरनार; प्राणायामने
 सार्धने, मनोजयने वरनार. ॥ २ ॥ द्रव्यज्ञावथी
 जाणतां, करतां प्राणायाम; सहजयोगनी पुष्टिनुं,
 साधन ठे परिणाम. ॥ ३ ॥

(छुंखडानी देशी.)

प्राणायामनी साधनारे, करशो नरने नार; प्रभु
 पद पूजीए. ॥ रेचकपूरक कुंभकेरे, प्राणनी शुद्धि
 थनार. प्रभु पद पूजीए, पूजीए जिनवर पूजीएरे,
 आनंद प्रगटे अपार. प्रभुपद० ॥१॥ प्राणायामना
 ज्ञानधीरे, शुच अशुभ जणाय, प्रभु० ॥ इडा पिं-
 गला नाडीयोरे, सुषमणा बोध थाय. प्रभु० ॥ २ ॥
 अष्टधाप्राणायामथी रे, टळता रोगअनेक, प्रभु० ॥
 वायु अने पित्तकफतणारे, टळता महाउद्रेक.
 प्रभु० ॥ ३ ॥ प्राणायामना जयथकी रे, प्रगटे
 बाहिर सिद्धि; प्रभु० ॥ वीर्यादिकरक्षण थतुरे; आयु-
 ष्य बलनी ऋद्धि. प्रभु० ॥ ४ ॥ मनतनुवाणी
 शक्तियोरे, विकसे सात्त्विकबुद्धि, प्रभु० ॥ बाह्यशक्ति

१२४

कारणपणैरे, आत्मशक्तिनी वृद्धि. प्रभु० ॥ ५ ॥
 ज्ञाव प्राणायामसाधनारे, सम्यग् ज्ञानीने होय, प्रभु०॥
 दुष्टसंकल्प विकल्पनारे; रेच करे सुख जोय. प्रभु०
 ॥ ६ ॥ धर्म शुक्लध्याने पूरतारे, पूरक प्राणायाम,
 प्रभु० ॥ शुद्धस्वभावे स्थिरतारे. कुंभकना परीणाम.
 प्रभु० ॥ ७ ॥ अशुद्धनुं रेचन करेरे, शुद्धपूरण
 पुरुषार्थ, प्रभु० ॥ निज गुणथी पूरण थवुरे, पूरकनुं पर-
 मार्थ. प्रभु० ॥ ८ ॥ अष्टकर्मने आत्मथीरे, कर्षवां
 रेचक भाव, प्रभु० ॥ उपशम क्षयोपशम क्षयेरे, पूरावुं
 पूरक दाव. प्रभु० ॥ ९ ॥ क्षायिकभावे आत्ममारे,
 स्थिरता रमणता जेह, प्रभु०॥ कुंभकभावथी जाणी-
 नेरे, आदरशो धरी स्नेह. प्रभु० ॥ १० ॥ भावप्रा-
 णायाम योगथीरे, क्षणमां केवल सिद्धि, प्रभु०॥ द्रव्य-
 थकी ज्ञाव जाणवारे, अनंतगुणप्रद ऋद्धि. प्रभु०
 ॥ ११ ॥ द्रव्य ते ज्ञावनो हेतुछेरे, कारणे कारज
 थाय, प्रभु० ॥ बुद्धिसागरआत्मनीरे, शुद्धता हेते
 उपाय. प्रभु० ॥ १२ ॥ ॐ० प० प्राणायामयोगला-
 भाय जलं० य० स्वाहा ॥

३२५

पंचमौ प्रत्याहारयोगपूजा.

बाहिर जाती वृत्तियो, रोधवी प्रत्याहार; अना-
सक्ति, विषयोविषे, रागरीसपरिहार. ॥ १ ॥
त्रेवीशविषयोमां थतो, रागरीसपरिणाम; तेथी
विमुख थवुं जलुं, निर्विषयी मन ठाम. ॥ २ ॥
सकलशुभाशुजवृत्तियो, रोकवी प्रत्याहार; धारी
समकितीजनो, पामे भवोदधिपार. ॥ ३ ॥

(तेजे तरणीथी वडोरे, ए राग.)

जिनवरमहावीर पूजीएरे, वंदीए धरी भाव.
प्रत्याहार प्रकाशियोरे, जेथी वधे गुणदावहो.
जविका !! प्रत्याहारने धारशोरे, मननी मलानिता
टाळशोरे. शुद्ध थशो नरनार. ॥ १ ॥ मोहनी
वृत्तियो बाह्यमांरे, जातां रोकवी योग; बाहिरवृत्ति
जीवमांरे, पामे शोकने रोगहो. ॥ भविका० ॥ २ ॥
बाह्यपरिणतिवृत्तिएरे, गुणश्रेणि न चढाय; अंत-
रंगपरिणामथीरे, क्षायिकगुणमां जवाय हो. भविका०
॥ ३ ॥ उत्तरोत्तरउज्ज्वलपणेरे, ज्ञानादिकपरि-
णाम; उत्तरोत्तर गुणस्थानकोरे, पामे मन विश्राम
हो. भविका० ॥ ४ ॥ शुभ अशुजता नहीं रहेरे,
दृश्य अदृश्य मझार; प्रत्याहारनी सिद्धतारे, निज-

३२६

गुण निजमां धार हो. भविका० ॥ ५ ॥ दुर्गुण दोषो
 सहु टळेरे, नासे व्यसनो दुष्ट; प्रत्याहारनी सिद्धि-
 एरे, आतम निर्मल पुष्ट हो. भविका० ॥ ६ ॥ रात्री
 दिवस क्षणक्षणविषेरे, करतां धर्माचार; मन
 वाणी कायप्रवृत्तिमांरे, धरशो प्रत्याहार हो. भविका०
 ॥ ७ ॥ सम्यग्ज्ञानीने सहजथीरे, थातो प्रत्या-
 हार; योगपणे घट परिणमेरे, प्रारब्धनो व्यवहार
 हो. भविका० ॥ ८ ॥ सम्यग्ज्ञानोपयोगथीरे, सुख
 दुःखमां समचाव; निजगुण निजमां खेंचतोरे, एवो
 आविर्भाव हो. भविका० ॥ ९ ॥ प्रत्याहारे जे परि-
 णमेरे, ग्रहे न छंडे जेह; बुद्धिसागर आत्मनीरे, पूर्णता
 पामे तेह हो. भविका० ॥ १० ॥ ॐ० प० प्रत्याहार
 योगलाभाय जलं० य० स्वाहा ॥

छट्टी धारणायोगपूजा.

दुहा.

अरिहंत महावीरधारणा, धारो नरने नार;
 शब्दथी अर्थनी धारणा, धरतां शक्ति अपार. ॥ १ ॥
 श्रद्धा प्रेमथी धारणा, धरता जे निष्काम; शुद्धि करी

३२७

निज हृदयनी, पामे शिवपुर ठाम ॥२॥ नवपदनी
दिल धारणा, धरतां केवलज्ञान; बाद्यांतरत्राटक
जळे, धारणामां गुणखाण. ॥ ३ ॥

(सनेही संत ए गिरि सेवो. ए राग.)

द्रव्यज्ञावधी धारणा धरीए, प्रभु महावीर
दिलमां स्मरीए; अन्यपरिणतिने परिहरिए, निज
आतम शुद्धता करीए; प्रभु महावीरने दिल धरीए,
एवी धारणाए प्रभु वरीएरे. प्रभु० ॥ १ ॥ प्रभु
ध्येयनी धारणा धारो, षट्चक्रोमां निर्धारो; प्रभु
धारणामां मन वाळो, तेथी घटमां थतो उजियारोरे.
प्रभु० ॥ २ ॥ बाह्यच्यांतरत्राटक करीए, दुर्व्या-
नने झट परिहरीए; उपयोगे रहीए फरीए, प्रभुमय
थै प्रभुने वरीएरे. प्रभु० ॥ ३ ॥ प्रभुमहावीरमां मन
राखो, मुखे महावीर नामने जाखो; मोह शत्रुने मारी
नाखो, आतमआनंदरस चाखोरे. प्रभु० ॥ ४ ॥
प्रभु महावीरमय थै जाशो, बीजुं सघळुं भूली जाशो;
सिद्धियोमां नहीं लोभाशो, सत्यधर्म कमाणी
कमाशोरे. प्रभु० ॥ ५ ॥ खातां पीतां हरतां फरतां,
उपयोगे कर्मो करतां; प्रभुनी घट धारणा धरतां,
नरनारी संगम वरतांरे. प्रभु० ॥ ६ ॥ पहेळी साकार

३२८

धारणा आवे, पत्नी निराकारे सुहावे; प्रभु नवधा
 भक्तिप्रभावे, ज्ञक्त योगी शिवपद पावेरे. प्रभु० ॥७॥
 सर्व जापो धारणामाटे, वळो वहेला शिवपुरवाटे;
 मुक्ति मळे छे शिरनेसाटे, मळे धारणा ज्ञानीना
 हाटेरे. प्रभु० ॥ ८ ॥ मनथी मोह दूर हठावो, शुद्ध
 आतन महावीर भावो; धारणाए वीर वधावो, भाव
 अनहदतान वजावोरे. प्रभु० ॥ ९ ॥ गुणस्थानक
 चढवा निसरणी, धारणा भवसागरतरणी; बुद्धि-
 सागर अमृतसरणी, धरो मनमां धारणकरणीरे. ॥
 प्रभु० ॥१०॥ ॐ प० धारणायोगलाभाय. जलं० य०
 स्वाहा ॥

सप्तमी ध्यानयोगपूजा.

धर्मध्यानने शुक्लथी, मुक्ति सहेजे थाय; निरा-
 कार साकार बे, ध्यानथी कर्म जाय. ॥ १ ॥ अरि-
 हंतआदिध्येयमां, मनएकाग्रप्रधान; थातां क्षा-
 यिकभावथी, प्रगटे केवलज्ञान. ॥ २ ॥ चार
 प्रकारे ध्यान छे, आत्मशुद्धि करनार; ध्यानथी प्रभु-
 मय थै जतां, प्रगटे प्रभु निर्धार. ॥ ३ ॥

३२९

(सांभळशो मुनि संयम रागे उपशम त्रेणि चट्टिवारे. ए राग.)

धन्य महावीर जिन जयकारी, जगमांही उप-
कारीरे; ध्यान धरीने केवल पामी, मुक्तिवर्या सुख-
कारीरे. धन्य० ॥ १ ॥ सर्वप्रकारनां ध्यान प्रकाश्यां,
उपदेश्यां नरनारीरे; आर्त रौद्रने धर्म शुकल चउ,
समजो गुरुगम धारीरे. धन्य० ॥ २ ॥ पिरुस्थने
पदस्थने ध्यावो, रूपस्थथी लय लावोरे; रूपातीतना
ध्याने केवल.—ज्ञानने क्षणमां पावोरे. धन्य० ॥ ३ ॥
ध्येयमां अंतर्मुहूर्त ध्यान ज, थातां जीवन्मुक्तिरे;
आत्मानंदरसोदधि प्रगटे, विषयोमां न आसक्तिरे.
धन्य० ॥ ४ ॥ अंतर्मुहूर्तध्यानप्रतीते, आत्म
समाधि प्रगटेरे; खातां पीनां कार्य करंतां, शुद्ध
स्वरूप न विघटेरे. धन्य० ॥ ५ ॥ श्रुतज्ञानी ध्याने
अधिकारी, आत्मार्थी अविकारीरे; आत्मरंगी
ध्यानी संगी, निःसंगी नरनारीरे. धन्य० ॥ ६ ॥
गुरुकुलवासी गुरुना भक्तो, सर्वस्वार्पणकारीरं;
लोकादिसंज्ञापरिहारी, ध्यानी बने गुणधारीरे.
धन्य० ॥ ७ ॥ धर्म शुकल वे भावना भावो, अशुच
ध्यान हठावोरे; शुद्धात्म उपयोग जमावो, परमात्म
प्रगटावोरे. धन्य० ॥ ८ ॥ अशुचध्यानठाण त्रेसठ
वारो, शुद्धस्वरूप विचारोरे; मानवभवनी क्षण

३३०

नहि द्वारो, आत्मगुणने सुधारोरे. धन्य० ॥ ९ ॥
 साकारध्याननिराकारध्यान बे, अनुक्रमथी भवी
 ध्यावोरे; बुद्धिसागर आत्मशुद्धि, करवा लगनी
 लगावोरे. धन्य० ॥ १० ॥ ॐ० प० ध्यानयोगलाभाय
 जल० य० स्वाहा ॥

अष्टमी समाधियोगपूजा.

ध्यानतणा अभ्यासथी, प्रगटे आत्मसमाधि;
 रागद्वेषने कामनी, होय नहीं मन्त्रआधि ॥ १ ॥
 आत्मममां मन स्थिर थतां, शुद्धसमाधि थाय;
 मोहात्मकसंकल्पने. विकल्प उपशमी जाय ॥ २ ॥
 ज्ञानोपयोगेसहज छे, आत्मसमाधि व्यक्त. परमा-
 नंदरसस्वादथी, बाहिर नहि आसक्ति ॥ ३ ॥

(चौद लोकके पार कहावे ए राग-वा.

जिनपद जगमां जाचुं जाणो-ए राग.)

सहजसमाधियोगे महावीर, केवलज्ञानने पा-
 म्याजी. अप्रमत्तदशा प्रगटावी, घातीकर्मने
 वाम्या; जिनवर नमीएजी, त्यागी मोहस्वप्नाव,

३३१

निजगुण रमीएजी. ॥ १ ॥ उपशमने क्षय क्षयोप-
 शमथी, आत्मसमाधि प्रकाशेजी; मोहअभावे सहज
 समाधि, आत्मआनंद भासे. जिनवर० ॥ २ ॥
 ब्रह्मरन्ध्रमां प्राण चढंतां. हठसमाधि कथातीजी;
 तेनी किंमत कोडी सरखी, शुद्धोपयोगे जणाती.
 जिनवर० ॥ ३ ॥ द्रव्यसमाधि, ज्ञान विनानी, शाता
 वेदनी जोगेजी; जावसमाधि सहजानंदे, आत्मना
 उपयोगे. जिनवर० ॥ ४ ॥ द्रव्यसमाधिकर्मने
 करवां, भावसमाधि पामीजी; शुद्धोपयोग ठे
 सहजसमाधि, आत्मगुणविश्रामी. जिनवर०
 ॥ ५ ॥ शुभ उपयोग ठे द्रव्यसमाधि, शुभकषाय
 प्रणामेजी; शुभथी शुद्ध उपयोगमां रमतां, आत्म
 मुक्ति पामे. जिनवर० ॥ ६ ॥ यावत् रागने द्वेष
 विना मन, आत्म निजउपयोगीजी; तावत् शुद्ध
 समाधि वर्ते, आत्मआनंद जोगी. जिनवर० ॥७॥
 उदये आव्यां कर्मशुभाशुभ, ज्ञानी त्यां समजा-
 वीजी; आत्मनो उपयोग न चूके, देतो मोह ह-
 ठावी. जिनवर० ॥ ८ ॥ निर्विकल्पसमाधिमांही,
 मोहविचार न आवेजी; मोहविकल्पो प्रगटे त्यारे,
 सविकल्प कहावे. जिनवर० ॥ ९ ॥ शुद्धात्म महा-

३३३

वीर प्रभु एक, स्थिर उपयोगे प्रकाशेजी; एकता ली-
 नता समता प्रगटे, मोहनुं द्वैत प्रणाशे. जिनवरण
 ॥ १० ॥ मिथ्याज्ञानीने जे समाधि, मिथ्याभावे
 ते कहीएजी; नवमुक्तिमां समपरिणामे, केवल
 ज्ञानने लहीए. जिनवरण ॥ ११ ॥ कर्मयोगीने
 भक्तने ज्ञानी, शुद्धसमाधि पामेजी; असंख्ययोग
 थता अहीं जेळा, घातीकर्मविरामे. जिनवरण
 ॥ १२ ॥ ज्ञानानंदे शुद्धसमाधि, पामे केवल प्रग-
 टेजी; बुद्धिसागरआनंदमंगल, पामे माया विघटे.
 जिनवरण ॥ १३ ॥

कलश गीत. राम धन्याश्री.

गायो गायोरे महावीरजिनेश्वर गायो. ॥
 अष्टांगयोगनी पूजा रचीने, वीरजिनेश्वर ध्यायो;
 अष्टांगयोगना भावपूजनथी, आतमशुद्धि पायोरे.
 महावीरण ॥ १ ॥ सम्यग्ज्ञानीने आठे अंगो,
 प्रणमे सम्यग्जावे; मिथ्यात्वीने मिथ्यास्वरूपे,
 निजदृष्टिना स्वभावेरे. महावीरण ॥ २ ॥ जैना
 गमअनुसारे अंगो, हेमसूरिए प्रकाश्यां; ज्ञानी

३६३

गुरुगमथी ग्रहता ए, सम्यग्भावे विकास्यारे. महा-
 वीर० ॥ ३ ॥ देशथकी गृही छे अधिकारी, सर्वथकी
 मुनि त्यागी; गुरुगमथी अधिकार लहीने, थाशो
 योगना रागीरे. महावीर० ॥ ४ ॥ पाशवआसुरी
 बलने हणवा, योगांगो हितकारी; सत्ताए आतम
 परमातम, व्यक्त करे निर्धारिरे. महावीर० ॥ ४ ॥
 तिरोजावीय ज्ञानादिगुण, आविर्भावने माटे; योजे
 निजगुणमां ते योगो, धूर ठे तेमां आवेरे. महा-
 वीर० ॥ ६ ॥ आतम गुणने आतममां जे, योजे ते
 योग कहेवो; ज्ञानादि शक्तियो योग ज, सम्यग् अ-
 र्थने लेवोरे. महावीर० ॥ ७ ॥ अनंतज्ञानानंदनी
 प्राप्ति,—कारक योग ते जाणो; सातनयोथी योगने
 जाणी, निश्चय अनुभव आणेरे. महावीर० ॥ ८ ॥
 निमित्त उपादान वे जेदे, द्रव्यने जावथी जाणी;
 शुद्धातम प्रगटावो संतो, एवी वीरनी वाणीरे. महा-
 वीर० ॥ ९ ॥ म्हारेतो गुरुसेवापसाये, सम्यग् अ-
 नुभव आव्यो; नयनिक्षेपादिकथी तत्त्वो, जाणी
 स्याद्धाद जाव्योरे. महावीर० ॥ १० ॥ प्रभु महावीर
 पट्टपरंपरा, श्वेतांबरमुनिराया, तपगच्छजगगुरु
 हीरविजयसूरि, अकबरे पूज्या पायारे. महावीर०

३१४

॥ ११ ॥ तसपट्टसागरशाखापरंपरा, रविसागर
 गुरुराया; तस शिष्यसंतशिरोमणिगुरुवर, सुख
 सागर नमु पायारे. महावीर० ॥ १२ ॥ ओगणिश
 सत्तोत्तर आश्विननी, वदिदशमी बुधवारे; पूजा
 रचीने पूरण कीधी, लाजघटिका सवारेरे. महा-
 वीर० ॥ १३ ॥ संघनी श्रद्धाप्रीति जक्ति, आग्र-
 हथी चोमासुं; सानंद शहेरे कीधुं भावे, योगस्वरूप
 प्रकाश्युरे. महावीर० ॥ १४ ॥ योगनी पूजा भणे ने
 गणे ते, पामो उत्तमशक्ति; बुद्धिसागरसंघमां
 मंगल, प्रगटो ऋद्धि भक्तिरे. महावीर० ॥ १५ ॥

ॐ० प० समाधियोगलाभाय जलं० य० स्वाहा ॥

३३५

अथ नवधाक्रियाभक्तिपूजा.

परम प्रभु परमात्मा, चोवीशमा जिनराज;
 वर्धमान महावीर नमुं, विश्वपति शिरताज. ॥ १ ॥
 नवधाभक्ति पूजना, पूज्यनी करतां सार; पूजक
 पूज्यपणुं वरे, पूज्य बनी निर्धार. ॥ २ ॥ नवधा
 चक्तिनी भक्षी, पूजा शिवदातार; आतम ते परमा-
 तमा, व्यक्त बने नरनार. ॥ ३ ॥ भक्तिनी पूजा
 रचुं, हृदयशुद्धि करनार; शुद्धहृदयथी ज्ञाननी,
 प्राप्ति ठे जयकार. ॥ ४ ॥ देवगुरुने धर्मनी,
 संघनी भक्ति बेश; करतां मुक्ति थाय छे, नासे
 सघळा क्लेश. ॥ ५ ॥

प्रथम श्रवणक्रियापूजा.

जिनवरमहावीरदेवनां, वचन सुणो नरनार;
 गुरु संत उपदेशने, सुणतां ज्ञान थनार. ॥ १ ॥
 श्रवणथकी श्रुतज्ञान ठे, श्रुति तेहेत कथाय;
 प्रभुवचनामृत सांजळे, सम्यग्ज्ञान सुहाय. ॥ २ ॥
 ब्राह्मीसुंदरीमुखथकी, सुणी वचनामृतसार; बाहु-

३३६

बखी जिनकेवली, बन्या धन्य अवतार.
 ॥ ३ ॥ श्रवण करे जे शास्त्रने, ते पामे श्रुत-
 ज्ञान. माटे श्रवणक्रियावडे, पूजो प्रभु जग-
 वान्. ॥ ४ ॥

(राग केदारो.)

प्रभुमहावीरनां वचन सुणी भवी, जेथी प्रगटे
 ज्ञानरे; रोहिणीयो जेम स्वर्गने पाम्यो, सफल करो
 निजकामरे. प्रभु० ॥ १ ॥ प्रभुगुरुवचनामृत
 सुणतां जे, धारे मन बहुरागरे; समकृती ते मि-
 थ्यात्वने छंडे, पामे साचो त्यागरे. प्रभु० ॥ २ ॥
 इन्द्रभूति आदिगणधरमुनिवर, सांजळी प्रजु
 उपदेशरे, प्रतिबुध्या चारित्र धरी शुभ, टाळ्या
 कर्मना कलेशरे. प्रभु० ॥ ३ ॥ चंरुकोशियो स्वर्गने
 पाम्यो, श्रवण करी प्रभुबोधरे; श्रवणक्रियावण
 मुक्ति नहीं छे, श्रवणे कर्मनो रोधरे. प्रभु० ॥ ४ ॥
 विनय अने बहुमानसुरागे, सांभळो प्रजुनी
 वाणीरे; सर्वप्रमादो दूर करीने, सांजळो थाशो
 ज्ञानीरे. प्रभु० ॥ ५ ॥ गुरुसंतमुखथी प्रभुवाणीने,
 सांभळतां छे ज्ञानरे; वांचन करतां अनंतगणुं फळ,
 श्रवण करे श्रुति मानरे. प्रभु० ॥ ६ ॥ मिथ्या
 कषायी निंदा न सुणशो, सुणशो धर्मनो बोधरे; तन

१३७

मनधनने तुच्छ गणीने, सुणतां मोहनो रोधरे.
 प्रभु० ॥ ७ ॥ जांगुली आदि मंत्रश्रवणथी, सर्पा
 दिकविष जायरे; गुर्वादिकनो बोध सुणतां, मोहनुं
 विष पलायरे. ॥ ८ ॥ मोरली सुणतां नाग हरण
 जेम, चूले तनुनुं भानरे; अर्पाइ जाइ तेम भव्यो,
 श्रवण करो जिनवाणरे. प्रभु० ॥ ९ ॥ प्रतिदिन
 क्षण क्षण गुर्वादिकनी, सेवा करी सुणो धर्मरे;
 बुद्धिसागरआत्ममहोदय, पामो ज्ञानने शर्मरे.
 प्रभु० ॥ १० ॥

ॐ ह्रीं श्री परमपुरुषाय, परमेश्वराय, जन्म
 जरामृत्युनिवारणाय, श्रीमते जिनेन्द्राय, श्रवण
 पूजार्थं जलं, चंदनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवद्यं,
 फलं, यजामहे स्वाहा ॥

अथ द्वितीया कीर्तनक्रियापूजा.

दुहा.

अर्हत् सिद्धने सूरिनी, कीर्ति करो नरनार;
 वाचक साधु आदि नव, पद स्तवतां सुखसार.
 ॥ १ ॥ गुर्वादिक गुणगावतां, खरे अनंतां कर्म;

४३

३३८

अनंत गुण प्रगटे दिखे, अनंत प्रगटे शर्म. ॥ २ ॥
 देव गुरुने धर्मनी—, कीर्ति करी नरनार; पूज्यपणुं
 पामे सही, विघटे दुःख अपार. ॥ ३ ॥ कीर्तनपूजा-
 थी प्रभु, पूजो धरी मनप्यार; द्रव्यथी भावथी
 सिद्धि ठे, आत्मशुद्धिनिर्धार. ॥ ४ ॥

(न्हवणनी पूजारे निर्मल आतमारे. ए राग.)

कीर्तनपूजारे करो जिनराजनीरे, भाव धरी
 नरनार; अरिहंतमहावीरकीर्ति गावतारे, पामो
 भवोदधिपार. कीर्तन० ॥ १ ॥ सिद्धने सूरिवाचक
 साधुनुंरे, कीर्तन गुणनुं बेश; गुरु गुणीजननुं कीर्तन
 मनथकीरे, करतां राग न द्वेष. कीर्तन० ॥ २ ॥ तपसी
 पन्नरसेत्रणने बोधियारे, गौतम लब्धिप्रयोग;
 अनुमोदनकीर्तनथी ते वर्यारे, केवलज्ञाननो योग;
 कीर्तन० ॥ ३ ॥ कीर्तन करतां रावणे बांधियुंरे, श्री
 तीर्थकर नाम; नामने रूपनो मोह त्यजी घणारे,
 पाम्या शिवपुरधाम. कीर्तन० ॥ ४ ॥ अपकीर्ति
 अपयश अवगुण टळेरे, दोषनी दृष्टि पलाय, गुणने
 गुणीनी एकता झट थतीरे, कर्मनो भेद ह्णाय.
 कीर्तन० ॥ ५ ॥ गुणनी स्तवनाथी समकित मळेरे,
 प्रगटे सम्यग्ज्ञान, क्षपकश्रेणिए चारित्री चढेरे,

३३

थाय न मान अमान. कीर्तन० ॥६॥ कीर्तन करतां
क्षणमां केवलीरे, असंख्य थयां नरनार; गुणनी
स्तुति अवगुण ढांकवारे, कीर्तनपूजा सार. कीर्तन०
॥ ७ ॥ सत्यादिकगुणवृन्दनीकीर्तनारे, प्रभुनी पूजा
एह; शुद्धातम करवा प्रभुप्रार्थनारे, स्तवना छे
गुणगेह. कीर्तन० ॥ ८ ॥ द्रव्यने भावथी प्रभु
कीर्तन करोरे, प्रभुने गावो भव्य; बुद्धिसागरशुद्धा-
तमप्रभुरे, भक्तिनुं कर्तव्य. कीर्तन० ॥ ९ ॥

ॐ० प० कीर्तनपूजार्थं जलं० य० स्वाहा ॥

तृतीया सेवनक्रियापूजा.

अरिहंत आदिनी करो, द्रव्यमावथी सेव; सेवक
बनी उपयोगथी, सेव्य बनो स्वयमेव. ॥ १ ॥ सात
नयोथी सेवना, आत्मशुद्धिनेहेत; गुर्वादिकनी
सेवना, आत्ममुक्तिसंकेत. ॥ २ ॥ श्रवण अने
कीर्तनथकी, सेवाभाव सुहाय; सेवाथी सहु सिद्धि-
यो, प्रगटंती घटमांह्य. ॥ ३ ॥

३४०

(पुरुखलवइविजयेजयोरे, ए राग.)

शुद्ध महावीर सेवीएरे, श्रद्धाप्रीति धरी मान;
 विनये वैयावृत्यथीरे, पामो केवलज्ञानरे; भविजन !!!
 सेवा करो धरी भाव, लेजो नरभवल्हावरे. भवि-
 जन० ॥ १ ॥ स्वार्पण करी गुरु सेवीएरे, रही अंतर
 निष्काम; सेवाफल नहीं इच्छीएरे, अधिकारे करो
 कामरे. ऋविजन० ॥ २ ॥ तमोरजोगुणसेवनारे,—
 त्यागी सात्विक सेव; करतां शुद्ध उपयोगथीरे, बनो
 प्रभु जिनदेवरे. ऋविजन० ॥ ३ ॥ संघचतुर्विध
 सेवनारे, आतमसेव ते जाण; गुणीजनदशसेवा
 थकीरे, प्रगटे आतमज्ञानरे. ऋविजन० ॥ ४ ॥
 सेवायोग छे आद्यमारे, सकलधर्मनुं बीज; खेद
 रहित निर्जयदशारे, अद्वेष सात्विकरीझरे. भवि-
 जन० ॥ ५ ॥ संशयने निंदा त्यजीरे, त्यागी सर्व
 आसक्ति; उपकारी जीवन धरीरे, पामो प्रभुपद व्य-
 क्तरे. भविजन० ॥ ६ ॥ प्रभुमयथइ प्रभु सेवीएरे,
 दया सत्य धरी टेक; संकटमां धीरज धरोरे, चूको
 न धर्म विवेकरे. भविजन० ॥ ७ ॥ दुःख पडे नहीं
 शोचीएरे, सुख थतां नहीं हर्ष; मानामानमां सम-
 पणुंरे, त्यागो चित्त अमर्षरे. ऋविजन० ॥ ८ ॥ स-
 ताए सहुजीवनेरे, सिद्धसमागणो चित्त; चारे

३४१

ज्ञावनी ज्ञावनेरे, सेवा करतां पवित्रे. भविजन०
 ॥ ९ ॥ दीन दरिद्री दुःखीनीरे, धर्महीणानी सेव;
 फर्ज अदा करो सर्वदारे, त्यागी दुर्गुणटेवरे. भवि-
 जन० ॥ १० ॥ चढते भावे सेवनारे, करतां आतम
 शुद्धि, बुद्धिसागर मंगलोरे, पगळे पगळे समृद्धिरे.
 ज्ञविजन० ॥ ११ ॥

ॐ प० सेवनक्रियालाभार्थं जलं० य० स्वाहा.

चतुर्थी वचनक्रियापूजा.

वाचिकशक्तिए पूजीए, प्रभु महावीर जिणंद;
 वीरे वाचिकशक्तिथी, टाळ्या भवना फंद. ॥ १ ॥
 प्रभुवाणीने पूजीए. सेवीए सुखकार; प्रभुवचन
 समज्याथकी, पामो जवनो पार. ॥ २ ॥ सत्य अ-
 सत्य जे वचन छे, समजो तेना भेद; निश्चयने
 व्यवहारथी, समजे नासे खेद. ॥ ३ ॥

(सुमतिनाथ गुणशुं मलीजी. ए राग.)

सत्यवचनने आदरोजी, भावधरी नरनार;
 धर्म संघ परमार्थमांजी, करवो वचनव्यापार; महा-
 वीरप्रभुए सत्यवचन कथ्यां सार. ॥ १ ॥ निज-

३४२

पर उन्नतिकाजमांजी, देवा धर्मोपदेश; सदुपयोगे
वचननेजी, वापरशो सही क्लेश. महावीर० ॥ २ ॥
जूठां वचनो नहीं वदोजी, सत्यवचननो प्रकाश;
सत्य असत्यना भेदनेजी, जाणीने करशो विकाश.
महावीर० ॥ ३ ॥ मृत्युआदित्रय त्यजीजी, क्रोधा-
दिक त्यजी दोष; हिंसादिकअव्रत तजीजी,
सत्य वचन करो पोष. महावीर० ॥ ४ ॥ स्वाधि-
कारे सत्यवचनने, वदतां धर्म अपार; सापेक्षाए
जाणशोजी, सत्यासत्यप्रकार. महावीर० ॥ ५ ॥
सत्य असत्यवचन सकळजी, देशकालादिसा-
पेक्ष; अधिकार समज्या विनाजी, वचन सकळ
निरपेक्ष. महावीर० ॥ ६ ॥ अनेकनयनी दृष्टि-
एजी, वदो सापेक्षवचन; वचन जलामां वापरोजी,
आशय शुभ धरी मन्न. महावीर० ॥ ७ ॥ परमार्थे
उपयोगथीजी, सर्वदा वचनव्यापार; करशो
निर्भयता धरीजी, करशो जगउपकार. महा-
वीर० ॥ ८ ॥ द्रव्यज्ञावथी देवगुरुनी—, धर्मनी सेवा
काज; बुद्धिसागरसत्यवचनने, वदतां सुख साम्रा-
ज्य. महावीर० ॥ ९ ॥

ॐ प० वचनक्रियालाभाय जलं० य० स्वाहा.

३४३

पंचमी वन्दनक्रियापूजा.

अरिहंतादिकवंदतां, नावथी मुक्ति थाय;
 नवपदने वंदन करे, अपकीर्ति दुःख जाय. ॥ १ ॥
 द्रव्यने नावथी वांदीए, गुरुने धरी बहुप्रेम;
 ज्ञानचरणआनंदगुण, प्रगटे योगने क्षेम.
 ॥ २ ॥ सात्विकवंदन श्रेष्ठ ठे, मोहनी करे
 चक्रचूर; वंदक वंध्यपणुं वरे, सुख पामे भरपूर ॥ ३ ॥

(संभव जिनवर वीनति. अवधारो गुण ज्ञातारे—ए राग.)

जिनवर महावीर वंदना, द्रव्यने नावथी
 होशोरे; मारे एक तुं शरण छे, त्हारो एऊ जरोसेरे.
 जिन० ॥ १ ॥ वन्दन आवश्यकक्रिया, केवलज्ञाने
 प्रकाशीरे; देवगुरुने वंदतां, नासे सकल उदासीरे.
 जिन० ॥ २ ॥ सातनये छे वंदना, चारनिक्षेपे
 धारोरे; शुद्धोपयोगे घटाविषे, प्रगटे ठे उजिया-
 रोरे. जिन० ॥ ३ ॥ श्रद्धाप्रोतिउद्धासथी, विन-
 यने बहुमानेरे; गुर्वादिकने वंदतां; भक्तो शोभे
 ज्ञानेरे. जिन० ॥४॥ एकवार जो भावथी, प्रभुने वंदन
 थावेरे; तो क्षणमां घाती हणी, केवलघट प्रगटावेरे.
 जिन० ॥५॥ प्रभु महावीरमय बनी, आतम महावीर
 जाणीरे, शुद्धोपयोगे वंदतां, आतम केवलज्ञानीरे.

३४४

जिन० ॥ ६ ॥ अरिहंतादिक वंदना, आतम प्रति ते होवेरे; आपोआपने वंदना, आपोआपने जोवेरे. जिन० ॥ ७ ॥ व्यवहार निश्चयपूज्यने, पूर्णप्रेमे वधावोरे; गीतार्थादिकसंतने, वंदन करी ल्यो ल्हावोरे. जिन० ॥ ८ ॥ रोमराजी विकसे घणी, हैडे हर्ष न मावेरे; आनंद अश्रु आंखमां, गदगद वाणी सुहावेरे जिन० ॥९॥ पूज्यथी एक स्वरूपता, आनंदोदधि प्रगटेरे; ध्येय ध्यातानी एकता, आतां कर्मो विघटेरे. जिन० ॥ १० ॥ एकवार महावीरने, अमृत वंदन थावेरे, बुद्धिसागरआतमा, सहजानंदने पावेरे. जिन० ॥ ११ ॥

ॐ० प० वन्दनक्रियालाभाय जल० य० स्वाहा.

षष्ठी ध्यानक्रिया पूजा.

आत्मशुद्धि जेथी थती, ते छे उज्ज्वल ध्यान; धर्म शुक्ल वेध्यानथी, प्रगटे केवलज्ञान. ॥ १ ॥ मनथी ध्यानक्रिया थती, ध्यानथी कर्म विनाश; कर्मविनाशथी मुक्ति छे, मुक्ति अनंत

३४५

सुखवास ॥ २ ॥ पिंडस्थादिकध्यानधी, अक्रिय
थावो जव्य; रागद्वेषादिक विना, अक्रियता कर्त-
व्य. ॥ ३ ॥

(ध्यान क्रिया मनमां आणीजे. ए राग.)

ध्यान करो भवी जाव धरीने, प्रभु महावीर
प्रकाशेरे; अरिहंतआदिध्यान धरंतां, गुणपर्याय
विकासेरे. ध्यान० ॥ १ ॥ ध्याता ध्येयने ध्याननी
एकता, योगे पूर्णसमाधिरे; नामने रूपनो मोह
रहे नहीं, विघटे उपाधि आधिरे. ध्यान० ॥ २ ॥
शुद्धोपयोगे जिनवरमहावीर, रंगरसे जे रसियारे;
क्षण क्षण प्रभुरसरंगे रीझे, चढताभावे उल्लसि-
यारे. ध्यान० ॥ ३ ॥ कर्म करे पण अक्रिय आत्म,
शुद्धोपयोगे रसियारे; परपरिणतिने दूर करीने,
निज आत्ममां वसियारे. ध्यान० ॥ ४ ॥ पिंडस्था-
दिक चारप्रकारे, ध्याने आत्मखुमारीरे; घटमां
प्रगटे स्वाद न उत्तरे, ध्यानीनी बलिहारीरे. ध्यान०
॥ ४ ॥ क्षण क्षण ध्यानीने छे महोत्सव, आनंदनी
वहे हेलीरे; जीवन्मुक्ति प्रभुमयजीवन, करतो नि-
जगुण केलिरे. ध्यान० ॥ ६ ॥ बाहिरअंतरसर्व-
मयी ते, सर्वथकी ते न्यारोरे; कर्ता अकर्ता योगी

४४

३४६

अयोगी, जोगी अभोगी धारोरे. ध्यान० ॥ ७ ॥
 जलपंकजवत् निर्लेपज्ञानी, आतममां मस्तानीरे;
 रहे दशा नहीं प्रगटी ठानी, अनुजवज्ञाननी वा-
 णीरे. ध्यान० ॥ ८ ॥ अंतरमां मन राखी वर्ते,
 होय न लेश उदासीरे; कर्मविपाके सुखदुःख
 वेदे, आत्मानंद विलासीरे. ध्यान० ॥ ६ ॥ श्रुत
 ज्ञाने ध्यानने ध्यातां, आतमज्ञान प्रकाशेरे; कर्म
 विपाकोदधिपर तरतो, आपोआप विलासेरे. ध्यान०
 ॥ १० ॥ आतमलय लागी छे जेने, ते ध्यानी जय-
 कारीरे; बुद्धिसागरध्यानानुभव, प्रगट्यो आनंद-
 कारीरे. ध्यान० ॥ १० ॥ ॐ ध्यानक्रियालाभाय
 जलं यं स्वाहा ॥



सप्तमी लघुताक्रियापूजा.

दुहा.

लघुताथी प्रभुता मळे, टळे दोष अभिमान;
 बाहुबलि लघुता धरी, पाम्या केवलज्ञान. ॥ १ ॥
 लघुता गुणनी वेखडी, लघुता मुक्तिद्वार; भवोदधि-

३४७

पर तुंबीवत्, तरतां नरने नार. ॥ २ ॥ कर्मभार
हलको थतो, आतम नहीं लेपाय; लघुतापूजार्थी
प्रभु, पूजंतां सुख थाय. ॥ ३ ॥

(उत्तम फल पूजा कीजे, मुनिने दान सदा दीजे. ए राग.)

वीरप्रभु पूजो ध्यावो, सेवक बनी लेवो
ल्हावो; लघुताए प्रभुने भावोरे, प्रभु उपदेशे मन-
लावो । लघुताए प्रभुता पावोरे. लघु० ॥ १ ॥ आठ
प्रकारे मद त्यागो, देहाध्यास तर्जी जागो; शुद्धा-
तमभावे लागोरे, लघुता० ॥ २ ॥ सेवक ते स्वामी
थावे, ए अनुक्रम ज्ञानी पावे; मानदशा मन नहीं
लावेरे. लघुता० ॥ ३ ॥ जडपुद्गलमदमां मुंझे,
तेने प्रभु दिल नहीं सूजे, आत्मप्रभुने शुं? पूजेरे.
लघुता० ॥ ४ ॥ रसक्रुद्धि गारव पडिया, शातागा-
रवे लडथडिया, जीवोने प्रभु नहीं जडियारे. लघुता०
॥ ५ ॥ इन्द्रादिकपदवी सर्वे, रहेतुं नहीं तेहना गर्वे;
प्रभु मळता नहि मन भर्मेरे. लघुता० ॥ ६ ॥ गुरुता
लघुता जडमाया, मोहदशाना पडगाया, अगुरुलघु
आत्मरायारे. ॥ लघुता० ॥ ७ ॥ अगुरुलघुगुण उप-
योगी, षट्कारक आत्मयोगी, थातां न मोहे संयो-
गीरे. लघुता० ॥ ८ ॥ यावत् जरुगुरुता आवे, तावत्

३४८

लघुताना भावे, रहेशो अगुरुलघुदावेरे. लघुता०
 ॥ ९ ॥ दीनभाव लघुता छंडो, आत्मप्रभुता रढ
 मंजो, छंडो मानतणो झंडोरे. लघुता० ॥ १० ॥
 सापेक्षे लघुता समजो, मान अहंवृत्ति दमशो, बुद्धि-
 सागर दिल रमशोरे. लघुता० ॥ ११ ॥

ॐ लघुता लाभार्थं जलं यं स्वाहा ॥

अष्टमी एकता क्रियापूजा.

वीरप्रभुथी एकता, भावो नरने नार; अैक्य
 करी प्रभु साथमां, लहो भवोदधिपार. ॥ १ ॥ संग्रह
 नयसत्तावडे, सर्वजीवो छे एक; आतमसत्ता
 ध्यावतां, प्रगटे व्यक्तिविवेक. ॥ २ ॥ जडथी
 न्यारो आतमा, गुणपर्यायाधार; एकताभावे भावतां,
 कर्म रहे न लगार.

(मेरुशिखर न्हवरावे हो सुरपति मेरुशिखर न्हवरावे. ए राग.)

आतम एकता ध्यावो हो, भविजन !!! आतम
 एकता ध्यावो ॥ प्रभुमां लयलीन थावो हो, भविजन !
 आतम एकता ध्यावो ॥ एकताभावना जावो विवेके,

३४९

नयसापेक्षप्रमाणे; द्रव्यार्थिकर्था एकता ध्यातां,
 निर्विकल्पता जाणे हो. भविजन० ॥ १ ॥ गुणपर्याये
 अनेकता आतम,—मांही समावे ध्याने; रागरीस
 रूप मनडुं मरेने, शोत्रे केवलज्ञाने हो. भविजन०
 ॥ २ ॥ ज्ञाताज्ञेयने ध्याताध्येयनी, एकता अनुभव
 थातां; पूरण आत्मप्रतीति प्रगटे. कर्मों सकल दूर
 जातां हो. भविजन० ॥ ३ ॥ सत्ताए महावीर
 प्रभुनी—, साथे एकता ताने; रहेतां आतम आनंद
 स्वादो, अनुभव अनुभवी जाणे हो. भविजन०
 ॥ ४ ॥ रागद्वेषनुं द्वैत टळ्यार्थी, निज गुणपर्याय
 योगे; आतम एकता थावे नकी, रहे न भिन्नता
 जोगे हो. भविजन० ॥ ५ ॥ जडद्रव्योना गुण
 पर्यायो, तेथी आतम न्यारो; आपोआप स्वजावे
 खेले, एकता एह विचारो हो. भविजन० ॥ ६ ॥
 अनंतज्ञानानन्दर्था आतम, एकस्वरूप सुहायो;
 गुणगुणीनी एकता एवी, लीनता आनंद थायो
 हो. भविजन० ॥ ७ ॥ आदि अंत न आतम
 एवो, जावो ध्यावो गावो; परमातममहावीरप्रभुथी,
 एकमेक थइ जावो हो. भविजन० ॥ ८ ॥ एकलो
 आव्यो एकलो जाशे, कोइ न साथे जाशे; प्रभु

३५०

महावीर जिन उपदेशे, चेतते ते सुख पाशेहो. भवि-
जन० ॥ ९ ॥ तत्त्वमसिसोऽहं पदध्याने, एकता अ-
नुभव आवे; बुद्धिसागरआत्ममहावीर, आपोआप
सुहावे हो. भविजन० ॥ १० ॥ ॐ० एकतालाभार्थ
जलं० य० स्वाहा ॥

नवमी समताक्रियापूजा.

समताथी पूजो प्रभु, विभुमहावीर जिनेश;
ज्यां समता प्रगटी खरी, त्यां नहि रागने द्वेष. ॥१॥
सकलसाधना सिद्धता, समता प्रगटे थाय; द्वा-
यिक समता प्रगटतां, बाकी न कार्य रहाय. ॥ २ ॥
आतम ते परमातमा, समभावे प्रगटाय; आपो आ-
पनी पूजना, अेकता अनुभव पाय. ॥ ३ ॥

(भेतारज गुनिवर धन्य धन्य तुम अवतार. ए राग.)

समतारससागर प्रभुजी, वीरजिनेश्वर देव;
समभावे प्रभु सेवतांजी, नासे कर्म कुटेव. महावीर
जिनेश्वर, धन्य धन्य तुम उपदेश, ॥ १ ॥ जडचे-
तनमयविश्वमांजी, समभावे उपयोग, विषमपणुं

३५१

प्रगटे नहींजी, समता आनंदभोग. महावीर० ॥२॥
 खंधकशिष्यो पांचशेजी, प्राणांते समजाव, मोहने
 मायों ठेवटेजी, धन्य ए समतादाव. महावीर०
 ॥ ३ ॥ मुनिमेतार्ये समपणुंजी, धार्युं छंडयो देह,
 शुभाशुभ बुद्धि विनाजी, पाम्या मुक्तिगेह. महावीर०
 ॥ ४ ॥ समताभावने आदर्योंजी, गजसुकुमाल
 मुनीश, देहनी ममता परिहरीजी, सोमिलपर नहि
 रीस. महावीर० ॥ ५ ॥ अन्यतीर्थियो पण लहेजी,
 समताभावेरे मुक्ति, समता ते पाम्या पछीजी,
 नहीं तपकिरिया रीति. महावीर० ॥ ६ ॥ दर्शन
 ज्ञानचरण सकलजी, समतामांही सुहाय, समता
 प्रगटे सिद्धताजी, एकपलकमां थाय. महावीर०
 ॥ ७ ॥ काने खीला मारियांजी, पगपर रांधीरे खीर;
 तो पण समभावे रह्याजी, परमेश्वर महावीर. महा-
 वीर० ॥ ८ ॥ पार्श्वप्रभु समता धरीजी, कमठे की-
 धोरे रोष; नासापर जल आवियुंजी, तोपण रोष न
 तोष. महावीर० ॥९॥ वृत्ति शुभाशुभ नहीं रहेजी,
 प्रगटे केवलज्ञान; आपोआप प्रभु विभुजी, चिदानन्द
 जगवान्. महावीर० ॥ १० ॥ ग्रहणत्यागइच्छा न-
 हींजी, वतें पूर्वप्रयोग, समभावे शुद्धातमाजी, चि-
 दानंद गुणभोग. महावीर० ॥ ११ ॥ शुभाशुभवृत्ति

३५२

विनाजी, कर्मनिकाचितजोग; जोगवतां तनु वर्त-
तांजी, केवलज्ञाननो योग महावीर० ॥ १२ ॥
हर्षशोकसुखदुःखमांजी समतान्नावेरे वर्त, बुद्धि-
सागरव्यात्ममांजी, अनंत आनंद शर्त. महा-
वीर० ॥ १३ ॥

कलश—गीत. ॥ राग धन्याश्री ॥

गायो गायोरे महावीरजिनेश्वर गायो.

नवविध किरिया जक्तिथी पूज्यो, आतम अनु-
भव पायो; एकता लीनतासमतायोगे, सहजस्व-
भावे सुहायोरे. महावीर० ॥ १ ॥ श्रद्धाप्रीतिपूजन
अर्चन, स्पर्शनजाव लहायो; दास्यने सख्यने आ-
तमअैक्ये, अमृतकिरियाए छायोरे. महावीर० ॥ २ ॥
नवधाजक्ति सापेक्षाए, अनेकजेदे ध्यायो; अभेदजावे
अद्वैतजक्ति, करतां सुख प्रगटायोरे. महावीर० ॥ ३ ॥
सम्यग्दृष्टिए जक्तिनां अंगो, ग्रहीने सापेक्षभावे;
आतमशुद्धि करीए रंगे, सहेजे आत्मस्वभावेरे.
महावीर० ॥ ४ ॥ भक्तिना तानमां भेद न जासे,
आतमज्ञाने प्रकाशे; नवविधकिरिया अक्रियपदने,

३५३

आपे परमोह्लासेरे. महावीर० ॥ ५ ॥ अन्योअन्यने
 विषगरलथी, विश्वभ्रमगता थावे; तद्धेतु अमृत
 किरियायोगे, परमानंद सुहावेरे. महावीर० ॥ ६ ॥
 म्हारे तो गुरुकृपा पसाये, अमृत आनंद आयो;
 आपोआप स्वरूप सुहायो, अक्रिय अनुभव पायोरे.
 महावीर० ॥७॥ ओगणिश अह्योत्तरनी साजे, ज्ञान
 पंचमी शुक्रवारे; नवधाकिरियापूजा रची शुभ,
 भव्यजीवोने तोरेरे. महावीर० ॥ ८ ॥ सानंद सं-
 घनी शुभभक्तिए, कर्तुं चोमासुं भावे; पूजा रचंतां
 अनुभव आनंद, प्रगटयो भक्ति प्रभावेरे. महावीर०
 ॥ ९ ॥ शासननायकवीरजिनेश्वर, श्वेतांबरमुनि
 राजा; तपगच्छजगगुरुहीरविजयसूरि, संयमीगुण
 शिरताजारे. महावीर० ॥ १० ॥ पट्टपरंपराश्रीनेमि-
 सागर, रवितागरगुरुराया; श्रीसुखसागरसमता
 दरिया, संवेगीशिरमुहायारे. महावीर० ॥ ११ ॥
 गुरुकृपाए पूजा रची शुभ, संघ सकलहितकारी;
 बुद्धिसागरसंगलमाला, आनंदघन अवतारीरे. महा-
 वीर० ॥१२॥ ॐ त.व.ता.ला.भा.र्ध. ज० य० स्वाहा ॥

३५४

अष्टकर्मसूदनार्थं अष्टप्रकारीपूजा.

परमेश्वरमहावीरजिन, तीर्थंकर जगदेव; परम-
प्रभु परमात्मा, जावे करीवे सेव. ॥ १ ॥ अष्ट
कर्मना नाशहेत, पूजा अष्टप्रकार; रचतां गुण अठ
संपजे, प्रगटे शांति अपार. ॥ २ ॥ तेमाटे पूजा
रचुं, संक्षेपे हितकार, प्रभुमहावीरदेशना, अनु-
सारे सुखकार. ॥ ३ ॥

प्रथम ज्ञानावरणीयकर्मसूदनार्थं जलपूजा.

(न्हवणनी पूजारे निर्मल आतमारे. ए राग)

न्हवणनी पूजारे भवि जावे करोरे, प्रभुमहा-
वीरनी सत्य; ज्ञानविना अज्ञाने प्राणियारे, करता
आस्रव कृत्य. न्हवण० ॥ १ ॥ ज्ञानावरणे ज्ञान न
संपजेरे, भवमां भमहुं थाय; ज्ञानावरणनी पांच प्रकृ-
तिछेरे, ज्ञानाच्छादनन्याय. न्हवण० ॥ २ ॥ क्षयो-
पशमने क्षायिक जावथीरे, ज्ञानावरण विनाश; मति
श्रुत अत्रधि मनपर्यवअनेरे; प्रगटे केवल खास.

३५५

न्हवण० ॥ ३ ॥ मति अट्टावीशजेदैठे तथारे,
 त्रणशेचालीश भेद, श्रुतछे चउद अने वीशभेद-
 थीरे, प्रगटे नासे खेद. न्हवण० ॥ ४ ॥ असंख्य
 प्रकारे अवधिज्ञानछेरे, मनपर्यव वे भेद; केवल-
 ज्ञान ते एक प्रकारछेरे, प्रगटेछे निर्वेद. न्हवण०
 ॥ ५ ॥ ज्ञानावरणी ज्ञानने रोधतुंरे, तेनो नाश जो
 थाय; तो प्रगटेछे ज्ञानप्रकाशतारे, नहि अज्ञान
 रहाय. न्हवण० ॥ ६ ॥ ज्ञानने ज्ञानीसेवाभक्ति-
 थीरे, वसतां गुरुकुलवास; ज्ञानावरणीकर्मविना-
 श ठेरे, टळतां मोहविलास. न्हवण० ॥ ७ ॥ ज्ञा-
 नीनी निंदा आशातनारे; तजजो नरने नार; श्रुत-
 ज्ञानी गुरुना भक्तोवनोरे, प्रगटे ज्ञान उदार. न्हवण०
 ॥ ८ ॥ भणो जणावो श्रुतने भविजनारे, अनुमोदो
 द्यो दान; बुद्धिसागर आतमशुद्धतारे, प्रगटे केवल
 ज्ञान. न्हवण० ॥ ९ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं प० ज्ञानवरणसूदनार्थं ज० य०
 स्वाहा ॥

३५६

द्वितीया दर्शनावरणीयकर्मसूदनार्थं चन्दनपूजा.

दर्शनावरण हठाववा, चंदनपूजा सार; दर्शनावरणनी प्रकृति, नव कीजे परिहार. ॥ १ ॥ चक्षुःश्रुत्यादि चारनां, आवरणो ठे चार; पांचे निद्रा त्यागतां, दर्शनगुण जयकार. ॥ २ ॥ देवगुरुने धर्मनी, आशातनथी कर्म, बंधातां ते जाणीने; सेवो जिनवर धर्म. ॥ ३ ॥

(सांभळज्ञो मुनि संयमरागे-ए राग.)

चंदनपूजाए प्रभु चर्चो, निजआतमने अर्चोरे; दूर करो झट कर्मनो फडचो; राखो न जेदनो कर्चो रे. चंदन० ॥१॥ दर्शनावरणना क्षयोपशमथी, द्वायिकथी गुण प्रगटेरे; चहु अचहु अवधि केवल, दर्शनथी दुःख विघटेरे. चंदन० ॥२॥ दर्शननुं आवर्ण करे ते, दर्शनावरणी जाणोरे; दर्शनावरणने हणवा माटे, सेवाभक्तिप्रमाणोरे. चंदन० ॥ ३ ॥ गुरुनी श्रद्धाप्रीतियोगे; आशातनने वियोगेरे; सदगुण गणना पूर्णप्रयोगे, वर्ते न हर्षे शोकेरे. चंदन० ॥४॥ दर्शनावरण टळे छे क्षणमां, ज्ञानने ध्यानाभ्यासेरे; समताभावे कर्म करंतां, दर्शनशक्ति प्रकाशेरे. चंदन० ॥ ५ ॥ पांचप्रकारनी निद्राक्षयथी, दर्शनगुण झट

३५७

प्रगटेरे; आतमदर्शनअनुभव आवे, मिथ्याबुद्धि
 विघटेरे. चंदन० ॥ ६ ॥ चंदनसमदर्शनशीतलता,
 भावे आतम पूजोरे; निंदाविकथापरपरिणतिथी,
 मनमां लेश न सुंझोरे. चंदन० ॥ ७ ॥ जिनवरपूजा
 ते निजपूजा, शुद्धातम उपयोगेरे; केवलज्ञानने के-
 वलदर्शन, प्रगटे निजगुणभोगेरे. चंदन० ॥ ८ ॥
 दर्शनावरणीयकर्मने हणवा, स्थिर उपयोगे रहे-
 शोरे; बुद्धिसागरआनंदमंगल, परमप्रभुता लेशोरे.
 चंदन० ॥ ९ ॥

ॐ ५० दर्शनावरणीयकर्मसूदनार्थं चंदनं
 य० स्वाहा ॥

तृतीयावेदनीयकर्मसूदनार्थं पुष्पपूजा.

शाताअशाता वेदनी, सुखदुःखफलदातार;
 सुखदुःख वेदे सर्वजीव, लक्षचोराशी मझार. ॥ १ ॥
 सुखदुःख मोह्थी वेदतां, थातो कर्मनो बंध; सुख
 दुःखमां समभावथी, आतमछे निर्वन्ध. ॥ २ ॥ आतम
 सुखने वेदवा, पुष्पे पूजो राज; आत्ममहावीर
 प्रगटतां, सफलां सर्वे काज. ॥ ३ ॥

३५८

(इडर आंवां आंवलीरे, ए राग.)

पूजो प्रभु महावीरनेरे, जेणे जणाव्यो धर्म;
 पुष्पमाल प्रभु कंठमारै, स्थापंतां शिवशर्मरे. ऋवि-
 जन !! पूजो महावीरदेव, फळती प्रभुनी सेवरे, भवि
 जन !!! पूजो० ॥ १ ॥ शाताअशाता वेदतारे, समभाव
 पुष्पनी माळ, धारंतां प्रभु कंठमारै, रहे न मोहनी
 जाळरे. भविजन !! पूजो० ॥२॥ छाया ताप परे आ-
 वतुरे; सुखदुःख वाराफेर; पुण्यपापकर्मों फळेरे, करो
 न राग न वैररे. ऋविजन ! पूजो महावीर देव. ॥३॥
 सुखदुःख वेदे समपणेरे, अधिकारे करे काज; सहज
 समाधि ते योगछेरे, प्रगटे शिवसाम्राज्यरे. भविजन !!
 पूजो० ॥ ४ ॥ शुद्धोपयोगे वर्ततारे, वर्णादिक करे
 कर्म; बाहिरव्यवहार साधतारे, वर्ते आतमधर्मरे.
 भवि० पूजो० ॥ ५ ॥ बाहिर वर्ते बाह्यमारै; अंतरमां
 उपयोग; निर्वध आतम वर्ततोरे, भोगवतो सह
 भोगरे, भवि० पूजो० ॥ ६ ॥ सुखदुःख वेदनी भोग-
 मारै, धरे न सुखदुःखबुद्धि; आतसमां सुख अनु-
 ऋवेरे, प्रगटे सिद्धनी ऋद्धिरे. भवि० पूजो० ॥ ७ ॥
 सुख आवे हर्षे नहींरे, दुःख प्रगटे नहीं शोक; सुख
 दुःख बुद्धि न भोगमारै, तेने पूरणयोगरे. भविजन !

३५९

पूजो० ॥ ८ ॥ कर्म निःकञ्चित प्रगटतारै, सुखदुःख
 भोगवे चोग; भोगी अचोगी अंतरविषेरे, योगे वर्ते
 अयोगरे. भविजन ! पूजो० ॥ ९ ॥ चक्री इन्द्रादिक
 भोगमारै, रहे न सुखनी वृत्ति; आतमसुखअनु-
 भव थतारै, जीवतां निर्हृत्तिरे. भविजन ! पूजो०
 ॥ १० ॥ प्रभु महावीर देवनोरे, एवो ठे उपदेश;
 बुद्धिसागर आतमारै, आनंदरूप हमेशेरे. नविजन !
 पूजो० ॥ ११ ॥

ॐ० प० वेदनीयकर्मसूदनार्थं पुष्पं य० स्वाहा ॥

चतुर्थी मोहनीयकर्मसूदनार्थं धूपपूजा.

दर्शनचारित्रमोहनी, सर्वकर्मशिरदार; मोह
 टळे कर्मो सकल, विगसंतां निर्धार. ॥ १ ॥ मोह
 तणा परिणामथी, आठकर्म बंधाय; निर्मोही आतम
 पणे, शुद्धात्म प्रगटाय. ॥ २ ॥ ध्यानधूप प्रभु आ-
 गळे, करतां नहि दुर्गंध; आतम आत्मपणे रमे,
 आतम वर्ते अवंध. ॥ ३ ॥

५६०

(दशमे देशावगाशिकेरे, चउद नियम संखेव-ए राग.)

धन्य महावीर जगधणीरे, केवलज्ञानी देव;
 आतमध्यानना भूपथीरे, साधुं ताह्यरी सेव हो.
 जिनवर !!! आतमसुखने आपशोरे, रोमेरोमे व्या-
 पशोरे; ताह्यरो रहो उपयोग. ॥ १ ॥ दर्शनमोहनी
 नाशथीरे, प्रगटे समकितधर्म; चारित्रमोहनी ना-
 शथीरे, प्रगटे आतमशर्म हो. जिनवर !!! आतम०॥२॥
 अज्ञावीश मोहप्रकृतिरे, क्षयोपशम तस होय;
 उपशमहायिकभावथीरे, शुद्धपरिणति जोय हो.
 जिनवर !! आतम० ॥ ३ ॥ सकलकर्ममां मोहनुरे,
 अनंतगणुं ठे जोर; मोह टळे बीजां टळेरे, नासे छे
 जेम चोर हो. जिनवर !!! आतम० ॥४॥ निर्मोहज्ञावे
 वर्तवुरे, आतमधर्म छे एह; आतमशुद्धोपयोगथीरे,
 रहे न मोहनीरेह हो. जिनवर !! आतम० ॥५॥ अव्र-
 ततजी व्रत आदरोरे, धारो संवरज्ञाव, निर्जराहेतु
 आदरोरे, आतमशुद्धिदावहो. जिनवर !! आतम०
 ॥ ६ ॥ आतमज्ञानने पामतारे, प्रगटेछे वैराग्य,
 आतमना उपयोगथीरे, वर्ते सहेजे त्यागहो. जिन-
 वर !!! आतम० ॥ ७ ॥ जिन आगमगुरुसंगतिरे,
 करतां संतनो संग; निर्मोहज्ञावे आतमारे, परिण-
 मतो जिनरंगहो. जिनवर !! आतम० ॥ ८ ॥ देवगुरुने

३६१

धर्मनेरे, आराधे मोह जाय; रवि उगे परभातमारे,
 तम तो दूर पलायहो. जिनवर !! आतम० ॥ ९ ॥
 गृहीत्यागीदशाविषेरे, करतां व्यवहारकर्म; नि-
 मोहे नहीं कर्मछेरे, प्रगटे मुक्तिशर्महो. जिनवर !!
 आतम० ॥ १० ॥ ज्ञानक्रियाथी मोहनोरे, क्षय क्षण-
 मांहे थाय; नामरूपनिमोहथीरे, केवलज्ञान सुहा-
 यहो. जिनवर !! आतम० ॥ ११ ॥ आतम आतमने
 दियेरे, प्रभुजक्ते निजमुक्ति; बुद्धिसागर आत्म-
 नारे, उपयोगे नहि जीतिहो. जिनवर !! आ० ॥ १२ ॥
 ॐ प० मोहनीयकर्मसूदनार्थं धूपं य० स्वाहा ॥

पंचमी आयुःकर्मसूदनार्थं दीपपूजा.

सुरनर तिर्यंच नरकनुं, आयुः चार प्रकार; चार
 गतिमां आयुथी, तनुस्विति छे निर्धार. ॥ १ ॥
 चारगतिमां आयुथी, बंधावानुं थाय; अनंतजीवन
 पामतां, आयुबंधन जाय. ॥ २ ॥ ज्ञानदीप प्रगटा-
 वीने, पूजो प्रभु जिनराज; अनंतशाश्वतजीवनने,
 पामो सिद्धे काज. ॥ ३ ॥

४६

३६२

(मल्लिजिननाथजी व्रतहीजेरे. ए राग.)

प्रभु महावीरपर धरो प्रीतिरे, टाळो दुष्टाचार
 अनीति. प्रभु० ॥ द्रव्यदीपक धरी भावदीवारे, प्रग-
 टावी अनंतुं जीवारे; प्रभुवचनामृतने पीवो प्रभु०
 ॥ १ ॥ पुण्ययोगे सुरनर आयरे, प्रायः तिर्यचआयु
 बंधायरे, पापे नरकतिरिआयु थाय. प्रभु० ॥ २ ॥
 आयुः कर्मतणी ए मायारे, जेवा पाणीमां पडछायारे;
 ज्ञानी भक्तो नहीं मुंझाया. प्रभु० ॥ ३ ॥ स्थिति
 अनंत पामीने ठरवुंरे, पछी जन्ममरण नहि कर-
 वुंरे; एवुं शुद्धात्मपद वरवुं. प्रभु० ॥ ४ ॥ मोह
 योगेछे आयुष्यबंधरे, निर्मोहे वर्ते अबंधरे; परभा-
 वनी होय न गंध. प्रभु० ॥ ५ ॥ पूर्वकर्मनिका-
 चितभोगोरे, तेवा मळता सर्वसंयोगोरे; वर्ते अंत-
 रमां योगो. प्रभु० ॥ ६ ॥ ज्ञानीने जे आस्रवकर्मोरे,
 परीणमे ते संवरधर्मोरे; टळे ज्ञाने मिथ्याजर्मो.
 प्रभु० ॥ ७ ॥ श्रुतदीपकथी प्रभु पूजेरे, शुद्धआत्म
 स्वरूप झट सूजेरे; पामी आत्म मन नहीं मुंझे. प्रभु०
 ॥ ८ ॥ शुद्धआत्मस्वरूपना रसियारे, गति ठतां न
 गतिमांहि वसियारे; कर्मयोगी अकर्म उहसिया.
 प्रभु० ॥ ९ ॥ गति आयुळे बंदिखानुंरे, तनु हेरु-

३६३

समुं न मज्झानुरे; त्यांतो ज्ञानीने रुचे शानुं ? प्रभु०
 ॥ १० ॥ मनुजवमां थायछे मुक्तिरे, ज्ञानवैराग्य
 व्रत धरो नीतिरे; टळे सर्वप्रकारनी जीति. प्रभु०
 ॥ ११ ॥ एवी प्रभुमहावीरनी वाणीरे, ज्ञानवैराग्यथी
 दिल आणीरे; प्रभुपूजा करो गुणखाणी. प्रभु० ॥१२॥
 ज्ञानानन्दअनंतपद वरवारे, भवपाथोधि वेगे तर-
 वारे; बुद्धिसागरगुरु अनुसरवा. प्रभु० ॥ २३ ॥

ॐ प० आयुः कर्मसूदनार्थं दीपं य० स्वाहा ॥

षष्ठीनामकर्मसूदनार्थं अक्षतपूजा.

नामकर्मनी प्रकृति, एकसोत्रण छे सर्व; देहा-
 दिकमां मोह वा, करवो नहि कंइ गर्व. ॥ १ ॥ नाम
 कर्मना क्षयथकी, अरूपपद प्रगटाय; रूपीपणु नहि
 आत्मनुं, रूपादिक जडमांछ. ॥ २ ॥ अक्षयरूप
 ठे आतमा, अक्षत करवाहेत; व्यवहारे अक्षतथकी,
 प्रभुपूजासंकेत. ॥ ३ ॥

३६४

(सनेही संत एगिरि सेवो. वउदभुवनमां तीर्थ न एवो. स०-एराग.)

प्रभुमहावीरजिन जयकारी, पूजो अक्षतथी
 सुखकारी. प्रभु ॥ प्रकृति रस स्थिति प्रदेश, चारेभेदे
 बंध न लेश; सत्ता उदीरणा नहीं क्लेश, टाळ्या
 राग अने मनद्वेष. प्रभु० ॥ १ ॥ टाळ्या कर्मवि-
 पाको सर्वे, रही शुक्लध्याने अगर्वे; रह्या नहीं
 परपुद्गल जर्मे, मुंइया नहि मिथ्याजरुशर्मे. प्रभु०
 ॥ २ ॥ नामरूपमां निर्मोहजावे, रहे जे कोइ सा-
 क्षीना भावे; नामकर्मथी लूटो थावे, शुद्ध अरूपपद
 निज पावे. प्रभु० ॥ ३ ॥ नामकर्मप्रारब्धना जोगो,
 अनासक्तिए वर्ते योगो; थाय नहीं कंइ हर्ष न
 शोको, थाय विषम न प्रकटे रोगो. प्रभु० ॥ ४ ॥
 थतां केवल नाम रहेछे, आयुपर्यंत तेह वहेठे;
 समभावे ज्ञानी सहेठे, शुद्ध आत्मरमणता चहेठे.
 प्रभु० ॥ ५ ॥ प्रभु सरखा थावामाटे, वळो केवल
 ज्ञानीनी वाटे; माल वेचायछे गुरुहाटे, लेजो स्वा-
 र्पण करी शिरसाटे. प्रभु० ॥ ६ ॥ नामरूपअध्या-
 सने त्यागो, शुद्ध आत्मभावे जागो; त्याग ग्रह-
 णमां मनथी न लागो, मोहभावथी दूरे जागो. प्रभु०
 ॥ ७ ॥ नामकर्म अघातीछे जाणो, ज्ञान प्रगटे अ-
 बंध प्रमाणो; निर्मोही आत्मराणो, निजगुणथी

३६५

खेले मझानो. प्रभु० ॥ ८ ॥ नामकर्मने परोपकारे,
 वापरो जैनधर्म प्रचारे; वापरे ते धर्म न हारे, करो
 कर्तव्य निज अधिकारे. प्रभु० ॥ ९ ॥ एवी वीर
 प्रभुनी वाणी, सर्वनयथी यथातथ्य जाणी; श्रद्धा
 प्रीतिए मनमां आणी, कर्मतलने पीलवा घाणी.
 प्रभु० ॥ १० ॥ नामरूपमां नहीं मुंझाशो, शुद्ध उप-
 योगथी सुख पाशो; बुद्धिसागरदिल हरखाशो, चि-
 दानंदस्वरूप प्रकाशो. प्रभु० ॥ ११ ॥

ॐ प० नामकर्मनाशार्थं अक्षतं य० स्वाहा ॥

सप्तमी गोत्रकर्मसूदनार्थं नैवेद्यपूजा.

उच्च नीच व्यवहारथी, निश्चयथी नहीं कोय;
 उच्चनीच जडमोहथी, आत्मस्वरूपे न जोय. ॥ १ ॥
 उच्चने नीच बे गोत्रछे, यश अपयश करनार; मान
 अने अपमानना, हेतुठे व्यवहार. ॥२॥ जिनवरमहा-
 वीरबोधथी, उच्च नीच बे भेद; बेमां समभावे रहे,
 ज्ञानीने निवेद. ॥ ३ ॥ उच्च नीच बे प्रकृति, तेमां
 निर्मोहहेत; नैवेद्यपूजानो भलो, द्रव्यजावसंकेत. ॥४॥

३६६

(प्रभु प्रतिमा पूजीने पोसह करीए रे.-ए राग.)

महावीर जिनवर पूजीने गुण लीजेरे; उच्चने नीचनो भेद विसारीए, निज आतमनुं शुद्धस्वरूप विचारोरे, पुद्गलनी माया जूठी धारीए, आतमछे सरखा मन अवधारीए, कुलादिकमदने प्रगट्यो वारीए. ॥ १ ॥ उच्चपणाना माने हर्ष न धरीएरे, जातिना अजिमानेरे धर्म न हारीए; सत्ता विद्या लक्ष्मी आदि मोहेरे, भूलंतां भानरे निज नहि तारीए. आतम० ॥ २ ॥ कर्मनी माया पाणीना पड्ठायारे, उंचने नीचना भेद नहीं खरा; समज्या ते मुंझाया नहि जरमायारे, पाम्यारे आनंद अमृतना झरा. आतम० ॥ ३ ॥ चडती पडती उच्च नीच अवतारोरे, संसारे एह अवस्था सर्वनी; परने पोतानुं मानी शुं? फूलोरे, छाजे नहि कोइ अवस्था गर्वनी. आतम० ॥ ४ ॥ आठमदे जरिया जीव दुःखने वरियारे, स्वप्नानी बाजीरे जूठी जागतां; उच्चने नीच पणुं स्वप्नानी बाजीरे; आतमरे अगुरुलघु घट लागतां. आतम० ॥ ५ ॥ कुल विद्या लक्ष्मी सत्ता हिणाइरे, पामंतां हर्ष न उद्वेगे रहो; उच्चनीचनी माया स्वप्ना जेवीरे, जाणीरे समभावे जीवन बहो.

३६७

आतम० ॥ ६ ॥ मान अने अपमानने लाजाला-
 भेरे, समताने धारी कर्तव्यो करो; योगी भक्तजीवन
 एवुं आतमनुंरे, परमातम प्रगटावी मुक्ति वरो.
 आतम० ॥ ७ ॥ उच्चने नीचना भेदे नहि मुंझा-
 शोरे, खत्तारे खाशो पडती पामशो; आतमने कदि
 नीच न मानो भव्योरे, वाहिरनी वृत्तिथकी विरामशो.
 आतम० ॥ ८ ॥ उच्चने नीचनी भ्रांति, कर्मनी दृष्टेरे,
 आतमनी दृष्टिण कशुं छे नहीं; आतमदृष्टि जीवनथी
 संचरशोरे, परमानंद पामोरे अधिकारे वही. आतम०
 ॥ ९ ॥ उच्चनीचना भेदे सुखदुःखवृत्तिरे, स्वप्नामां
 एठे जागंतां नहीं; कर्म अभ्रथी उंचा ज्ञानी जाग्यारे,
 स्वप्नामां जेद खेद प्रगटे सही. आतम० ॥ १० ॥
 अगुरु लखुछे आतम निज अनुभवतोरे, तेनीरे आ-
 गळ कर्म ते शुं को; बुद्धिसागरआतमरविझळ-
 हळतोरे, केवलज्ञानज्योतेरे प्रचुपदने वरे. आतम०
 ॥ ११ ॥ ॐ प० गोत्रकर्मविनाशाय, नैवेद्यं
 य० स्वाहा ॥

३६८

अष्टमी अंतरायकर्मसूदनार्थं फलपूजा.

दान लाभने जोगने, वीर्य अने उपभोग; पांच तणां आवर्णने, हणतां निजगुणयोग. ॥ १ ॥ अंतराय हणवा भवी, फलथी पूजो देव; द्रव्यजावथी शक्तिने, पामो करी जिनसेव. ॥ २ ॥ दानादिक आवर्णनो, क्षयोयशम क्षय थाय, दानादिक निज शक्तियो, प्रगटे धर्म सुहाय. ॥ ३ ॥

(वाजां वाण्यांरे प्रभु दरवाररे, मोहन वाजां वागियां. ए राग.)

मुक्तिफलने पामवा हेतेरे, फले प्रभु पूजीए; सर्व इच्छाओ करीने निरोधरे, निजातम रीजीए;— गुणपर्यायदान निज दीजीए, चिदानंदनो लाभज निजरे. फले०॥ गुणपर्याय भोगोपभोगमां, परपुद्गलनी नही खीजरे. फले० ॥१॥ शुद्ध आतमवज्र प्रगटावीए, दुष्ट टाळीए पशुबल वेगरे. फले०॥ मन इन्द्रियोमां पशुबल वसे, तेथी करीए नहिं अविवेकरे. फले० ॥ २ ॥ लब्धि शक्तिओने प्रगटावीए, नही रीजीए खीजीए वाझरे. फले० ॥ परमार्थमां तनमन वापरो, करो विश्वमां सारां काजरे. फले० ॥ ३ ॥ जैनधर्मने संघनी उन्नति, करवामां होमशो सर्वरे, फले० अणशक्तिए खेद न कीजीए, होय शक्ति

३६९

ठतां नहि गर्वरे. फले० ॥ ४ ॥ देवगुरुने धर्मनी भ-
 क्तिमां, मृत्यु थातां न हठीए लगाररे, फले०॥ खेद
 भय अने द्वेषने त्यागीए, करो परमार्थो नरनाररे.
 फले० ॥ ५ ॥ समजावथी कर्मातरायनो, क्षयोपशम
 क्षय झट थायरे, फले॥ दानदानादि वापरो जावथी,
 थतां निष्काम मुक्ति सुहायरे. फले० ॥ ६ ॥ जीव
 अजीव उपकार सहजछे, एतो थाय परस्पर जाणरे.
 फले० ॥ दानादिकप्रवृत्तिनिवृत्तिमां, शुद्ध उपयोग
 दृष्टि प्रमाणरे. फले० ॥ ७ ॥ देशो तेवुंज नक्की
 पामशो, वावो तेवुं फले निर्धाररे, फले० ॥ बाह्यफल
 मिषशिवफल पामवा, लहो सहजसमाधिसाररे.
 फले० ॥ ८ ॥ ज्ञानपरमानंदफल जीवतां, लही
 मुक्तिअनुभव थायरे. फले० ॥ सर्वकर्तव्य कर्मो कर्या
 करो, तेथी शक्तियो प्रगटी सुहायरे. फले० ॥ ९ ॥
 शुद्ध आतमप्रभुमहावीरछे, एवा निश्चयथी जाय
 दुःखरे, फले० ॥ बुद्धिसागरशुद्धप्रभु विभु, आपोआप
 अनंतसुखरे. फले० ॥ १० ॥

३७०

कलश ॥

गायो गायोरे महावीरजिनेश्वर गायो, अष्ट-
 कर्मनिषूदनहेते, अष्टधापूजा गायोरे. महावीर०
 आतम साथे काल अनादि, कर्मबंध व्यवहारे; कर्म-
 नो कर्ता भोक्ता आतम, रागद्वेषविकारेरे. महा-
 वीर० ॥ १ ॥ बंध उदय उदीरणा सत्ता, कर्मभेद
 व्यवहारे; प्रारब्ध संचितने क्रियमाण ज, अशुद्धनय
 उपचारेरे. महावीर० ॥ २ ॥ सम्यग्ज्ञान वैराग्य ने
 त्यागे, वर्ते साक्षीजावे; कर्मशुजाशुभसुखदुःख
 फळने, वेदो समतादावेरे. महावीर० ॥ ३ ॥ ज्ञान
 ध्यानथी क्षणमां मुक्ति, निर्मोह कर्म करंतां, गृहीने
 त्यागी निज अधिकारे, गुणकर्मे विचरंतारे. महा-
 वीर० ॥ ४ ॥ द्रव्यार्थिकशुद्धनयदृष्टिए, कर्मनो
 कर्ता न हर्ता; आतम सत्ताए निर्लेपी, बे नय समजे
 संतारे. महावीर० ॥ ५ ॥ व्यवहारने निश्चय बेन-
 यथी, सापेक्षाए जाणो; निश्चयदृष्टिना उपयोगे,
 रहीने अनुभव म्हाणोरे. महावीर० ॥ ६ ॥ पुण्य
 पाप बे भेदमां आठे,—कर्मां समाश् जातां, आस्रव-
 मांही पुण्य पाप बे, अंतर्जावी थातारे. महावीर०
 ॥ ७ ॥ तमोरजोगुणसत्त्वनीवृत्ति, मोहनीमांही
 समाती; मोहनी जीते जीत्यां बाकी, सम्यग्दृष्टि

३७१

सुहातीरे. महावीर० ॥ ८ ॥ रागरीस अरि जीत्या
 अरिहंत, महावीरकेवलज्ञानी; प्रभुए कर्मस्वरूप
 प्रकाश्युं, समजे समकीती ज्ञानिरे. महावीर० ॥ ९ ॥
 पुनर्वैधक नहींठे ज्ञानी, नहीं पुद्गल अभिमानी;
 अल्पबंध महानिर्जरा करतो, निर्मोहजावे ध्यानीरे.
 महावीर० ॥ १० ॥ सम्यग्ज्ञाने बळियो आतम,
 अज्ञाने बळियुंठे कर्म; कर्मनिकाचितप्रारब्ध
 भोगमां, उपयोगे आतमशर्मरे. महावीर० ॥ ११ ॥
 ओगणिस अठयोत्तरकार्तिकसुदि, आठम मंगल-
 वारे; पूजी रचीने आनंद पाम्यो, प्रभुवाणीना
 प्यारेरे. महावीर० ॥ १२ ॥ सानंद शहेरमां चोमासुं
 कर्तुं, संघनी भक्तिठे सारी; जिनवर महावीरपट्टपरं-
 परा, तएगच्छ जगजयकारीरे. महावीर० ॥ १३ ॥
 जगगुरुहीरविजयसूरिराजा, पट्टपरंपरा छाजे, श्री
 नेमिसागर रविसागरजी, सुखसागरगुरुगाजेरे.
 महावीर० ॥ १४ ॥ गुरुकृपाए पूजा रची शुभ,
 संघमां आनंदकारी, बुद्धिसागरसूरिमंगल, जिन-
 शासन जयकारीरे. महावीर० ॥ १५ ॥

ॐ प० अंतरायकर्मनाशार्थं फलं य० स्वाहा ॥

३७२

षडावश्यकपूजा.

श्रीपरमेश्वरवीरजिन, चोवीशमा जिनराज;
 त्रिशलानंद जगधणी, सर्वदेवशिरताज. ॥ १ ॥
 समवसरणमां बेसीने, भाख्यो साचो धर्म; षट् आ-
 वश्यक भाखियां, गृही साधुनां कर्म. ॥ २ ॥ षट्
 आवश्यककर्मथी, चित्तनी शुद्धि थाय. मनशु-
 द्धिथी आत्मा, केवलज्ञानने पाय. ॥ ३ ॥ सामा-
 यिक चउविशजिन—, स्तव गुरुवंदन बेश; प्रतिक्रमण
 आवश्यके, नासे कर्मना कलेश. ॥ ४ ॥ कार्योत्स-
 र्गने आदरे, करतां प्रत्याख्यान; आत्मशुद्धिथी प्रग-
 टतुं, सहेजे केवलज्ञान. ॥ ५ ॥ षडावश्यकनी रचुं,
 पूजा द्रव्यने भाव; जेदे उपयोगे भली, भवोदधिमां
 नाव. ॥ ६ ॥ अष्टप्रकारे पूजना, प्रत्येक पूजा दीठ;
 आत्मानुज्ञव पामवा, ज्ञानक्रियार्थी मिष्ट. ॥ ७ ॥

प्रथमा सामायिकआवश्यकपूजा.

सामायिक करतां थकां, रागद्वेषविनाश; क्ष-
 णमां केवल उद्भवे, नासे भाव उदास ॥ १ ॥
 अनंतजीवो पामिया, समतायोगे मुक्ति; समतावण

३७३

मुक्ति नहीं, साथे कोटि युक्ति. ॥ २ ॥ सर्वधर्म
मतपंथमां, समत्वथी ठे मोक्ष; समत्वपणुं सहु ध-
र्ममां, मुक्तिभाव परोक्ष. ॥ ३ ॥ सर्वव्रतादिक सार
छे, समता धारो भव्य; समत्व सामायिक भलुं, आ-
वश्यक कर्तव्य. ॥ ४ ॥ नयव्यवहारथी बेघमी,
आराधो नरनार; निश्चयसमता हेतुछे, सेवो भवि
सुखकार. ॥ ५ ॥ चउनिक्षेपे धारीए, सातनये ते
जाण; द्रव्यज्ञावथी सेवतां, प्रगटे सम्यग्ज्ञान.
॥ ६ ॥ समताभावछे सर्वदा, त्यागीनिश्चयभाव;
समता ते चारित्रछे, उपयोगे दिल लाव. ॥ ७ ॥

(प्रभुपडिमा पूजीने पोसह करीएरे—ए राग.)

समताभावे सामायिकमां रहीएरे, सामायिक
योगे शिवसुख थायछे; समज्ञावे रहेवाथी अनुभव
जागेरे, स्थिरताना योगे तत्त्व जणायठे, अंतरना
उपयोगे धर्म ग्रहाय छे, चंचलता मननी दूरे जाय
छे; वैराग्ये ज्ञाव भलो परखाय छे, धन्य धन्यरे सम-
ताज्ञाव सुहाय छे. अंतरण ॥१॥ गुरुमुखथी सामायिक
उच्चरे श्रावकरे, लाखचोराशी जीवयोनिने खमा-
वतो; दश मनना दश वचनना द्वादश कायारे, व-
त्रीशदोषो टाळी आतम भावतो. अंतरण ॥ २ ॥

३७४

पिंडस्थादिक चारध्यानने धरीएरे. वरीएरे धर्म
 शुक्ल बे ध्यानने; आर्त रौद्र बे ध्यान बूरां परिह-
 रीएरे, तजीएरे माया ममता मानने. अंतरण ॥ ३ ॥
 धर्मग्रंथने ज्ञणीए गणीए ज्ञावेरे, विकथानी वातो
 लेश न कीजीए, द्रव्यने गुणपर्यायथी वस्तु विचारीरे,
 वस्तुस्वभाव धर्म ग्रहीने रीझीए अंतरण ॥ ४ ॥
 स्थिरउपयोगे ध्यानसमाधि वरीएरे, झळकेरे
 ज्योति आतमरामनी; श्वासोश्वासे अजपाजापे स्म-
 रीएरे, वाटेरे चालो अविचळ धामनी. अंतरण ॥ ५ ॥
 आत्मज्ञानथी सत्यसमाधि पामोरे, वामोरे रागद्वेष
 बे दोषने; मैत्री प्रमोद करुणामाध्यस्थ विचारोरे;
 धारीरे निरुपाधिसुखपोषने. अंतरण ॥ ६ ॥ नय
 नाक्षेपे सामायिकने समजीरे, कीजीये सामायिक
 शिववेलकी; समतामृतभोजनथी प्रगटे शान्तिरे,
 समतानी आगेरे जुं छे ? शैलडी. अंतरण ॥ ७ ॥
 सिद्धसमा समताथी सर्वे जीवोरे, भटकेरे कर्मथकीं
 संसारमां; कर्मदोष त्यां जाणी जीव खमावोरे, सम-
 तानो ल्हावोरे मनु अवतारमां. अंतरण ॥ ८ ॥ जाग !
 जाग ! चेतन तुं सामायिकमांरे, मुंझीश नहि मुसा-
 फर मायाजाळमां; बुद्धिसागर सामायिक उपयोगेरे,
 गाळोने जीवन सह्य कल्याणमां. अंतरण ॥ ९ ॥

३७५

सामायिक निज आतमा, समता परिणतियोगेरे;
परमानंदना भोगमां, वर्ते निज उपयोगेरे; वीर जि-
नेश्वर चाखता, आत्मस्वभावे रहेशोरे; विश्वस्वभावे
नहीं रहो, शुद्धपरिणति वहेशोरे. वीर० ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परम० सामायिकार्थं जलं, चंद्रं,
पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, यजामहे स्वाहा.

द्वितीया चतुर्विंशतिस्तवपूजा.

चोवीशजिनवरने नमो, वंदो पूजो नव्य,
स्तवो भक्ति बहुमानथी, ए वीजुं कर्तव्य. ॥ १ ॥
चोवीशतीर्थकर प्रभु, वीतरागभगवंत; स्तवतां
ध्यातां आतमा, पामे भवनो अंत. ॥ २ ॥ चंद्रसमा
निर्मल सदा, रविथी अनंतप्रकाश; एवा चोवीशठे
विभु, ध्यातां आत्मविलास. ॥ ३ ॥ सागरवत् गं-
चीर जे, सिद्धगति दातार; प्रभुमयं थै प्रभुने स्तवे,
स्वयं प्रभु निर्धार. ॥ ४ ॥

(हे सुखकारी आ संसारथकीजो मुजने उद्धरे. ए राग.)

जग उपकारी चोवीश तीर्थकर मुज मनमांही
वस्या, प्रभु जयकारी शुद्धात्म उपयोगे अंतर उ-

३५६

ह्यस्या, चोविश जिनस्तव भावे करतां, अंतरूमां उप-
 योगे वरतां, घातीकर्मो वेगे खरतां, नरनारी केवल
 पद वरतां. जग० ॥ १ ॥ एकतान प्रचुसाथे जागे,
 मनडुं वते प्रभुना रागे; श्रद्धाप्रीतिलय जो लागे,
 मनडुं वते चववैराग्ये. जग० ॥ २ ॥ प्रभु ज्ञेय स्व-
 चावे घट आवे, कर्तव्य सकलयोगे थावे; आतम
 निर्लेपपणुं भावे, आतम परमातम थै जावे. जग०
 ॥ ३ ॥ परमातमने दिलमां धारो, आविर्भावे घट
 उजियारो; नहीं नामरूपनो अहंकारो, कर्तव्य करे
 आवे पारो. जग० ॥ ४ ॥ चोवीश जिनवर साथे
 प्रीति, तेथी नासे सघळी चीति; प्रगटे जगमां
 साची नीति, प्रामाणिकता साचीरीति. जग०
 ॥ ५ ॥ मुजध्याने ध्येयपणे आवो, मुज ज्योते हो
 आविर्भावो; एकमेकस्वरूपेछे ल्हावो, परमानंदे
 प्रगटे दावो. जग० ॥ ६ ॥ सर्वे जिनवरपूजा गावो,
 वंदो प्रणमो प्रेमे ध्यावो; ध्येयाकारे घट प्रणमावो;
 प्रभुसम निज आतम प्रकटावो. जग० ॥ ७ ॥ प्रभु
 स्तवतां केवलने मुक्ति, भक्ति आवश्यकनी रीति;
 प्रभु स्तवतां प्रगटे गुणनीति, आचारे रहे नहि
 दुर्नीति. जग० ॥ ८ ॥ प्रभुरूपे अकय बनी भळवुं,
 प्रभुज्योते ज्योतथकी मळवुं; पछी जगमां नहिछे

३७७

अवतरवुं, प्रभु प्रार्थीं निश्चयपद वरवुं. जग० ॥ ९ ॥
 प्रभु वीरबोध मनमां वसियो, चोविशजिन स्तव-
 नानो रसियो; बुद्धिसागरप्रभु उद्धसियो, शुद्धातम
 नावे विकसियो, जग० ॥ १० ॥

ॐ प० चतुर्विंशतिस्तव आराधनार्थं जलं०
 य० स्वाहा ॥



तृतीया गुरुवन्दन आवश्यकपूजा.

दुहा.

आवश्यक गुरुवन्दना, प्रतिदिन त्रणये काल,
 करतां ज्ञानादिक गुणो, प्रगटे मंगलमाल. ॥ १ ॥
 श्रद्धा प्रीति चावधी, गुरु वंदंतां ज्ञान; गुरुवण ज्ञान
 न थाय छे, गुरुवण होय न सान. ॥ २ ॥ विधिपूर्वक
 गुरुवन्दना, करतां नासे कर्म; शुद्धातम घट उल्लसे,
 प्रगटे साचो धर्म. ॥ ३ ॥ गुरुदीवो गुरुदेव ठे; गुरुनो
 सत्याधार; गुरुवण मुक्ति न कोइनी, समजो नरने-
 नार. ॥ ४ ॥ वंदो पूजो सहुरु, प्रगमो वारंवार;
 सूरिवाचक यतिसंघनी, भक्ति सदा फळनार. ॥ ५ ॥

४८

३७८

गुरुवंदन आवश्यक, पाम्या मुक्ति अनंत; चउनि-
क्षेपे नये भला, सेवो सद्गुरुसंत. ॥ ६ ॥ कृणपण
सद्गुरु संगति, टाळे राग्ने रीस; समकितप्रद गुरु
भक्तिथी, मुक्ति विश्वावीस. ॥ ७ ॥

(ध्यानक्रिया मनमां आणीजे. ए राग.)

जगगुरु महावीर जिन जयकारी, वंदु वार हजा-
रीरे; गुरु वंदन आवश्यक जाख्युं, जेथी तरे नरना-
रीरे. जग० ॥ १ ॥ गुरुवंदनमां मुज मन राचे, गाजेज्युं
घन मोर नाचेरे; रीझे नहि मन कुगुरुकाचे, स्वार्प-
णता ठे साचेरे. जग० ॥ २ ॥ गुरुवंदनथी केवल
वरिया, अनंतजीवो तरियारे; लघुता विनयवडे
संचरिया, गुरुनक्ते जे भरियारे. जग० ॥ ३ ॥ सद्-
गुरूरागे गुण सहू आवे, दुर्गुण सघळा जावेरे; गुरु-
पदेशे श्रद्धाभावे, शक्ति सकळ प्रकटावेरे. जग०
॥ ४ ॥ सर्व खमावुं कृत अपराधो, सद्गुरु जगमां
लाध्योरे; तुज कृपाए अनुभव वाध्यो, साधनथी प्रभु
साध्योरे. जग० ॥ ५ ॥ विधिपूर्वकगुरुवंदन होशो;
दुर्गुण स्हामुं न जोशोरे; माफ करो गुरु म्हारा दोषो,
मुज आतमने पोषोरे. जग० ॥ ६ ॥ एवी रीते गुरु
वंदन करता, गुरु सदा अनुसरतारे; समकिती गृही

३७६

त्यागी गुण वरता, जवपाथोधि तरतारे. जग० ॥७॥
 दोषदृष्टि त्यागी गुरुरागी, शिष्य जक्त वडभागीरे;
 बुद्धिसागरसद्गुरुवंदन, करतां लगनी लागीरे.
 जग० ॥ ८ ॥ ॐ प० गुरुवन्दनावश्यक आराधनार्थ
 ज० य० स्वाहा ॥

चतुर्थी प्रतिक्रमणावश्यकपूजा.

दुहा.

प्रतिक्रमण करवायकी, आतमशुद्धि थाय.
 आत्माभिमुख भावथी, प्रतिक्रमण कहेवाय. ॥ १ ॥
 अतिचारादिक दोषथी, पाछा फरवुं जेह; पापतणुं
 करवुं नहीं, प्रतिक्रमण छे तेह. ॥ २ ॥ पंच प्रतिक्र-
 मणां कथ्यां, आतमशुद्धिहेत; द्रव्यजाव करतां
 थकां, मुक्तिनो संकेत. ॥ ३ ॥ प्रतिक्रमणने जाणता,
 सातनयोथी जेह; चउनिक्षेपे आदरे, दोष रहे नहि
 रेह. ॥ ४ ॥ निंदो गहों दोषने, खमो खमावो जीव,
 कर्मजेद दूरे टळे, पामो आतमशिव. ॥ ५ ॥

३८०

(ए व्रत जगमां दीवा मेरे प्यारे, ए व्रत जगमां दीवो. ए राग.)

महावीर प्रभु जयकारीहो, जगपति ! महावीर प्रभु जयकारी, प्रतिक्रमण आवश्यक जाख्युं; सर्व जीव हितकारी, दुर्गुण दोषर्था पाछा फरवुं, प्रतिक्रमण जयकारी हो. जगपति महावीर० ॥ १ ॥

गृही त्यागी व्रत समकितमांही, अतिचारादिक लाग्या; निंदे गर्हे फरी करे नहीं, प्रतिक्रमणे तेह जाग्याहो. जगपति० ॥ २ ॥ क्षयोपशमीसमकित चारित्रे, वारंवार छे दोषो; तेमाटे प्रतिक्रमणावश्यक, करी आतमगुण पोषोहो. जगपति० ॥ ३ ॥ दोषने गुण निरीक्षण करतां, प्रायश्चित्तने धरतां, निंदी गर्हीं निजगुण वरतां, जवि नरनारी तरतां हो. जगपति० ॥ ४ ॥ मोहीना मन मीठी कहेणी, पण कडवी ठे रहेणी; कहेणी प्रमाणे थातां रहेणी, चढशो मुक्ति निसरणी हो. जगपति० ॥५॥ मनवचनकायाप्रतिक्रमणर्था, मनवचनकायाशुद्धि; क्षण क्षण उपयोगे पडिक्रमणुं, करतां चिदानंदऋद्धिहो. जगपति० ॥ ६ ॥ आतमना उपयोगे ध्याने, नहि आवश्यक करणी; शुभाशुभपरीणामनिवृत्ति, भवपाथोधितरणीहो. जगपति० ॥ ७ ॥ चउनिक्षेपे सातनयोर्था,

३८१

प्रतिक्रमण अवधारो, निज निज अधिकारे प्रतिक्र-
मतां, शुद्ध यता आचारोहो. जगपति० ॥ ८ ॥
अप्रशस्य कषायप्रवृत्ति, प्रतिक्रमता संसारी; प्रति-
क्रमणथी क्षणमां मुक्ति, पाम्या घणा नरनारीहो.
जगपति० ॥ ९ ॥ पंच पडिक्रमणां व्यवहारे, निश्चय
निज उपयोगे; जाणीने वर्ते जे भावे, रहे न भवजय
रोगेहो. जगपति० ॥ १० ॥ पश्चात्तापथी भूलो ख-
मावो, खमो दुर्गुणने हठावो; बुद्धिसागरसद्गुरु
संगे, आनंदमंगल पावोहो. जगपति० ॥ ११ ॥

ॐ० प० प्रतिक्रमणाराधनार्थं ज० य० स्वाहा॥

पंचमी कायोत्सर्गाविश्यकपूजा.

देह छतां जेने जरा, रहे न देहाध्यास; कायो-
त्सर्ग ज जाणवो, आतमध्यानाभ्यास. ॥ १ ॥ द्रव्य
भावथी जाणवुं, कायोत्सर्ग स्वरूप; आवश्यकविधि
योगथी, नासे भवजयधूप. ॥ २ ॥ शुद्धातम उप-
योग छे, कायोत्सर्ग प्रमाण; निश्चयनयथी आदरे,
प्रगटे केवलज्ञान. ॥ ३ ॥ व्यवहारे विधिथी करो,

३८२

टाळो मनना दोष; दर्शनज्ञानने चरणनी, शुद्धि प्रगटे पोष. ॥ ४ ॥

(हम मगन भये प्रभु ध्यानमां. ए राग.)

प्रभु महावीर जिनवर ध्याइए, ध्याइए ध्या-
इए ध्याइए, प्रभु० । कायोत्सर्ग करो गुण हेते, आव-
श्यकदिल धारिये; देहादिकजन्मवस्तुथी न्यारो,
आतम शुद्ध विचारिये. प्रभु० ॥ १ ॥ देहछतां
नहि देहनी समता, धर्मे तनु व्यापारीए; शुद्धातम
उपयोगे रहीने, परमानंदमां म्हालीए. प्रभु० ॥ २ ॥
दर्शन ज्ञान चरणनी शुद्धि, काउसग्गयोगे कीजीए;
देहादिकमोहसागर उपर, ज्ञाने तरंतां रीझीए.
प्रभु० ॥ ३ ॥ काउसग्गयोगे क्षणमां केवल, मुक्ति
अनंता पामिया; शुभअशुभपरिणाम त्यजीने,
शुद्धस्वरूपे जामिया. प्रभु० ॥ ४ ॥ शुद्धातम उप-
योगे रहेतां, सर्व प्रभुने ध्याइया; निश्चयनयथी एका-
तममां, सर्व जिनेश्वर आविया. प्रभु० ॥ ५ ॥ व्यव-
हारथी विधि काउसग्ग करवो, एम सापेक्ष विचा-
रीये, आतमशुद्धिहेते साधन, हठकदाग्रह वारिये.
प्रभु० ॥ ६ ॥ द्रव्यभाव व्यवहारने निश्चय, नयसा-
पेक्षे जाणीए; सांज सवारे आवश्यकने, रहेणीमांही

३८३

आणीए. प्रभु० ॥ ७ ॥ मोहादिककर्मों झट विण
 से, मानवचव नहिं हारिए; प्रभुनी साथे तन्मय
 थैने, मोही मनहुं मारीए. प्रभु० ॥ ८ ॥ गृही त्या-
 गीने आवश्यक छे, नित्यनी करणी कीजीए,
 बुद्धिसागरमंगलमाला, परमानंदपद लीजीए.
 प्रभु० ॥ ९ ॥ ॐ० प० कायोत्सर्गाराधनार्थ ज०
 य० स्वाहा ॥

छठी प्रत्याख्यानावश्यकपूजा.

ठठुं आवश्यक करो, भावे प्रत्याख्यानः द्रव्य-
 भाव वे कर्मनो, नाश थतो जवी जाण. ॥ १ ॥ सर्व
 शुजाशुभवांठना, त्याग ज प्रत्याख्यान; निश्चयथी
 ए आदरे, प्रगटे केवलज्ञान. ॥ २ ॥ आसक्तिनो
 त्याग ते, निश्चय प्रत्याख्यान; रागद्वेषने परिहरे,
 प्रत्याख्यान प्रमाण. ॥ ३ ॥ द्रव्यथी प्रत्याख्यानना,
 अनेकचेदो जोय; साध्यतणा उपयोगथी, साधन
 सफळां होय. ॥ ४ ॥ आतम तावे मन थतां, वर्ते
 प्रत्याख्यान; ग्रहणत्यागबुद्धिविना, सहजयोगथी
 मान. ॥ ५ ॥

३८४

श्रीपालना रासनी देशी.

(जिमतरु फूले भमरो बेसे. ए राग.)

प्रभु महावीरने वंदो पूजो, गावो प्रणमो ध्यावो,
 प्रत्याख्यान जिणे उपदेश्युं, जावथी मनमां लावोरे,
 भविका, प्रत्याख्यानने धारो, थाय सफळ अवता-
 रोरे. भविका० ॥ १ ॥ व्यवहारथी पच्चखाणने क-
 रिये, मनपर काबू धरिये; गुरु पासे पच्चखाण उच्च-
 रिये, कर्म निकाचित हरियेरे. जविका० ॥ २ ॥ अश-
 नादिक इच्छा संवरीये, सुखदुःखसमता वरिये,
 कर्म अनंतां क्षण निर्जरीए, आतमने उद्धरिपरे.
 जविका० ॥ ३ ॥ पापकर्म इच्छाओ त्यागो, आतम
 भावे जागो; परपरिणामथी दूरे भागो, परपुद्गल
 नहीं मागोरे. भविका० ॥ ४ ॥ भोगादिक इहाओ
 छंको, निज आतमरढ मंडो; काढो मोहतणो पग
 दंडो, छंको मिथ्याघमंडोरे. भविका० ॥ ५ ॥ दुष्टे-
 च्छाओ दूर निवारो, कामेच्छाओ वारो; हिंसादिक
 वृत्ति संहारो, आतममां प्रेम धारोरे. भविका० ॥६॥
 कायिकसुखमाटे जे जोगो, निश्चय तेह ठे रोगो;
 तेना जे प्रगटे संयोगो, वेदो निर्वेद योगोरे. भविका०
 ॥ ७ ॥ आतमवण अन्य इहा सर्वे, ते त्यागो पच्च

३८५

खाणो, निकाचितभोगो भोगवतां, विषमभाव न
आणोरे. भविका० ॥८॥ जीवो अनंता मुक्ति पाम्या,
प्रत्याख्यानना योगे; बुद्धिसागर आनंदमंगल, वर्तो
निजगुणज्ञोगे हो. जविका० ॥ ९ ॥

कलश.

गायो गायोरे महावीर जिनेश्वर गायो. ॥ त्रिश-
खानंदन आनंदवर्धन, वर्धमान जिनरायो, चोवी
शमा तीर्थकर ईश्वर, परमब्रह्म सुहायोरे. महावीर०
॥ १ ॥ षष्ठावश्यकपूजा रचीने, पूज्याप्रभु हर-
खायो; आनंदमंगल घटमां पायो, शुद्धोपयोगे रमा-
योरे. महावीर० ॥२॥ ओगणिश अठयोत्तर कार्तिक
सुदि, नवमी बुध सुहायो; सानंदशहेरमां आनंद
ल्लेहेरे, पूजा रची गुण पायोरे. महावीर० ॥ ३ ॥
वीरजिनेश्वरपट्टपरंपरा, तपगच्छीगुरुराजा; हीर-
विजयसूरिशासनधोरी, नारतमुनिशिरताजारे.
महावीर० ॥ ४ ॥ वाचकसहजसागरगुरु मोटा,
पट्टपरंपरा राजे, श्रीनेमिसागर रविसागरगुरु,
मैघपरे जग गाजेरे. महावीर० ॥ ५ ॥ श्रीरविसागर
शिष्यसनूरा, पट्टधर गच्छना राजा; श्री सुखसागर
सद्गुरु प्रणमुं, सागरपेठे माझारे. महावीर० ॥ ६ ॥

४९

३८६

गुरुकृपाथी पूजा रची शुभ, सर्वजीवसुखकारी,
 बुद्धिसागर आनंदमंगल, शांति तुष्टि करनारीरे.
 महावीर० ॥ ७ ॥ षडावश्यकपूजा सुणे जे, जणे
 भणावे भावे; सकल संघमां आनंद मंगल, घर घर
 शांति थावेरे. महावीर० ॥ ८ ॥ ॐ० प० प्रत्याख्या-
 नाराधनार्थं ज० य० स्वाहा ॥

३८७

अष्टप्रकारी पूजा.

दुहा.

श्री संखेश्वर पार्श्वजिन, पुरीसादाणी जेह; पद
पंकज नमी तेहना, रचना रचुं गुणगेह. ॥ १ ॥
पूजा अष्टप्रकार छे, आद्य न्हवण जयकार; चंदन
कुसुमने धूपनी, पंचमी दीप मनोहार. ॥२॥ अक्षत
नैवेद्य फलतणी, पूजा अष्टप्रकार; करतां शिवसुख
संपजे, पामीजे भवपार. ॥३॥ द्रव्य ज्ञाव भेदेकरी,
पूजे जे जिनराय; पूजा करतां प्राणिया, पूजक प-
दवी पाय. ॥ ४ ॥ शुज सिंहासनमां प्रभु, पद्मिमा
स्थापी सार; समयविधि अनुसारथी, पूजीजे सुख-
कार. ॥ ५ ॥

१ प्रथमा जलपूजा.

(अनिहारे जिनमंदिर रलियामणुरे-ए देशी.)

बहुभावे सुरवरकोडाकोडी मिलीरे, प्रभुने सुर-
गिरि लइ जाय; आठजाति कलशा भरीरे, प्रचुन्ह-
वण करे सुरराय. सुरवरकोडा ॥ १ ॥ बहुजावे
नाचे राचे जिनप्रेमथीरे, अभिषेक करी हरखाय;
तिम प्रभुपूजा करतां थकारे, ज्ञव्यातम निर्मल थाय.
सुरवरकोडा ॥ २ ॥ बहुभावे विप्रवधू जल रेडतीरे;

३८८

जिनपद्मिमापर सुखकार; स्वर्गादिकसुख पामतीरे,
तिम भविजन वतों सार. सुरवरकोमा० ॥ ३ ॥

(धन धन संप्रति साचो राजा-ए देशी.)

शमजलथी निज चेतन निर्मल, थाय कहे जिन-
वाणीरे; शमजलथी शुद्ध चेतन अर्चन, करतां भव-
जय हाणीरे. शमजलपूजा चेतन करीए. ॥ १ ॥
मिथ्यात्वाविरति कषायने योग, तेथी कर्म बंधायरे;
चारगतिमां भटके चेतन, विविधदुःखने पायरे.
शम० ॥ २ ॥ गजसुकुमालजी शमजल पूजा, करतां
बहुसुख पाम्यारे; स्कंधकसूरिना शिष्यो तेमज,
कर्मपंक झट वाम्यारे. शम० ॥ ३ ॥ मुनिमेतार्ये श-
मजल पूजा, चेतननी जिम कीधीरे; ज्ञाव न्हवण-
शम चेतन अर्चन, करतां शिवफलसिद्धिरे. शम०
॥ ४ ॥ ज्ञावपूजा साधु अधिकारी, द्रव्य भाव दोय
श्राद्धरे; बुद्धि शिवसुख पामे शाश्वत, होवे निरावा-
धरे. शम० ॥ ५ ॥

ॐ ह्रीं श्री परमपुरुषाय, परमेश्वराय, जन्मज-
रामृत्युनिवारणाय, श्रीमते, जिनेन्द्राय, जलं यजामहे
स्वाहा. ॥

३८९

२ द्वितीया चंदनपूजा.

दुहा.

बीजी चंदन पूजना, करतां पाप पलाय; मि-
थ्यादोष अनादिनो, टळतां शिवसुख थाय. ॥ १ ॥
पुद्गलसंगे आतमा, दुर्गधियुत जाण; सुगंधे जिन
पूजतां, सुवासित मन आण. ॥ २ ॥

(सुण बहेनी पियुडो परदेशी-ए देशी.)

चंदन पूजा करो शुचज्जावे, जिनवरनी सुख
काजेरे; चंदनसम चेतन शीतलता, थातां शिवसुख
छाजेरे. चंदन० ॥ १ ॥ केसर-चंदन घसी जयणाये,
मांहे घनसार मिलावोरे; रजतकचोखीमांहे ठवीने,
प्रभु पूजा विरचावोरे. चंदन० ॥ २ ॥ चंदनपूजा
योगे जयसुर,-शुचमति शिवसुख पाभेरे; तिम भवि-
जन चंदनपूजाथी, ठरता अविचल ठामेरे. चंदन० ३

(बीर जिनेश्वर उपदिशे.-ए देशी.)

चंदनसमकित जावथी, पूजन चेतन कीजेरे;
मिथ्यामल दूरे करी, अविचल पदवी लीजेरे. चंदन०
दोषअढाररहितप्रभु, देवतत्त्व मन आणोरे; सुसाधु
सुरुतत्त्व ठे, द्रव्य क्षेत्र काल जाणोरे. चंदन०
॥ २ ॥ जिनवर जाषित सत्य छे, धर्मतत्त्व चित्त

३९०

लावोरे; द्रव्य समकित अवलंबतां, जावसमकित गुण पावोरे. चंदन० ॥ ३ ॥ क्षायिक समकित चंदने, जे नवि चेतन वासेरे; मिथ्यामत दूर वासना, तेहयकी दूर नासेरे. चंदन० ॥४॥ द्रव्यथी समकित छंकीने, जावसम्यक्त्व जे थापेरे; ते तस खप करतां थकां, किम करी भवभय कापेरे. चंदन० ॥ ५ ॥ समकित गुणवडे पूजना, चेतननी जे करशेरे, बुद्धिसागर सुख लही, मुक्तिवधू झट वरशेरे. चंदन० ॥ ६ ॥
ॐ ह्रीं श्री परम पुरुषाय० चंदनं यजामहे स्वाहा.

३ तृतीया कुसुमपूजा.

दुहा.

पूजा त्रीजी पुष्पनी, करीए आणी भाव; पूजा-थी पूजकपणुं, लहीए आपस्वभाव. ॥ १ ॥ सुवासित सुक्षेत्रथी, उपन्यां पुष्प रसाक्ष; लावी अर्चा जिन करो, होवे मंगलमाल. ॥ २ ॥

(साहेलडियांनी देशी.)

कुसुम पूजा जिननी करो, सुखकारिका । जिम नवन्नय दूर थाय; दुःखवारिका ॥ चंपक-मालती-

३९१

केतकी, सुख॥७॥- सुगंधी फुल लाय. दुःख॥ कुसुम॥१॥
 कीटक खाधुं न लीजीए, सुख० । भूमि पडयुं निर-
 धार; दुःख० ॥ विविधजाति फुलथी, सुख० ॥ पूजा पुण्य
 प्रकार, दुःख० । कुसुम० ॥२॥ मोगरो-जासुलपुष्पथी,
 सुख० । षड्रुतुनां फुल; दुःख० ॥ प्रशस्यआगमे जे
 कद्यां, सुख० ॥ ते लहिये अनुकूल; दुःख० । कुसुम०
 ॥ ३ ॥ वणिकसुता लीलावती, सुख० ॥ पामी जिम
 शिवस्थान, दुःख० । तिम नवि भावे कीजीए, सुख० ।
 पूजा श्री भगवान्. दुःख० ॥ कुसुम० ॥ ४ ॥

(वीरजिनेश्वर उपदिशे-ए देशी.)

सत्य शौच कुसुमेकरी, जे निज चेतन पूजेरे;
 कर्म कलंक अनादिनुं, तेहथकी झट धूजेरे. सत्य०
 ॥ १ ॥ सत्य जे आत्मस्वरूपनी, श्रद्धा मनमां कीजेरे;
 उपनीतादिक भेदने, जाणी सत्य वदीजेरे. सत्य०
 ॥ २ ॥ कूडकपट त्यागी करी, आपस्वभावे रहीएरे;
 त्याग करी परभावनो, शिवसुख सहेजे लहीएरे.
 सत्य० ॥ ३ ॥ मनव्यापारनिवृत्तिथी, शान्ति चे-
 तन पामेरे; आत्म अनुभव जागतां, कर्मरोग झट
 वामेरे. सत्य० ॥ ४ ॥ परपुद्गलप्रयोगथी, चेतन
 चउगति भटकेरे; तेहतणा त्यागेकरी, भमतो चेतन

३९२

अटकेरे. सत्य० ॥ ५ ॥ स्वगुणे करी सत्यछे, आत्म-
राज ऋवि जाणोरे; बुद्धिसागरसुख लही, थावे शि-
वपुर राणोरे. सत्य० ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं श्री परम पु० कुसुमं यजामहे स्वाहा.

४ चतुर्थी धूपपूजा.

दुहा.

चोथी पूजा धूपनी, दशांगादिक जाण; कर्म
न्धनने बाळवा, करता भविक सुजाण. ॥ १ ॥ धूप
करो प्रभु आगळे, शास्त्रवचन अनुसार; करतां
सुख बहु लीजीए, तरीए ऋवजलपार. ॥ २ ॥

(अनिहारं जिनमंदिर रळियामणुरे-ए राग.)

भवि भावे धूपपूजा जिननी करोरे, जिम जावे
भवभयरोग; चूरण शुद्धदशांगथीरे, धूप करतां
नासे शोग. धूपपूजा. ॥ १ ॥ ऋवि भावे धूपधाणुं
वामांगे ठवोरे, अग्रतुरुकघनसार; कुंदरुचंदन उखे-
वतारे, पामीजे ऋवजलपार. धूपपूजा० ॥ २ ॥ ऋवि

३९३

भावे शास्त्रविधि अनुसारथीरे, करिये धूपपूजा शुद्ध,
स्वर्गतणां सुख पामियेरे, वळी लहीए शिवपद बुद्ध-
धूपपूजा० ॥ ३ ॥ ऋवि भावे विनयंधर सुख पाम-
तोरे, धूपपूजाथी विस्तार; तिम भवि भावे करतां
थकारे, बुद्धिशिवसुख निर्धार. धूपपूजा० ॥ ४ ॥

(गिरुआरे गुण तुमतणा-ए देशी.)

ध्यानधूपनी पूजना, करीए भविजन भावेरे,
परपुद्गलदुर्गधता, तेहथकी दूर जावेरे. ध्यानधूप प्रग-
टावीए. ॥१॥ आर्त्त रौद्र दुर्ध्यान छे, धरतां दुःख
बहु लहीएरे, तेनो त्याग करी ऋवि, आपस्वभावे
रहीएरे. ध्यान० ॥ २ ॥ धर्मध्यान शुजगति दीए,
शुक्लध्यान शिव आपेरे; गुणठाणे गुण नपिजे, भवो
भवनां दुःख कापेरे. ध्यान० ॥ ३ ॥ आत्मध्यान
धरतां थकां, दुर्गधी दूर नासेरे; योगसमाधि स्थिर
थावतां, चढीए मोक्ष आवासेरे. ध्यान० ॥ ४ ॥ अ-
स्थिर आ संसारमां, जीवे बहु दुःख सहियारे; नर-
कतणां दुःख जोगव्यां, ते नवि जाए कहियारे. ध्यान०
॥ ५ ॥ चेतन नरक-निगोदमां, वार अनंती भमि-
योरे; चारगतिसंसारमां, अज्ञाने जीव रमियोरे.
ध्यान० ॥ ६ ॥ पुद्गलजामा पहेरीने, चेतन नाटक

३९४

करतोरे; राजा कबहु रंक थइ, पुद्गलसंगे फरतोरे.
 ध्यान० ॥ ७ ॥ रुवे नाचे खेलतो, हसतो खातो
 रोगीरे; कबहु चेतन जोगी ने, कबहु वियोगी शो-
 गीरे. ध्यान० ॥ ८ ॥ कमेंकरी ए सब हुवे, कर्म
 दूर जब थावेरे, बुद्धिसागरसुख लही, चिदानंद
 पदपावेरे. ध्यान० ॥ ९ ॥

ॐ ह्रीं श्री परम० धूपं यजामहे स्वाहा.

५ पंचमी दीपपूजा.

दुहा.

दीपकपूजा जिननी, करीए आणी भाव; आ-
 तमगुणहितकारिका, जवोदधिमांही नाव. ॥ १ ॥
 प्रभु आगळ दीपक धरो, दक्षिण पास सुसाल; द्रव्य
 दीपकनी पूजना, करतां मंगळमाल. ॥ २ ॥

(सुतारीना बेटा तने विनवुंरे लोल-ए देशी.)

जवि जावे दीपकनी पूजनारे लोल, जिन
 आगळ करीए नित्यजो; मिथ्यात्व अनादि निवा-
 रीएरे लोल, प्रभु पूजीए चोखे चित्तजो. प्रभु दीप

३९५

पूजा रळियामणीरे लोल, जेम पूजा करे सुर-इंद्रजौ,
 तेम पूजो भवि जिनचंदजो, लहो शाश्वतशिव
 सुखकंदजो. प्रभु० ॥ १ ॥ धूमअज्ञान नासे वेग-
 लुंरे लोल, शुद्ध आतमरूप प्रगटायजो; रजत-कनक
 -ताम्रनां कोडियारे लोल, तेमां घृत धरो हित ला-
 यजो. प्रभु० ॥ २ ॥ जिनमंदिर वासण मांजियेरे
 लोल, घृतकोडियां मांजिये खासजो; दीपा उघाडा
 नवि मूकीएरे लोल, चित्त होय जो शिवसुखआ-
 शजो. प्रभु० ॥ ३ ॥ दीपपूजाथी जिनमति धनसि-
 रिरे लोल, जेम पामी शाश्वतसुखठायजो; तेम
 भक्तिभावे जिनपूजीएरे लोल, एम बुद्धिसागर
 गुण गायजो. प्रभु० ॥ ४ ॥

(कोइलो पर्वत धुंधलोरे लोल-ए देशी.)

जावदीपक ते ज्ञान ठेरे लाल, भविजन अति सु-
 खकाररे, हुं वारीलाल. ॥ मति अष्टावीश जेदछेरे लाल,
 त्रणसे चालीश तेम धाररे. हुं वारी० जाव० ॥ १ ॥
 चौद वीश भेद श्रुतनारे लाल, पामंतां सुख थायरे;
 हुं० श्रुतज्ञानी केवलीसमोरे लाल, प्रेमे प्रणमो पाय
 रे. हुं० जाव० ॥ २ ॥ अवधि असंख्यप्रकारछेरे
 लाल, मुख्यजेद षट् धाररे; हुं० मनःपर्यव भेद दो

३९६

कक्षारे लाल, केवल एक उदाररे. हुं० भाव० ॥ ३ ॥
 केवलज्ञान प्रत्यक्ष ठेरे लाल, तेहथी सर्व जणायरे;
 हुं० तीर्थकर ते गुण वरीरे लाल, उपदेश दे सुखदा-
 यरे हुं० भाव० ॥ ४ ॥ ज्ञानसहित किरिया कहीरे
 लाल, साचो मोक्ष उपायरे हुं० वस्तु एकांते जे ग्रहे
 रेलाल, जवमां ते भटकायरे. हुं० जाव० ॥५॥ वि-
 नय करो ज्ञानीतणोरे लाल, ज्ञानीतणुं बहुमानरे;
 हुं० भणो भणावो ज्ञाननेरे लाल, लखो लखावो
 ज्ञानरे. हुं० जाव० ॥ ६ ॥ शासन चाले ज्ञानथीरे
 लाल, उपदेश ज्ञानथी थायरे; हुं० समकित प्रगटे ज्ञा-
 नथीरे लाल, मिथ्यात्व दूरे जायरे. हुं० जाव० ॥७॥
 पंचमकाले आधार छेरे लाल, ज्ञान श्रुत निरधाररे
 हुं० छंडो आशातना श्रुततणीरे लाल, पामो जेम
 भव पाररे. हुं० भाव० ॥ ८ ॥ ज्ञान क्रिया अंतर सु-
 णोरे लाल, खजुआ भानु समानरे; हुं० भाव० देशा-
 राधक किरिया कथीरे लाल; सर्वाराधक ज्ञानरे. हुं०
 जाव० ॥९॥ महिमा ज्ञाननो अतिघणोरे लाल, भाख्यो
 ते नवि जायरे; हुं० आत्मस्वरूप समजो भवीरे लाल,
 पामो शिवपुरठायरे. हुं० भाव० ॥१०॥ किरियारहित
 ज्ञान पांगळुरे लाल, आंधळी किरिया तेमरे; हुं०
 ज्ञानने किरिया बेवडेरे लाल, थावे शिवसुख क्षेमरे.

३९७

हुं० जव० ॥ ११ ॥ आखंवन प्रभुनुं ग्रहीरे लाल,
 पूजो चेतन द्रव्यरे; हुं. बुद्धिसागर सुख लहीरे लाल,
 पामो शिवपुर भव्यरे. हुं० जाव० ॥ १२ ॥

ॐ ह्रीं श्री परम० दीपं यजामहे स्वाहा.

६ षष्ठी अक्षतपूजा.

दुहा.

समकित निर्मलकारिका, अक्षतपूजा एह; भवि-
 जन भावे कीजीए, लहीए शिवपुरगेह. ॥ १ ॥ उ-
 त्तमक्षेत्रे नीपन्या, अखंरु नयनानंद; उज्ज्वल तंडुल
 पूजना, करीए श्रीजिनचंद. ॥ २ ॥

(मेरुशिखर न्हवरावे हो सुरपति, मेरु-ए देशी.)

अक्षतपूजा कीजेहो जविका, अक्षतपूजा कीजे,—
 शुभतंडुल उज्ज्वल शुचक्षेत्रे, नीपन्या तेही ज ल-
 हीए; गोधूमथी तेम पूजा कीजे, शुभभावे गहग-
 हीए हो. जविका० अ० ॥ १ ॥ चारगतिचूरकस्व-
 स्तिक प्रभु,—आगे कीजे जावे; त्रणपुंज रत्नत्रयी वरवा,
 करतां भवदुःख जावे हो. भविका० अ० ॥१॥ सि-
 द्धशिलाउपर एक योजन, चौबीसमा तसजागे;

३९८

मोक्षाशिवसिद्धपदनेहेते, सिद्धशिला करो आगे
 हो. भविका० अ० ॥३॥ भवज्वनां पुनरावर्त्त हरवा,
 वरवा शिवपटराणी; नंदावर्त्त करो जवि भावे, होवे
 ज्वज्वहाणी हो. भविका० अ० ॥ ४ ॥ कीरयुगले
 जेम अक्षतपूजा, करतां सुख बहु लीधुं; बुद्धिसा-
 गरशिवसुखसंपदा, पामवा मनडुं कीधुं हो. ज-
 विका. अ० ॥ ५ ॥

(कयुं जाण्युं कयुं बनी आवही.-ए देशी)

शुज्वपरिणाम ते जावथी, अक्षत पूजा सारहो
 जविक; जावरोग दूर टाळवा, औषधसम चित्त
 धारहो जविक !! भावपूजा अतिसुख दीए. ॥ १ ॥
 हिंसा जूठ चोरीतजो, परनारी निरधारहो जविक;
 तनुधनममतापरिहरो, रजनीभोजन अंधकारहो
 भविक !! जाव० ॥ २ ॥ दिसिगमननो नियम करो,
 चौदनियम नित्य धारहो जविक !! बत्रीश अनंतकाय
 तेम, अजक्ष्य बावीस निवारहो जविक ! जाव० ॥ ३ ॥
 कषायमदविकथा वळी, विषय निद्रा त्यागहो
 जविक; चित्तसंतापना हेतु जे, तेथी न धरीए रा-
 गहो जविक ! जाव० ॥ ४ ॥ अहंमममोहमंत्रनो,
 त्याग करो गुणवंतहो जविक; विपरीतमंत्रमननथकी,
 थाओ शाश्वतसुखवंतहो जविक ! जाव० ॥ ५ ॥

३९९

अनंतरत्नत्रयीगुणे, चेतनद्रव्य विचारहो ऋविक !
 कर्मविनाशथी संपजे, स्थिति सादि अपारहो ऋविक.
 ऋवण ॥६॥ अक्षतअक्षयसुखऋणी, ऋवपूजा सुर-
 सालहो ऋविक; बुद्धिशिवसुखसंपदा, पामो मंगल-
 मालहो ऋविक !! ऋवण ॥ ७ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं-परम० अक्षतं यजामहे स्वाहा.

७ सप्तमी नैवेद्यपूजा.

दुहा.

नैवेद्यपूजा सातमी, दुःखदोहगहरनार; सुरनर
 शिवसुख पामवा, कल्पवृक्षसमसार. ॥ १ ॥ विविध
 दुःखमृगसिंहसम, शान्ति तुष्टि करनार; प्रभुपूजाथी
 रोग शोग, ए सहु दूर थनार. ॥ २ ॥

(तेजे तरणीथी वडोरे-ए देशी.)

नैवेद्यपूजा सातमीरे, करीए आणी प्रेम; ऋवोदधि
 तरवा नाविकारे, आपे शिवसुखक्षेमहो भविका.
 नैवेद्यपूजा कीजीएरे. जिनआणा शिर दीजीयेरे,

४००

जन्ममरण दूर जाय. ॥ १ ॥ मोदक लापसी दैयरांरे,
 बरफी पेमा कुलेर; घेवर घारी सांकलीरे, विधिये
 करी निजघेरहो. ज० नै० ॥२॥ पापड पूरी रेवडीरे,
 खुरमां खाजां सार; फेणी जलेबी खीरथीरे, पूजा
 करो मनोहारहो भ० नै० ॥३॥ गुंदवडां ने रेवडीरे,
 शाल दाल घृत गोळ; प्रभुभक्तिथी पूजीएरे, होवे
 जेम रंग चोलहो भ० नै० ॥४॥ हलीयपुरुषपेरे पूज-
 नारे, जे करशे नरनार; बुद्धिशिवसुखसंपदारे, पामी
 लहो जवपारहो भ० नै० ॥ ५ ॥

(वीर जिनेश्वर उपदिशे-ए देशी.)

भावनापूजा भावथी, नैवेद्यनी जे करशेरे, प्रव-
 हणसम छे भावना, जावे ते शिव वरशेरे. ज्ञा० ॥१॥
 आ संसार अनित्य छे, संध्यारंगसम देखोरे, तेमां
 जन्ममरण कर्या, आवे नहि तस लेखोरे. ज्ञा० ॥२॥
 शरण नहीं संसारमां, मरता जीवने कांइरे; मृत्युवश
 थया जीवने, नहि कोइ जगमां सखाइरे. भा० ॥३॥
 ऋणभुवनमां प्राणियो, जटक्यो अनंतिवाररे; माता
 छलनापणे थयो, पिता पुत्र विचाररे. भा० ॥ ४ ॥
 पुरुष स्त्रीपणे थावतो, ए संसारस्वरूपरे; संसारमां
 जे राचशे, ते परुशे भवकूपरे. भा० ॥ ५ ॥ पुत्र स्त्री
 परिवारने, मारुं मारुं मानेरे; सत्यवचन जिनवरतणां,

४०१

सांभळतो नहि कानेरे. भा० ॥ ६ ॥ शरीरपंजरमा
 रह्यो, चेतन एक मन आणरे; एकलो आव्यो एकलो,
 जाइश परभव जाणरे. भा० ॥ ७ ॥ तन धन मंदिर
 मालीआं, पुत्र कलत्रने भाइरे, आतमथी ए भिन्न ठे,
 जूठी तास सगाइरे. भा० ॥ ८ ॥ सातधातुथी नी-
 पनी, अशुचिमय ठे कायारे; अशुचिमय आ शरीर छे;
 करवी शी ? तस मायारे. भा० ॥ ९ ॥ जीव माताना
 पेटमां, मलमूतरमां रहियोरे; दुःख अनंतु त्यां सहुं,
 पवित्र शुं ? हवे थइयोरे. भा० ॥ १० ॥ समये समये
 कर्मने, रागादिकथी बांधेरे; शिवसुखकारणधर्मने,
 केम मनथी नवि साधेरे. भा० ॥ ११ ॥ जेथी कर्म
 रोकाय छे, तेहीज संवर जाणोरे; करवो आदर
 तेहनो, एहीज धर्म वखाणोरे. भा० ॥ १२ ॥ तप
 द्वादश चित्त धारीए, लोकस्वभावने समजोरे;
 आपस्वभावे स्थिर थसो, परपुद्गलमां न रमजोरे.
 भा० ॥ १३ ॥ बोधिद्रुर्लज जाणीने, जिनआणा शिर
 वहीएरे; अरिहंतजापितधर्म छे, सत्यधर्म जिन
 कहीएरे. भा० ॥ १४ ॥ जडपुद्गलथी भिन्न ठे,
 अरूपी आत्मस्वरूपेरे; बुद्धिसागर घ्यावतां, थावे
 शिवपुरभूपेरे. भा० ॥ १५ ॥

ॐ ह्रीं श्री-परम० नैवेद्यं यजामहे स्वाहा.

४०२

८ फलपूजा

दुहा.

आठमी फलनी पूजना, करिए भवि हित
 लाय; फलपूजार्थी पामीए, शिवफल अतिसुखदाय.
 ॥ १ ॥ उत्तमवृद्धतणां ग्रही, फळ रमणिक
 मनोहार; प्रेमे पूजो भविजना, होवे जयजय-
 कार. ॥ २ ॥

(ऋषभजिणंशुं प्रीतलढी-ए देशी.)

फलपूजा जिनराजनी, शिवकाजे हो भावे
 सुखकार; शास्त्रविधि अनुसारथी, लहो शुद्धफल
 हो पामो जवपार. फळ० ॥ १ ॥ श्रीफल आम्र
 बदामने, सीताफल हो दाडीम श्रीकार; केळां पिसतां
 नीमजां, रायणफल हो मेवो मनोहार. फळ० ॥ २ ॥
 काळ अनादि जीवने, नहीं तृप्ति हो मनमांही
 लगार; विविधफल भक्षण करी, जीव रझळयो हो
 चउगतिमकार. फळ० ॥ ३ ॥ जीव लालचीयो
 लंपटी, फळभक्षणथी हो नहि विरम्यो लगार;
 पापभय नहीं चित्त गण्यो, भक्ष्याभक्ष्यनो हो नवि
 करियो विचार. फळ० ॥ ४ ॥ जिनशासन अंगी-
 करी, प्रभु आगळ हो करुं विनति एम; फळमूर्ठा

४०३

उतारतो, प्रभु आगळ हो ठवुं आणी प्रेम. फळ०
 ॥ ५ ॥ आपो शिवफळ जिनवरा, जे पामी हां
 भवनां दुःख जाय; बुद्धिसागरसुख लही, पामे
 शिवफळ हो जे अतिसुखदाय. फळ० ॥ ६ ॥

(सांभळजो मुनि संयम रागे-ए देशी.)

शाश्वत शिवपद स्वाद लहो जवि, जैनधर्म
 चित्तधारीरे; द्रव्यजावथी धर्म जे जाणे, जाउं
 तेनी बलिहारीरे शा० ॥ १ ॥ सातनथो उत्तर तस
 भेदो, आगमथी जे जाणेरे; सप्तभंगी जे शुद्धि जाणे,
 ते मुक्तिसुख माणेरे. शा० ॥२॥ षड्द्रव्योगुणपर्याय
 जाणे, जाणे आत्मस्वरूपरे, उपादेय आत्मने जाणे,
 ते न पडे जवकूपरे. शा० ॥३॥ नवतत्त्वो जिनेश्वर
 जाखे, बोध तास जे करशेरे; हेय ज्ञेय उपादेय
 समजी, समकित-श्रद्धा वरशेरे. शा० ॥४॥ श्र-
 द्धार्थी समकित शुभ प्रगटे, तेथी विरति लहियेरे;
 विरतिथी क्षय कर्मनो करतां, शिवपुरमारग वहि-
 येरे. शा० ॥ ५ ॥ बाहिर अंतर परम ए त्रण्य छे,
 आत्मपरिणति समजोरे; परमात्मपद लक्ष्य वि-
 चारी, अंतर आत्म रमजोरे. शा० ॥ ६ ॥ शरीर
 वाणी मनथी जूदो, आत्मद्रव्य चित्त धरतोरे; अ-

४०४

रूपी निःसंग आतम निर्मल, तास ध्यान मन करतोरे.
 शा० ॥ ७ ॥ राग द्वेष मोहरायना योद्धा, तेहनी
 साथे वढतोरे; आतमा आपस्वरूपे खेली. क्ष-
 पकश्रेणीए चढतोरे. शा० ॥ ८ ॥ वीर्योल्लास वधे
 गुण प्रगटे, कर्मकलंक खपावेरे; शुक्लध्यानपायाए
 चढतो, केवलज्ञानगुण पावेरे. शा० ॥ ९ ॥
 आयुष्यस्थिति पूर्ण करीने, शरीरसंग दूर कर
 तोरे; जन्ममरणना फेरा टाळी, सादिअनंत स्थिति
 वरतोरे. शा० ॥१०॥ दुःखाभावरूपमुक्ति माने, नैया-
 यिकमतवादीरे; सर्वव्यापकमुक्ति माने, ते पण छे
 उन्मादीरे. शा० ॥ ११ ॥ स्वामीसेवकज्ञाव स्वीकारे,
 मुक्तिमां ते खोटोरे; कर्म खप्याथी सर्वे सरखा, माने
 ते जीव मोटोरे. शा० ॥ १२ ॥ गमनागमन मुक्तिमां
 माने, मतवादी अज्ञानीरे; गमनागमन रहित छे
 मुक्ति, जाणे स्याद्वादज्ञानीरे. शा० ॥१३॥ अनंतसु-
 खमयमुक्तिफलने, पामो भवि नरनारीरे; बुद्धिसागर
 शिवसुख पामे, चिदानंदपद धारीरे. शा० ॥ १४ ॥

४०५

सर्वोपरी गीतं.

(नमो नमोभविजन भावशुं ए-ए देशी.)

अष्टप्रकारी पूजना ए, द्रव्य जाव मनोहार;
 भविजन पूजीए ए. जिनप्रतिमा जिनसारिखी ए,
 भाखी शास्त्रमजार. ऋवि० ॥१॥ दर्शन दीठे देवनुं ए,
 पापपंक दूर थाय; भवि० जवगवतीमांही मुनिवरा ए,
 प्रतिमावंदन जाय. भवि० ॥२॥ नामनिक्षेपो उच्च-
 रे ए, स्थापना केम न मनाय; ऋवि० शुद्धभावथी
 पूजतां ए, जन्ममरण दूर जाय. भवि० ॥३॥ सांकळ-
 चंदसुत जाणीएए, चुनीलाल उदार; भवि० नथुभा-
 इसुत जाणीएए, जेठाभाइ हितकार. भवि० ॥ ४ ॥
 जेठाबाल नरोत्तम कारणेए, मूळचंदभाइना काज;
 ऋवि० ऋव्यजीव हितकारणे ए, आपे शिवसाम्राज्य.
 ऋवि० ॥ ५ ॥ शासनवीरजिनेश्वराए, हीरविजय
 सूरिराय; भवि० सहेजसागर उपाध्यायजीए, तास
 शिष्य वखणाय. भवि० ॥६॥ तास शिष्य उपाध्याय-
 जी ए, जयसागर जयकार; भवि० पाटपरंपरा शोऊ-
 ताए, नेमिसागर सुखकार. ऋवि० ॥७॥ तस शिष्य
 रविसागर गुरु ए, संवेगी अनगार; भवि० तस शिष्य
 सुखसागर गुरु ए, गामोगाम विहार. भवि० ॥ ८ ॥
 वसोनगर पधारिया ए, संघ सकळ हरखाय; ऋवि०

४०६

ऋषभदेवतीर्थकराए, निरखी आनंद थाय. भवि०॥९॥
 तास पसाथे ए रची ए, पूजा अष्टप्रकारः भवि०
 भणो भणावो सांभळो ए, भावथकी नरनार. ऋवि०
 ॥१०॥ मेरुपरे नित्य स्थिर थइ ए, करजो भविमन वास;
 भवि० चंद्र सूर्य ज्यां लगी रहे ए, जगमां करता प्रकाश.
 ऋवि० ॥११॥ त्यां लगी पूजा विस्तरो ए, शांति तुष्टि
 करनार; भवि० ऋद्धि वृद्धि सुखसंपदा ए, पूजाथी
 थानार. भवि०॥१२॥ संवत अयोगणीस उपरे ए, ओग-
 णसाठनी साल; भवि० फागणवदिएकादशी ए,
 पूजा पूर्ण विशाल. भवि० ॥१३॥

कलश.

एम सकलसुखकर द्रव्य भावे, पूजा अष्टप्रका-
 री ए; ऋणे भणावे सुणे जे ऋवी, ते शिवसुख लहे
 ऋारी ए. तपगच्छशाखागगनमंडळ—दिवाकरपेरे
 ठाजता, वैराग्यरंगे व्याप्युं जस मन, महिमा जग
 जस गाजता. ॥१॥ रविसागर गुरु प्रेमे प्रणमुं, संवेगी
 सिरदार ए; जस नाम देतां सकलमंगल, पामे भवी-
 नरनार ए. तस पदपंकजचृंगसम श्री—सुखसागरगुरु-
 बाल ए; एम बुद्धिसागरशिवसनातन, पामे
 मंगलमात्र ए. ॥२॥ ॐ प० फलं यजामहे स्वाहा ॥
 इति अष्टप्रकारीपूजा संपूर्णा.

४०७

वास्तुकपूजा.



दुहा.

श्री संखेश्वरपार्श्वनाथ, त्रेवीसमा जिनराय; घर-
 णेंद्र पद्मावती, पूजे जेहना पाय. ॥ १ ॥ पार्श्वयक्ष
 जस शोभतो, सेवा करे चित्तलाय, पुरिसादाणी
 पार्श्वनाथ, ध्यातां शिवसुख थाय. ॥२॥ वास्तुकपूजा
 घरतणी, करतां शर्म विशाल; ऋद्धि वृद्धि जय संपजे,
 कीर्ति मंगलमाल. ॥३॥ पंच पंच वस्तुथकी, संखेश्वर-
 प्रभुपास, पूजो ज्वी जावेकरी, सफळ होवे मन
 आश. ॥ ४ ॥ चिंतामणिसम पार्श्वनाथ, पार्श्वमणि
 समनाम; ध्यातां गातां प्राणीनां, सिद्धे सघळां
 काम. ॥ ५ ॥

प्रथमपूजा.

(मल्लिजिन बंदीए भवी भावेरे—ए राग.)

संखेश्वरपासप्रजु नित्य गावोरे, शाश्वत शिव-
 कमळा पावो,संगाकाशीदेश वणारसीगामरे,विश्वसेन-
 राजा अक्षिरामरे; वामामाता सुखविश्राम. संखेश्वर०

४०८

॥१॥ प्रभु माताकुखे जब आयारे, इंद्र चोसठ सुरगिरि
 लायारे; सुरासुर मनमां हरखाया. संखेश्वर० ॥ २ ॥
 एकलाखने साठ हजाररे, आठजाति कळश मनो-
 हाररे; प्रभु न्हवण करे जयकार. संखेश्वर० ॥ ३ ॥
 इंद्राणीयो हसती गातीरे, प्रभुदर्शन करी हरखातीरे;
 नाटक करी मनमां माती. संखेश्वर० ॥ ४ ॥ एवा
 पार्श्वनाथ घर लावोरे, शुभ सिंहासन पधरावोरे; प्रभु
 न्हवण करी सुख पावो. संखेश्वर० ॥५॥ रोगशोग सहु
 दूर नासेरे, प्रभुश्रद्धा मनमां वासेरे; शाश्वतपद बुद्धि
 चासे. संखेश्वर० ॥ ६ ॥

मंत्र-ॐ नमो भगवते श्रीसंखेश्वरपार्श्वना-
 थाय ॐ धरणेंद्रपद्मावतीसहिताय अष्टेष्टे क्षुद्र
 विघटे क्षुद्रान् स्तंभय २ दुष्टान् निग्रह २ भारते अ-
 मुकदेशे अमुकनगरे अमुकगृहे शान्तिं तुष्टिं पुष्टिं
 कुरु २ सर्वोपद्रवान् निवारय २ जलं, चंद्रनं, पुष्पं, धूपं,
 दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, यजमाहे स्वाहा.

४०९

द्वितीयापूजा.

दुहा.

स्नात्र भणावी पार्श्वनुं, पूजा कीजे सार; पूजक
पूज्यनी पूजना, समजीजे सुखकार. ॥ १ ॥ बेउ
पासे वींजीए, चामर चारु उमंग; दर्पण प्रभु आगळ
धरो, होवे जयजयरंग. ॥ २ ॥

(सुतारीना बेटा तुने विनवुरे लोल-ए देशी.)

प्रभु पार्श्वजिनेश्वर गावीएरे लोल, श्री संखे-
श्वरप्रभुनामजो, तुजनामथी नवनिधि संपजेरे
लोल, मनवांछित सिद्धे कामजो; नाम रुडुं संखेश्वर
पासनुरे लोल. मिथ्यात्वदशा दूर थायजो; शुद्ध
श्रद्धा हृदय प्रगटायजो. नाम रुडुं ॥ १ ॥ पूजा
वास्तुक दोष प्रकारनीरे लोल, शुभ अशुभ भेद
कहायजो; द्रव्यवास्तुकपूजाना ए कद्वारे लोल, तेह
हरखे कहुं चित्त लायजो. नाम रुडुं ॥ २ ॥
मिथ्यात्वहिंसादिक दोषथीरे लोल, अशुभ वास्तुक
कार्य कथायजो, घरमहेलमां महीषनी बुद्धिएरे लोल,
कोळुं कापंतां हिंसा गणायजो. नाम रुडुं ॥ ३ ॥
अन्यायवित्तादिकपापथीरे लोल, घर महेल प्रासाद
करायजो, अशुभवास्तुकपूजन कर्मथीरे लोल,

५२

४१०

दुःख अशांति विघ्न ज थायजो. नाम रुडुं० ॥ ४ ॥
 न्याय संपन्न धन अने नीतियेरे लोल, घर महेल
 प्रासाद चणायजो, शास्त्रविधिण देवगुरुभक्तिणरे लोल,
 शुभवास्तुकपूजा भणायजो. नाम रुडुं० ॥ ५ ॥
 शुभवास्तुकपूजा जाणीणरे लोल, जेनुं रुडुं विशाल
 स्वरूपजो, बुद्धि शाश्वत संपदा पामीणरे लोल, पास
 नाम ते मंगलरूपजो. नाम रुडुं० ॥ ६ ॥

मंत्रम्—ॐ नमो भगवते० जलं, चंद्रनं, पुष्पं,
 धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, यजामहे स्वाहा.

तृतीयपूजा.

दुहा.

शुभवास्तुकपूजा कहुं, आणी अतिशयभाव,
 स्वर्गादिकसुख पामीण, होवे शिवसुखदाव. ॥ १ ॥
 देव अरिहंत जाणीण, दोषरहीत अढार; गुरु सु-
 साधु महाव्रती, पाळे पंचाचार. ॥ २ ॥ जिनवरभा-
 षित सत्य ठे, जैनधर्म जगजोय; सुख दुःख होवे
 कर्मथी, अवर न कर्ता कोय, ॥ ३ ॥

४११

(अनिहारे न्हवण करो जिनराजनेरे-ए देशी.)

अनिहारे वास्तुकपूजा शुभ कीजीएरे, तजी
 अवरदेवनी आश; सत्पात्रे दानने दीजीएरे, सूत्रश्र-
 वणरुचिअजिलाष, श्रीसंखेश्वरप्रभुपासजीरे. ॥ १ ॥
 भवी भावे द्रव्यार्थिकनये करीरे, शाश्वत ठे
 लोकालोक; कर्ता तेहनो को नहिरे, केम कर्ता मा-
 नीए फोक. श्रीसंखे ॥२॥ उर्ध्व अधो अने तीरठा
 लोकनीरे, स्थिति छे अनादिअनंत; कर्ता तेहनो
 को नहींरे, एम भाखे श्रीभगवंत. श्रीसंखे ॥३॥
 नवतत्त्व षड्द्रव्य छे नित्य शाश्वतारे, द्रव्य गुणप-
 र्यायस्वरूप; वे भेदे जीव दाखियारे, तस लक्षण ठे
 चिद्रूप. श्री संखे ॥ ४ ॥ परिणामी पुद्गल जीव
 वे जाणीएरे, अनादिसंबंध विचार; कर्ता कर्मनो
 आतमारे, तेम जोक्ता हृदये धार. श्री संखे ॥५॥
 शुजाशुभकर्म ग्रही भोगी आतमारे, वेदे शाता
 आशाता दोय; देव मनुष्य नारक तिरिरे, चउगतिमां
 नटके जोय, श्रीसंखे ॥ ६ ॥ जीवे कीर्धां पुण्य पाप
 ते भोगवेरे, परपुद्गलसंगे खास; राच्यो माच्यो
 पुद्गलमां वस्योरे, बन्यो पुद्गलनो जीव दास; श्री
 संखे ॥ ७ ॥ प्रभुपूजा करतां प्राणिया सुख लहेरे,
 नासे कर्माष्टकपाश; स्वामीवच्छल नवकारशीरे, हेतु

४१२

सुखनां दीसे खास. श्री संखे० ॥८॥ शुजजावे नैवेद्य
थाळमां मूकीनेरे, प्रभु आगळ धरीए चंग; रत्नत्रयी
कमळा वरेरे, बुद्धिशाश्वतपदरंग. श्री संखे० ॥ ९ ॥

मंत्रः—ॐ नमो भगवते० जलं, चंदनं, पुष्पं, धूपं, दीपं,
अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, यजमाहे स्वाहा.

चतुर्था पूजा.

दुहा.

शरीरपुद्गलमां वस्यो, पुद्गल मानी गेह; पर-
जव साथ न आवतुं, क्षणमां नाशी तेह. ॥१॥ देह
अनंतां छंडियां, भटकी आ संसार; लाख चोराशी
हुं जम्यो, तार तार प्रभु ! तार. ॥२॥

(सांभळजो घुनि संयम रागे, उपशमश्रेणि चढीअरे—ए राग)

श्रीसंखेश्वरपार्श्वप्रभु नित्य, मनमंदिरमां धरी-
एरे; ध्यावी गावी पाप गमावी; श्रद्धा समकित वरीएरे.
श्रीसंखे० ॥१॥ यादवलोकनी जरा निवारी, षड्दर्शन
विख्यातरे; वामानंदन जगजनरंजन, नमतां पावन
गात्रे. श्रीसंखे० ॥२॥ परपरिणतिर्था अष्टकर्म ग्रही,

४१३

परजोगीपरकर्तारे;अतुलबली पण कर्मपिंजरमां,वसियो
 निजगुणधरतारे. श्रीसंखे० ॥ ३ ॥ औदारिक वैक्रिय
 आहारक, तैजस कार्मण पंचरे; पंचशरीर घर मानी
 वसियो, करतो कर्मनो संचरे. श्रीसंखे० ॥४॥ सुरा-
 पानी बकतो फरे वळी, धत्तुरभक्षक जेमरे, मोह
 परिणातिथी अहो आतम, स्वरूप भूल्यो तेमरे. श्री
 संखे० ॥ ५ ॥ जवमां भमतां पुण्योदयथी, सद्गुरु
 सहजे मळियारे; बुद्धि सिवसुख पामे अविचल,
 सकळमनोरथ फळियारे. श्रीसंखे० ॥ ६ ॥

मंत्रः—ॐ नमो जगवते० जलं, चंदनं, पुष्पं,
 धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, यजामहे स्वाहा.



पंचमी पूजा.

दुहा.

सद्गुरु पंचमहाव्रती, पंचाचारगुणभार, भावथी
 वास्तुकपूजना, कहेवे अतिसुखकार. ॥१॥ पुद्गलद्र-
 व्यथी भिन्न छे. अचल अमल गुणवान्; शुद्ध बुद्ध
 परमात्मा, चिदानंद भगवान् . ॥ २ ॥ घर आतमनुं

४१४

ओळख्युं, जेनो रुडो महेल; वास खरो मुज एहमां,
वसतां शिवसुख सहेल. ॥ ३ ॥

(नमोरे नमो श्री शत्रुंजय गिरिवर—ए राग.)

वास्तुकत्तावपूजा निजभावे, आतमनी शुद्ध
दाखी रे; वास वासे चेतन जे मध्ये, तेहनी पूजा
जाखीरे. श्रीसंखेश्वरपासजी गावो. ॥ १ ॥ असंख्य-
प्रदेश आतमना जाणो, शुद्धवास जीव होयरे; गुण-
पर्याय स्वभाव अनंता, एकेकप्रदेशे जोयरे. श्री
संखे० ॥ २ ॥ ज्ञाता ज्ञेय ने ज्ञान त्रिभंगी, आतम-
मांही समायरे; अस्ति नास्ति समकाले लाधे, एवो
आतमरायरे. श्रीसंखे० ॥ ३ ॥ धर्माधर्मने पुद्गला-
काश, तेहतणा प्रदेशरे; गुणपर्यायधर्म तसकेरा, नहि
जीवप्रदेश लेशरे. श्रीसंखे० ॥ ४ ॥ शुद्ध बुद्ध परमा-
त्मस्वरूपी, अव्याबाध अभंगरे; अविनाशी अकलंक
अज्ञोगी, जोगी अयोगी असंगरे. श्री संखे० ॥ ५ ॥
नित्यानित्यने ऐकानेक, सदसत्भाव विचाररे;
वक्तव्यावक्तव्य ए आठ,—पक्षतणो आधाररे. श्री
संखे० ॥ ६ ॥ शुद्धस्वरूपी ज्ञानानंदी, चेतनवास कहा-
यरे; सुख अनंतु चेतनघरमां, वचनअगोचर थायरे.
श्रीसंखे० ॥ ७ ॥ आत्मथकी तूटे जब कर्म, तव पामे
शिवस्थानरे; शाश्वतअमलअचलपद जावै, वास्तुक-

४१५

पूजा मानरे. श्री संखे० ॥ ८ ॥ एणीपेरे वास्तुकपूजा करशे, ते तरशे संसाररे; बुद्धिसागर क्षायिक त्तमकित, चारित्रे लहे भवपाररे. श्रीसंखे० ॥ ९ ॥

कलश.

गाइ गाइरे ए वास्तुकपूजा गाइ. अचल अमल अजंग महोदय, शुद्धसत्ता निज ध्यायी; समकितदाय कहेते पूजा, करतां हर्ष वधाइरे. ए वास्तुकपूजा गाइ. ॥ १ ॥ मिथ्यापरिणतिनाशक तारक-आत्मस्वजावे सुहाइ; परमात्मपदप्राप्तिकारक, सुखकर समकितदाइरे. ए वास्तुक० ॥ २ ॥ धरणेंद्र पद्मावती देवी, जेहनी सारे सेव; सुरपतियतितति भूपतिपूजित, श्रीसंखेश्वर देवरे. ए वास्तुक० ॥ ३ ॥ तासपसाये पूजा रची ए, हर्ष अति दिल लायी; जयजय मंगळमाळाकमळा, आत्ममां प्रगटाइरे. ए वास्तुक० ॥ ४ ॥ जन्मभूमिविजापुरगामे, मासकल्प करी सार; ओगणिशसाठमाघसुदि वारस; रचतां जयजयकाररे. ए वास्तुक० ॥ ५ ॥ विद्यादायक धर्मसहायक, गंभीर श्रद्धावंत; दोशी नथुजाइ मंगारामना,—हेते एह रचंतरे. ए वास्तुक० ॥ ६ ॥ शेठ ठगनलाल बेचरकाजे, कीधी रचना जावे; संघ सक-

४१६

लमां आनंदमंगल, ऋद्धि वृद्धि सुख थावेरे. ए वा-
स्तुक० ॥ ७ ॥ तपगच्छजगगुरु हीरविजयसूरि, जस
गुण सुरनर गाया; तास शिष्य श्री सहेजसागरजी,
उपाध्याय सुहायारे. ए वास्तुक० ॥ ७ ॥ पट्टपरंपरा
नेमिसागरजी, क्रियावंत महंत; तास शिष्य श्री रवि-
सागरजी, वैरागी गुणवंतरे. ए वास्तुक० ॥९॥ संवेगी
आतमगुणरंगी, सुखसागरगुरुराया; गामोगाम
विहार करंता, विद्यापुरमां आयारे. ए वास्तुक० ॥१०॥
चढते भावे हर्ष उद्धासे, कीधी रचना एह; भव्य
जीवने अमृतसम ए, चातकने जेम मेहरे. ए वा-
स्तुक० ॥ ११ ॥ शांति तुष्टि सुखसंपदा थावे, रोग-
शोग दूर जावे; बुद्धिसागर शाश्वतपद लही, मुक्ति-
वधूसुख पावेरे. ए वास्तुक० ॥ १२ ॥ श्रीसंखेश्वर-
पास प्रभुजी, गातां सुखडां विशाल; श्रीविद्यापुर स-
कलसंघमां, होवे मंगलमालरे. ए वास्तुक० ॥१३॥
मंत्रः—ॐ नमो भगवते० जलं, चंदनं, पुष्पं, धूपं,

दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं यजामहे स्वाहा.

४१७

वास्तुकपूजाविधि.

दरेक वस्तु पांच पांच लेवी, अष्टप्रकारी पू-
जानो सामान लेवो, आठ स्नात्रीया करवा.

एककळश ग्रहण करे, बीजो केशरनी वाटकी
ग्रहण करे, त्रीजो फुलनो हार वा लुटां फुल ग्रहण
करे, चौथो धूप, पांचमो दीपक, छठो रकेवीमां अ-
क्षतनो स्वस्तिक लइने उजो रहे, सातमो नैवेद्य
लइ उभो रहे, आठमो फळ लइ उभो रहे. दरेक
पूजाए अत्रिषेक करी पूजा करवी.

५ कळश, ५ केशरनी वाटकी, ५ फुलना हार,
धूपधाणुं, ५ दीपक, ५ चोखाना साथीआ, ५ नैवेद्य,
५ फळ.

वास्तुकपूजा जेनुं घर करे, अने तेमां प्रवेश
करे ते जणावे. तेने घेर आ पूजा भणावतां आनंद
मंगळ थाय. रोग, शोक, वहेम सर्वे नाश पामे. नव-
स्मरण, कुंभनी स्थापना करी अने दीवो करी भणवां.
शक्ति होय तो स्नात्रीयाने जमाडवा. इंद्राणीओ
छोकरीओने करवानो भाव शक्ति होयतो करवी.

इति वास्तुकपूजा संपूर्णा. ॥

४१८

अष्टप्रकारीपूजा.

परमेश्वरमहावीर जिन, तीर्थकर गुणधाम;
 चोवीशमा श्रीजिनपति, सर्वजीवविश्राम. ॥ १ ॥
 अनंतगुण उपकारी जे, शासननायक देव; द्रव्यजा-
 वथी पूजतां, प्रगटे आनंदमेव. ॥२॥ द्रव्यजावथी
 पूजना, अष्टप्रकारी बेश; करतां नरने नारीओ, दूर
 करे सहु क्लेश. ॥ ३ ॥ महावीरदेवे पूजना, भाखी
 जवीहितकार, तेकारण पूजा रचुं, मनशुद्धिकर-
 नार. ॥ ४ ॥ कारणे कार्यनी सिद्धि छे, द्रव्यथी
 जाव सधाय; भक्तिवंतधर्मीजना, पूजाथी शिव
 पाय. ॥ ५ ॥

प्रथम जलपूजा.

(सांभळरे सहियां हमारी. ए देशीनी चोपाया चाल.)

प्रभु महावीर जग जयकारी, परमेश्वर जिन
 उपकारी ॥ द्रव्यभावथी स्नात्र करीजे, प्रभु उपर
 प्रेम धरीजे. तेथी निजि पूजा वरीजेरे, द्रव्यभा-
 वथी पूजा सागी; मोहवृत्तिन हरनारी. प्रभु ॥ १ ॥
 मेरु उपर प्रचुने लाव्या, जलथी इन्द्रे न्हवराव्या;

४१९

पंचरूप धरी गुण गायरे, तेम स्नात्र करी नरनारी,
 करे समकितशुद्धि अपारी. प्रभु० ॥ २ ॥ भाव
 समकितजलअभिषेके; मिथ्यामेल रहे न विवेके;
 पूजो महावीरजिनने टेकेरे, त्यजी जूठी दुनिया-
 दारी; प्रभुशरण ग्रही हितकारी. प्रभु० ॥ ३ ॥ मों-
 घाकाले नयने दीठा, लाग्या आतमरूपे मीठा; थया
 कुदेव मोही अनीठारे, लागी तुजथकी एकतारी;
 लागी ताह्यरी मूर्ति प्यारी. प्रभु० ॥ ४ ॥ तुज उपर
 जउं सहु वारी, प्रभु ताह्यरी साची यारी; मरुं मर्या
 पहेलां मोह मारीरे, एवी पूजा बनो हितकारी; करो
 करुणा एहवी सारी. प्रभु० ॥ ५ ॥ प्रभुपूजा करुं
 प्रभुरंगे, निजआतमशुद्धउमंगे; कदि पडुं न
 मिथ्याढंगेरे, बुद्धिसागर प्रभु अवधारी; लही आ-
 तमसुखनी खुमारी. प्रभु० ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं प० जलं यजामहे स्वाहा ॥

द्वितीया चंदनपूजा.

चंदनथी प्रभु पूजतां—आतम शीतल थाय,
 भावथी समताचंदने, पूजे ते शिवपाय ॥१॥ हर्षजाव

४२०

केशर भळे, लाखी प्रगटे अंग. श्रद्धाप्रेमसुवासथी,
प्रगटे आनंद रंग ॥ २ ॥

(रहो गुरुजी फागण चोमासुंरे. ए राग.)

प्रभु महावीर जिनवर मळियारे, म्हारा मनना
मनोरथ फळियारे. प्रभु॥१॥ समताचंदन घसी रंगेरे,
अर्चु महावीरप्रभुअंगेरे; दिल चढता जाव ऊमंगेरे.
प्रभु० ॥ २ ॥ शुद्धअमृतरसनी क्यारीरे, रह्या मोही
जगत नरनारीरे; सत्यसद्भूतमूर्तिप्यारीरे. प्रभु०
॥ ३ ॥ प्रभु दीठे त्रमणा जागीरे, सम्यक्त्वदशा
घट जागीरे, रोमेरोमे थयो तुजरागीरे. प्रभु० ॥ ४ ॥
प्रभु मळिया आविर्जावेरे-निजसद्भूतआत्मस्वभा-
वेरे, शमचंदने पूज्या सुहावेरे. प्रभु० ॥ ५ ॥ प्रभु
दिलमां धरी प्रभु थावुंरे, प्रभुचंदनपूजाजावुंरे;
बुद्धिसागर जिनवर गावुंरे. प्रभु० ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं श्री परम० चंदन० य० स्वाहा ॥

तृतीया पुष्पपूजा.

द्रव्यभावथी पुष्पनी, पूजा प्रभुनी बेश; कर
दुर्गुण दुःखडां, नासे सघळा क्लेश. ॥ १ ॥ जावथी

४२१

पंचाचार ठे. गुणकरपुष्पप्रधान; तेथी जिनवर
पूजतां, बनो स्वयंभगवान्. ॥ २ ॥ काल अनादि न
ओळख्यो, ओळख्यो ज्ञाने आज; पंचाचारना पुष्पथी,
पूजुं जिनराज. ॥ ३ ॥

(सांभळजो मुनि संयमरागे-उपशमश्रेणि चढियारे. ए राग.)

पूजुं महावीर जिन जयकारी, चिदानंदरूप-
धारीरे; तुज उपयोगे क्षणक्षण जीवुं, जक्तिजाव व-
धारीरे. पूजुं ॥ १ ॥ ज्ञानने दर्शन चरणाचारे, तपने
वीर्याचारेरे; रहेतां द्रव्यने जावथी आतम, धर्मसुगंधी
प्रसारेरे. पूजुं ॥ २ ॥ क्षयोपशमने उपशम क्षायिक,
जावनी शुद्धि वधारेरे; पंचाचारसुपुष्पे पूजा, करतां
शिवपद धारेरे. पूजुं ॥ ३ ॥ मैत्रीप्रमोदमध्यस्थ
करुणा, सात्विकपुष्पनी माळारे; प्रभुना कंठे प्रेमे
चढावी, पीवुं प्रभुरसप्यालारे. पूजुं ॥ ४ ॥ प्रभु
गुण गावे समरे ध्यावे, आतम प्रचुरूप थावेरे; जेवी
जावना तेवी सिद्धि, अंतरमां सुख पावेरे. पूजुं
॥ ५ ॥ हाथे चढियो आंखे देखायो, हवे न छोडुं
क्यारेरे; बुद्धिसागर आत्मउजागर, उपयोगे निज-
तारेरे. पूजुं ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं प० पुष्पं य० स्वाहा.

४२२

चतुर्थी धूपपूजा.

द्रव्य जाव बे जेदथी, धूपनी पूजा श्रेष्ठ; क-
 रतां आतमबळ वधे, पडतुं पशुबलहेठ. ॥ १ ॥
 चारे ध्यानना धूपथी, पूजंतां जिनराज; मोहनी
 दुर्गधी टळे, सिद्धे शिवपदकाज. ॥ २ ॥ भावथी
 प्रभुनी पूजना, आतमपूजा जाण; सम्यग्गृह्णिजी-
 वनी, करणी सर्व प्रमाण. ॥ ३ ॥

शुंमखडानी देशी.

धन्य प्रभु महावीरनेरे, सत्य जणाव्यो धर्म; म-
 हावीर पूजीए; बारवर्षना ध्यानथीरे, टाळ्यां घा-
 तीकर्म. महावीर ॥१॥ पिंडस्थने पदस्थथीरे, रूपस्य
 रूपातीत; महावीर ॥ चारध्यानरूपधूपथीरे, आतम
 शुद्धप्रतीत. महावीर ॥ २ ॥ आर्तरीद्रदुर्गधनेरे,
 टाळो वेगे दूर, महावीर ॥ एकतालीनतायोगथीरे,
 प्रभुजी हजराहजूर. महावीर ॥ ३ ॥ धर्म शुक्र बे
 ध्यानथीरे. आपोआपप्रकाश; महावीर ॥ ध्यानधूपे
 प्रभु पूजतांरे, व्यक्तानंदविलास. महावीर ॥ ४ ॥
 इयल भ्रमरी संगथीरे, भ्रमरीरूप सुहाय. महावीर ॥

४२३

बुद्धिसागरआतमारै, प्रभुध्याने प्रभु थाय. महा-
वीर० ॥ ५ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं प० धूपं, यजामहे स्वाहा.

पंचमी दीपकपूजा.

पंचमी दीपकपूजना, करतां आत्मप्रकाश;
मतिश्रुतज्ञानना दीपके, मिथ्यातमनो नाश ॥ १ ॥
सम्यग्ज्ञानी जीवने, सघळु सहु प्रणमाय; आत्म-
व ते परिश्रवपणे, थावे आतममांह्य. ॥२ ॥ दीपक
मीसे ज्ञाननो, दीपक जो प्रगटाय; आतम पोते वि-
श्वनो, ज्ञानी निश्चय थाय. ॥ ३ ॥

(जिनपद जगमां याचुं जाणो, स्वरूप रमण सुविलासी. ए राग)

धन्य प्रभु महावीरजिनेश्वर. अनंतगुणा उप-
कारीजी; जेनुं संप्रति शासन वर्ते, भावदयाजंडारी,
जिनवर भजीएजी; पामी सम्यग्ज्ञान, दीपके यजी-
एजी. ॥ १ ॥ दर्शनमोह टळयाथी सम्यग्, -जावे
ज्ञान प्रकाशेजी, मतिश्रुतअवधिने मनपर्यव, केवज्ज-
ज्ञान विकासे. जिन० ॥ २ ॥ मति अट्टावीश त्रणलो

४२४

चालीश, जेदे वीरे प्रकाश्युंजी; चउद वीश श्रुतभेद
 प्रकाश्या, समकित्तीने विकाश्युं. जिन० ॥ ३ ॥ अ-
 वधि असंख्यप्रकारे प्रगटे, मनपर्यव वे जेदेजी;
 द्दयोपशमभावे ए चारे, ज्ञान तिमिरने छेदे. जिन०
 ॥४॥ लोकालोकप्रकाशक केवल,—ज्ञान ते व्यापक
 एकजी; मतिश्रुतदीपकथी प्रभु पूजे, प्रगटे धर्म
 विवेक. जिन० ॥ ५ ॥ द्रव्यभावथी दीपकपूजा,
 गृही यतिने अधिकारेजी; बुद्धिसागर आतमशुद्धि,
 निश्चयने व्यवहारे. जिन० ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परमं दीपं यजामहे स्वाहा.

षष्ठी स्वस्तिकपूजा.

स्वस्तिक प्रभुनी आगळे, करतां स्वस्ति थाय;
 द्रव्यज्ञाव स्वस्तिक करे, ज्ञव्यो शिवपद पाय ॥१॥
 षतुर्गतिरूप साथीयो, करीने मागो एम; सिद्ध शिला-
 नी उपरे, शिवस्थानक सुखक्षेम. ॥२॥ चारकषायथी
 चउगति, कीधां त्रमण अनंत; स्वस्तिक करी प्रभु
 आगळे, पामो शिवपद संत. ॥ ३ ॥

४२५

(त्रिमलाचलवासी पारा ज्हाला सेवकने विसारो नहीं
विसारो नहीं. ए राग.)

महावीर जिनेश्वर पाये पडुं, तुजरूप बनूं रूप-
बनुं: समजावे रही एकरूप बनी उपयोगे भणुं; योगे
भणुं.॥ चतुर्गतिरूपस्वस्तिक आगळ, दर्शन ज्ञानचा-
रित्र; त्रण्यपुंजने सिद्धशिलापर, मुक्तिनुं चिह्न
पवित्र; प्रभुतुजरूप० म० ॥ १ ॥ चारे सामायिक
स्वस्तिकथी, रत्नत्रयी ज पमाय; तेथी सिद्धशिला-
पर मुक्ति, जक्तयोगी झट पाय०॥ प्रभु तुज० म० ॥३॥
चारेप्रकारे संघनो स्वस्तिक, मंगलरूप सदाय. पा-
मी त्रिपदीज्ञान करीने, जक्तयोगी शिवपाय. प्रभु०
म० ॥ ३ ॥ चारमहायमस्वस्तिकरूपी, त्रणगुति
जे पाय; पूरण आत्मसमाधि पामी, पुर्ण सुखी झट
थाय, प्रभु० म० ॥ ४ ॥ आध्यात्मिकसंकेते ज्ञानी,
प्रभुने पूजी एम; बुद्धिसागरक्षायिकभावे, पामे
योगने क्षेम. प्रभुतुज० म० ॥ ५ ॥

ॐ ह्रीं श्री परम० स्वस्तिकं यजामहे स्वाहा॥

४२६

सप्तमी नैवेद्यपूजा.

दुहा.

द्रव्यभावनैवेद्यथी, प्रभुने पूजे जेह, प्रभु स्व-
रूपे थै रहे, देहछतां वैदेह. ॥ १ ॥ अनुभवनैवेद्ये
भली, आतमपुष्टि थाय; आत्मरसी आतम बनी,
बाह्यरति नहि थाय. ॥ २ ॥ जडरसनैवेद्य मूकीने,
आतमरसनैवेद्य; पामवुं ते प्रभुपूजना, करे रहे
नहि वेद. ॥ ३ ॥

(व्हाला वीर जिनेश्वर जन्मजरानिवारजोरे. ए राग.)

व्हाला आतम वीर जिनेश्वर पूजुं चावथीरे;
सहेजे आनंदनैवेद्ये पूजुं गुणदावथीरे. ॥ आतम
रस प्रगटातो ज्यारे, बाह्यमां रसनी त्रांति न त्यारे;
जडतां बंध न मुक्ति सहजभाव उपयोगथीरे. व्हाला०
सहेजे० ॥ १ ॥ तुजरसमां रंगाया जेओ, पछीथी
नहि जडरसिया तेओ; एवी नैवेद्यपूजाए पूजुं
उमंगथीरे. व्हाला० स० ॥२॥ तुज मुज अंतरूजेद ज
चागे, आतम आपस्वरूपे जागे; पछीथी शांति
तुष्टि पुष्टि सहजस्वभावथीरे. व्हाला० ॥ ३ ॥ एवी
पूजा थातां सारी, प्रगटे आनंद पूर्णखुमारी; पछीथी
दुःख रहे नहि जडवस्तुना अभावथीरे. व्हाला०

४२७

॥ ४ ॥ जीवन्ती प्रभुपूजा एवी, उपयोगे अंतरमां
लेवी; पामे बुद्धिसागर आनंद आत्मस्वजावधीरे.
व्हाला० ॥ ५ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं प० नैवेद्यं यजामहे स्वाहा ॥

अष्टमी फलपूजा,

मुक्तिफलने पामवा, फलथी पूजुं देव; फलथी
फल निश्चय मळे, नासे मोहनी टेव. ॥ १ ॥ द्रव्य
भाव बेभेदथी, निश्चयने व्यवहार, सापेक्षे फल
पूजना, उपयोगे सुखकार. ॥२॥ विनय अने बहुमा-
नथी, श्रद्धाप्रीतियोग; फलपूजा जिनराजनी, क-
रतां शिवसंयोग. ॥ ३ ॥

(उत्तम फलपूजा कीजे, ए राग.)

धन्य महावीर उपकारी, त्रिशलानंदन जयकारी;
सिद्धारथकुलमनोहारीरे, लगनी तुज साथे लागी.
भाग्यदशा पूरण जागीरे ॥ लगनी० ॥ तुजरूपे
थड्यो रागीरे, लगनी० ॥ १ ॥ पूरणरागे घट धार्यो,
नाठां मोह घणुं हार्यो; मरुं न हवे कोथी मार्योरे.

४२८

लगनी० ॥ २ ॥ फलपूजा करतां भावे, उपयोगे
 शिवफल पावे; भक्ति नकामी नहि जावेरे. लगनी०
 ॥ ३ ॥ समकृतीनी सहृकरणी, मोक्षमहेलनी
 निःसरणी; पूजादिक निर्जर वरगीरे. लगनी० ॥४॥
 तुज श्रद्धा प्रीति साची, जडनी माया सहृ कारी;
 माची रह्यो तुजमां राचीरे. लगनी० ॥ ४ ॥ निष्कामे
 सेवाभक्ति, करतां प्रभु प्रगटे शक्ति; बुद्धिसागर
 प्रभुव्यक्तिरे. लगनी० ॥ ६ ॥

कलश. धन्याश्री.

गायो गायोरे महावीर जिनेश्वर गायो. ॥ त्रिश-
 लानंदन शासननायक; परमेश्वर जगरायो; अष्टप्र-
 कारी पूजा रचीने, भावथी गायो ध्यायोरे. महा-
 वीर० ॥ १ ॥ चउनिक्षेपे सातनयोथी, पूजा पूज्यने
 जाणी; द्रव्यने जावथी पूजा करंतां, पामो मुक्ति
 निशानीरे. ॥ महावीर० ॥ २ ॥ सम्यग्दृष्टिने द्रव्य-
 ने जावथी, पूजा शिवसुखकारी; चढतेजावे निर्जरा-
 कारी, मुक्ति अनुभवधारीरे. महावीर० ॥ ३ ॥ जक्त-
 जनो जक्तिरस पावे, जावे ते चित्तलावे, जक्तिथी
 चित्त शुद्धिने ज्ञाने, क्षणमां मुक्ति सुहावेरे. महावीर०
 ॥ ४ ॥ श्रद्धाप्रीति सेवाजक्ति, करनारां नरमाणी;

४२९

निश्चयमुक्तिपदने पामे, उपयोगे गुणधारीरे. महा-
वीर० ॥ ५ ॥ वीरजिनेश्वरपट्टपरंपरा, तपगच्छी
सूरिराया; जगगुरुहीरविजयसूरिमोटा, नरपति-
सुरपति गायारे. म० ॥ ६ ॥ पट्टपरंपरासागरसाखे,
रविसरखा गुरुराया. रवितागरगुरु पूर्णप्रतापी, भार-
तसंत सुहायारे. म० ॥ ७ ॥ तस शिष्य संवेगी
मुनिशेखर, सुखसागरगुरुराया; तास कृपाए पूजा
रचीने, आनंद अतिशय पायारे. म० ॥ ८ ॥ ओग-
णिश अट्टयोत्तेर चैत्रीसुदि,—नवमीने गुरुवारे; विजा-
पुरमां चढता पहोरे, पूजा रची प्रभुप्यारेरे. महा-
वीर० ॥ ९ ॥ प्रभुमयमनवचकाया थाशो, भक्तिगुण
प्रगटाशो; शुद्धातममहावीरोपयोगे, आयु एम व-
हाशोरे. म० ॥ १० ॥ अनुभव आनंद प्रगट्टयो न
छूपे, नूपे न भानु छुपायो; बुद्धिसागर आनंदमंगल,
आतमतेजे सुहायोरे. म० ॥ ११ ॥

ॐ प० महावीरजिनेन्द्राय फलं, य० स्वा०

४३०

महागुरुश्रीरविसागरजी गुरुपूजा.

प्रथम सद्गुरुसंगतिरूप जलपूजा.

परमश्वेर महावीर जिन, चोवीशमा जिनदेव;
परमब्रह्म परमात्मा, तीर्थकर करुं सेव. ॥१॥ गण-
धर गुणवंता गुरु, श्री सुधर्म प्रधान; गणधरपट्टपरं-
परा, श्वेतांबर गुणवान्. ॥२॥ वरुगह्वथी तपगह्वनी,
परंपरा वर्ताय; जगगुरु हीरविजयसूरि, थया महा-
गुरुराय. ॥ ३ ॥ विद्यासागर मुनिवरा, सहज सा-
गर मुनिराज; पट्टपरंपरा शोभता, संवेगी शिरताज.
॥ ४ ॥ नेमिसागर मुनिवरा, व्रताचार गुणवंत; तास
शिष्य गुण गणधरा, रविसागरजी संत. ॥ ५ ॥ गुरु
पूजा रचुं जावथी, मुनिपरमेष्ठी जेह; गुणी गुण
गातां जावतां, पवित्र मनवचदेह ॥ ६ ॥

(मेतारज मुनिवर धन्य धन्य तुम अवतार.)

धन्य धन्य साधुसंगति करनारां नरनार. ॥
मरुदेशे शुभ्र पालीनगरे, श्रावककुलमांही
चंद-श्रेष्ठी राघवजी गुणवंता, पत्नी माणिक गुण-
वंत; तस कुखे जन्म्या रवचंद पुत्र उदार० धन्य० ॥१॥
अनंतपुण्ये श्रावककुलमां, जन्म भवीनो थाय;
अनंतपुण्ये संत समागम, धर्मरुचि प्रगटाय; श्री जैन

४३१

धर्मनो जगमां छे आधार. धन्य० ॥२॥ मात पितानी
 साथे आव्या, आजीविकाहेत; नेमिसागरगुरुजी मळि-
 या, पूरवपुण्यसंकेत; शुच साधु संगति भवी जीवने
 हितकार० धन्य० ॥ ३ ॥ साधुसंगे देवगुरुने, धर्मनी
 श्रद्धा थाय; मिथ्याबुद्धि झट विणशेने, सत्यबुद्धि प्र-
 गटाय. शुभ० धन्य० ॥ ४ ॥ गुरुनी सेवा भक्ति
 करेजी, विनय धरी बहुमान; बुद्धिसागरसद्गुरुसंगे,
 प्रगटे कोटि कल्याण. शुभ० धन्य० ॥५॥

ॐ ह्रीं श्रीं गुरुपदपूजार्थं जलं० य० स्वाहा ॥

द्वितीया गुरुमुखआगमश्रवणरूपाचन्दनपूजा.

दुहा.

गुरुपासे नित्य सांभळे, आगम शास्त्र प्रमाण;
 जिनवर वाणी सांभळे, प्रगटे मतिश्रुतज्ञान. ॥ १ ॥

(पुखलवड विजये जयोरे, ए राग.)

विनय अने बहुमानधीरे, करी सुगुरुनी सेव;
 जे गुरुवाणी सांभळरे, ते पामे शिवमेवरे भविका;
 सुणजो गुरुगमशास्त्र. ॥ १ ॥ गुरुमुखे आगम सां-

४३२

भळरे, ते धन्य धन्य नरनार; धर्मशास्त्रना बोधथीरे,
 सफल मनु अवताररे. भ० ॥ २ ॥ गुरुसेवा जक्ति
 वळरे, प्रगटे सम्यग्ज्ञान; नगुरा नास्तिक प्राणि-
 यारे, धारे दिल अज्ञानरे. ज० ॥३॥ गीतार्थ सद्गुरु-
 गमवडेरे, विघटे मिथ्याबुद्धि; वैयावच्चीप्रेमथीरे,
 करतो हृदयनी शुद्धिरे. ज० ॥ ३ ॥ गुरुमुखे तत्त्वने
 सांजळरे, ज्ञाननी वृद्धि थाय; गुरुश्रद्धाप्रीतिवळरे,
 सवळुं सह प्रणमायरे. भ० ॥ ५ ॥ गुरुमुखर्था शास्त्रो
 सुणीरे, पाम्या रवचंद ज्ञान; देवगुरुने धर्मनीरे, श्रद्धा
 प्रगटी प्रमाणरे. ज० ॥ ६ ॥ नयगमभंगप्रमाण-
 थीरे, आतमज्ञान सुहाय; बुद्धिसागरगुरुमुखेरे,
 धर्म सुणे शिव थायरे. भ० ॥ ७ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं आगमश्रवणार्थं गुरुपदजक्तये चंदनं,
 यजामहे स्वाहा ॥

तृतीया सम्यक्त्वग्रहणरूपा पुष्पपूजा.

गुरु आगम आलंबने, समकितश्रद्धा थाय;
 उपशम क्षयोपशम तथा, क्षायिकगुण प्रगटाय.
 ॥ १ ॥ व्यवहारे समकिततणां, कारण जेह गणाय;

४३३

ते अवलंब्यां भविज्जना, समकितभावे सुहाय. ॥२॥
समकित पाम्यो आतमा, कर्मोदये भटकाय; उच्च
नीच भव पामतो, अंते मुक्ति पाय. ॥ ३ ॥

(कानुद्धो न जाणे मारी प्रीत. ए राग.)

समकित पामो नरने नार, गुरुमुख बोध ग्रही-
नेरे. समकित० ॥ देवगुरुपर रुचि, समकित प्रगट्यां
थावे; प्रगटे संयममुक्तिप्रेम, ब्रह्मनो बोध वहीनेरे.
समकित० ॥ १ ॥ द्रव्यथी भावने पावे, व्यवहारे
निश्चय थावे; कारणयोगे कार्य सधाय, आतमधर्म
स्वत्तावेरे. समकित० ॥ २ ॥ सम्यग्भावने जाणे,
समकिती आतमज्ञाने; आस्रवहेतुओपण थाय,
संवरभावे सुज्ञानेरे. समकित० ॥३॥ मिथ्याशास्त्रो पण
सवळां, कोइ न थातां अवळां; सम्यग्दृष्टियोगे
हेतु,—सर्वे थाता सवळारे. समकित० ॥ ४ ॥ सम-
किर्तामांहे ठे शक्ति, प्रगटावे केवलव्यक्ति; जडमां
प्रगट्यां मोहविभाव, टाळे झट आसकिरे. सम-
कित० ॥ ५ ॥ सद्गुरुसंगे प्रगटे, मिथ्याबुद्धि झट
विघटे; नगुरा नास्तिक मूढाओक, मिथ्याज्ञाने भ-
टकेरे. समकित० ॥ ६ ॥ नेमिसागरजी बोधे, रव-
चंद्र तत्त्वो शोधे; पाम्या द्रव्यभाव समकित, मोहनी

५५

४३४

वृत्ति रोधेरे. समकित० ॥ ७ ॥ व्यवहारे समकित
 ग्रहियुं, आंतर जावे वहियुं; सम्यग्दृष्टि ए अध्यात्म-
 रूपज अंतर लहियुंरे. समकित० ॥ ८ ॥ देवगुरुपर
 भक्ति, धर्मनी साची प्रीति; बुद्धिसागरगुणसम्य-
 क्तव, प्रगटे धर्मनी रीतिरे. समकित० ॥ ९ ॥



देशविरतिव्रतग्रहणरूपाचतुर्थी धूपपूजा.

समकितपरिणतिबलवडे, विरति प्रगटे खास;
 विरतिथी होय निर्जरा, कर्मक्षये शिववास. ॥ १ ॥
 समकितवण व्रततपवडे, मळे न साचीमुक्ति; सम्य-
 ग्दृष्टिजीवनी, सफळी सर्वप्रवृत्ति. ॥ २ ॥ समकित
 योगे उपजे, मनमां विरतिभाव; भावविरति, सम-
 कित्तीने, प्रगटे निमित्तदाव ॥ ३ ॥

(सांभळशो मुनि संयपरागे ए राग.)

श्रावकव्रतनी छे बलिहारी, धर्मीने हितकारीरे;
 गुरुपासे उच्चरी नरनारी, पामे जवोदधि पारीरे.
 श्रावक० ॥ १ ॥ पंचमगुणस्थानक देशविरति, देश
 उपाधि हठावेरे; जे जे अंशे निरुपाधिकता, ते अंशे

४३५

सुख थावेरे. श्रावक० ॥ २ ॥ सम्यग्दृष्टिने व्रताकि-
रिया, मुक्तिहेते थावेरे; समकितदायकगुरुजक्तिण,
मुक्ति अनुभव थावेरे. श्रावक० ॥ ३ ॥ नेमिसागर
गुरुनी पासे, रवचंद्र जावे रहियारे; श्रावकनां व्रत
बारे ग्रहियां, शुभजावे गहगहियारे. श्रावक० ॥ ४ ॥
षडावश्यक जावे साधे, गुरुने मुनि आराधेरे; चढता
जावे निशदिन वाधे, प्रगट्या गुण न विराधेरे.
श्रावक० ॥ ५ ॥ देवगुरुने धर्मनी सेवा, करता मुनि
व्रत इच्छारे; गुरुने विनवे आपो मुजने, सर्वविर-
तिनी दीक्षारे. श्रावक० ॥ ६ ॥ सर्वविरति लेवानी
इच्छा, श्रावकने होय नकीरे; बुद्धिसागर आतमव-
ळथी, पामे दीक्षा पकीरे.

ॐ ह्रीं श्रीं अर्हसद्गुरुभक्तये, धूपं. य० स्वाहा ॥

पंचमहाव्रतसर्वविरतिग्रहणरूपा पंचमीदीपपूजा.

देशथी सर्वविरतिविषे, अनंती आतमशुद्धि,
प्रगटे आत्मानंदता, क्षयोपशमगुणऋद्धि. ॥ १ ॥
छट्टागुणस्थानकतणी, क्रिया द्रव्यचारित्र; भावथी

४३६

विरतिपरिणति, प्रगटे आत्मपवित्र. ॥ २ ॥ गृहस्थ-
थकी त्यागी मुनि, अनंतगुण छे महान्; क्यां
सर्षपने सुरगिरि, चारित्रगुण बलवान् ॥ ३ ॥ व्यव-
हारे मुनिसद्गुरु, जैनागमथी प्रमाण; सर्वविरति
चारित्रथी, प्रगटे केवलज्ञान. ॥ ४ ॥ द्रव्यभावचा-
रित्रनी, इच्छा जेने होय; समकितीने देशविरति,
भावथकी ते जोय. ॥ ५ ॥ गृहस्थभावे भावना, मुनि
पद लेवा काज; अवसरबल प्रगटे तदा, दीक्षा ले
शिवसाज. ॥ ६ ॥

(सिद्धिऐनमो सिद्ध अनंता, ए राग.

धन्य धन्य मुनि अनगारी, सर्वविरतिचारित्र
धारी; जेह सर्वजीव उपकारीरे, संयमी गुरुजी नमो
गुणकारी. नमो आत्मउपयोग धारीरे, संयमी.
॥१॥ द्रव्यने जावथी हिंसाटाळे; जेह उत्सर्गने अप-
वादे चाले, सत्य वदता अस्तेयने पाळेरें. संयमीण
॥ २ ॥ द्रव्यजाव ब्रह्मचर्यनाधारी, नवविधपरिग्रहना
जे निवारी, रात्रीभोजनना परिहारीरे. सं० ॥ ३ ॥
चारित्र एवुं धरे व्यवहारे, निश्चयथी निज उपयोग
म्हाले, नेमिसागरगुरु कलिकालेरें. संयमीण ॥ ४ ॥
संवत्तओगणिसैसातनी साले, मौन एकादशी

४३७

शुभवारे, गुरुपासे दीक्षा ग्रही म्हालेरे. सं० ॥ ५ ॥
नाम थापियुं रविसागर मुनिराया, गुरुराजना निश-
दिन सेवे पाया, बुद्धिसागरगुरुगुण गायारे.
संयमी० ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं अर्हगुरुपूजार्थं दीपं. य० स्वाहा. ॥

गुरुकुलवासवैयावृत्यविनयकरणरूपा छट्टी
अक्षतपूजा ॥

गुरुकुलवासी मुनिवरा, पामे जगमां मान; ए-
कलविहारीने नहिं, तप संयम जप ध्यान. ॥ १ ॥
गुरुपासां जे सेवता, रही गुरुनी पास; शिष्यधर्म जे
पालता, बनी गुरुना दास. ॥ २ ॥ गुरुकुलवास रह्या
मुनि, संयममां स्थिर थाय; बहुश्रुतअनुजव पा-
मता, ब्रष्टपणुं नहिं पाय. ॥ ३ ॥

(भवि तुम बंदोरे सातुं पद भळुंरे. ए राग.)

गुरुकुल वासीरे मुनि गुरुवंदतारे, आतमशुद्धि
थाय; गुरुने स्वार्पणभावे जे सेवतारे, स्वर्ग अने शिव
पाय. गुरू ॥ १ ॥ आचारांगने दश वैकालिकेरे, गुरु

४३८

कुलवास वखाण; उत्तराध्ययने वैयावच्चीर्नारे, पडती
 थाय न जाण. गुरु० ॥ २ ॥ गुरुवैयावच्चयोगे गुण
 वधेरे, गुण प्रगट्या नहिं जाय; गुरुना विनय अने
 बहुमानथीरे, मतिश्रुतवृद्धि थाय. गुरु० ॥ ३ ॥
 गुरुनी आपी शिक्षाओ ग्रहेरे, गुरुआशय सहु जा-
 ण; अवळामांथी पण सवल्लुं ग्रहेरे, समतादिक गुण
 खाण. गुरु० ॥ ४ ॥ आतम उपयोगे करणी करेरे,
 चढता भावे सदाय; गुरुआज्ञामां अर्पाइ जतोरे,
 गुरुपरश्रद्धाप्यार. गुरु० ॥ ५ ॥ द्रव्यने गुणपर्या-
 यथी आतमारे, नयथी जाणे तत्त्व; आतम शुद्ध
 स्वरूपे परिणमेरे, पामे उत्तमसत्त्व. गुरु० ॥ ६ ॥
 गुरुनी श्रद्धाप्रीतियोगथीरे, प्रगटे आतमज्ञान;
 स्वाभाविक ए जगमां कायदोरे, पाळे ते गुणवान्.
 गुरु० ॥ ७ ॥ नेमिसागरगुरुनी पासमांरे, रविसागर
 मुनिराज; रहीने गुरुनी सेवाभक्तिथीरे, साध्यां आ-
 तमकाज. गुरु० ॥ ८ ॥ गुरु आज्ञामां धर्मने जाणी
 नेरे, साधे आतमधर्म; बुद्धिसागरगुरुनी महेरथीरे,
 प्रगटे मुक्तिशर्म. गुरु० ॥ ९ ॥

ॐ गुरुपदपूजार्थं अक्षतं य० स्वाहा ॥

४३९

सप्तमीचारित्राराधनरूपानैवेद्यपूजा.

दोहरा.

गुरु आज्ञाए वर्ततां, संयमयोग सधाय; आत्म-
वना पण हेतुओ, संवरहेतु थाय. ॥ १ ॥ आत्मना
उपयोगथी, कर्मोदयमां धर्म; थातो निश्चयभावथी,
कर्ता बाहिरकर्म. ॥ २ ॥ आत्मगुणमां रमणता,
ते चारित्र सुहाय; आत्मरमणताकारणो, ज्ञानीने
सहु थाय. ॥ ३ ॥

(तेजे तरणिथी वडोरे. ए राग.)

ग्राम नगर पुर विचरतारे, पाळे पंचाचार; चा-
रित्र लहीने पाळवुंगे, शूरानो व्यवहार हो. जगमां,
चारित्र पाळवुं दोहिवुंगे. ॥ १ ॥ गुर्जर सोरठ देश-
मांरे, विचरे दे उपदेश; तप तपता भणे आगप्पोरे,
सहे परिषह ने क्लेश हो. जगमां चा० ॥ २ ॥ नेभि
सागर गुरुवररे, निजपट्टे गुणी जाण; थाप्या रवि-
सागर गुरुरे, सर्वसमय सावधान हो. जगमां चा०
॥ ३ ॥ धर्मक्रिया योगी मुनिवरारे, सागरवरगंजीर;
सिंहनी पेठे पराक्रमीरे, मेरुपेठे धीर हो. जगमां
चा० ॥ ४ ॥ मूळ उत्तर चारित्रनोरे, धरता शुभ

४४०

व्यवहार; धर्मप्रज्ञावना बहु करेरे, सुधरावै आचार
 हो. जगमां चा० ॥ ५ ॥ कहेणी रहेणी जेहनीरे.
 सरखी मुनि शिरदार; ते कालना मुनिवन्दमारे; उ-
 त्कृष्टा अनगार हो. ज० चा० ॥ ६ ॥ ज्ञावसागरजी
 नामनारे, शिष्य कर्या अनगार; बीजा सुखसागर
 कर्धारे, समता गुणभंडार हो. ज० चा० ॥ ७ ॥
 जाणे गुरुनुं सहु गुरुरे, गुरुथी जेह अभिन्न; बुद्धिसा-
 गर सदगुरुरे, समभावे लयलीन हो. ज० चा० ॥ ८ ॥

ॐ गुरुपदपूजार्थं नैवेद्यं य० स्वाहा० ॥

अष्टमी ध्यानसमाधिरूपा फलपूजा.

ध्यानसमाधियोगथी, प्रगटे सहजानन्द; स-
 हजानन्दने पामवा, धर्मप्रवृत्तिश्चन्द्र. ॥ ॥ दर्शन
 ज्ञानने चरणमां, वर्ते सहजसमाधि, आतम आन-
 न्दफलतणा, स्वादे रहे नहि आधि. ॥ २ ॥ आतम
 आनन्द पामवा, ध्यानसमाधियोग; उपादान कारण
 कहुं. निमित्त गुरुसंयोग. ॥ ३ ॥

४४१

(त्रिनयद् जगमां जाचुं जाणो-ए राग.)

सर्वविरतिधरगुरु जयकारी, नमुं पूजुं उप-
 कारीजी, समकितचारित्रदायकगुरुनी, जगमां ठे
 वलिहारी; गुरुजी भजीए जी, पामी गुरु उपदेश;
 मोहने तजीए जी० ॥१॥ आर्त रौद्रने प्रगट्यां त्यागे,
 धर्मध्यानमां जागेजी; वर्ते आतमगुणना रागे, रहेता
 जे वैराग्ये. गुरु० ॥ २ ॥ वर्ते आतमगुण उपयोगे,
 आतमआनंदभोगेजी; दिलमां रहे नहि हर्षे
 शोके, क्षण न रहे जे ढोंगे. गुरु० ॥ ३ ॥ आतमना
 उपयोगे म्हाले, आतमगुण अजुवाळेजी; मोहास-
 क्तिनां बी वाळे, चारित्र एवुं पाळे. गुरु० ॥ ४ ॥
 ध्यानसमाधियोगे रमता, मोहवने नहि भमताजी;
 सर्वकार्य करंतां समता, ज्ञाने मोहने दमता. गुरु०
 ॥ ५ ॥ क्षयोपशम आनंदने पामे, अंतरमां विश्रामे
 जी; निश्चय ठरता अनुभवठामे, पडे न मिथ्या
 जामे; गुरु० ॥ ६ ॥ आतमसुखफलपूजाए जे, परम
 प्रभुने पूजेजी; गुरु रविसागर गुरु सुखसागर, पूजंतां
 मोह ध्रुजे. गुरु० ॥७॥ मेसाणामां वृद्धपणामां, रहीने
 आतमध्यावेजी; सुडतालीशवर्षतक संयम, पाळी
 मोह हठावे. गुरु० ॥८॥ संवत् ओगणिशचोपनसाले,

४४२

वदि एकादशी आवेजी; जेठमासमां चढता प्रहरे,
गुरुजी स्वर्ग सिधावे. गुरु० ॥ ९ ॥ आत्मोपयोगे जड
चेतनमां, समजावे परिणामीजी; बुद्धिसागरसद्गुरु
वंदु, अतिभावे शिरनामी. गुरु० ॥ १० ॥

कलश. राग धन्याश्री.

गाया गायारे एम गुरुगुण भावथी गाया.॥ नेमि-
सागरजी रविसागरजी, सुखसागरगुरु गाया; द्रव्य-
भावथी गुरुपदपूजा, करतां जाव चढायारे. एम.
॥१॥ तपगच्छजगगुरुहीरविजयसूरि,—पट्टपरंपराआया;
समकितचारित्रगुण प्रगटाया, आत्मअनुभव पायारे.
एम० ॥ २ ॥ गुरुने गातां गुरुगम प्रगटे, निश्चय
एह जणाया; ओगणिश अढ्योतर चैतरनी, पूर्णिमा
पूजा रचायारे. एम० ॥ ३ ॥ गुर्जरदेशविजापुरमांही,
पूजा रची सुखकारी; संघचतुर्विधमंगलकारी, शांति
पुष्टि करनारीरे. एम० ॥ ४ ॥ गुरुने गातां प्रगटी-
खुमारी, उतरे ते न उतारी; बुद्धिसागरगुरु जयकारी,
पूजो भावे नरनारीरे. एम० ॥ ५ ॥

४४३

श्रीसद्गुरुसुखसागरगुरुपूजा।

प्रथम सेवारूपजलपूजा.

दोहरा.

प्रणमुं श्रीपरमात्मा, तीर्थकरमहावीर; गौ-
तमआदिसूरिवरा, अनेकगुणगंभीर. ॥ १ ॥
श्वेतांबरतपगच्छमां, अनेक मुनि गुणवंत; संप्रति
जे जग विचरता, तेमां उत्तम संत. ॥ २ ॥ श्री सुख-
सागरमुनिगुरु, थया जगत्विख्यात; सर्वगच्छ
मुनिवृन्दथी, वखणाया जगद्रात ॥ ३ ॥ गुरु गातां
स्तवतां थकां, पूजतां सुख थाय; ते कारण गुरुपू-
जना, रचतां मुक्ति सुहाय. ॥ ४ ॥ गुरचरण स्थापी
करी, पूजा अष्टप्रकार; द्रव्यभावथी जे करे, ते
तरतां नरनार. ॥ ५ ॥

(मेरु शिखर न्हवरावे हो सुरपति, ए राग.)

सद्गुरु जग उपकारी हो, सद्गुणी; सद्गुरु जग
उपकारी; समकित चारित्रदायकसद्गुरु, जगमां
तुज बलिहारी; सर्वजावे तुजमां अर्पावुं, सद्गुरु
सेवा ए सारी हो सद्गुणी. स० ॥ १ ॥ नामरूपनो
मोह निवारी, आत्मभाव समारी; व्हाळुं सह तुज

४४४

उपरे वारी, सेवा करुं सुखकारी हो. स० ॥ २ ॥ प-
 वित्र सेवाजलथी पूजुं, तुज चरण उपकारी; पुष्ट
 निमित्त गुरुजी कलिकाले, आत्मशुद्धिकारी हो.
 स० ॥ ३ ॥ कुंभे वांध्युं वारि रहे पण, आधारथी रहे
 पाणी. ज्ञाने मनवश पण गुरु मळतां, ज्ञान प्रगट
 गुणखाणी हो. स० ॥ ४ ॥ गुरुजी मळिया फेरा ट-
 लिया, गुरुसेवामां हळिया; सुखसागरगुरुपूजा
 करतां, बुद्धिवंछित फळियां हो. स० ॥ ५ ॥
 ॐ अर्हे श्री सद्गुरुचरणपूजार्थं जलं. य० स्वाहा ॥

द्वितीया गुरुसमतारूपा चंदनपूजा.

आत्मने शीतल करे, समताचंदन मान; स-
 मताचंदन पामीने, पूजुं गुरु गुणखाण. ॥ १ ॥ भव-
 दवताप शमाववा, समताचंदन बेश; गुरु हृदयमां
 जो वसे, तो प्रगटे नहि क्लेश.

(ध्रुवपद गोडी राग.)

लगनी श्री सद्गुरुथी लागी, व्राति भ्रमणा भा-
 गीरे; रंगायो रागी थै रंगे, जोयुं हवे घट जागीरे.

४४५

लगनी० ॥ १ ॥ मुखथी महावीर जाप जपंता, आ-
 तमना उपयोगीरे. सरलहृदयने समतागुणमय,
 भासक निजगुणज्ञोगीरे. लगनी० ॥ २ ॥ प्रेमी
 थैने परख्या पूरा, निश्चय निर्मलनूरारे; सत्ताए पर-
 मातम सद्गुरु, संयमपालन शूरारे. लगनी० ॥ ३ ॥
 आतमअसंख्यप्रदेशे समता, चंदनपूजा करतारे,
 बुद्धिसागरआतमसद्गुरु, पामी भवी शिव वरतारे.
 लगनी० ॥ ४ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं सद्गुरुचरणपूजार्थं चंदनं,
 यजामहे स्वाहा ॥

तृतीया गुरुगुणरागग्रहणरूपापुष्पपूजा.

सद्गुरुगुणरागी बनी, गुरुगुणनो फेन्नाव; करी
 ए विनयने मानथी, एठे पूजनल्हाव. ॥ १ ॥ गुरु-
 रागे गुण संपजे, गुरु निंदे गुण जाय: गुरुनी श्रद्धा
 प्रीतिथी, गुरुना गुण ग्रहवाय. ॥ २ ॥ गुरुनी श्रद्धा
 प्रीतिथी, गुरुनो बोध ग्रहाय; -सेवा चक्ति संपजे,
 सगुराने समजाय. ॥ ३ ॥

४४६

(निशानी कहा बतावुरे-राग. गोडी.)

गुरुनी करुणा सारीरे, जेथी थतो रंक राय.
 गुरुनी॥गुरु करुणा गुरु रागधीरे, तनमन अप्ये प्राण;
 जेओ प्रचुपद पामियारे, गुरु कृपा त्यां जाण. गुरु॥१॥
 गुरुनी रीझमां विश्वनीरे, खीज न गणवी लगार;
 गुरुरागे रंगाइयारे, ते धन्य धन्य नरनार. गुरु० ॥१॥
 नगुरा नास्तिक लोकधीरे, जेह नहीं भरमाय; शिर-
 साटे गुरुसेवनारे, पामे करुणासहाय. गुरु० ॥ ३ ॥
 गुरुकृपा ते जन लहेरे, गुरुरूप थै जाय; निष्कामी थै
 गुरुभजेरे, गुरुथी अलगो न थाय. गुरु० ॥४॥ गुरुरागी
 गुरुगुण ग्रहीरे, सुखसागरमहाराज, गुरुगुणप्रेमसु
 पुष्पधीरे, पूजे शिव साम्राज्य. गुरु० ॥५॥ द्रव्यभाव
 गुरुरागियारे, करता आतमशुद्धि; बुद्धिसागर आत-
 मारे, आविर्भावे ऋद्धि. गुरु० ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं अर्हं सद्गुरुरूपदपूजार्थं पुष्पं यजामहे
 स्वाहा ॥

४४७

चतुर्थी गुरुजाप गुरुस्मरण भक्तिरूपा धूपपूजा.

सद्गुरुनामने स्थापना, द्रव्यज्ञाव निक्षेप; साचा ते अवलंबतां, रहे न कर्मनी रेख. ॥ १ ॥ सद्गुरु नामना जापथी, मोह न आवे पास, प्रभुमहावीर नामना, जापे सद्गुणवास. ॥ २ ॥ सद्गुरुनामना जापथी, आतमशुद्धि थाय; द्रव्यज्ञावथी धूपनी, पूजा छे शिवदाय. ॥ ३ ॥

सारंगराग.

रीझीए रीझीए रीझीए, गुरुनाम जपी दिख रीझीए; गुरुसंगी रसिया थै रागे, आतमरसने पीजीए. गुरु० ॥ १ ॥ गुरुना द्वेषी नास्तिकजननी, संगति क्यारे न कीजीए; गुरुना रागी भक्तनी संगे, आतमरसने लीजीए. गुरु० ॥२॥ समकृती चारित्री गुरुपर, शंकादि न धरीजीए; कडवी शिक्षा अमृतसरखी, मानी क्यारे न खीजीए. गुरु० ॥ ३ ॥ आतम सर्व गुरुने निवेदी, गुरुज्ञाकिरस पीजीए; गुरुनिन्दक प्रतिपक्षी वचनपर, विश्वास क्यारे न दीजीए. गुरु० ॥४॥ गुरुनाम जापनी धूपपूजाथी, दुर्गंधमोह हरीजीए; बुद्धिसागरसद्गुरुजापे, प्रभुपद सहेजे वरीजीए. गुरु० ॥ ५ ॥

४४८

ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं गुरुपदपूजार्थं धूपं यजामहे
स्वाहा. ॥

पंचमी गुरुगमज्ञानरूपदीपकपूजा.

गुरुधी ज्ञान प्रकाश छे, गुरुवण छे अज्ञान; गुरु-
गम वण शास्त्रो भणे, थाय न सम्यग्ज्ञान. ॥ १ ॥
जैनागम शास्त्रो सकल, गुरुगमधी समजाय; गुरुनी
सेवा जक्तिथी, सवलुं सहु प्रणमाय. ॥ २ ॥ नयगम
भंगनिक्षेपधी, षरूद्रव्यादिकज्ञान; गुरुगमधी श्र-
वणे सुणी, करीए प्रगटे ज्ञान. ॥ ३ ॥

(ध्यानक्रिया मनमां आणीजे, ए राग.)

गुरुनी सेवा जक्ति करंतां, सम्यग्ज्ञान लही-
जेरे; सम्यग्मतिश्रुतज्ञान प्रगटतां, आतमरूपे
वहीजेरे; गुरुगम ज्ञान करो नरनारीण ॥ १ ॥ गुरुवि-
नये ने गुरुवहुमाने, गुरु आणाने पाळेरें; गुरुमाटे
स्वार्पणभक्तिए, प्रगटे ज्ञान सुचालेरें. गुरु ॥ २ ॥
गुरुकृपाधी सम्यग्दृष्टि, प्रगटे सर्व छे सवलुंरे; गुरु
कृपा वण आपमतिने, मिथ्यादृष्टिए अवळुंरे. गुरु
॥ ३ ॥ गुरुकृपा प्रगटे एम वर्ते, विनयी जे नर-

४४९

नारीरे; परमात्मपद वेगे पामी, मुक्ति लहे अवि-
कारीरे. गुरु० ॥ ४ ॥ मतिश्रुतथी अवधि मनपर्यव,
केवलज्ञान प्रकाशेरे; गुरुसुखसागर पूर्णकृपाथी, बुद्धि
प्रभुपद पासेरे. गुरु० ॥ ५ ॥

ॐ अर्हं गुरुपदपूजार्थं दीपं यजामहे स्वाहा ॥

षष्ठी पंचाचारपालनरूपा अक्षतपूजा.

पंचाचारना अक्षते, अक्षत आत्मरूप; पूजी
जे बहुप्रेमथी, नासे भवभयधूप. ॥ १ ॥ गुरुचर-
णने अक्षते, पूजंतां शिव थाय; स्वस्तिक गुरुनी
आगळे, करतां पाप पलाय. ॥ २ ॥ पंचाचारने पाळवा,
अक्षतपूजा एह; भावथी पूजा पूज्यनी, प्रगटावे
शिवगेह. ॥ ३ ॥

कान्हरो.

अक्षतपूजा आनंदकारी, द्रव्यने जावथी छे
जयकारी; दर्शन ज्ञानने चरणाचारी, तप वीर्ये गुरु
जग उपकारी. अक्षत० ॥ १ ॥ स्वस्तिक करतां स्व-
स्तिकभारी, जयजयगुरु तुज जगबलिहारी; द्रव्यजा-
वथी पंचाचारी, उपयोगी गुरुजी हितकारी. अक्षत०

५७

४५०

॥ २ ॥ पंचमहाव्रतपालनकारी, प्रतिबोध्यां बहुलां
नरनारी; एकांते गुरुजी सुखकारी, अंतर आत्मप्रदेश
विहारी. अक्षत ॥ ३ ॥ आतम सुखसागर गुरुयागी,
रोमेरोमे लागी प्यारी; बुद्धिसागरगुरु अनगारी,
आनंद मंगलप्रद अविकारी. अक्षत. ॥ ४ ॥

ॐ अहं महावीरजिनेश्वरपट्टपरंपराप्रवर्तित
श्री गुरुपूजार्थं अक्षतं यजामहे स्वाहा ॥

सप्तमी ध्यानरूपा नैवेद्यपूजा.

ध्यानरूप नैवेद्यथी, गुरुपूजाकरनार; उपशम
क्षयोपशम अने, क्षायिकगुण वरनार. ॥ १ ॥ असंख्य
प्रदेशी आतमा, प्रतिप्रदेशे अनंत; गुणपर्यायनाध्या-
नथी, प्रगटे शिवपदकंत. ॥ २ ॥ बाह्यनैवेद्यना
रसवडे, नित्यतृप्ति नहि थाय; आतमरसनैवेद्यथी,
जडरसरुचि विणशाय. ॥ ३ ॥

(जिनदर्शन मोहनगारा, ए रागनी चाल.)

गुरुदर्शन छे सुखकारी, गुरुसंतनी ठे बलिहारीरे-
गुरुद्रव्यगुणपर्यायविचारी, ध्यानसमाधिधारी;
आतमरसियाने अविकारी, गुरुनी गति ठे न्यारीरे.

४५१

गुरु० ॥ १ ॥ आतमअसंख्यप्रदेशविहारी, द्रव्य-
ज्ञावव्यवहारी; पडावश्यकधर्माचारी, उत्कृष्टा अन
गारीरे; गुरु० ॥२॥ अंतरथी नहीं जडनीयारी, आतम
परिणति प्यारी; क्रियायोगी साचा उपकारी, संत
सदा जयकारीरे. गुरु० ॥ ३ ॥ गुरुमूर्ति द्रव्यभावथी
प्यारी, शुद्धप्रदेशी सारी; कर्म करे पण निर्वंध भारी,
सर्वजीव आधारी रे. गुरु० ॥ ४ ॥ गुरुनी अकलकला
सहु न्यारी, समजे नहि अविचारी; बुद्धिसागर ध्याननुं
नैवेद्य-धरतां सुख निर्धारिरे. गुरु० ॥ ५ ॥

ॐ ह्रीं श्री अर्हं महावीरपरमेश्वरपट्टपरंपरा
शोणितगुरुपदध्यानार्थं नैवेद्यं यजामहे स्वाहा ॥

अष्टमी ज्ञानानन्दानुन्नवरूपा फलपूजा.

आतम आनंद पामीने, जडरसपेलीपार; आ-
त्मदशाना अनुन्नवी, जय जय गुरु सुखकार. ॥ १ ॥
आतमअनुभवफलतणो, आनंदरस छे अनंत;
आतमरसी ज्ञानी गुरु, पामे भवनो अंत. ॥ २ ॥
द्रव्यभाव फल पामवा, फलथी पूजे जेह; भक्त शिष्य
सुखरस लहे, पडे न पाछो तेह ॥ ३ ॥

४५२

(निशदिन जोउ त्हारी वाटडी, घेर आवोने ढोला. ए राग.)

आतमअनुभवफलवडे, गुरु पूजीए भावे;
 द्रव्यथकी भाव संपजे, निजगुणरस आवे. आतम०
 ॥ १ ॥ संत गुरुनी पूजना, नहीं निष्फल जाती;
 कारणे कार्यनी सिद्धि ठे, प्रभुता परखाती. आतम०
 ॥ २ ॥ गुरु हृदयमां छे प्रभु, तेम गुरु प्रभु जाणो;
 गुरु पूजे प्रभु पूजिया, श्रद्धा प्रेमे प्रमाणो. आतम०
 ॥ ३ ॥ गुरुथी सिद्धता संपजे, गुरु प्रभुने जणावे;
 निमित्तगुरुथी आत्मनी, गुरुता भवी पावे. आतम०
 ॥ ४ ॥ गुरुसेवाभक्तिवडे, याती हृदयनी शुद्धि;
 आतमज्ञान ज संपजे, नवक्षायिक ऋद्धि. आतम०
 ॥ ५ ॥ गुरुथी आतमरस मळे, जडरस टळे त्रांति;
 गुरुथी आतमरस लह्यो, मळी आतमशांति.
 आतम० ॥ ६ ॥ अनुभवफलथी पूजिया, गुरुजी
 जयकारी; बुद्धिसागरसद्गुरु, प्रभुविश्वोपकारी.
 आतम० ॥ ७ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं अँर्हं परमप्रभुपरब्रह्मपरमात्ममहावीर
 तीर्थकरदेवपट्टपरंपरावर्तिसद्गुरुचरणानुभवफल पू-
 जार्थं फलं, य० स्वाहा ॥

४५३

कलश. राग कान्हरो.

गुरु पूजा गाइ गुणकारी, मंगलदायी शिवसुख
 कारी. गुरु० आधिव्याधिउपाधिहारी, गुरुपूजाथी
 तरे नरनारी. गुरु० ॥ १ ॥ ओगणिशअथोत्तरनी
 साले, चैत्र वदि बीजने गुरुवारे. गुरु० मधुपुरी (महुडी)
 मां जक्ति विचारे, पूजा रची शुभभावविशाले. गुरु०
 ॥२॥ गुरुपूजा जे जणे नरनारी, पामो मंगल ऋद्धि
 अपारी; घर घर आनंद प्रगटो भारी, गुरुपूजाथी
 शांति थनारी. गुरु० ॥३॥ गुरुभक्तोनी चढती थाशो,
 धर्मकमाणी सत्य कमाशो; गुरुभक्ते दुःखो दूर
 जाशो, गुरुनामे ए आशी सुहाशो. गुरु० ॥ ४ ॥
 द्रव्यथी भावथी महाउपकारी, श्रीसुखसागरजी
 हितकारी; बुद्धिसागरगुरुबलिहारी, व्हारे आवी
 वेरुली तारी. गुरु० ॥ ५ ॥

 बीजो कलश.

गाइ गाइरे गुरुपूजा भावथी गाइ. द्रव्य जा-
 वथी मुनि गुरुपूजा, आनंद मंगलदायी; श्रोता
 वक्ता घरघर मंगल, संघमां शांति वधाइरे. गुरु०
 ॥ १ ॥ ओगणिश अथोत्तर चैत्रनी, वदि बीजने
 रुवारे, मधुपुरी (महुडी) मांही गुरुजक्तिथी,

४५४

पूजा रची भवी तारेरे. गुरु० ॥ २ ॥ गुरुभक्तिथी
 पातिक शापो, आधिव्याधि प्रणाशो, गुरुभक्तिथी
 संघमां घर घर, मंगल सुखनां प्रकाशोरे. गुरु० ॥३॥
 गुरुभक्तिथी भक्तजनोनी, वळशो सुखनी वेळा, गुरु
 भक्तिथी प्रभुपद पामो, मळशो वांठितमेळारे. गुरु०
 ॥ ४ ॥ गुरुभक्तिरसियां नरनारी, सुखसागरगुरु
 धारी; बुद्धिसागर ऋद्धि वृद्धि—कीर्ति जयपदकारीरे.
 गुरु० ॥ ५ ॥

गुरुपूजा भणाववानी विधि.

उपाश्रयमां अगर बीजी जग्याए गुरुनां पगलां
 स्थापवां; केशरचंदननी वेपाटुकाकरवी, अगरचोखानी
 पण वे पाटुका करवी. गुरुनी ठवी होयतो ते स्था-
 पवी. स्नात्र भणाववानी जरूर नथी; जलपूजानो
 कलश, जलपूजा भणावीने आगल स्थापन करवो.
 पाषाणधातु आदिनी गुरुमूर्ति होयतो तेनापर जलनो
 अभिषेक करवो, तथा चंदननी पूजा वगेरे जिनप्र-
 तिमानी माफक करवी, पगलां पाषाणनां होयतो ते
 पर जल अभिषेक तथा चंदन पुष्प वगेरे प्रतिमानी
 पेठे चढाववां, धूपदीप आगल करवो. पगलां अगर
 मूर्तिनी आगळ, स्वास्तिक नैवेद्यफलने ढोंकवां;

४५५

केशरचंदननी पादुका करी होयतो तेनी आगळ जळ कलशादिक मूकवा. जिनमन्दिरमां गोखलामां गुरु मूर्ति अगर पादुका होयतो श्रीजिनप्रतिमानो मूळ गभारो बंध करीने गुरुपादुका अगर मूर्ति आगळ पूजात्रणावची, अरिहंत जेम परमेष्ठी छे तेम आचार्य उपाध्याय अने मुनि ए त्रण पंचपरमेष्ठीमां छे तेथी तेमनी मूर्ति पादुका छे ते जिनमूर्ति तथा जिन पादुकांनी पेटे पूजवा योग्य ठे. जे दिवसे सूरिवाचक साधुए देहोत्सर्ग कर्यो होय ते दिवसे गुरुपूजा त्रणावची. स्नात्रियाओने जमाडवा. तेमने लाडु आदिनी प्रभावना करवी. पूजामां आवनार सर्व साधर्मिकनी प्रभावनाथी भक्ति करवी. शक्ति होयतो जमण पण करवुं, पादुका अगर मूर्ति आगळ उत्सव करवो. सांजरे टोळी वेसाडी गुरुभक्तिनां गायनो स्तवनो गावां. गुरुनी भक्तिना निमित्ते वर्तमान साधु साध्वीनी सेवा भक्ति करवी. गुरुचरित्रनुं व्याख्यान सांभळवुं, ते निमित्ते धार्मिक पुस्तको छपाववां. गुरुनो महिमा वधारवो. गुरुना उपदेशोनुसारे वर्तवुं. गुरुपादुकानी वा मूर्तिनी सुगंधी पुष्पथी पूजा करवी.



४५६

अथ सत्तरभेदीपूजा.

प्रभु महावीर जिनपति, तीर्थंकर जगदेव; श्री
जिनवाणी सद्गुरु, प्रणमी करु शुभसेव. ॥ १ ॥
सत्तरभेदी पूजा ज्ञानी, द्रव्यज्ञाव सुखकार; श्राव-
कने व जेदथी, यतिने भावथी सार. ॥ २ ॥ आगम
शास्त्राधारथी, पूजा भवि हितकार; श्रद्धाप्रीतिज-
क्तिथी, आत्मशुद्धि करनार. ॥ ३ ॥

प्रथम न्हवणपूजा.

(ध्रुवपदं, गोडीरागेण गीयते)

जिनपतिने न्हवरावेहो सुरपति, मेरुशिखर
न्हवरावेरे० उज्वलशुभआतमपरिणामे, जिनगुण
भावना भावेरे. जिन० ॥ १ ॥ प्रभु तुज उपरे श्रद्धा
प्रीति, न्हवण पूजा में धारीरे; दुनियानी खीज दूर
निवारी, तुजपर जउ सहु वारीरे. जिन० ॥ २ ॥
तुजजक्तिमां मुज मन प्रणम्युं, तुजरागे रंगायोरे;
तुजरागे समकितगुण निश्चय, तन्मयज्ञावे सुहा-
योरे. जिन० ॥ ३ ॥ गंगादिकनिर्मल जलस्नाने,
भावथी जक्तिकामेरे; बुद्धिसागर पूजा करतां, आतम
निज गुण पामेरे. जिन० ॥ ४ ॥

४५७

द्वितीया चंदनविलेपनपूजा.

द्रव्यजावथी कीजीए, चंदनपूजा बेश; जावथी
समचंदनवक्के, पूजे विघटे क्लेश. ॥ १ ॥

(धन्याश्री रागेण गीयते.)

द्रव्यने जावथी चंदनपूजा, जिनवरनी जय-
काररे; सत्यसुगंधी चूर्ण विलेपन, समता चंदन सा-
ररे. द्रव्य० ॥ १ ॥ प्रभुनवअंगे चंदन चर्चे, जाव
थरी नरनाररे, श्रद्धा प्रीति प्रभुपर वधतां, परपरि-
णतिपरिहाररे. द्रव्य० ॥ २ ॥ तुजमां राचुं तुजपर
माचुं, भूली दुनियाभावररे. बुद्धिसागरप्रभुमयजी-
वन; रंगे थयो गुल्तानरे. द्रव्य० ॥ ३ ॥

ॐ चन्दनविलेपनं य० स्वाहा ॥

तृतीया चक्षुर्युगलपूजा.

द्रव्यभावथी चक्षुनी, युगलपूजा सुखकार;
चढताप्रीतिभावथी, करतां शिवसुख सार. ॥ १ ॥

५८

४५८

दीपचंदी ताल सोरठ.

जिनदर्शन मोहनगारा, ए राग.

तुज मूरति प्रभु !!! मुज व्हाळी, आंखे देखी
 देखी धारीरे. तुज० सम्यग् मतिश्रुतचक्रयुगलथी,
 प्रभुपूजा जयकारी; केवलदर्शन ज्ञान प्रगटतां, पूजा
 पूर्ण प्रकारीरे. तुज० ॥ १ ॥ शब्दनये तुज मूरति
 प्यारी, देखे तस बलिहारी; नयव्यवहारे स्थापना
 सारी, भविजीवने हितकारीरे. तुज० ॥ २ ॥ तुज
 भक्ति शिवपुरनी बारी, मिथ्यामतसंहारी, सम्यग्
 दृष्टिनी करनारी, अनंतकर्मसंहारीरे. तुज० ॥ ३ ॥
 ज्ञावथी पूजंतां नरनारी, आनंदनी लहे क्यारी;
 बुद्धिसागरजिनगुण धारी, पूजा छे सुखकारीरे.
 तुज० ॥ ४ ॥ ॐ चक्षुर्युगलं य० स्वाहा ॥

चतुर्थी वासपूजा ॥

खंदन घसी घनसारने, मेळवी पुष्पसुवास;
 वासथकी प्रभु पूजीए, भावथकी विश्वास. ॥ १ ॥

४५९

गीत राग-मालवी गोडी.

वासथकी प्रभु पूजासारी, जक्तजनोने प्यारीरे;
 गुणीनी सेवा प्रगट करे गुण, प्रभुगुणनी बलिहा-
 रीरे. वास० ॥ १ ॥ समकितवासे प्रभुपूजंतां,
 गुणगण प्रगटे जारीरे; प्रभुगुणवासे वासित आतम,
 शुद्धातम निर्धारीरे. वास० ॥ २ ॥ सर्वविरति
 संयमगुण वासे, मोहनी दुर्गंध नासेरे; समकितवासे
 प्रभु निज पासे, आपोआप प्रकाशेरे. वास० ॥ ३ ॥
 निमित्त शुद्ध उपादानवासे, चढतां जाव वधारीरे;
 बुद्धिसागरआत्मविकासो, प्रभुपूजी नरनारीरे. वास०
 ॥ ४ ॥ ॐ वासंथ० स्वाहा ॥

पंचमी पुष्पपूजा.

द्रव्यभावसुपुष्पथी, पूजंतां जिनराज;
 अंतर आतम उल्लसे, प्रगटे प्रभुसाम्राज्य. ॥१॥

प्रभु निर्मल दर्शन कीजीए ए-राग.

सारंगरागेण गीयते.

पूजीए पूजीए पूजीए, जिनराजने प्रेमे पूजीए. ॥
 प्रभुगुणअमृत पीजीए, जिनराजने प्रेमे पूजीए; ॥

४६०

द्रव्ययकी शुजगंधीपुष्पे, प्रभुनी पूजा कीजीए,
 भावथकी व्रतपंचाचारना,—पुष्पे पूजीने रीझीए.
 जिनराज० ॥ १ ॥ क्षयोपशम उपशमने क्षायिक,
 आतमगुणे प्रकटीजीए; आतमगुणअनुयायीचे-
 तना, प्रगटावी सुख लीजीए. जिनराज० ॥ २ ॥
 प्रभु तुजथी मुज लगनी लागी, मुज पर करुणा
 कीजीए; बुद्धिसागर आतमआनंद, रसजर प्याला
 पीजीए. जिनराज० ॥३॥ ॐ पुष्पं य० स्वाहा ॥

षष्ठी पुष्पमाला पूजा.

पुष्पमालथी पूजतां, प्रभु गुण प्रकटे अंग;
 ईयल भमरीध्यानथी, त्रमरीपद लहे चंग. ॥ १ ॥

(चेतन अब मोहे दरिशन दीजे. ए राग.)

प्रभुजी महावीर तुज रढ लागी, थयो तुज
 गुण अंतर रागी. प्रभुजी० ॥ तुजगुण गणतां पार
 न आवे, कोटी वर्ष वही जावे; तुज अनुभव झांखी
 घट प्रगटे, आनंद जगमां न मावे. प्रभु० ॥ १ ॥
 आतमगुण पंचपुष्पनी माला, भावथी पूजा प्यारी;
 निजपूजा ते आतमपूजा, विश्वयथी सुखकारी.

४६१

प्रभुजी० ॥ २ ॥ आतमद्रव्यना गुणपर्याये, आ-
त्मोपयोगे समारी; बुद्धिसागर आविर्भावे, प्रभु
प्रगटे जयकारी. प्रभुजी० ॥ ३ ॥

ॐ पुष्पमालां य० स्वाहा ॥

सप्तमी कुसुम आंगी रचनारूपपूजा.

देव गुरुने धर्मनी, श्रद्धा भक्तिप्रकार;

कुसुम आंगी पूजाभली, करतां ऋषी नरनार. १

(राग बिरुओ अथवा पीळु !! सोवे सोवे सारी
रैन गुमाइ. ए राग.)

कुसुमआंगीनी पूजा सारी, द्रव्य भावथी
भवि हितकारी. कु० ॥ समकितसडसठबोल वि-
चारी, कुसुमनी आंगी मलपरिहारी. कु० ॥१॥ देव
गुरुने धर्मनी ऋक्ति, करतां प्रगटे आतमशक्ति. कु०
समकित वण व्रत तप जप रीति, तेथी टळे नहि
भवनी जीति. कु० ॥ २ ॥ तुज आगमनी श्रद्धा
धारी, तुजपर तन मन जाउ वारी; कु० ॥ तुज
संतोनी साची यारी, बाकी जूठी दुनियादारी. कु०
॥ ३ ॥ श्रावक साधु गुणगण भारी, भावथी पूजा

४६२

ए निर्धारी; कु० ॥ बुद्धिसागर भक्ति प्यारी, ज्ञाव-
थकी शिवसुख देनारी. कु० ॥ ४ ॥

ॐ० कुसुमार्गी य० स्वाहा ॥

अष्टमी चूर्णपूजा.

घनसारादिक चूर्णथी, जिनपति पूजा एह;
ज्ञावथी उपशम चूर्णथी, पूजे जिनवर तेह. ॥ १ ॥

(ध्रुवपद काफी रागेण गीयते.)

प्रभु तुज दर्शननी बलिहारी, दर्शननी बलि-
हारी. प्रभु० द्रव्यने भावथी दर्शन पामे, धन्य ते
नरने नारी; द्रव्यभाव चूरणथी पूजा, करता तस
बलिहारी. प्रभु० ॥ १ ॥ क्रोध मान मायाने लोचनो,
उपशम जेटलो थावे; तेटला प्रभुगुण अनुभव
आवे, समकितीने ए सुहावे. प्रभु० ॥ २ ॥ आनंद
ज्ञाननी प्रगट प्रभुता, प्रभुभक्ति तेह जावे; क्षयो
पशम उपशमना जावे, प्रगटे अनुभव आवे. प्रभु०
॥ ३ ॥ सातनयोथी दर्शनपूजा, सेवा साची जाणी;
बुद्धिसागरप्रभुनी पूजा, आपोआप प्रमाणी. प्रभु०॥४॥

ॐ० चूर्ण य० स्वाहा ॥

४६३

नवमी ध्वजपूजा.

द्रव्यभाव बे जेदथी, ध्वजपूजा सुखकार; ध्वजथी जिनवर पूजतां, भक्ति वधे जयकार. ॥ १ ॥

(नमुं रविसागर गुरु राया, जिन शासन जय वर्ताया, ए राग.
घन घटा भुवन रंग छाया, ए राग.)

ध्वजपूजा छे जयकारी, जिनशासन शोभाकारी. ध्वज० ॥ प्रभुधर्मने जग फेलावे, ध्वजपूजा ज्ञावना दावे; जाणे तेनी बलिहारी. ध्वज० जिन० ॥ १ ॥ जे थया प्रभावक सारा, तेणे प्रभु पूज्या प्यारा; ध्वज पूजा एहवी धारी, ध्वज० जि० ॥ २ ॥ जिनशासन जे शोभावे, ते भावथी पूजा पावे; प्रभु भक्तनी छे बलिहारी. ध्वज० जि० ॥३॥ प्रभुपूजाथी प्रभु प्रगटे, चढताभावे मल विघटे; बुद्धिसागर सुखकारी. ध्वज० जि० ॥४॥ ॐ० ध्वजं० य० स्वाहा ॥

दशमी आभूषणपूजा.

द्रौपदीने सूर्याभनी, पेठे पूजे जेह; द्रव्यथी ज्ञावना पूजना, निश्चय पामे तेह.

४६४

(श्री श्रेयांसजिन अंतरयामी. ए राग.)

श्री जिनवरनी पूजा प्यारी, सुख आपे निर्धा-
रीरे; द्रव्यभावथी पूजा सारी, करतां तरे नर नारीरे.
श्री० ॥ १ ॥ नयनिक्षेपे पूजा विचारी, सम्यग्-
दृष्टि धारीरे. द्रव्यज्ञावपूजा आचारी, हठकदाग्रह
वारीरे. श्री० ॥ २ ॥ वारने चार छे भावनाभूषण,
निश्चयने व्यवहारीरे; बुद्धिसागरभावनापूजा, प्रगटी
घट सुखकारीरे. श्री० ॥ ३ ॥

ॐ आभूषणं य० स्वाहा ॥

एकादशमी कुसुमगृहपूजा.

कुसुमगृहे प्रभु थापीने, जे पूजे नरनार; ते
मुक्तिवेगे वरे, सम्यग्दृष्टि उदार ॥ १ ॥

(आज सखी मोंये वाल्हमा, मुज मंदिर आये. ए राग. मारु वा. ॥
अथवा उत्सव रंग वधामणां. ए राग. वेलावल. ॥)

परमप्रभु परमात्मा, मुज दिल दर्शायो; बा-
ह्यांतरस्वरूपथी, पूरण परखायो. परम० ॥ १ ॥ स-
म्यग्दृष्टि जीवनी, सहु करणी लेखे; अल्पबंध बहु
निर्जरा, करे सम्यग् पेखे. परम० ॥ २ ॥ बाह्याच्यं-
तर अतिशय,—पुष्पघरमां बिराजो; असंख्यप्रदेशी

४६५

पुष्पना, घरमांही छाजो. परम० ॥ ३ ॥ द्रव्यने
भावथी पुष्पनुं, घर करी जिन थापे, बुद्धिसागर
आतमा, प्रभु ठापे व्यापे. परम० ॥ ४ ॥

ॐ कुसुमगृहं य० स्वाहा ॥

वारमी कुसुममेघपूजा.

द्रव्यथी कुसुमना मेघथी, प्रभुपूजा सुखकार;
भावथी प्रभु उपदेशना, मेघथी पूजा सार. ॥ १ ॥

(राग फाग-सिद्ध भजो भगवंत, प्रःणी पूर्णानन्दी. ए राग)

जिनवर छे जयकार, जवी जावथी पूजो. ॥ द्रव्य-
ने भावथकी जिनपूजा, अमृतरस धरनार. भवी०
आतमगुणपर्यायस्वजावे, धर्म प्रगट करनार.
भवी० ॥ १ ॥ जिनवरवाणीपुष्पनामेघे, आतम
शांति थनार. भवी० अनुभवपुष्पना मेहुला वरसे,
सुगंधनी बहुब्हार. जवी० ॥ २ ॥ मोहनी दुर्गंध
दूरे नासे, समताशीतलता सार. जवी० मुजमन
तुज उपदेश स्वरूपी-मेघे मोह्युं अपार. भवी० ॥३॥
पुष्पना मेघो तुज शिर उपर, वर्षातुं धरी ढाल.
जवी० बुद्धिसागर मुजपर वर्षो, जिनवाणीमेघ
अपार. जवी० ॥ ४ ॥ ॐ कुसुममेवं य० स्वाहा ॥

४६६

त्रयोदशमी अष्टमाङ्गलिक पूजा:

स्वस्तिक ने श्रीवस्त छे, घट चद्रासन चार;
नंदावर्तने वर्धमान, मीनयुग दर्पण सार. ॥ १ ॥
अष्ट ए मंगलथी प्रभु, पूजे पाप पलाय; पद पद
मंगल संपजे, लब्धि सिद्धि प्रगटाय. ॥ २ ॥

(ध्रुवपद गोडी रामेण गीयते)

प्रभुनी आगळ आठे मंगल; पुण्यातिशये
चालेरे; द्रव्यथी मंगल आलेखे जे, जावमङ्गल ते
जाळेरे. प्रभु० ॥१॥ सहज गुण जे चार ते स्वस्तिक,
दर्पण ज्ञानने धारोरे; सम्यग्दृष्टि कुंभ विचारो,
विरति श्रीवच्छ प्यारोरे. प्रभु० ॥ २ ॥ संयम
चद्रासन नंदावर्त, अनुचव आनंद पामोरे; आत्म
समाधि वर्धमान ठे, भावमंगलथी जामोरे. प्रभु०
॥ ३ ॥ मीन युगलते ज्ञानने दर्शन-उपयोगे जय-
कारीरे; बुद्धिसागरप्रभुनी पूजा, द्रव्यजावहितकारीरे.
प्रभु० ॥ ४ ॥ ॐ-अष्टमङ्गलानि य० स्वाहा ॥

चतुर्दशमी धूपदीपकपूजा.

द्रव्यभावर्था धूपने, दीपक पूजा सार; जिन-
वरनी जे जन करे, पामे शर्म अपार.

४६७

(पिया निज महेले पधारोरे, करी करुणा महाराज, पिया-
ए राग. माह.)

प्रभु तुजप्रीतडी लागीरे, प्रगट्युं रुचिर-
सपूर. प्रभु० ॥ १ ॥ ध्याता ध्येयने ध्याननीरे,
एकतामांहि न भेद; निर्विकल्प समाधिमांरे, भीति न
द्वेष न खेद. प्रभु० ॥ २ ॥ आत्मना उपयोगमांरे,
प्रभु तुं छे मुजपास; ध्यान धूपने ज्ञाननारे,
दीपकनो छे प्रकाश. प्रभु० ॥ ३ ॥ कोटिवर्षसम
ताह्यरोरे, क्षणविरहो न खमाय; बुद्धिसागरप्रेम-
थीरे, पूजा करे ज जीवाय. प्रभु० ॥ ४ ॥

ॐ धूपदीपं य० स्वाहा ॥

पन्नरमी गीतपूजा.

प्रभुगुणपर्यायगीतथी, प्रभुने पूजे जेह; चढता
भावोद्धासथी, प्रभुपद पांमे तेह.

(नाथ कैसे गजको बंध लुढायो-ए राग सारंग)

प्रभु तुज गान घणुं गुणकारी, आत्म आनंद-
कारी. प्रभु० वीणादिक तालमानने ताने, प्रभु
गुणगान उमाद्यो; नरघां मरदंगतानसुभाने,

४६८

आनंदरस रंगायो. प्रभु० ॥ १ ॥ प्रभु तुज सन्मुख
 चेतना करवा, उपयोगथी हर्षायो; प्रभु तुजगाने
 भान न जगनुं, आत्म झाली पायो. प्रभु० ॥ २ ॥
 प्रभुने गातां सुखनी खुमारी, प्रगटंती जयकारी;
 पूर्णानंदी प्रभुने पूजो, गीतवडे नरनारी. प्रभु०
 ॥ ३ ॥ परापश्यंतीमध्यमागाने, अनहदगीतसु-
 ताने; बुद्धिसागरप्रभुरसपाने, भक्त प्रभु घट माने.
 प्रभु० ॥ ४ ॥ ॐ गीतं य० स्वाहा ॥

सोळमी नृत्यपूजा.

प्रभु आगळ भावे करे, नृत्यनी पूजा जेह;
 आत्मशुद्धि ते करे, पामे शिवपुर गेह. ॥ १ ॥

(अवसर बेरबेर नहि आवे. ए राग-आशावरी.)

शुभंकर जिनपूजा जयकारी. ॥ द्रव्यभावथी
 नृत्यनी पूजा, आत्म आनंदकारी. शुभंकरण ॥
 एक शत आठे देवकुमरने, सुरकुमरी शुभ नाचे;
 सुरनर नृत्य करीने माचे, आत्मरसी थै राचे. शुभं-
 करण ॥ १ ॥ चढते भावे धर्मरसीला, प्रभुप्रेमे
 उच्छसिया; सुर नरनारी हर्षे नाचे, श्रद्धाजक्तिमां

४६९

वसिया. शुभंकर० ॥ २ ॥ भक्तिए रोम रोम जस
 विकसे, दिलमां हर्ष न मावे, भावथी नवरसना
 शृंगारे, अंतरनाचे सुहावे. शुभंकर० ॥ ३ ॥ भक्ति-
 रसे गुल्तान वनीने, गुणपर्याये नाचुं; बुद्धिसागर
 आत्ममहावीर, सहजस्वभावे राचुं. शुभंकर० ॥ ४ ॥
 ॐ नृत्यं य० स्वाहा ॥

सत्तरमी सर्ववाद्यपूजा.

सर्वजातिवाजिंत्रथी, चढता जावोद्धास; नर
 नारी प्रभु पूजतां, पामे शिवसुख खास. ॥ १ ॥

(राग. प्रभात.)

समवसरणमां वाजां वाजे, अंबरतलमां गा-
 जेरे; देवदुंदुभि वाजी ठाजे, जिनपति महिमाए रा-
 जेरे. सम० ॥ १ ॥ सारंगी शरणाइ भूंगळ, भेरी न
 फेरी वीणारे; जल्लरी ढोल ने वंशळी वाजे, सुरकुम-
 रीनी स्वर झीणारे. सम० ॥ २ ॥ मुरज कंसालांने,
 मृदंगने, पणवादिक वाजींत्रेरे; जिनवर पूजा भवि
 जन करता, मोहशत्रुने जीतेरे. सम० ॥ ३ ॥ सुर-
 नर वाजिंत्रे जिनपूजा, जावथी करी नर नारीरे; ती-
 र्थकर आदिपद पावे, निजपरिणतिने समारीरे.

४७६

सम० ॥ ४ ॥ योगान्यासे अंतरवाजां, वाजे अनहद
 तानेरे; शुक्ल शुक्ल उज्वलपरिणामे, धर्मध्यान निज
 मानेरे. सम० ॥ ५ ॥ आत्मोच्छासक रस वाजिंत्रे, प्रभु
 पूजतां थइ रसियोरे; बुद्धिसागर आत्मस्वभावे,
 आनंदल्हेरे उल्लसियोरे. सम० ॥ ६ ॥

कलश-धन्याश्री.

गाया गायारे प्रभु महावीर गुणगणध्याया,
 सत्तरभेदीपूजाथी प्रभु, गातां प्रेमे वधायारे.
 प्रभु महावीर० ॥ १ ॥ द्रव्य भावप्रभुपूजा रचिने,
 आत्मआनंद पायो; ओगणिशअव्योतर चैतर
 वदि, दशमी जय वर्तायोरे. प्रभु० ॥ २ ॥ जिनवर
 महावीरपट्टपरंपरा, तपगच्छसागरशाखे, रवि-
 सागर गुरु सुखसागर गुरु, जिन आणा दिल रा-
 खेरे. प्रभु० ॥ ३ ॥ मधुपुरीमां पद्मप्रभु जिन, गुरुनी
 पूर्ण कृपाए; आनंद मंगल ऋद्धि सिद्धि, पूजा करंतां
 थाएरे. प्रभु० ॥ ४ ॥ घर घर संघमां आनंद मंगल,
 पूजाथी सुख जारी. बुद्धिसागरसूरि ऋद्धि, वृद्धि
 कीर्ति जयकारीरे. प्रभु० ॥ ५ ॥

ॐ सर्ववाद्यं य० स्वाहा ॥

४७१

अथ नवपद लघुपूजा.

प्रथम अरिहंत पद पूजा.

परम प्रभु परमात्मा, परब्रह्म महावीर; शासनपति अरिहंत जिन, सर्वधीर महाधीर. ॥ १ ॥
 वंदी पूजा ध्याइने, नव पद पूजा सार; रचुं स्वपरहितकारणे, आत्मशुद्धि करनार. ॥ २ ॥ तीर्थकर सर्वे प्रभु, अर्हत्पदमां समाय; चारनिक्षेपे जाणतां, पूजे शिव सुख थाय. ॥ ३ ॥

राग. सोरठ.

अरिहंत द्रव्यभाव सुखकारी. ॥ साची लागी अरिहंत यारी. अरिण॥ शुद्धातम उपकारी. अरिहंत॥ चोत्रीश अतिशय धारी जिनेश्वर—वारगुणे जयकारी; पांत्रीशवाणीगुणना धारक, तीर्थकर हितकारी. अरिहंत॥ १ ॥ संघ चतुर्विध तीरथ स्थापक, केवल ज्ञानी विहारी; विश्वोद्धारक कर्मसंहारक, शुद्धानंदना धारी. अरिहंत॥ २ ॥ तुजपर पूरण प्रीति प्रगटी, कोथी न उतरे उतारी; निश्चयथी अरिहंत निजातम, जाण्युं उपयोगे धारी; अरिहंत॥ ३ ॥ सत्ताव्यक्तिभावे अरिहंत, निश्चयनय व्यवहारी;

४७२

बुद्धिसागर अरिहंत आतम-शुद्ध बुद्ध अविकारी.
अरिहंत. ॥ ४ ॥

ॐ ह्रीं परम० अर्हत्पदपूजार्थं जलं०-य० स्वाहा.

द्वितीया सिद्धपद पूजा.

पूजुं प्रभु गुण भावधी, सिद्ध सदा जयकार; अष्ट-
गुणी परमात्मा, एकत्रिंश गुणआधार. ॥१॥ अनंत
ज्योते झलहले, अनंतआनंदधाम; निराकार
परब्रह्मने, हो उपयोगे प्रणाम. ॥ २ ॥

(नाथ कैसे गजको बंध छुडायो. सारंग वा राग-आशावरी.)

निरंजन सिद्धप्रभु सुखकारी, कर्मरहित जय-
कारी. निरंजन० क्षायिकनवलब्धिगुणधारी, निरा-
कार निर्धारी; अनंतज्योते झलहळता विभु,
पूर्णानंदी अपारी. निरंजन० ॥ १ ॥ अलख अरूपी
जन्म मरण नहीं, गुणपर्यायाधारी; शुद्धातम पर-
ब्रह्म अखंडित, अविनाशी अविकारी. निरंजन०
॥ २ ॥ सकल सिद्धने वंदु पूजुं, शुद्धोपयोग समारी;
सत्ताए निज आतम सिद्ध ठे; समरंतां सुख जारी.

४७३

निरंजन० ॥ ३ ॥ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रिना, शुद्धो-
पयोगे विहारी, बुद्धिसागरसिद्धस्वयं थै, पामे शिव
नरनारी. निरंजन० ॥ ४ ॥

ॐ ॥ सिद्धपदपूजार्थं जलं यं स्वाहा ॥

तृतीया आचार्यपदपूजा.

द्रव्यज्ञावव्यवहारथी, निश्चयथी सूरिराज; वं-
दतां पूजतां ध्यावतां, प्रगटे शिवसाम्राज्य. ॥ १ ॥

(सोवे सोवे सारी रेनगुमाइ. राग बिरुओ अथवा पीलु.)

वंदु पूजुं सूरिवर रागे, ज्ञानादिकगुण अंतर
जागे-वंदु० ॥ छत्रीशीछत्रीशी गुणगणमंडित-स-
मभावे वर्ते वैराग्ये. वंदु० ॥ १ ॥ धर्मनारक्षक धर्म
प्रवर्तक, जेहथी मोहनी दूरे भागे. वंदु० ॥ द्रव्य क्षेत्र
काल भावने जाणे-विषयोमां नहि वर्ते रागे. वंदु०
॥ २ ॥ जिनवाणीनो अर्थ जणावे. द्रव्यने ज्ञावथी
वर्ते त्यागे. वंदु० ॥ ज्ञानी ध्यानी योगी सनूरा-म्हा-
ले आतमगुणना बागे. वंदु० ॥ ३ ॥ निश्चयथी सू-

६०

४७४

रिवर निजआतम-शुद्धपरिणति भावमां लागे;
 बुद्धिसागरब्रह्मसूरिघट-प्रगटंतां जयडंको वागे.
 वंदु० ॥ ४ ॥

ॐ-आचार्यपदपूजार्थं जलं० य० स्वाहा ॥

चतुर्थी उपाध्यायपदपूजा.

द्रव्यभाववाचक नमुं, पूजुं जगहितकार; ज्ञानी
 पंचमहाव्रती, सेवंतां सुखकार. ॥ १ ॥

(आज सखी मुज ब्हालमा, मन मंदिर आये. ए राग वेलावल.)

वाचकपदने वंदीए, पूजीए जयकारी; वाचक
 सेवान्क्तिथी, निजशुद्धि थनारी. वाचक० ॥ १ ॥
 द्रव्यक्षेत्रकालजावथी, वर्ते जयकारी; निश्चय दृष्टि
 दिल धरी, वर्ते व्यवहारी. वाचक० ॥ २ ॥ धर्म
 शास्त्रपाठक प्रभु, विश्वजीवोपकारी; आतम उप-
 योगे रहे, ब्रह्म वाचक धारी. वाचक० ॥ ३ ॥ निश्चय
 वाचक आतमा, पच्चीशगुणधारी; बुद्धिसागरधर्म-
 ना-वाहक हितकारी. वाचक० ॥ ४ ॥

ॐ ह्रीं-प० वाचकपदपूजार्थं जलं० य० स्वाहा ॥

—३४३—

४७५

पंचमी साधुपदपूजा.

चउनिक्षेपे साधुपद, क्षेत्रकाल अनुसार; वं-
दतां सेवतां पूजतां, ध्यातां शर्म अपार.

मेरुशिखर न्हवरावेहो सुरपति. ए राग.

साधु सदा उपकारी हो जगमां, साधु सदा उप-
कारी. ॥ व्यवहारथी जे पंचाचारी, पंचमहाव्रतधारी;
साधुसंगतनी बलिहारी, तेथी तरे नरनारी हो.
जगमां० साधु० ॥ १ ॥ द्रव्यादिकप्रतिबंधनिवारी,
रागने रोष संहारी; व्यवहारथी व्यवहारे वर्ते, नि-
श्चय उपयोग धारी हो. जगमां० ॥ २ ॥ साधुसंत-
नी सेवा करीए, दोषनी दृष्टि निवारी; वेवाचारथी
अनंत उत्तम, गुण लेजो नरनारी हो. जगमां०
॥ ३ ॥ आत्म ते साधु परमात्म, उपयोगे ल्यो
धारी; बुद्धिसागरसाधुसेवा, अनंतगुणी गुणकारी हो.
जगमां० ॥ ४ ॥

ॐ ह्रीं-प०-साधुपदपूजार्थं जलं० य० स्वाहा ॥

४७६

षष्ठी दर्शनपदपूजा.

सम्यग्दर्शनपद नमुं, पूजुं ध्यावुं सत्य, स-
म्यग्दर्शन पामतां, सफलां धर्मनां कृत्य.

(राग गोडी. निशानी कहा बतावुरे. ए लय.)

अनुज्ञवदर्शन पामोरे, गुरुगमथी नरनार. अनु-
भव० ॥ देवगुरुने धर्मनीरे, श्रद्धा प्रीति थाय; सडसठ
बोले अलंकर्युरे, प्रगटे दिलमां जणाय. अनुभव०
॥ १ ॥ द्रव्यभावव्यवहारधीरे, निश्चयसमकित
जाण; सातनयोथी जाणतारे, रहे नहीं अज्ञान. अ-
नुभव० ॥ २ ॥ दर्शनज्ञानचारित्रनीरे, एकपरिणति
थाय; निश्चयदर्शन आतमारे. शुद्धोपयोगे सुहाय.
अनुज्ञव० ॥ ३ ॥ सम्यग्दर्शन पामतारे, निश्चय
मुक्ति थाय; बुद्धिसागर आतमारे, परमात्मपद
पाय. अनुभव० ॥ ४ ॥

ॐ ह्रीं प० दर्शनार्थं जलं० य० स्वाहा ॥

४७७

सप्तमी ज्ञानपूजा.

द्रव्यभावथी ज्ञानने, वंदु पूजुं बेश, सम्यग्
ज्ञानने पामतां, नासे सघळा क्लेश. ॥ १ ॥

राग मालवी गोडी.

सम्यग्ज्ञान लहो नर नारी, नहि कोइ ज्ञान
समानरे; ज्ञानी श्वासोच्छ्वासमां कर्मने, टाळी लहे
निर्वाणरे. सम्यग्० ॥ १ ॥ मतिश्रुत अवधि ने मन
पर्यव, केवल पांचमुं ज्ञानरे; दर्शन पामे मतिश्रुत,
जावथी, सम्यग्ज्ञान प्रमाण रे. सम्यग्० ॥ २ ॥
आतम अनुभव ज्ञानोपयोगे, क्षणमां मुक्ति सुहाय
रे; ज्ञानविना कोइ ध्यान न पावे, ज्ञाने आनंद थाय
रे. सम्यग्० ॥ ३ ॥ स्वपरप्रकाशक ज्ञान ते आत-
म, गुणगुणीरूप प्रमाण रे; बुद्धिसागर आतम
ज्ञाने, प्रगटे केवलज्ञान रे. सम्यग्० ॥ ४ ॥

ॐ ह्रीं प०-ज्ञानार्थं जलं० य० स्वाहा.

अष्टमी चारित्रपदपूजा.

द्रव्य जावचारित्रथी, आतमशुद्धि थाय,
प्रगटे परमानन्दता, आतम सिद्ध सुहाय. ॥ १ ॥

४७८

(कीजीए कीजीए कीजीए प्रभु निर्मल दर्शन कीजीए.

राग: सारंग.)

पामीए पामीए पामीए, शुद्धचारित्रपदने
 पामीए, वामीए वामीए वामीए; मोहभावने दूरे
 वामीए. ॥ पामीए० ॥ व्रतवषतपजप त्यागाचार-
 थी, द्रव्यचारित्रमां ज्ञामीए; समपरिणामे आत्मो-
 पयोगे, जावचरण विश्रामीए. शुद्ध० ॥ १ ॥ द्रव्य
 ते भावनुं कारण जाणो, जाख्युं महावीरस्वामीए,
 जरुविषयोमां रागने द्वेषनी, परिणतिथकी विरा-
 मीए. शुद्ध० ॥ २ ॥ आत्मस्वभावे रमवुं चरण छे,
 चारित्रीने शिर नामीए; चारित्रमां अर्पाइ जातां,
 पूर्णानन्दे आरामीए. शुद्ध० ॥ ३ ॥ व्यवहार निश्चय
 चारित्र वरवा, गुरुगमज्ञानने पामीए; बुद्धिसागर
 आतम आनंद, प्रगट चारित्र प्रणामीए. शुद्ध० ॥४॥

ॐ ह्रीं प० चारित्रपूजार्थं जलं-य० स्वाहा ॥

नवमी तपपदपूजा.

द्रव्यभावथी तप तपे, आठेकर्म विनाश;
 ज्ञान अने निष्कामथी, यावे शिवपुरवास. ॥ १ ॥

४७९

(ध्रुवपद काफ़ी रागेण गीयते)

महावीर !!! तपगुणनी बलिहारी, तपगुणनी
 बलिहारी. महावीर० ॥ तपयी लब्धियो प्रगटे चारी,
 मनडुं बने अतिकारी; सुखदुःखमां समभावता
 धारी, अहंपणुं न लगारी. महावीर० ॥ १ ॥ बाह्य
 अभ्यंतर तप जयकारी, पुद्गलनी नहि यारी; राग
 द्वेषनी वृत्तिसंहारी, परपरिणतिपरिहारी. महावीर०
 ॥ २ ॥ धन्य धन्य वीर जगजयकारी, सहा परिषह
 भारी; प्रगटाव्युं घटमांही केवल, वंदु वार हजारी.
 महावीर० ॥ ३ ॥ तप ते आत्म निश्चय धारी, त-
 पशो नरने नारी; बुद्धिसागरशुद्धात्मरस,—स्वाद
 लह्यो तपधारी. महावीर० ॥ ४ ॥

 कलश.

गाइ गाइरे नवपदनी पूजा गाइ. ॥ ओगणिश
 अट्योत्तर आश्विन बीज, मेसाणामां रचाइरे, नव-
 पदनी पूजा गाइ ॥ वीरप्रभुनी पट्टपरंपरा, श्वेतां-
 बर सुखदायी; तपगच्छहीरविजयसूरिजगुरु,
 पट्टपरंपरा आइरे. नव० ॥ १ ॥ नेमिसागर रविसा-
 गरगुरु, सुखसागरगुरु ध्यारी, नवपदपूजा रचतां

४८०

ऋद्धि, वृद्धि कीर्ति सुहाद्रे. नव० ॥ २ ॥ घट घट
 नवपद ऋद्धि सिद्धि, सत्ताए रही ठे सुहाद्रे; बुद्धि-
 सागर पूर्णानन्दनी, प्रगटी घटमां वधाद्रे. नव०॥३॥

ॐ० प० तपःपदपूजार्थं जलं० य० स्वाहा ॥



४८१

अथ पंचधायोगपूजा.

परमप्रभु परमात्मा, प्रभुमहावीरजिनेश;
 परमब्रह्म परमेश्वरा, प्रणमुं विभु विश्वेश. ॥ १ ॥
 पंचयोगपूजा रचुं, आतमशुद्धिकाज; अष्टप्रकारे
 पूजना, करतां शिवसाम्राज्य. ॥ २ ॥ अध्यात्मने
 भावना, ध्यानने समता चार; वृत्तिसंक्षययोगथी,
 पूर्णशुद्धि सुखकार. ॥ ३ ॥ योगनी भूमिका प्रथम,
 अनुक्रमे पांचे योग, सुगतां ध्यावतां संपजे; आतम
 शिव सुखभोग. ॥४॥ आतमसुख निश्चय थतां, योग
 रुचि प्रगटाय, पंचयोगनी साधना; कर्मविनाशरु
 थाय. ॥ ५ ॥ महावीरदेवे प्रकाशिया, असंख्ययोग
 प्रकाश; सर्वमुख्य दर्शन अने, ज्ञानचरण छे उदा-
 र. ॥ ६ ॥ तेमां सहु योगो शमे, तोपग भविहि-
 तकार; पंचयोग दर्शाविया, तस पूजा सुखकार. ॥७॥

प्रथम योगभूमिकापूजा.

(सिद्धचक्रपद सेवाकीजे. ए राग.)

प्रभुमहावीरजिनेश्वर भाखे, योगभूमिका
 सारजी; योगभूमिकाशुद्धि करतां, मनशुद्धि नि-

६१

४८२

धार. योगने धारोजी; प्रथम गुरुदेवसेव, धरीण
 आचारोजी. ॥ १ ॥ श्रोधे देवगुरुवृद्धसेवा, पूजन
 थाय सुरागजी, सदाचारप्रवृत्ति प्रगटे, तपनी वृत्ति
 त्याग. योगने० ॥ २ ॥ उपकारीनी सेवा थावे, प्रभु
 दर्शन गुणरागजी; चारिसंजीवनदृष्टांते, धर्मकर्म वै-
 गग्य. योगने० ॥ ३ ॥ देवगुरुनी निन्दा न थाती,
 थाय सुपात्रे दानजी, परोपकारप्रवृत्ति थावे. गुण
 ग्रहणतातान. योग० ॥ ४ ॥ प्रभुता पामे गर्व न
 थातो, सत्य पथ्यहितबोलजी; सत्यतत्त्वनी इहा
 प्रगटे, सत्यासत्यनो ताल. योग० ॥ ५ ॥ साधु सं-
 तनी सेवा भक्ति, रुचे धर्मोपदेशजी, मार्गानुसारी
 नीतिरीत, मुक्तिपर नहि द्वेष. योग० ॥ ६ ॥
 प्रमाणिकव्यवहारप्रवृत्ति, सत्यप्रतिज्ञा पळायजी;
 चोरी व्यजिचारध्यसननिवृत्ति, कुलाचार वर्ताय.
 योग० ॥ ७ ॥ मांसमदिरात्यागने सज्जन,—रीतिनो
 व्यवहारजी; मातपितागुरुवर्गनी आज्ञा, ऐवो
 सदाचार धार. योगने० ॥ ८ ॥ नास्तिक दुष्टनी संग
 न रुचे, रुडा प्रगटे विचारजी; योगनी दृढभूमिका
 एत्री, दंभतणो परिहार. योगने० ॥ ९ ॥ अनन्य
 विषगरलनी निवृत्ति, तद्धेतु शुभ थायजी; समकित

४८३

पूर्वकज्ञानथी अमृत, शुभ अनुष्ठान सुहाय. ॥१०॥
 योगनी पूर्वसेवा योगभूमि, चरमावर्ते पायजी;
 बुद्धिसागर योगना योग्यज, नरनारी ते गगाय.
 योग० ॥ ११ ॥

ॐ ह्रीं श्री परम पुरुषाय, परमेश्वराय, जन्म ज-
 रामृत्युनिवारणाय, योगभूमिका सेवार्थं जलं, चं-
 दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, यजा
 महे स्वाहा ॥

॥ प्रथम अध्यात्मयोगपूजा ॥

प्रभुवचनानुसारथी, तत्त्वनी चिंता थाय; गृही-
 त्यागीव्रतयुक्तने, मैत्र्यादिभाव सुहाय. ॥ १ ॥
 आतमज्ञानने आत्मनी, शुद्धितुं अनुष्ठान, द्रव्यभाव
 अध्यात्मनो, योग भलो गुणखाण. ॥ २ ॥

(सिद्धचक्रपद सेवाकीजे. ए राग.)

द्रव्यक्षेत्रकालभावथी जाणी, अध्यात्मयोग
 धारोजी; आतमज्ञानीने योगथी सिद्धि, रागरोष
 परिहारो. योगने धरीएजी. टाळी मोहनी टेव; शिव-
 सुख वरीएजी. ॥ १ ॥ देवमंत्रने जपीए विधिये,

४८४

अशुभवृत्ति निवारीजी; आसन जय प्राणायामा-
 ज्यासथी, देहशुद्धिहितकारी. योग० ॥ २ ॥ अध्या-
 त्मयोगनी आगळ हठनी,—किंमत जाणो कोडीजी;
 आतमज्ञानीओए दिलमां, शुद्धातमप्रीत जोनी.
 योग० ॥ ३ ॥ आत्मस्वरूपविचारणा करवी,
 मनवच तनु वशराखीजी; गृहस्थत्यागीव्रतगुणपालन,
 प्रारब्धे थवुं साक्षी. योग० ॥ ४ ॥ मनवचकाया
 अशुभ प्रवृत्ति, त्यागी शुभने ज्ञानीजी, शुभ अ-
 की शुद्धभावमां प्रणमी, प्रकटपणे गुण सर्जिए.
 योग० ॥ ५ ॥ सुख दुःख आवे हर्ष न शोकज, देव
 गुरुने वंदोजी; प्रत्याख्यानथी इच्छाओ रोधो, प्रगटे
 ते दोषने निंदो. योग० ॥ ६ ॥ देहममत्व निवारी
 आतम,—उपयोगी थे रहेवुंजी, आवश्यकधर्मकर्मने
 करवां, अंतरमां चित्त देवुं. योग० ॥ ७ ॥ मैत्री प्र-
 मोद मध्यस्थ करुणा, भावना भावीए चारजी, सा-
 धनथी साधंतां साध्य ज, नासे मोहविकार. योग०
 ॥ ८ ॥ अध्यात्मयोगथी आतमशुद्धि, क्षणमां थावे
 मुक्तिजी, बुद्धिसागरआतमआनंद, प्रगटे अनुभव-
 युक्ति. योग० ॥ ९ ॥

ॐ ह्रीं अध्यात्मयोगपूजार्थं जलं० यं स्वाहा ॥

४८५

॥ द्वितीया भावनायोगपूजा ॥

आतमस्वरूप विचारणा, वारंवार जे थाय; मन समाधि सहित ते, जावनायोग भणाय. ॥ १ ॥
आतमना उपयोगनो, पुनः पुनः अभ्यास; भावना योगे संपजे, आतमशुद्धप्रकाश. ॥ २ ॥

(दशमे देशावगासीएरे. ए राग.)

धन्य प्रभु महावीरनेरे, साध्यो पूरण योग; आतन परमातम कर्योरे, पाम्या अनंत सुख जोग हो. घटमां, महावीरप्रभुने लावीएरे, भावना योगने जावीएरे; कर्मरिपुने हरावीएरे, प्रगटे परमानन्द. ॥ १ ॥ पहेली श्रुतनी जावनारे, सुणीए धर्मसिद्धांत; वांचीए श्रुतशास्त्रो भलारं, गुरुगमथी निर्भ्रान्त हो. घटमां० भावना० ॥ २ ॥ आतम जड वे तत्त्वनोरे, निश्चय करीए सत्य, आतमज्ञानथी आत्मनारे, करीए धर्मनां कृत्य हो. घटमां०॥ भावना० ॥३॥ श्रुतज्ञाने संशय टळ्ळेरे, आतमअनुजव थाय; आतम ते परमातमारे, निश्चय दिल प्रगटाय हो. घटमां० ॥ ४ ॥ बीजी तपनी जावनारे, जावीए थै निष्काम; सर्वेच्छाओ रोधवीरे, तप ते आतमराम हो. घटमां० ॥ ५ ॥ सर्वविषयनी कामनारे, टाळे ते तप बेश;

४८६

सर्वशुजाशुभवृत्तियोरे, तेना शमता क्लेश हो.
घटमां० ॥ ६ ॥ त्रीजी सत्त्वनी जावनारे, आतम
शक्ति अनंत; आतमसत्त्वे मोहनारे, आवे क्षणमां
अंत हो. घटमां० ॥७॥ परिषह संकट वेठतारे, रहेवुं
आतममां स्थिर; सुख दुःखमां चलवुं नहीरे, मेरुपेठे
थवुं धीर हो. घटमां० ॥८॥ आतमना उपयोगथीरे,
अप्रतिवद्ध विहार; निःसंग वनवास निर्ममेरे, ध्यान
समाधिधार हो. घटमां० ॥ ९ ॥ इन्द्रादिकसुख
ब्रांति छेरे, आतमसुखनी पास; आत्मस्वतंत्रता
धारवीरे, कर्म हणीने खास हो. घटमां० ॥१०॥ चोथी
एकत्व ठे जावनारे, भावीए धरी उद्धास; जड जगमां
नहीं जीवनुंरे, कोइ पोतानुं खास हो. घटमां० ॥११॥
पांचमी तत्त्वनी जावनारे, जीवादिक नवतत्त्व; षड्
द्रव्योने विचारतारे, प्रगटे निज एकत्व हो. घटमां०
॥ १२ ॥ आतमतत्त्वने जाणतारे, जाण्या सर्व प-
दार्थ; बुद्धिसागरजावनारे, भावे शिवपरमार्थ हो.
घटमां० ॥ १३ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परमं जावनायोगपूजार्थं जलं०
यं स्वाहा ॥

४८७

(३) तृतीया ध्यानपूजा ॥

ज्ञानप्रमाणे ध्यान ठे, गुरुगमथी छे ध्यान,
 संयमस्थिरता संपजे, ध्यानथी केवलज्ञान. ॥ १ ॥
 ध्याननो जेद समाधि छे, मतिश्रुतज्ञाने ध्यान;
 साकारी उपयोगथी, अंतर्मुहूर्त प्रमाण. ॥ २ ॥ आ-
 तम आदितत्त्वमां, उपयोगे एकतान; अंतर्मुहूर्त
 ध्यान छे, ध्यानप्रवाहबहु मान. ॥ ४ ॥ आर्तरौद्र
 बे परिहरी, धर्म शुक्ल बे ध्यान; ध्याइए उपयोगथी,
 जीव बने जगवान् ॥ ४ ॥

(हे सुखकारी आ संतस्थकी जो मुजने उदरे. ए राग.)

महावीर प्रभु !!! तुजध्याने लय लागी बीजुं
 नहीं गमे; त्हेँ ध्यान धर्यु बारवर्ष लगी तेमां मुज
 आतम रमे. ॥ त्हेँ ध्याने केवल प्रगटाव्युं; मुज मत्तमां
 ध्यान ते शुभ भाव्युं, ध्याने प्रगटे सुख समजायुं.
 महावीर ॥ १ ॥ वायुवण दीप शिखापेरे, आतम
 ध्याने आनंदव्हेरे; रहेवुं शुद्धातम निज च्हेरे. म-
 हावीर ॥ २ ॥ मेरुपरे स्थिर, ध्याने थावुं, अंतरमां
 साक्षी थै जावुं; ध्याने आतम पोते ध्यावुं. महावीर ॥
 ३ ॥ पिंडस्थ पदस्थ बे ध्याइजे, रूपस्थने दिलमां
 पाइजे; रूपातीतथी शिव पाइजे. महावीर ॥ ४ ॥

४८८

आतमध्याने लगनी लागे, ऋद्धि सिद्धि लब्धि
 जागे, घातीकर्मो वेगे भागे महावीर० ॥ ५ ॥ शु-
 द्धातमउपयोगे रहीए, आनन्दोह्लासे गहगहीए;
 जीवतां मुक्तिसुख लहीए. महावीर० ॥ ६ ॥ खेद
 उद्वेगभ्रमने परिहरीए, उत्थानने क्षेपने झट ह-
 रीए; आसंग त्यजी ध्यान ज धरीए. महावीर० ॥७॥
 अन्यत्र प्रेमने नहीं करीए, रोगोदयमां स्थिरता ध-
 रीए; संकल्पत्रिकल्पने परिहरीए. महावीर० ॥ ८ ॥
 शुभध्याननी भावना भावीए, आतमठाली प्रगटा-
 वीए, आतमगुणपर्याय ध्यावीए. महावीर० ॥९॥ म-
 नवचतनुनी स्थिरता करीए, कदि मोहना मार्या
 नहीं मरीए; आतममहावीरदशा वरीए. महावीर०
 ॥ १० ॥ ध्याने ज्ञानादिकगुणासिद्धि, क्षायिक नव
 प्रगटे घट लब्धि; बुद्धिसागर आनंदऋद्धि. महा-
 वीर० ॥ ११ ॥

ॐ ह्रीं श्री परम० ध्यानयोगपूजार्थ. जल०
 य० स्वाहा ॥

४८९

चतुर्थी समतायोगपूजा.

समताथी शिव संपजे, आठकर्म दूर जाय;
समता प्रगट्या वण कदि, कोइ न मुक्ति पाय. ॥१॥
सर्वयोगशिरोमणि, समतायोग महान्, रागरोष
ठे विषमता, त्यजे स्वयं जगवान्. ॥ २ ॥ सर्वधर्म
दर्शनविषे, समभावे ठे मुक्ति; समता दिवमां धा-
रीण, सर्वयोगवरुतीति. ॥ ३ ॥

(वगडानो वाशीरे मोर शिद मारियो. ए राम.)

प्रभुमहावीर समतागुणना दरियारे, रागने
रोषविषमता परिहरी. समतागुणथी भरिया जीवो
तरियारे, ममताने त्यागेरे समता ठे खरी. समताने
धारेरे शिवसुख थाय छे, ममता ने अहंता दूरे जाय
ठे; आतम ते परमात्मपद पाय छे, आतम एक
आपोआप सुहाय छे. ॥ १ ॥ जडविषयोमां शुभ-
अशुच नहीं वृत्तिरे, सुख दुःखमां हर्ष न शोक जरा
रहे, लाभालाजमां मरण जीवनमां समतारे, आत-
मना उपयोगे साक्षीपणुं वहे. समताने० ॥२॥ शुभा-
शुभपणुं जगमां नहीं कल्पातुरे, आतम जरु निज
निज जावे जणाय ठे, जडमां सुख दुःख विषमप-
णानीं ज्ञांतिरे, थाती नहीं आतम निःसंग थाय छे.

६२

४९०

समताने० ॥३॥ कमठ अने धरणेंद्रउपर समभावोरे,
 धन्य धन्यरे पार्श्वप्रज्ञो !! त्हारी दशा; चंरुकोशिया
 संगम इन्द्रनी उपेरे, समताना योगीरे महावीर दिल
 वस्या. समता० ॥ ४ ॥ समताभावे स्कंधकसूरिना
 शिष्योरे, रहियारे क्षणमां मुक्तिपद वर्या; अच्चंकारी
 नट्टा अन्निकापुत्रेरे, सद्गतिने साधीरे जवसागर
 तर्या. समताने० ॥ ५ ॥ दमदंतने नमिराजर्षि
 शिव पाम्यारे, मेतारज समताए मुक्ति लह्या; गज
 सुकुमाले समता घटमां धारीरे, एम अनेक समताए
 शिवपद वह्या. समताने० ॥ ६ ॥ नामरूपशास्त्रा-
 दिकवासना टाळीरे, लोकादिकसंज्ञारे टाळे सम-
 पणुं; पंचेन्द्रियविषयोनी कामना टळतारे, मनमारे
 प्रगटे नहीं विषमीपणुं. समताने० ॥ ७ ॥ समताए
 आतमनुं सुख अनंतुरे, तेनीरे आगळ जरुसुख नहीं
 कश्युं; अहंपणुं ममता टाळंतां ज्ञानेरे, ज्ञानीना दि-
 ल्मां अनुभवसुख वस्युं. समताने० ॥ ८ ॥ जडचे-
 तनमां समभावी उपयोगीरे, एवोरे आतम हुं साक्षी
 रह्यो; कर्मविपाकमां मुंजुं नहीं समजावेरे, उपयोगे
 एवो निश्चय में लह्यो. समताने० ॥ ९ ॥ प्रभुमहा-
 वीर!!! हुं तुज समता अनुसरतोरे, शुद्धातम महावीर

४९१

पदने पामशुं; आतमज्ञाने शिवपुर दीतुं मीतुरे, पा-
मीशुं योगथकी त्यां ज्ञामशुं. समताने० ॥ १० ॥
समतायोगने उपयोगे दिल धरीएरे, वरीएरे मुक्ति
दशा जीव्याठते. बुद्धिसागरसमतासंगीरंगीरे, मुक्तिरे
सर्वधर्मसमताछते. समताने० ॥ ११ ॥

ॐ ह्रीं श्री परम० समतायोगपूजार्थं जलं०
य० स्वाहा ॥

पंचमी वृत्तिसंक्षययोगपूजा.

मोहादिनी चित्तमां, प्रमटी वृत्तिनिरोध; चि-
त्तनी वृत्तिनिरोधथी, प्रगटे केवलबोध. ॥ १ ॥
सर्वसंकल्पविकल्प जे, मोहनी वृत्ति गणाय; तेना
पूरणनाशथी, नवलब्धि प्रगटाय. ॥ २ ॥ तिरो-
भाव निज ऋद्धिनो, आविर्जाव जे थाय; पूर्णयोग
ते जाणवो, साध्यस्वरूप सुहाय. ॥ ३ ॥ ज्ञानध्यान
समताथकी, मोहनी वृत्तिविनाश; ज्ञानावरणादिक
टळे, निज गुणे शोभे खास. ॥ ४ ॥

४९२

(चउमासी पारणुं आवे.)

धन्य महावीर प्रभु जयकारी, पूजुं ध्यावुं शिव
 सुखकारी; चित्तवृत्ति हृषी जयकारी, वृत्तिसंक्षय
 योगना धारीरे; महावीरप्रभु जयकारी. मोहवृत्ति
 हणो नरनारीरे. महावीर० ॥ १ ॥ सर्व अशुभवृत्तिना
 त्यागे, देवगुरुधर्म उपरे रागे; शुभवृत्तिव्यापार
 ना लागे, योग प्रथमदशामां ए जागेरे. महावीर०
 ॥२॥ धर्मार्थे शुद्धपरिणामे, काया वाणी धर्ममां ज्ञामे;
 प्रशस्यकषायना ठामे, शुभदर्शनचारित्रठामेरे.
 महावीर० ॥ ३ ॥ सेवाभक्ति शुभप्रवृत्ति, शुभयोगे
 आतमव्यक्ति; सात्त्विकपरिणामनी शक्ति, शुभयो-
 गमां शुद्ध आसक्तिरे. महावीर० ॥ ४ ॥ शुभवृत्ति
 टळे शुद्धजावे, शुद्धउपयोग ध्यानप्रभावे; सवि
 कल्पपणुं दूर जावे, मनोवृत्तिव्यापार न थावेरे. महा-
 वीर० ॥ ५ ॥ टळे सर्वकषायो ज्यारे, प्रगटे केवल
 ज्ञान त्यारे; मनोवृत्ति रहे न लगारे, घातीकर्मो रहे
 नहीं चारेरे. महावीर० ॥ ६ ॥ शुभाशुभचित्तवृत्ति
 विनाशे, शुद्धउपयोगवीर्योह्लासे; श्रुत उपयोगना
 अज्यासे, शुद्धआतमज्ञान विकासेरे. महा० ॥ ७ ॥
 सयोगीगुणस्थान सुहावे, पळे अयोगी थै शिव जावे;

४९३

साधनयोग अभाव ज थावे, सिद्ध बुद्ध परमप्रभु
थावेरे. महावीर० ॥ ८ ॥ एक एकज योगे अनंता,
जीवो मुक्तिपदने वरंता; आतमशुद्धिमां सर्वे म-
ळंता, जाणे सापेक्षज्ञाने संतारे. महावीर० ॥ ९ ॥
क्षयोपशमे उपशमत्तावे, भावक्षायिके चेतन आवे;
शुद्धपरिणामे प्रणमे स्वत्तावे, निवृत्तिपणुं झट था-
वेरे. महावीर० ॥ १० ॥ पंचसमिति त्रिगुति पाळी,
मनमोहनी वृत्तियो टाळी, देजो आतममां मन
वाळी; बुद्धिसागर आनंदलाळीरे. महावीर० ॥११॥

कलश. धन्याश्री राग.

गायो गायोरे महावीर जिनेश्वर गायो. ॥ पंच
प्रकारी योगनी पूजा, रचीने प्रभुगुण गायो, योग-
नी पूजा ते प्रभुभक्ति, करतां आनंद पायोरे. महा-
वीर० ॥१॥ दर्शन ज्ञानने चारित्र्ययोगमां, सर्वे योग
समाया; पांचयोग पंचसमिति त्रिगुति, असंख्य
योग कथायारे. महावीर० ॥ २ ॥ चउद्गुणस्थान
अष्टांगयोग ज, आतममांही समाया; शुद्धातम
उपयोगमां सर्वे, अंतर्भावने पायारे. महावीर० ॥३॥
आतममांही भेदाज्ञेदे, सर्वे योग समाता; पातंजल

४९४

आदियोगभेदो, पंचथी न्यारा न थातारे. महा-
वीर० ॥ ४ ॥ गुरुगमथी योग साधता जव्यो, अनंत
शक्ति सुहाता; चिदानंद अनुजवने पाता, सिद्ध बुद्ध
थै जातारे. महावीर० ॥ ५ ॥ प्रभु महावीरपट्टपरं-
परा,—श्वेतांबर साम्राज्ये; तपगच्छ जगगुरु हीरविजय
सूरि, सूर्यनी पेटे छाजेरे. महावीर० ॥ ६ ॥ तसपट्ट
सागरपट्टपरंपरा, नेमिसागरगुरुराया; तस शिष्य
रविसागर गुरु रविसम, चारत सुजश छावायारे. महा-
वीर० ॥७॥ तस शिष्य सुखसागर समतावंत, मुनि
गणमांहि सवाया; तस शिष्य बुद्धिसागरसूरिए,
योगथकी प्रभु ध्यायारे. महावीर० ॥ ८ ॥ संवत्
ओगणिश अठथोत्तरना—आश्विनमां जयकारी; वदि
पांचम बुधवार सवारै, पूजा रची सुखकारीरे. महा-
वीर० ॥ ९ ॥ जणशे गुणशेने सांजळशे, भावथकी
आचरशे; नरनारी ते शिवपद वरशे, भवपाथोधि
तरशेरे. महावीर० ॥ १० ॥ मेसाणासंघभक्तिथी
कीधुं, चोमासुं सुखकारी; बुद्धिसागरऋद्धिवृद्धि,
कीर्ति लही नरनारीरे. महावीर० ॥ ११ ॥

ॐ वृत्तिसंक्षययोगपूजार्थं जलं० यं स्वाहा ॥

४९५

पंचपरमेष्ठीपूजा.

प्रणमुं प्रभु महावीर जिन, चोवीसमा अरि-
हंत, वर्तमान शासनपति, परमेश्वर शिवकंत. ॥ १ ॥
परमेष्ठीपूजा रचुं, द्रव्यने भावथी बेश; भणतां सु-
णतां आचरे, नासे सर्वे क्लेश. ॥ २ ॥ अर्हन् सिद्धने
सूरिजी, वाचक मुनि जयकार; परमेष्ठीमंगलकरा,
सुखशांतिदातार. ॥ ३ ॥

प्रथम अरिहंतपदपूजा.

चउनिक्षेपे ध्यावतां, स्तवतां पूजतां सार;
अरिहंतप्रभु वंदतां, कर्म टळे निर्धार. ॥ १ ॥ अरि-
हंत ठे आतमा, गुणपर्याये शुद्ध; प्रभु भजतां निज
आतमा, यावे प्रभु जिन बुद्ध. ॥ २ ॥ दोष अढार
रहित विभु, अरिहंत जिनराज; पूजतां प्रगटे प्रभु,
त्रण्यभुवनशिरताज. ॥ ३ ॥

(राग वेलावल मेरुशिखर न्हवरावे हो जिनपति. ए राग.)

अरिहंत जिनपति भजीए हो चावे, अरिहंत
जिनपति भजीए ॥ द्रव्यने चावथी वीशस्थानक
पद, हर्षोच्छासे आराधे; अनंतपुण्यमयीजिननामने,
बांधी प्रचुपद साधे हो. अरिहंत जिनपति भजीए

४९६

भावे. ॥ १ ॥ समवसरणमां भाव अरिहंत, भवि-
जनने उपदेशे; त्रण्यकाल जिनवर पूजंतां; मनडुं न
रहे भवक्लेशे हो. अरिहंत० ॥ २ ॥ द्रव्यगुणपर्याये
अरिहंत, आतम आपस्वरूपी; बुद्धिसागरप्रेमप्रतीते;
चिदानंदफलरूपी हो. अरिहंत० ॥ ३ ॥
ॐ ॐ श्रीं प० अर्हत्पदपूजार्थं जलं० य० स्वाहा.



द्वितीया सिद्धपूजा.

चउनिक्षेपे सिद्धपद, सेवंतां नरनार; अष्ट
कर्मक्षय झट करी, सिद्ध बने निर्धार. ॥ १ ॥ शु-
द्ध बुद्ध परमातमा, सिद्ध प्रभु भगवंत; परब्रह्म पर-
मेश्वरा, पूजंता जविसंत. ॥ २ ॥ आतमगुणपर्या-
यनी, पूर्णशुद्धि जे थाय; ते निजपर्यव सिद्धता,
आतममांहे समाय. ॥ ३ ॥

(प्रभुदर्शन मोहनगारा. ए राग.)

प्रभु परमातम रढ लागी, प्रभु सिद्धनी प्रीत-
डी जागीरे. प्रभु० ॥ आठेकर्म रहित शुद्ध आतम,
आठगुणे वरुजागी; गुण एकत्रिंश अनंतगुणी जे,

४९७

थयो प्रभुपदरागीरे. प्रभु० ॥ १ ॥ चउनिक्षेपे सात-
नये सिद्ध, जाणंतां लय लागी; आतम ते सिद्ध
बुद्ध प्रभु ठे, सत्ताए सौत्तागीरे. प्रभु० ॥२॥ आतम
पूरणशुद्धि सिद्ध ते, पूजंतां वैरागी; बुद्धिसागर
निर्भयदेशी, निर्मोही महात्यागीरे. प्रभु० ॥ ३ ॥

ॐ; प० सिद्धपदपूजार्थं जलं० य० स्वाहा.

तृतीया आचार्यपदपूजा.

उत्रीशी छत्रीशीगुणवडे, गुणी जे ज्ञानी महंत;
पंचाचारने पाळता, पूजु सूरिसंत. ॥ १ ॥ द्रव्या-
दिक अनुसारथी, धर्मीसूरि गुणवंत; ज्ञावथी आ-
तम सूरि जे, पूजो प्रणमो संत. ॥ २ ॥ नयनिक्षे-
पथी सूरिपद, निजपरने हितकार; निश्चयने व्यव-
हारथी; पूजो नरने नार. ॥ ३ ॥

(गग देशाख.)

जगत्मां सूरेश्वर जयकारी. जिनशासननी
शोभाकारी, प्रभुपेठे उपकारी. जगत्० ॥१॥ छत्रीशी
छत्रीशी गुणगणशोभित, पंचाचारी विहारी; कलि-

४९८

काले प्रभुपाटे प्रभुसम, संघ सकल आधारी. ज०
 ॥ २ ॥ जैनधर्म वर्तावे जगमां, निश्चयी जे व्यव-
 हारी; शुद्धातमगुणध्यानसमाधि, राता आनंद-
 कारी. ज० ॥ ३ ॥ आतमज्ञानी जे मस्तानी, आतम
 आनंदधारी; बुद्धिसागरसद्गुरुसूरि, पूजंतां भवपारी.
 जगत् ॥ ४ ॥

ॐ सूरिपदपूजार्थं जलं यं स्वाहा.

चतुर्थी उपाध्यायपदपूजा.

पच्चीशगुणथी शोभता, वाचक धर्माधार; भणे
 ज्ञणावे साधुने, सम्यकश्रुतदातार. ॥ १ ॥ अनेक
 गुणथी शोभता, साधे धर्माचार; संयममां वर्ते सदा,
 साधुधर्म धरे सार. ॥ २ ॥ श्रुतने चारित्रधर्मथी,
 आतमधर्मप्रकाश;—करता वाचक पूजतां, यावे
 कर्मविनाश. ॥ ३ ॥

(सोवे सोवे सारी रेन गुमाइ. ए राग. पीलु.)

वाचकपद आतम गुणधारी, ज्ञानने दर्शन च-
 रण विहारी. वा० ॥ आतमशुभपरिणति जयकारी;

४६९

वाचकपूजानी बलिहारी. वाचक० ॥ १ ॥ ज्ञानानु-
भवसुखनी क्यारी, पंचमहाव्रत पंचाचारी. वा०
मुनिगणपाठक जगहितकारी, श्रुतरसिया संयम
गुणधारी. वाचक० ॥ २ ॥ पूजी वंदी वाचकपदने,
आनंद पामो नरनेनारी; बुद्धिसागरगुरुश्रवतारी,
वाचक जगमां छे सुखकारी. वा० ॥ ३ ॥

ॐ वाचकपदपूजार्थं जलं यं स्वा०

॥ पंचमी साधुपदपूजा ॥

इन्द्रचन्द्रनागेन्द्रनी, पदवी न इच्छुं लेश;
क्षण पण साधुसंगति, इच्छुं रहे न क्लेश. ॥ १ ॥
पूजुं मुनिपद प्रेमथी, इच्छुं मुनिवरसंग; क्षण पण
साधुसंगतें, प्रगटे ज्ञानतरंग. ॥ २ ॥ संतथी प्रभु
परखाय ठे, विणसे मोहविलास; प्रभुदर्शन प्रभु
प्राप्तिमां, साधु दलाल ज खास. ॥ ३ ॥

(राग वसंत. तुंतो पाठक पद मन धर हो. रंगीले जिउरा. ए राग.)

जीव !!! मुनिवर संगत कररे, प्रभु रसिया प्यारा;
जड चेतनमां जे समजावी, गुणीना गुण दिक्षमां

५००

धररे. प्रभु० ॥१॥ श्रुतज्ञानी निजपर उपकारी, खेद
 द्वेष नहि जरी डररे. प्रभु० संतनां दर्शन ते प्रभु
 दर्शन, जेने नहीं धन नारी घररे. प्रभु० संतहृदय
 मांहि प्रभुजी ठे परगट, संतवचनामृत पान कररे.
 प्रभु० ॥ २ ॥ आधिव्याधिसर्वउपाधि, नासे मन
 न रहे चंचळरे. प्रभु० श्रद्धाप्रीतिथी स्वार्पण करी
 सहु, तुं तो साधुनी सेवा कररे. प्रभु० ॥ ३ ॥ शांति
 पमाडे संत तें साधु, बहुविनय करी मन धररे.
 प्रभु० साधुकृपाथकी प्रभु परगट दिल, मोहनावे
 न पाठो फररे. प्रभु० ॥ ४ ॥ आत्मगुणपर्यायनी
 शुद्धि, पंचपरमेष्ठीपद स्मररे. प्रभु० ॥ बुद्धिसागर पू-
 णानिन्दी, उपयोगे घटमां विचररे. प्रभु० ॥ ५ ॥

 कलश.

गाइ गाइरे पंच परमेष्ठी पूजा गाइ, ओगणिश
 अठ्योत्तरअक्षयत्रीज, चढते प्रहरे रचाइ; शांति
 तुष्टि पुष्टि सिद्धि,—देनारी सुखदाइरे. पंच० ॥ १ ॥
 प्रभुमहावीरपट्टपरंपरा, तपगच्छ जगसुखदायी;
 जगगुरु हीरविजय सूरिराजा, सहुगच्छमांही सवा-
 इरे. पंच० ॥ २ ॥ सागरशाखा पट्टपरंपरा, रविस्ता-

५०१

गर गुरुराजा; सर्वमुनिगणना शिरताजा, मुनि
 गुणगणनी माझारे. पंच० ॥ ३ ॥ रविसागर शिष्य-
 गुरु सुखसागर, शांत दांत सुखदायी; गुरुकृपाने आ-
 शीर्वादे, आतमस्थिरता पाइरे. पंच० ॥ ४ ॥ पंच
 परमेष्ठी पूजा रची शुभ, आनंदमंगलदायी; बुद्धि-
 सागर ऋद्धि वृद्धि, कीर्ति जयगुणछायीरे. पंच० ॥५॥

ॐ० मुनिपदपूजार्थ० ज० य० स्वाहा ॥

५०२

अथ श्रीमहावीरजन्मकल्याणक जयंतीमहोत्सवपूजा.

॥ दुहा ॥

परमेश्वर परमात्मा, महावीर जिनराज; वी-
तराग अरिहंतजी, सर्वदेव शिरताज. ॥ १ ॥ चोवी-
शमा तीर्थकरा, सर्वविश्वआधार; केवलज्ञाने
बोधीने, तार्या नरने नार. ॥ २ ॥ जारत आदि दे-
शानो, कीधो धर्मोद्धार; वर्तमान शासनप्रभु, तीर्थ-
कर अवतार. ॥ ३ ॥ जेना कल्याणक दिने, नरक
विषे उद्योत; शातापामे विश्वजीव, अनंत निर्मल
ज्योत. ॥ ४ ॥ कल्याणक पांचे भलां, च्यवन जन्म
कल्याण; प्रभुमहावीरदेवनां, गातां आनंद ल्हाण.
॥ ५ ॥ जन्मोत्सवने उजवे, जन्मादिक नहि थाय;
प्रभुभक्तिथी भक्तनां,—दुःखो दूरे जाय. ॥ ६ ॥ द्रव्य
भावभक्तिथकी, आतमशुद्धि थाय; च्यवनज-
न्मने गावतां, पुण्योदय प्रगटाय. ॥ ७ ॥ प्रवृज-
न्मकल्याणनी, पूजा विविधप्रकार; गातां स्तवतां
भक्तजन, सुखशांति लहे सार. ॥ ८ ॥ ते कारण
पूजा रचुं, आनंदमंगलकाज; घर घर पूजा गा-
वतां, स्तवतां सुखसाम्राज्य. ॥ ९ ॥ शुभकार्यो

५०३

करतां थका, समकिती नरनार; वर्धभानपूजाबले,
 शांति लहे नरनार. ॥ १० ॥ प्रभुमहावीरदेव-
 ना, जन्मगुणो गानार; शांति तुष्टि पुष्टिने, जय
 लक्ष्मी वरनार. ॥ ११ ॥ महावीर जन्मजयंती दिन,
 उत्सव जे करनार; पूजा जेह भणावशे, सुख लहेशे
 जयकार. ॥ १२ ॥ अनंतगुणा उपकारीजे, विश्वोद्धार-
 क देव; जन्मजयंतीमहोत्सवे, रसिया पामे सेव.
 ॥ १३ ॥

॥ प्रथमभवे समकितप्राप्तिपूजा ॥

(पुखलवइ विजये जयोरे. ए राग.)

पश्चिममहाविदेहमारें, ग्रामपति नयसार;
 गुणरागी विनयी भलोरे, ग्रामतणो आधाररे. चे-
 तन ! समकित ठे जयकार, जेथी लहो जवपाररे.
 चेतन. स० ॥ १ ॥ एक दिवस वनमां गयोरे, काष्ठा-
 दिकनेकाज; झूल्या पड्या एकसाधुनेरे, दीधी
 प्रेमे साजरे. चेतन० ॥ २ ॥ साधुनी सेवा करीरे,
 बहोराव्यो आहार; राच्यो माच्यो हर्षियोरे, धन्य
 गण्यो अवताररे. चेतन. स० ॥ ३ ॥ योग्य जाणीने

५८४

साधुएरे, दीधो धर्मोपदेश; देवगुरुने धर्मनीरे, श्रद्धा
 प्रगटी बेशरे. चेतन० ॥ ४ ॥ त्रण्य करण करी फर-
 शियुरे, समकित मोक्षनुं द्वार; समकित पामे जव
 तणीरे, गणतरी छे निर्धाररे. चेतन० ॥ ५ ॥ नय-
 सारे बहुजावथीरे, मुनिना वंध्या पाय; संतनी सेवा
 चाकरीरे, निष्फल क्यारे न जायरे. चेतन० ॥ ६ ॥
 मिथ्यादृष्टि टळ्या पठीरे, देवगुरुपरप्रेम; धर्मप्रेम
 वाधे घणोरे, प्रगटे योगने क्लेशरे. चेतन० ॥ ७ ॥
 समकितवंता जीवडारे, कर्मोदये करे काज; अंत-
 र्थी न्यारा रहेरे, इच्छे शिवपुरराजरे. चेतन० ॥८॥
 अंतर्मुहूर्त लगी रहेरे, उपशम समकित बेश; पण
 ते नियमा भव करेरे, टाळे कर्मना क्लेशरे. चेतन०
 ॥ ९ ॥ क्षयोपशमसमकित जलुरे, प्रगटे वार अ-
 संख्य; क्षायिक एकज वारथीरे, आतम करे निःशं-
 करे. चेतन० ॥ १० ॥ यदा समकित प्रगटे तदारै,
 देवगुरुपरराग; धर्मरागश्रद्धा घणीरे, मिथ्याचा-
 रनो त्यागरे. चेतन० ॥११॥ साधु संतना योगथीरे,
 भद्रक गुणी नयसार; समकित पाम्यो अंशथीरे,
 बन्धो प्रभु अवताररे. चेतन० ॥१२॥ तीर्थकर महा-
 वीरनोरे, आतम चढ्यो गुणथान; ऋषभदेव पौत्रज
 ययोरे, पाम्यो बहुश्रुत ज्ञानरे. चेतन० ॥ १३ ॥ म-

५०५

रिचिनामे मुनि थयोरे, बीजा लह्या अवतार; एक-
 वार समकित लहेरे, पडे त्होंये चढे साररे. चेतन०
 ॥ १४ ॥ समकित चारित्रकरणीएरे, भवनो निश्चय
 अंत; बुद्धिसागरवीरनारे, गुणग्रहो मतिमंतरे.
 चेतन० ॥ १५ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय, परमेश्वराय, जन्म
 जरामृत्युनिवारणाय, श्रीमते महावीरजिनेन्द्राय,
 जलं, चंदनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं,
 यजामहे स्वाहा ॥

द्वितीयातीर्थकरनामकर्मबंधकपूजा.

धन्य धन्य महावीरनो, पच्चीशमो अवतार;
 भरत छत्रिकानगरीमां, जन्म्या जगहितकार. ॥ १ ॥
 जितशत्रुराजातणी, भद्राराणी कूख; नन्दन न-
 न्दन नामथी, जन्म्या जस बहुसुख. ॥ २ ॥ पो-
 टिलसूरि उपदेशथी, ग्रह्यं चारित्र उदार; समकितने
 चारित्रथी, निश्चय मुक्तिथनार. ॥ ३ ॥ समकितने
 पाम्या पछी, समकित जो टळी जाय; तोपण पाळुं

५०६

ते लही, चारित्री शिवपाय. ॥ ४ ॥ सर्वनयोनुं
सार ठे, द्रव्यभावचारित्र; चारित्री निश्चय करे,
सर्वकर्मने रिक्त. ॥ ५ ॥

(सांभळजो सखियां हमारी, ए चाल.)

नमुं नंदनमुनि जयकारी, धन्य मुनिवरनी
बलिहारी ॥ करे मासखमण तप भारी, वीसस्था-
नकसेवना सारी; थया उत्कृष्टा अनगारीरे, भावे
भावना शुद्ध विचारी; दउ विश्वजीवो उद्गारी, नमुं
॥ १ ॥ करुं शासनरसी नरनारी, दुःखदृष्टि टळे
दुःखकारी; सर्वजीवविषे उजियारी; करुं भावना
एवी सारीरे; प्रगटी शुभपरिणतिक्यारी, बांध्युं
तीर्थकरपद भारी. नमुं ॥ २ ॥ प्रत्याख्यानीक-
षाय विरामे, दुष्टसंज्वलपरिणति वामे; धर्मध्या-
नावलंबनठामे, वधता उज्ज्वलपरिणामेरे; छट्टा
गुणस्थानकना धारी, धन्य धन्य मुनि अनगारी.
नमुं ॥ ३ ॥ रागद्वेषनी परिणति टाळे, समता
सुखमांहि म्हाले; शुभअशुभवृद्धिने खाळे, निज
आतममां मन वाळेरे; जेणे कंचन कामिनी टाळी,
जडथी मूर्च्छा उतारी, नमुं ॥ ४ ॥ क्षयोपशमी
चारित्र पाळे, प्रगटया दोषो झट टाळे; षडावश्यके

५०७

गुण अजवाळे, करे मोहथी युद्ध ज भारेरे; नहीं दि-
लमां अरिनी यारी, उपयोगे रहे हितकारी. नमुं०
॥ ५ ॥ चारभावना दिलमां भावे, शुद्धआतम
रूपनेध्यावे; सहे उपसर्गों समभावे, एवा संत
मळे शिव थावेरे; एवा सराग संयमधारी, धन्य नं-
दनमुनि सुखकारी. नमुं० ॥ ६ ॥ धन्य चारित्री
गुणधारी, द्रव्यगुणपर्यायविचारी; बन्या द्रव्य
क्रियाव्यवहारी, जे निश्चयउपयोगधारीरे; बुद्धि-
सागरमुनिमहाराजा, सुरपतिनरपतिशिरताजा.
नमुं० ॥ ७ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं प० श्रीमते महावीरजिनेन्द्राय,
जलं, चंदनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं च
संयतगुणलाभाय य० स्वाहा ॥

तृतीया प्राणांतस्वर्गगमनदशावर्णनपूजा.

आयुक्षये नंदनमुनि, दशमा स्वर्गमज्ञार,
उपज्या वीशसागर उपम,—आयुथी जयकार. ॥ १ ॥
मति श्रुत अवधिज्ञानना,—धारक सुर सुखकार; पूर्व

५०८

भवोने जाणता, शुभपरिणामी उदार; ॥ २ ॥ भोगवे
मनथी भोगने, पण नहि भोगी जेह; सम्यग्दृष्टि
देवने, वर्ते नहि संदेह. ॥ ३ ॥

(सांभळशो मुनि संयमरागे-ए राग.)

सांभळशो महावीर प्रभुनो, ढवीशमो भव सा-
रोरे; मतिश्रुत अवधिना उपयोगे, जातो सुर जन्मा-
रोरे. सांभळशो० ॥ १ ॥ सरागसंयम तप जप कर्मे,
स्वर्गगतिने पामेरे; सम्यग्दृष्टि, मुक्तिमाटे, विचरे
रहे विश्रामेरे. सांभळशो० ॥ २ ॥ वैक्रियदेही पुद्-
गलशक्ति,-धारक भक्तिधारीरे; धर्मीजीवोने स-
हाय करंता, कर्मयोगी उपकारीरे. सां० ॥ २ ॥ शुक
शुकपरिणामना धारी, कामी छतां जे अकामीरे;
सम्यग्दृष्टियोगे सवलुं, जाणे न धारे खामीरे.
सां० ॥ ४ ॥ पुण्यभोग भोगवता विचरे, मुक्ति सुख
अभिलाषीरे; सघळुं आयुष्य पूरण करता, शुद्धातम
विश्वासीरे. सां० ॥ ५ ॥ अनंतनिर्जरे अल्पकर्मबंध,
सम्यग्दृष्टियोगेरे; बाह्यथकी देवभवना सुखने,
भोगवे उदयप्रयोगेरे. सां० ॥ ६ ॥ तीर्थकरपद बांघ्यु
जाणे, भावीजन्मने जाणेरे; एकसमये चवतां नहि
जाणे, उपयोग मुहूर्तप्रमाणेरे. सां० ॥ ७ ॥ शिव

५०९

मारग विसामो सुरभव, वीरप्रभुनो जाणोरे; बुद्धि-
सागरप्रभुगुणभक्ते, जन्म सफल थयो मानोरे.
सां० ॥ ८ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय, परमेश्वराय, जन्म
जरामृत्युनिवारणाय, श्रीमते महावीरजिनेन्द्राय,
भक्तिलाभार्थं ज० य० स्वाहा ॥

चतुर्थी च्यवनकल्याणपूजा.

भारत माहनकुंडमां, ब्राह्मण ऋषभदास; देवा-
नंदा ब्राह्मणी, पतिव्रता जे खास. ॥ १ ॥ प्राणत
स्वर्गयकी प्रभु, भोगवी सुरनुं आय; देवानंदा कुख
विषे, प्रगट्या पुण्यपसाय. ॥ २ ॥ चौदस्वप्ने
देखती, देवानंदा मात; ऋषभदासना बोधथी, जाणी
थे रळियात. ॥ ३ ॥

(मेतारज मुनिवर धन्य धन्य तुम अवतार. ए राग.)

कर्मोदयथी देवानंदा, कुखमां चवी प्रभु आय;
ब्यासी रात्री दिवस त्यां रहिया, कर्मथकी न छू-

५१०

टाय; त्रिज्ञानी प्रभुजी भोगवे कर्मना भोग. ॥ १ ॥
 क्षत्रियकुंडनगरीमांही, सिद्धारथ गुणी राय; त्रि-
 शला राणी तेनी कुखमां, आव्या प्रभु सुखदाय.
 त्रि० ॥ २ ॥ त्रिशला माता चौद स्वप्नने, देखी ह-
 रित थाय; जोषीओ बोले तीर्थकर,—प्रगट्या छे
 जगराय. त्रि० ॥ ३ ॥ राजा जोषीगण संतोषे, दाने
 अने सन्माने; त्रिशला माता प्रभुगुणभक्ते, आयु
 वहे ते न जाणे. त्रि० ॥ ४ ॥ गर्भे रहिया त्रिज्ञानी
 प्रभु, उपयोगे जिनराय; शातावेदनी वेदे गर्भमां,
 गर्भकाल वीती जाय. त्रि० ॥ ५ ॥ नव मासने उपर
 साडा,—सात दिवस वही जाय; बुद्धिसागर प्रभुम-
 हावीर, गर्भगुफामां सुहाय. त्रि० ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं प० महावीरच्यवनकल्याणक
 पूजार्थं ज० य० स्वाहा ॥

५११

॥ पंचमी श्री महावीरजन्म कल्याणकपूजा ॥

त्रिशलामाता विधिथी, गर्भवहे सुखकार;
 शांति तुष्टि पुष्टिथी, आरोग्य ज धरनार. ॥ १ ॥
 चैत्री सुदि त्रयोदशी, मध्यरात्रीना योग; सर्वदिशा
 निर्मल छते, जन्म्या प्रभु गुणभोग. ॥ २ ॥ अज-
 वालुं नरके थयुं, चौदभुवन उद्योत; सर्वजीव शा-
 ता थइ, जेनी निर्मल ज्योत. ॥ ३ ॥ छप्पनदिशि
 कुमारी तुरत, आवी प्रभुने पास; सूतिकर्म भावे
 कर्युं, माता हर्ष उल्लास. ॥ ४ ॥

(मेरु शिखर न्हवरावे हो सुरपति. ए राग.)

प्रभु जन्म्या ते काले हो सुरपति, सघळा म-
 ळी झट आवे; प्रभुनी माता पासे आवी, प्रभु प्र-
 णमीने वधावे हो; सुरपति सघळा मळी तिहां आ-
 वे. ॥ १ ॥ प्रभुबिंब मूकी प्रभुमातपासे, प्रभुने मेरु
 लेइ जावे; आठ जातिना कलश भरीने, स्नात्र करी
 गुण गावे हो; सुरपति प्रेमे प्रभु न्हवरावे. ॥ २ ॥
 चोसठ इन्द्रो प्रभुगुण गावे, हैडे हर्ष न मावे; त्र-
 ण्यजगत्ना नाथने ध्यावे, भक्ते उल्लसित थावे हो;
 सुरपति प्रेमे प्रभु न्हवरावे. ॥ ३ ॥ चारनिकायना
 देव देवीओ, इन्द्रो असंख्य त्यां आवे; विधिण पूजी

५१२

प्रभुने मातनी,—पासे मूकी जावे हो. सुरपति० ॥४॥
 प्रातःकाले जन्मने जाणी, सिद्धारथ नृप भावे; प्रभु
 जन्मोत्सव देश नगरने, घर घरमां विरचावे हो;
 प्रभुजी जन्म्या जग जयकारी. ॥ ५ ॥ शांति तुष्टि
 पुष्टि मंगल,—वायु भारत वायो; भारतमांही सोना
 सूरज, उग्यो प्रगट सुहायो हो. प्रभुजी० ॥ ६ ॥
 भारतमां सुख शांति वर्तो, रोग उपद्रव शामो; प्रभु
 कल्याणकयोगे जगत्मां, सर्वजीवो सुख पामो हो.
 प्रभुजी० ॥ ७ ॥ ओगणीश अठयोत्तर चैत्रसुदि,
 त्रयोदशी रविवारे; प्रभुमहावीरजन्ममहोत्सव, गायो
 हर्ष विचारे हो. प्रभुजी० ॥ ८ ॥ प्रभु महावीर
 गावो भावो, रत्नादिकथी वधावो, सकलसंधमां
 आनंदमंगल, शांति पुष्टि थावो हो. प्रभुजी महावीर
 देव वधावो ॥ ९ ॥ जन्म कल्याणकपूजा गाइ,
 विजापूरमां सारी, बुद्धिसागर आनंद मंगल, पामो
 नरने नारी हो. प्रभुजी महावीर देव वधावो. ॥१०॥

ॐ प० श्री महावीरजिनेश्वरजन्मकल्याणक
 पूजार्थं ज० य० स्वाहा. ॥

५१३

॥ प्रभुमहावीरतीर्थकरदेवनी अष्ट प्रकारीपूजा ॥

परब्रह्म परमात्मा, चोवीशमा जिनराज; वि-
श्वपति जिनपति विभु, सारो वंठित काज. ॥ १ ॥
प्रणमुं महावीर जगपति, जिनशासनसुल्तान;
अष्टप्रकारे द्रव्यथी, पूजुं तुज भगवान् ॥ २ ॥ म-
नवचकायाथी कर्युं, प्रभु तुज शरणुं बेश; अर्पायो
तुजमां प्रभु, जाग्यो असंख्यप्रदेश. ॥ ३ ॥ जडथी
प्रीति टाळीने, धारी तुजपर प्रीति; तुजपर श्रद्धा
धारतां, रही न भीति अनीति. ॥ ४ ॥ परोक्ष मति
श्रुत ज्ञानथी, परोक्ष तुं परखाय; केवलज्ञाने तुं
प्रभु, प्रत्यक्ष घट पेखाय. ॥ ५ ॥ तुज आगमना
अनुभवे, अनुभव्यो जिनदेव; द्रव्यभावपूजा
रची, करुं तुजरूपनी सेव. ॥ ६ ॥ अनंतगुणप-
र्यायनी, शुद्धि करवाकाज; निज आतम तुज सा-
थमां, योज्यो करो सनाथ. ॥ ७ ॥ तुज गुण
गातां ध्यावतां, स्तवतां सर्व प्रकार; निज आतमनी
शुद्धता, पूज्यपणुं निर्धार. ॥ ८ ॥

५१४

प्रथमा जलपूजा.

श्रद्धाप्रीतिजलवडे, पूजो महावीरदेव; सम्यग्दृष्टियोगथी, नासे मिथ्या टेव. ॥ १ ॥ श्रद्धा प्रेमने सत्यनी,—जलपूजा सुखकार; सम्यग्दृष्टि भक्तने, भक्ति शिवदेनार. ॥ २ ॥ द्रव्यभाव सम्यक्त्वथी, तुज सेवक नरनार; निश्चय मुक्तिपद वरे, भमे नहीं संसार. ॥ ३ ॥

(सबजन धरम धरम मुख बोले. ए राग.)

प्रभुमहावीर जगत् जयकारी, तीर्थकर उपकारीरे. प्रभु० ॥ तुजपर श्रद्धाप्रीति धारी, कीधुं शरण तुज भारी; ॐ अहं महावीर प्रभुजी, जापे लगनी धारीरे. प्रभु महावीर० ॥ १ ॥ शुद्धगुणपर्यायना योगे, निज उपयोगे सुधारी; प्रभु तुज साथे मळियो हळियो, खेजो झट उद्धारीरे. प्रभु महावीर० ॥ २ ॥ तत्त्वमसि सोऽहं ने ओऽहं, एकता खीनता धारी; भूल्यो जडमाया तुज भाने, तुजपर जउ सहू वारीरे. प्रभु महावीर० ॥ ३ ॥ प्रभु तुज रीझनी आगळ जगनी, खीज गणुं न लगारी; ज्यां देखु त्यां तुंहि तुंहि तुंहि, प्रगटंती धून भारीरे. प्रभु महावीर० ॥ ४ ॥

५१५

लक्ष्मी सत्ताथी न पमातो, निराकार निर्धारी; श्रद्धा
 प्रीति उपयोगे प्रभु, मळतो तुं सुखकारीरे. प्रभु महा-
 वीर० ॥ ५ ॥ श्रद्धाप्रीतिजलपूजाथी, पूजुं जगहित-
 कारी; ज्ञानानन्द जे अंशे प्रगटे, पूजाफल निर्धा-
 रीरे. प्रभु महावीर० ॥६॥ जगनी माया मन पडछाया,
 मुंजुं नहीं त्यां लगारी; बुद्धिसागरप्रभुमहावीर,
 लेजो हवेतो उगारीरे. प्रभु महावीर० ॥ ७ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय, परमेश्वराय, जन्म
 जरामृत्युनिवारणाय, श्रीमते महावीर जिनेन्द्राय,
 जलं यजामहे स्वाहा ॥

द्वितीया चंदनपूजा.

जिनवर महावीर गुण घणा, वैखरीथी न कथाय;
 परा पदयंती भासता, अनंत तुज महिमाय. ॥ १ ॥
 धर्मक्षमाचंदनथकी, पूजुं प्रभु तुज अंग; जाणं-
 तां तुज धर्मने, लाग्यो अविहडरंग. ॥ २ ॥ एक-
 वार तुज आगमे, जो प्रभु जाण्यो जाय; तो भव-
 ताप रहे नहीं, निश्चय ए निर्माय. ॥ ३ ॥

५१६

(प्रभु सुमतिरे सुमति आपो प्यारा, मुज प्राणतणा
आधारा. ए राग.)

प्रभु महावीररे तुज साथे रंग लाग्यो, म्हारो
अंतर महावीर जाग्यो. ॥ प्रभु गुरुगमथी तुं जणायोरे,
पूरा प्रेमथकी परखायोरे, धातोधातेरे मळियो आ-
नंद पायो, रोमेरोमे प्रभु रंगायो. प्रभु० ॥ १ ॥
लागे नहि तुजवण कोइ प्यारंरे, नहीं तुजवण कोइ
जग म्हारंरे; मोह मारेरे तुजथी मेळ सुहातो, भेद
भागे जाण्यो जातो. प्रभु० ॥ २ ॥ गुण अनंतपर्याय
दरियोरे, बीजा सात्विकगुणगण भरियोरे, उपदेशेरे
तार्या जीव करोमो, जडे नहीं तुज जगमां जोडो.
प्रभु० ॥ ३ ॥ प्रभु देहछतां साकारारे, देहातीत
थतां निराकारारे; थया सिद्धज रे पूर्ण असंख्यप्र-
देशी, अरिहंत अलख ब्रह्मदेशी. प्रभु० ॥ ४ ॥ जे
आत्म नहि ते शुं ? मागुंरे, मेंतो मागणपणुं हवे
त्यागुंरे; प्रभु परखीरे निष्कामी थै जाग्यो, तुज लगनी-
ए घट जाग्यो. प्रभु० ॥ ५ ॥ पूर्ण प्रभुथी पूर्ण रंगायोरे,
पूर्ण आनंद घटमां ठायोरे; बुद्धिसागररे पूर्णनी
पूरणपूजा, उपयोगे महावीर पूज्या. प्रभु० ॥ ६ ॥

ॐ ५० महावीरजिनेन्द्राय, चंदनं. य० स्वाहा.

५१७

॥ तृतीया पुष्पपूजा. ॥

जिनवरमहावीरभक्तिथी, मुक्ति लहे नरनार;
 प्रभुगुणपुष्पनी मालथी, पूजो प्रभु जयकार. ॥ १ ॥
 जैनधर्मश्रद्धा धरो, सर्वसंघनी सेव; जिनवर महावीर
 देवनी, पूजानी ए टेव. ॥ २ ॥ प्रभु महावीर उप-
 दिश्यां, षड्द्रव्यो नवतत्त्व; सत्य गणीने वर्तवुं,
 ए प्रभुपूजा सत्त्व. ॥ ३ ॥

(निशानी कहा बतावुंरे. ए राग राग गोडी.)

जिनेश्वर महावीर! प्यारोरे, सर्वविश्व आधार.
 जिनेश्वर० ॥ १ ॥ तुज हृदयथी प्रगटियोरे, जैनधर्म
 छे सत्य; सकलसंघनी सेवनारे, तुज पूजानुं कृत्य.
 जि० ॥ २ ॥ केवलज्ञानी तुं प्रभुरे, तुज वचनानुसार;
 वर्तवुं पुष्पनी पूजनारे, धरवा धर्माचार, जिने० ॥३॥
 मुज मन मन्दिरमां वसोरे, क्षण पण थाओ न दूर;
 तुज विरहो न खमी शकुंरे, रहेशो हजराहजूर.
 जिने० ॥ ३ ॥ नयनिक्षेपप्रमाणथीरे, जैनागम अ-
 नुसार; प्रभु तुज ध्यानसमाधिथीरे, प्रगट्यो रस
 जयकार. जिने० ॥ ४ ॥ अनेकांतसत्तामयीरे, अनंत
 गुण आधार; एक आधार प्रभु तुंहिरे, आनंदमय
 निर्धार. जि० ॥ ५ ॥ सेवा आदि गुणमयीरे, सा-

५१८

त्तिक पुष्पनी माल; प्रभुमहावीर कंठमारे, स्था-
पंतां कल्याण. जि० ॥ ६ ॥ तुजस्वरूप थइ तुज
जजुरे, चढता जावोछास; बुद्धिसागरआतमारे,
आनंद अनुजव खास. जि० ॥ ७ ॥

ॐ प० महावीरजिनेन्द्राय पुष्पं य० स्वाहा ॥

चतुर्थी धूपपूजा.

देव गुरुने धर्मनी, श्रद्धा समकित खास; गुरु
पासे समकित ग्रही, टाळो मिथ्यावास. ॥ १ ॥
खेद जीति ने द्वेष वण, प्रभुने पूजे जक्त; देहादि
जडसंगी पण, मन नहि जडआसक्त. ॥ २ ॥ प्रभु
नामना जापनो—धूप करी नरनार; प्रभुने पूजे
प्रेमथी, कर्म टळे निर्धार. ॥ ३ ॥

(ए गुण वीरतणो न विसारु, संभारु दिन रातरे. ए राग.)

ॐ अँह महावीर जिनेश्वर, जाप जपुं दिन
रातरे; प्रभु वण बीजुं कांइ न इच्छुं, मात पिता तुं
ज्रातरे. ॐ अँह ॥ १ ॥ परापश्यंती मध्यमा वैखरी,

५१६

जापे टळे सहुपापरे; राग द्वेष न पासे आवे, जाप
जपंतां अमापरे. ॐ अर्हं ॥ २ ॥ ज्यां त्यां अंतर
बाहिर धारणा, त्राटक तुज उपयोगरे; जीज न हाले
मानस जापे, प्रगटे आनंद जोगरे. ॐ अर्हं ॥ ३ ॥
जड चेतन सहु विश्वमां प्रभुनी,—सत्ता धारणायोगरे,
आत्ममहावीरसत्ता प्रगटे, थातो कर्मवियोगरे.
ॐ अर्हं ॥ ४ ॥ प्रभु तुज जापना धूपथी नासे,
दुर्बुद्धि दुर्गंधरे; क्षण क्षण आतम शुद्धि वृद्धि, आतम
थाय अबंधरे. ॐ अर्हं ॥ ५ ॥ प्रभुजापे प्रभु घटमां
प्रकाश्या, प्रगटी सुखनी खुमारीरे; बुद्धिसागर महा-
वीर लगनी, प्रगटी न उतरे उतारीरे. ॐ अर्हं ॥ ६ ॥
ॐ प० महावीर जिनेन्द्राय—धूपं यजामहे स्वाहा ॥

॥ पंचमीदीपकपूजा ॥

मतिश्रुतज्ञानना दीपके, पूजा महावीर देव;
करतां दुर्गुण दोष सहु, नासे ठे ततखेव. ॥ १ ॥
मिथ्यातम दूरेटळे, दीपक पूजायोग; केवल ज्ञा-
नने दर्शने, मुक्तिपुरीसंयोग. ॥ २ ॥ तिरोभाव निज
ऋद्धिनो, आविर्भाव जे थाय; आत्ममहावीरसि-
द्धता, देहछतां सोहाय. ॥ ३ ॥

५२०

(आशा ओरनकी क्या कीजे. ए राग. आशावरी.)

घटमां महावीर जिनवर भास्या, आपो आप
 प्रकाश्या. घटमां० चौदलोक आकारे मनुष्यनुं, तनु
 मन्दिर जयकारी; असंख्यप्रदेशीयात्ममहावीर,
 शोभंतुं सुखकारी. घटमां० ॥ १ ॥ गुरुगमज्ञाननी
 कुंचीयोगे, समकित द्वार उघाडयुं; मतिश्रुत आंखे
 अनंत ज्योति, प्रभुनुं रूप निहाळ्युं. घटमां० ॥ २ ॥
 अनहदनादनो घंट वगाडयो, लळी लळी नम्यो
 प्रभु पाये; आनन्द प्रगट्यो अतिशय भारी, त्रण्य
 भुवन न समाये. घटमां० ॥ ३ ॥ दिल फानस मन
 कोडियामां, प्रीतिघृत पूर्युं सारुं; सद्विचार दीवेट
 करी शुभ, ज्ञानाग्नि उजियारुं. घटमां० ॥ ४ ॥ धर्म
 बुद्धिनो दीपक एवो, झळहळतो प्रभुज्योते; प्रभु
 महावीर पासे शोभे, क्षयोपशमउद्योते. घटमां०
 ॥ ५ ॥ क्षयोपशमना ज्ञानदीपकथी, महावीर
 जिनवर पूज्या; बुद्धिसागरगुरुकृपाए, सत्यप्रकाशे
 सूज्या. घटमां० ॥ ६ ॥

ॐ० प० महावीर जिनेन्द्राय—दीपं य० स्वाहा.

५२१

षष्ठी अक्षतपूजा.

अक्षतमहावीररूपनी, अनंत झळहळ ज्योत;
 अक्षतथी प्रभुपूजतां, त्रण्यभुवनउद्योत. ॥ १ ॥
 दया दान दमशीलने, संतोषे महावीर; पूजंतां निज
 आतमा, शुद्ध बने महावीर. ॥ २ ॥ सार्विकने जे
 सहज छे, जाणी गुणगण बेश; प्रभु महावीर पूजतां,
 रहे न मिथ्याक्लेश. ॥ ३ ॥

(राग. आशावरी.)

महावीर !! अकलकला प्रभु त्हागी. सर्वविश्वना
 परमेश्वर छो. सकलजगत् उपकारी. महावीर० ॥
 पृथ्वी थाळी जानु शशी बे, आरती मंगल
 भारी; महामेघनां वाजां वागे, विजळी महिमा
 ज्ञारी. महावीर० ॥ १ ॥ वेदो आगमो महिमा
 गावे, ऋषियो ध्याइ गयारी; व्याप्यने व्यापक
 सदसद्रूपी, गुणपर्यायमयारी. महावीर० ॥
 ॥ २ ॥ सद्गुणरूपके पंचमहाभूत, ज्ञाने शोभी
 रह्यारी; अनंतगुणगणना तमे दरिया, आविर्जावे
 रह्यारी. महावीर० ॥ ३ ॥ चारगतिचूरकस्वस्ति
 कने, रत्नत्रयीपुंज धारी; सिद्धशिखासिद्धचिह्न
 करीने, पूजुं जाव वधारी. महा० ॥ ४ ॥ नयनिक्षेपा

५२२

भंगविकल्पे, ध्यानदशा छे विचारी; बुद्धिसागर शुद्ध
उपयोगे, महावीर जगजयकारी. महावीर० ॥ ५ ॥

ॐ प० अक्षतं, य० स्वाहा ॥

सप्तमी नैवेद्यपूजा.

बाह्यांतर तुजरूपने, जाणे भक्त गणाय; तुज
पर श्रद्धा धारतां, मुज मन निर्मल थाय. ॥१॥ चौद
शुवनमां आथड्यो, पडथुं न क्यांये वेन; पण तुजमां
मन धारतां, प्रगटी सुखनी घेंन. ॥ २ ॥ वर्धमान
महावीर तुं, एक खरो आधार; तुजपर स्वार्पण सह
कर्युं; तुज शरणुं सुखकार. ॥ ३ ॥

(नाथ कैसे गनको बंध छुढायो. ए राग.)

प्रभु !!! तुज आनंदरस बलिहारी, तीर्थकर
अवतारी. प्रभु० अनंत भवमां ठाम न ठरियो, दुःख
लक्ष्यो बहुभारी; बाहिरजडरसथी रंगायो, तृप्ति
थई न लगारी. प्रभु० ॥ १ ॥ परमात्म तुज आनंद
रसियो, थातां प्रगटी खुमारी; कोटि प्रयत्नो कोइ
करे पण, उतरे नहिं ते उतारी. प्रभु तुज आनंद

५२३

रस बलिहारी ॥ २ ॥ तुजरस पामे विषयरस छूटे,
मनडुं ठरे निर्धारी; सेवाभक्तिआतमज्ञाने, तुज
रस मळतो भारी. प्रभु० ॥ ३ ॥ कोटि उपाय
करे जन कोइ, सत्यानन्दनेमाटे; पण जडजगथी
न आनंद पामे, आनंद ठे तुजहाटे, प्रभु० ॥ ४ ॥
अमृत आस्वाद्या पळी विषना,—पाननो प्रेम न जागे,
एकवार तुज रसने पामे, मन न रहे जरुरागे. प्रभु०
॥ ५ ॥ क्षयोपशमआतमरस पामी, क्षायिक आ-
नंदमाटे; सहेजे तुजमां मन रंगायुं, माल छे शिरने
साटे. प्रभु० ॥ ६ ॥ आनंदरसनैवेद्ये पूजुं, बाह्य
नैवेद्यथी पूजुं; बुद्धिसागरमहावीर पामी, बीजे
क्यांये न मुंझु. प्रभु० ॥ ७ ॥
ॐ० प० महावीर जिनेन्द्राय—नैवेद्यं यजामहे स्वाहा ॥

अष्टमी फलपूजा.

प्रभु महावीरमां मन धरी, चालंतां व्यवहार, आ-
सक्ति वण आतमा, प्रभुपद पामे सार. ॥ १ ॥ बा-
ह्यांतर अतिशयी प्रभु, महावीर जिन परखाय; भ्रद्धा
प्रीति स्वार्पणे, मुक्ति अंते थाय. ॥ २ ॥ जिनवर

५२४

महावीर तुं धणी, सर्वविश्वनो देव; निष्कामे
दिलमां धरी, करुं ताह्यरी सेव. ॥ ३ ॥

(राग सारंग. प्रभु निर्मल दर्शन कीजीए. ए राग.)

प्रभु वीर!!! थयो तुज रागियो, आतमज्ञाने
जागियो. प्रभु० इन्द्रादिकपद सुख नहीं इच्छुं, तुज
स्वरूपे लागियो; जवमुक्तिमां समवृत्ति थै, नहि
त्यागी वैरागियो. प्रभु० ॥ १ ॥ जडजगमां त्याग
ग्रहणनी वृत्ति, टळतां थयो सौभागियो; बुद्धिसागर
प्रभु महावीर, परमानंदफल चाखियो. प्रभु० ॥ २ ॥

(विनतिपणे हुं विनवुं, घेर आवोने ढोला. ए राग.)

क्षयोपशम उपशम फले, प्रभु पूज्या स्वभावे;
निमित्त साधन साधना, साधुं प्रीतिभावे. क्षयोप-
शम० ॥ ३ ॥ प्रभुपूजन फल ज्ञानने, थ्यानंदरस
लीधुं; प्रभुरीझे जगखीजमां, लेश चित्त न दीधुं.
क्षयोपशम० ॥ ४ ॥ बाकी क्षायिकभावथी, पूजन
फल रहियुं; शुद्धातम तुज रंगमां, मुज मन गहग-
हियुं. क्षयोपशम० ॥ ५ ॥ उत्पत्तिव्ययध्रौव्यथी,
सर्व द्रव्य प्रमाण्यां; सम्यग्दृष्टियोगथी, तुज व-
चनो जाण्यां. क्षयोपशम० ॥ ६ ॥ देव गुरुने धर्मनी,

५२५

भक्ति,—व्यवहारे; रहियो प्रभु तुज आणथी, उपयोग
विचारे. क्षयोपशम० ॥ ७ ॥ सात्त्विकआदि मोहना,
पडदामां रहेलो; बुद्धिसागर आतमा, देखी मळियो
मेळो. क्षयोपशम० ॥ ८ ॥

कलश धन्याश्री.

कीर्ती कीर्तीरे प्रभुमहावीरपूजा कीर्ती. आ-
नंद मंगललीला प्रगटी, भोगवी आतमऋद्धिरे.
प्रभु० ॥ १ ॥ द्रव्यने भावथी यहीने पूजा, त्यागीने
भावथी सिद्धि; प्रभु गातां ध्यातां स्तवतां सुख,
अष्टसिद्धिनी समृद्धिरे. प्रभु० ॥ २ ॥ ओगणिश
अठयोत्तर वैशाखी, वदि चोथने सोमवारे; विद्या
पुरमां पूजा रची शुभ, भवीजननां दुःखवारेरे.
प्रभु० ॥ ३ ॥ प्रभुमहावीर पूजायोगे, जैन संघोन्न-
ति थाशो; जैनधर्मआराधी भव्यो, परमानंदने
पाशोरे. प्रभु० ॥ ४ ॥ जिनवरपूजा भणतां ने गातां,
थाशो संघसमृद्धि; बुद्धिसागर ऋद्धिवृद्धि—, कीर्ति
जय शिवसिद्धिरे. प्रभु० ॥ ५ ॥

५२६

श्री घंटाकर्णमहावीरपूजनविधि.

श्री शांति स्नात्र अष्टोत्तरी स्नात्र तथा प्रतिष्ठा प्रसंगे पूर्वाचार्य मुनियोए घंटाकर्ण महावीर मंत्रयंत्रनी थाळी थापवानुं जणावुं छे अने ते प्रमाणे वर्तमानमां प्रवृत्ति थाय ठे. तथा देवप्रतिष्ठा शांति स्नात्र काले घंटाकर्ण महावीरना मंत्रनो १०८ वार जाप करीने सुखडी सहित मंत्रनी स्थाळी बांधी स्थापवामां आवे ठे. घंटाकर्ण महावीरनी श्री महुडी (मधुपुरी) गाममां श्री पद्मप्रभु जिन मंदिरनी बहार देरी ठे, तेमां घंटाकर्ण महावीरनी मूर्ति स्थापवामां आवी ठे. घणा भक्तोना आग्रहथी वीरनी पूजा रचवामां आवी छे, तथा आरती रचवामां आवी ठे. गुरुगमपूर्वकपूजा जणाववी अने करवी. शासन रक्षक वीरतरीके पूर्वाचार्योए घंटाकर्णमहावीरने स्थाप्या छे. घंटाकर्ण महावीर मंत्र कल्प बे त्रण जातिना छे. कलिकालमां शासन प्रजावक वीरना अनेक चमत्कारो थाय ठे. सम्यग् दृष्टि वीर ते सम्यग् दृष्टियोने स्वधर्मी तरीके भक्ति करवा योग्य ठे. परमात्म महावीर देवना भक्त रागी वीरने स्वधर्मी तरीके मानवामां पूजवामां अतिचार नथी, स्वधर्मी तरीके श्री घंटाकर्ण महावीर-

५२७

नी सहाय इच्छवानी जेओनी इच्छा होय तेओए घंटाकर्ण महावीरनी पूजा आदिथी आराधना करवी. मिथ्यात्वी देव देवीनी सहाय इच्छवा करतां सम्यग् दृष्टि स्वधर्मी देव वीरनी सहाय इच्छवी ते विशेष उत्तम ठे. गीतार्थ आचार्यमुनिमंत्रज्ञाताओनी पासे रही मंत्र, विद्या, देवोपासना वगैरेनुं रहस्य समजवुं. जेओने चारनिकायना स्वधर्मी देवादिनी सहायादिनी इच्छा न होय, तेओने माटे तो वीरादिनुं पूजन नथी. इत्यादि सर्व बाबत गुरु गमथी जाणवी.

जैनशासनज्ञक्तश्री घंटाकर्णमहावीरपूजा.

परब्रह्म परमातमा, महावीर जिनराज; इन्द्रादिक पूजे सदा, सर्वदेव शिरताज ॥ १ ॥ चोवीशमा तीर्थकरा, विश्वोद्धारक देव; सर्वदेवने देवीओ, करती प्रेमे सेव. ॥ २ ॥ यक्षयक्षिणी योगिनी, प्रभु पदध्यावे बेश; बावनवीरो सेवता, टाळे जविना क्लेश. ॥ ३ ॥ सर्ववीरमां श्रेष्ठ जे, महावीर शिरदार, घंटाकर्ण विराजता, प्रभुज्ञक्त अवतार ॥ ४ ॥

५२८

परमात्ममहावीरना, परमभक्त बलवंत; घंटाकर्ण
 प्रसिद्ध छे, साझ करे गुणवंत ॥५॥ जिनवर महावीर
 देवना, भक्तो नरनेनार; तेओनां संकट टळे, समरे
 स्हाय थनार ॥ ६ ॥ सम्यग्दृष्टिजक्त छे, घंटा-
 कर्णजी वीर; साधर्मिकभक्ति करे, प्रगटे आत्म
 धीर. ॥ ७ ॥ साधर्मिक महावीरनी, पूजा गृही नर-
 नार; करतां समकित निर्मलुं, करतां धरी दिलप्यार.
 ॥ ८ ॥ त्यागीमुनिवर कारणे, धर्मप्रभावनहेत;
 मंत्र स्मरे गुण बोलीने, धर्मवृद्धिसंकेत. ॥ ९ ॥
 धर्मी रागी समकित्ती, वीर करंतो स्हाय; सम्यग्दृष्टि
 धर्मीने, संकट आव्यां जाय. ॥ १० ॥ धूपने दीपक
 पुष्पनी, सुखडीपूजा सार, सुवर्णआदि वरखथी,
 पूजा छे श्रीकार. ॥ ११ ॥

प्रथमा धूपपूजा.

(कानुडो न जाणे मोरी प्रीत. ए राग.)

घंटाकर्ण महावीर देव, अद्भूत महिमा धारीरे.
 घंटाकर्ण० समरंतां चढता व्हारे, संकट पडियां टाळे,
 त्हारो महिमा अग्रंणार, भक्तना रोग निवाररे,

५२९

घंटाकर्ण० ॥ १ ॥ घंटाकर्णना मंत्रे, श्रद्धाथी विधि
 यंत्रे; साधे सिद्धे सघळां काज, गुरुगमभाषित
 तंत्रेरे. घंटाकर्ण० ॥२॥ प्रत्यक्ष दर्शन आपे, भक्तोना
 मनमां व्यापे; आपे धर्मकरणमां साज, कष्टनी कोटि
 कापेरे. घंटाकर्ण० ॥ ३ ॥ त्हाारा मंत्रोना जापे,
 शक्तियो दिलमां छापे; त्हाारा रागी नरनेनार, धर्मने
 जगमां स्थापेरे. घंटाकर्ण० ॥ ४ ॥ महिमा त्हाारो जग
 गाजे, ज्यां त्यां जयडंको वाजे, समरे रहेशो हजरा
 हजूर, त्हाारुं विरुद् न लाजेरे. घंटाकर्ण० ॥ ५ ॥
 वनमां रणमां सागरमां, पृथ्वीतलमां अंबरमां; करोने
 धर्मकर्ममां साज, दरवारे ने घरमांरे. घंटाकर्ण० ॥६॥
 धूपे पूजी गुण गावुं, सम्यग्दृष्टि दिल लावुं; बुद्धि-
 सागर शासनदेव, जगमां स्थापी भावुंरे. घंटा-
 कर्ण० ॥ ७ ॥

मंत्र—ॐ घंटाकर्ण महावीराय, सर्वरोगोपद्रव
 शमनाय, इष्टलाजाय, शांतिपुष्टिपुष्ट्यर्थं धूपं यजामहे
 स्वाहा.

५३०

द्वितीया दीपकपूजा.

(सेवक अरज करे छे राज, अमने शिवसुख आपो. ए राग.)

शुं कहुं करणी मारी हो राज. ए राग.

घंटाकर्ण महावीर बलिया धीर, शांति जगमां
 पसारो; त्हारो महिमा अपरंपार हो वीर !!! संघमां
 शांति प्रचारो. ॥ मागुं न मागणपेठे स्वार्थे, बाधा
 मान्यता सर्वे; राखे ते नहीं जैनो भक्तो, तुज प्रेमे
 रहियो अगर्वे हो वीर ! संघमां० ॥ १ ॥ स्वार्थथी
 मान्यता बाधा वण हुं, धर्मनुं सगपण धारी; दीपक
 करीने प्रेमे पूजुं, निष्कामभाव वधारी, वीर ! संघ-
 मां० ॥ २ ॥ याचक थइ तुज पासे न याचुं, आतम
 प्रेमे राचुं; शुद्धप्रेमथी सगपण साचुं, परमार्थे नित्य
 माचुं हो वीर ! संघमां० ॥ ३ ॥ लाज न जावा देजे
 वीरा, सहायक वडधीरा; महिमा न जूगो परुवा
 देजे, समकित्ती गुणहीरा हो वीर !!! संघमां०
 ॥ ४ ॥ धर्मी वीरा साथे रहेशो, धर्मे स्हायने देशो;
 परमार्थे पूजनने वहेशो, कीधुं ध्यानमां लेशो हो
 वीर ! संघमां० ॥ ५ ॥ सर्वजगत्मां महिमा छवा-
 यो, उग्यो रवि न लुपायो; साधर्मिकप्रीतिए सुहा-
 यो, कलिमां जागतो गायो हो वीर ! संघमां० ॥६॥
 जेम घटे तेम मित्रनी पेठे, धर्ममां साथी रहेशो;

५३१

बुद्धिसायर प्रत्यक्षअनुभव, महावीरनो संदेशो हो
वीर !!! संघमां० ॥ ७ ॥

ॐ घंटाकर्णमहावीराय, शांतितुष्टिपुष्ट्यर्थ दीपं,
यजामहे स्वाहा ॥

तृतीया पुष्पपूजा.

(दशमे देशावगाशिकेरे. ए राग.)

जिनवरमहावीरशासनेरे, घंटाकर्ण सुवीर;
शासनरसिया देव ठेरे, टाळो भक्तनी पीरु हो;
जगमां. जैनधर्म प्रसरावजोरे, संघनी व्हारे आवशोरे;
करशो समरे सहाय. ॥ १ ॥ पुष्पनी माळा कंठमांरे,
स्थापी हरखुं चित्त; साधर्मिकदेवप्रीतिथीरे, दिलडुं
थातुं पवित्र हो. जगमां० ॥ २ ॥ साधर्मिकदेवरीति
ठेरे, प्रार्थ्या वण करे काज; धर्मकष्ट परुतां थकारे,
राखे स्वधर्मी लाज हो. जगमां० ॥३॥ दिव्यौषधिथी
महाबलीरे, देवकृपासुखकार; मुक्तिपंथमां भक्त-
नेरे, साज घणी करनार हो. जगमां० ॥ ४ ॥ नर-
नारी जे जे भावथीरे, भावे ते ते भाव; फल पामे

५३२

भावे खरूरे, देख्या ते ते बनाव हो. जगमां० ॥५॥
 जिनवर महावीरदेवनोरे, तुं वडभक्त छेवीर; विश्वमां
 सर्वत्र जागतोरे, सागरसम गंभीर हो. जगमां० ॥६॥
 जिनवर महावीरना संघनीरे, सेवामां लयलीन; बुद्धि-
 सागरनक्तिमांरे, जलमां ज्युं वर्ते मीन हो. जगमां०
 ॥ ७ ॥

ॐ घंटाकर्णमहावीराय, जैनशासनरक्षकाय
 पुष्पं च पुष्पमालां, यजामहे स्वाहा ॥

चतुर्थी सुखडी नैवेद्यपूजा.

विमला नवकरशो उच्चाट. ए राग.

घंटाकर्णमहावीर स्हाये ठहेला आवशोरे; प्रेमे
 धर्मीओने स्हाय करीने सुहावशोरे॥ परमब्रह्म महावीर
 नामे, शरण करी जे ठरतो ठामे; तेवा भक्तोनी
 भक्तिमां धून लगावशोरे. घंटाकर्ण० ॥१॥ श्रद्धा प्रीति
 प्रेर्या आवो, भक्तिविना नथी कोइनो दावो; जयकर
 मंगलमाला, कीर्तिध्वज फरकावशोरे. घंटाकर्ण० ॥२॥
 क्षणमां पृथ्वीने डोलावो, क्षणमां मेरुने कंपावो; एवो

५३३

महिमा त्हारो, शापने ताप शमावशोरे. घंटाकर्ण०
 ॥ ३ ॥ दुर्जनदुष्टोनेज हठावो, जैनधर्म जगमां
 फेलावो; प्रभुश्रीमहावीरनामना जपने, जग प्रस-
 रावशोरे. घंटाकर्ण० ॥ ४ ॥ तुज प्रेमी घरमंगलमा-
 ला, पुत्रादिकधनऋद्धिविशाला; आपी वांछित
 सहने चितप्रसन्न सुहावशोरे. घंटाकर्ण० ॥ ५ ॥
 पुण्यादये तुज साधन मळतुं, श्रद्धाप्रीतियोगे
 फळतुं; प्रगटी शासनसेवामांही चित्त लगावशोरे.
 घंटाकर्ण० ॥ ६ ॥ प्रत्यक्षप्रेमे महावीरदीठा, शासन
 देवा लाग्या मीठा; बुद्धिसागरादेलमां प्रभुसंदेश
 जणावशोरे. घंटाकर्ण० ॥ ७ ॥

ॐ घंटाकर्णमहावीरजैनशासनरक्षकाय, शांतिं
 तुष्टिं पुष्टिं ऋद्धिं वृद्धिं कुरु कुरु नैवेद्यं, यजामहे
 स्वाहा ॥

—•—

पंचमी श्रीफलपूजा.

आवशो आवशो आवशोरे मुज पासे महावीर
 आवशो ॥ श्रद्धाप्रेमना जोरे पधारो, धर्ममां बुद्धि

५३४

करावशोरे. मुज० ॥ १ ॥ जैनधर्ममां स्वार्पण कारक,—
 भक्तने प्रत्यक्ष थावशोरे. मुज० उपरउपरनां लटक
 सल्लामियां, नास्तिकपासे न आवशोरे, मुज० ॥ २ ॥
 नाम ने रूपना मोहे मरेला, भक्तोनी आंखे सुहा-
 वशोरे. मुज० संतमां भक्ति पूर्ण धरीने, आतमभावे
 लयलावशोरे. मुज० ॥ ३ ॥ शासनरागे धर्मप्रभा-
 वक—बनीने प्रभुने भावशोरे. मुज० सकलसंघनी
 सेवा सारी, परमब्रह्मपद पावशोरे. मुज० ॥ ४ ॥
 तुजपूजाथी धर्मीजनोनी, धर्मबुद्धि स्थिर थावशोरे.
 मुज० बुद्धिसागरऋद्धिवृद्धि, कीर्तिजय जग
 पावशोरे. मुज० ॥ ५ ॥

कलश गीत.

गायो गायोरे एम शासन वीरने गायो ॥ पंच
 प्रकारे पूजा रचीने, सनकितशुद्धि छायोरे. एम०
 ॥ १ ॥ घंटाकर्णमहावीरपूजा, कीर्तनथी गुण पायो;
 सम्यग्दृष्टिदेवनी स्तुति, करतां हर्षे उमाह्योरे.
 एम० ॥ २ ॥ तपगच्छसागरशाखामांहि, नेमि सा-

५३५

गर गुरुरायो; रविसागरगुरुसुखसागरगुरु, जैनधर्म
 फेलायोरे. एम० ॥ ३ ॥ मुनिवरआदि सर्वसंघनी,
 वृद्धि थाशो पसायो; सर्वप्रकारे उन्नति थाशो, आ-
 शीर्वाद सुहायोरे. एम० ॥ ४ ॥ ओगणिश अठयोत्तर
 अक्षयत्रीज, विजापुर जयकारी; बुद्धिसागर चढते
 पहोरे, सुखपामो नरनारीरे. एम० ॥ ५ ॥

ॐ ह्रीं घंटाकर्णमहावीराय, सर्वक्षुद्रोपद्रव
 रोगनिवारणाय, इष्टफललाभाय, फलं यजामहे
 स्वाहा ॥

ॐ अहंमहावीर शांतिः३

५३६

श्री घंटाकर्णमहावीरनी आरती.

घंटाकर्णमहावीर गाजे, जडचेतनजगमहिमा
छाजे; मनवांछित पूरण करनारा, भक्तजनोना
भयहरनारा. घं० आधिख्याधिउपाधिहरता, रोग
उपद्रवदुःखसंहरता. घं० ॥ १ ॥ ऋद्धि सिद्धि
मंगल करता, सत्वर सहाये पगलां भरता. घं० तुज
स्मरणथी वांछितमेळा, भक्तोनी थाती शुभवेळा.
घं० ॥ २ ॥ घंटाकर्णमहावीर त्हारी, आरती करतां
जे नरनारी; आरत चिंता शोक निवारी, धर्मी
थातां दोषने टाळी. घं० ॥ ३ ॥ गाजी रह्यो जग-
मांही सघळे; घरमां सागरमां रणवगडे; स्हाय करंतो
वादे झघडे, दुष्टोथी कंडू शुभ न वगडे. घं० ॥ ४ ॥
देशनगरसंघ वर्तो शांति, भक्तजनोनी वधशो कांति;
महामारी भय संकट नासो, आरोग्यानंदे
जगवासो. घं० ॥ ५ ॥ मंगलमाळा घर घर
प्रगटो, ईति उपद्रवविघ्नो विघटो; शांति आनंदने
प्रगटावो, समरंतां झट व्हारे आवो. घं० ॥ ६ ॥
आत्ममहावीरशासनराज्ये, सेवाकारक जगमां गाजे;
बुद्धिसागर आत्मकाजे, क्षण क्षण व्हेव्यो सहाये
धाजे. घं० ॥ ७ ॥

५३७

॥ अथ श्रीसिद्धाचलनवाणुप्रकारी पूजाप्रारंभ ॥

अथ प्रथमा पूजा.

आदीश्वर अरिहंत जिन, ऋषभप्रभु धरी ध्यान;
अजितादिक तीर्थकरा-वंदु विभु वर्धमान. ॥१॥
अर्हन् सिद्धने सूरिगण, वाचकमुनि धरी ध्यान;
विमलाचल पूजा रचुं, प्रगटे शिव कल्याण. ॥२॥
द्रव्यभाव व्यवहारने, निश्चयथी गिरिराज;
सातनयोथी पूजतां, प्रगटे शिवसाम्राज्य ॥३॥
अढीद्वीपमां तीर्थ नहि, सिद्धाचलसम कोय;
सिद्धाचलयात्रा करे, निश्चयथी शिव होय. ॥४॥
चउनिक्षेपे वंदीए, पूजीए सुखकार;
भावथी निश्चय आतमा, स्थिरपद पामे सार. ॥५॥
यात्रा नवाणुं भावथी, पूजा नवाणुंप्रकार;
वार एकादश कीजीए, अभिषेक नववार. ॥६॥
एकादश पूजा जली, नव नव वस्तु सार;
श्रीफलादिकथी पूजीए, पूजादिठ सुखकार. ॥७॥

(राग पीलु त्रिताल.)

विमलाचल गिरिसार-जगत्मां विमलाचल
गिरिसार, वंदु स्तवुं सुखकार. जगत्मां॥ विमलाचल

६८

५३८

ज्ञानश्रद्धा वण जग, गर्भे रक्षां नरनार; विमलाचल
दर्शन स्पर्शनथी, गर्भवाहिर नरनार. जगत्मां०
॥ १ ॥ लाखवार नवकारने गणवा,—स्नात्र करीए
पंच; सात छठ बे अट्टम करतां,—रहे न कर्मनो रंच.
जगत्मां० ॥ २ ॥ सिद्ध अचल आतम सिद्धाचल,
असंख्यप्रदेशी उदार; शत्रुंजय आदि अंत रहित
जे, भावतीर्थ आधार. जगत्मां० ॥ ३ ॥ एकशत
आठे टुंक भलेरी, मोटी एकवीश खास; । शत्रुंजय
बाहुवली मरुदेवी, पुण्डरीक नमीए उल्लास. जगत्मां०
॥ ४ ॥ रैवतगिरि टुंक पांचमी वन्दु, सिद्धक्षेत्र
शिवराज; छहरी पाळी यात्रा कर्याथी, प्रगटे शिव-
साम्राज्य. जगत्मां० ॥ ५ ॥ निमित्तने उपादान जे
तीर्थठे, शत्रुंजय सुखकार; द्रव्यभावथी पूजंतां प्रभु-
प्राप्ति ठे निर्धार. जगत्मां० ॥ ६ ॥ द्रव्य ते भावनो
हेतु ठेरे, कारणे कार्य सधाय; बुद्धिसागर तीर्थनोरे,
अनन्तगुणो महिमाय. जगत्मां० ॥ ७ ॥

काव्यम्

सरसशान्तिसुधामृतकारकं, जननमृत्यु महो-
दधितारकम् । सकलकर्मविपाकनिवारकं, गिरिवरंवि-
मलाचलकं स्तुवे ॥ ए काव्य प्रत्येक पूजा दीठ कहेवुं.

५३९

मंत्रम्.

ॐ ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय, परमेश्वराय, जन्मजरा
मृत्युनिवारणाय श्रीमते, जिनेन्द्राय, सिद्धाचलपू-
जार्थं जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ ए मंत्र प्रत्येक
पूजा दीठ कहेवो.

द्वितीया पूजा.

सिद्धाचलगिरि भेटवा, एकेक डगळुं भरंत;
भव्यो कोटिजव कर्षी, कर्मो क्षणमां हरंत. ॥१॥
असंख्यप्रदेशी आतमा, सिद्धाचल गिरिराज;
वन्दतां पूजतां ध्यावतां, पामे भवी शिवराज्य. ॥२॥

(अवसर बेर बेर नहीं आवे, राग सोरठ.)

विमलगिरि दर्शन विरला पावे, पावे ते सिद्ध
थावे. विमल० ॥ नवनव नामे गिरिवर अर्थो, आ-
तममांहि समावे; आतमगुणपर्यायनी शुद्धि, करी
गिरिवत् स्थिर थावे. विमल० ॥ १ ॥ सहश्रकमल
मुक्ति निलय गिरिवर, सिद्धाचल दिल ध्यावे; शत-
कूट ढंक फदंबने लोहित, कोटिनिवास सुहावे.
विमल० ॥ २ ॥ तालध्वज पंचकूट सजविन, ज्ञाने

५४०

अनुभव आवे; रत्नखाण जडीबूटीनुं स्थान जे, ध्यान
गुफा भली जावे. विमल० ॥ ३ ॥ दशकोटि श्राव-
कने जमाडे, सर्वतीर्थ करी आवे; तेथी अहीं
एक मुनिदान देतां, लाज अनंतो पावे. विमल०
॥ ४ ॥ चारहत्यारा दुष्ट अधर्मी, वेश्यादिक पण
जावे; जगिनीजोगी चन्द्रशेखरसम, पापो सघळां
हठावे. विमल० ॥ ५ ॥ देवगुरुद्रव्यचोरो नास्तिक,
श्रद्धाए भक्तिप्रभावे; पश्चात्तापने तपजपसमथी,
पलमां मुक्तिने पावे. विमल० ॥ ६ ॥ चेत्रीपुनमदिन
यात्रा करंतां, उपयोगे थिर थावे; बुद्धिसागरमंगल
पावे, सिद्धबुद्ध थै जावे. विमल० ॥ ७ ॥

काव्यं, सरसशान्ति० ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परम० जलादिकं य० स्वाहा ॥

॥ अथ तृतीया पूजा ॥

उत्सर्पिणी अवसर्पिणीमां, काल अनादि अनं-
त; अरिहंतादिक आविया, आवशे प्रणमो संत.
॥ १ ॥ अरिष्टनेमि प्रभुविना, आव्या प्रभु त्रेवीश;
सोरठदेश सोहामणो, शत्रुंजय छे गिरीश. ॥ २ ॥

५४१

(चन्द्रप्रभुजीसैं ध्यानरे मोंये लागी लगनवा. ए राग)

विमलाचलपर प्रेमरे, म्हने पूरण लाग्यो; म्हने
 पूरण लाग्यो; ॥ प्रगटे योगने क्षेमरे, एवो अनुभव
 जाग्यो; एवो अनुभव जाग्यो. वि० ॥ १ ॥ कांकरे
 कांकरे असंख्ययोगे, सिद्धया अनंता संतरे, म्हने ॥
 अढीद्वीपमां तीर्थ न ए सम, जिनेश्वर भाखंतरे.
 म्हने० वि० ॥२॥ पुण्यराशि महाबलगिरि ए, भवोद-
 धिमां झाझरे; म्हने० ॥ दृढशक्ति शतपत्र शुभंकर,
 विजयानन्द सुराजरे. म्हने० वि० ॥३॥ भद्रंकर महा-
 पीठ महोदय, सुरगिरि महागिरि नामरे; म्हने० ॥
 अनुभवज्ञाने प्रेमसुताने, भक्तो बने गुणधामरे. म्ह-
 ने० ॥ ४ ॥ पापी अमवी दुर्भवीजीवो, समकितदृष्टि
 विहीनरे. म्हने० वि० ॥ तुजरूपे तुजने नहि देखे,
 समकिती तुजमां लीनरे. म्हने० वि० ॥ ५ ॥ पंचम
 काले दर्शन दीठे, प्रगटथुं आनन्दपूररे. म्हने० वि० ॥
 बुद्धिसागरशुद्धोपयोगे, रहेशो हजराहजूररे. म्हने०
 वि० ॥ ६ ॥

काव्यं० सरसशान्ति० ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परमं जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥

५४२

॥ अथ चतुर्थी पूजा ॥

महानन्द कर्मसूदन गिरि, पुष्पदन्त कैलास;
जयन्त आनन्द वन्दीए, श्रीपद छे विश्वास्य. ॥ १ ॥
हस्तगिरि छे शाश्वतो, सेवे शिवसुख थाय;
कारणे कारज नीपजे, शुद्धातम प्रगटाय. ॥ २ ॥
शुभाशुभ तजी कल्पना, आतममां स्थिर थाय;
शुद्धोपयोगी आतमा, शत्रुंजयथी सुहाय. ॥ ३ ॥

(खूने जिगरको पीते हे हम-ए राग.)

विमलाचलथी मन मोह्युरे, म्हने गमे न बीजे
क्यांय; ॥ मनमोहनमां सुख जोयुरे, मुज आतम सु-
खनी छांय. ॥ विमला० ॥ समरुं सिद्धाचलस्वामी, लळी
लळी वन्दु गुणरामी; मुज जीवन अन्तर्यामीरे, अ-
नुभवथी अनुभवाय. विमला० ॥ १ ॥ मनमोहन
लाग्या मीठा, आदीश्वर नयने दीठा; हवे रह्या न
लखवा चीट्टारे, मन मस्तीथी मकलाय. विमला०
॥ २ ॥ सिद्धया तुज प्रेमे अनंता, वळी सिद्धशे भ-
विजन संता; थया सिद्ध बुद्ध भगवंतारे, ज्ञानीओ
तुजने गाय. वि० ॥ ३ ॥ तुजसाथे लगनी लागी,
मुजभवनी भावट भागी; मुज अंतर चेतना जागीरे,
मुज मनहुं तुजने च्हाय. वि० ॥ ४ ॥ आनन्द ज्ञाने

५४३

उल्लसियो, मुज हृदय कमलमां वसियो; श्रद्धा प्री-
तिण विकसियोरे, घट सुखसागर उभराय. वि०
॥ ५ ॥ तुज शरणे निर्जय थइयो, आतमजीवन गह
गहियो; मरजीवो थै तुज लहियोरे, तुं आपोआप
सुहाय. वि० ॥ ६ ॥ विमलाचलवासी व्हाला,
मुज सुणशो कालावाला; बुद्धिसागर घट ज्ञाळ्यारे,
नित्य रहेशो हैडामांह्य. वि० ॥ ७ ॥

काव्यं सरस शान्ति० ॥ १ ॥

ॐ परम० जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥

॥ अथ पंचमी पूजा ॥

सूर्यकूंड शत्रुंजयी, आदि जलथी पवित्र; थैने
आदीश्वर प्रभु-पूजीण एकचित्त ॥ १ ॥ अनन्त
उद्धारो थया-थाशे वळी अनन्त; सिद्धाचल सेवा
करी, थावो सिद्ध भदन्त ॥ २ ॥

(धन धन जगमां ते नरनार, विमलाचलके जानेवाले. ए राग)

धन्य धन्य जगमां ते नरनार, सिद्धाचल द-
र्शन करनारां; ॥ जाणी द्रव्यभावथी तीर्थ, आतम

५४४

शुद्धरूप वरनारां. ॥ द्रव्यथी स्थावरतीर्थ विमल-
गिरि, जावथी आतम पोते; असंख्यप्रदेशी आतम
गिरिवर, आपोआपने गोते. धन्य० ॥ १ ॥ निमित्त
विमलाचलतीरथथी, आत्म विमलगिरिशुद्धि; का-
रणथी छे कार्यनी सिद्धि, समकितीनी बुद्धि. धन्य०
॥ २ ॥ ऐंशीयोजन पहेला आरे, सिद्धेर साठ पचा-
स; बारयोजनने सातहाथनो, अनुक्रमे आरे खास.
धन्य० ॥ ३ ॥ भरते प्रथमोद्धार कर्यो शुभ, दंडवीर्ये
कर्यो बीजो; ईशानेन्द्रे त्रीजो चोथो, माहेन्द्रे मन
रीजो. धन्य० ॥ ४ ॥ पांचमो पांचमा इन्द्रे चमरे,
सातमो सगरे कीधो; आठमो व्यंतरइन्द्रे कीधो, नि-
जभव सफलो कीधो. धन्य० ॥ ५ ॥ नवमो चन्द्र
यशाए कराव्यो, चन्द्रप्रभुना काले; दशमो चक्रायुधे
कीधो, सिद्धाचलगिरिप्यारे. धन्य० ॥ ६ ॥ एका-
दशमो रामचन्द्रनो, पांडवे बारमो कीधो; चोथे आरे
उद्धारो करी, आतमल्हावो लीधो; धन्य० ॥ ७ ॥
संवत् एकसोआठमां जावडे, वज्रस्वामीसहाये; सि-
द्धाचल उद्धार कराव्यो, तेरमो पुण्य पसाये. धन्य०
॥ ८ ॥ बारसें तेरोत्तरमां मंत्री, -वाहडे चौदमो भावे;
तीर्थोद्धार कर्यो जग जाणे, अनन्तधर्मना दावे.

५४५

धन्य० ॥ ९ ॥ समराशा ओशवाले संवत्-तेर एको-
त्तरसाले; तीर्थोद्धार कर्यो पन्नरमो, निज आतम
अजूवाळे. धन्य० ॥ १० ॥ सोळमो पन्नरसें सत्याशिण,
कर्माशाहे कराव्यो; विमलवाहननृप करशे ठेल्लो,
शत्रुंजय मन भाव्यो. धन्य० ॥ ११ ॥ सूक्ष्मोद्धारो
थया घणेरा, थाशे घणा शुभ भावे; बुद्धिसागर तीर्थ
निजातम, उपयोगे प्रगटाशे; धन्य० ॥ १२ ॥

काव्यं-सरस शान्ति० ॥ १ ॥

ॐ० परम० जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥

॥ अथ छठी पूजा ॥

शत्रुंजयसमगिरि नहिं, योग न समता समान;
सिद्धाचल आदीश्वरा, नमो नमो भगवान् ॥

(केसरीया थाशुं प्रीत कीनीरे साचा भावसुं, ए राग.)

विमलाचल स्वामी, ऋषभजिनेश्वर नमुं नेह-
थी ॥ तुज साची प्रीति, जूठी लागीरे हवे देहथी ॥
भव्यगिरिने दुःखहर गिरि छे, सिद्धशेखर मणिकन्त;
माल्यवंतने महाजस उज्ज्वल, पृथ्वीपीठ नमे

६९

५४६

सन्तरे. विमला० ॥ १ ॥ मुक्तिराजने मेरुमहीधर,
समुद्रपर्वतराजा; अनन्तशक्ति पुरुषोत्तमगिरि, अ-
कर्मक गुणराजारे. विमला० ॥ २ ॥ ज्योतिरूपने
महातीर्थ गिरि, हेमगिरि दिल धरीए; विलासभद्र
सुभद्र नमीने, उपयोगे शिव वरीएरे. विमला० ॥३॥
कंचनगिरिपर सुरवर सुरीओ, दर्शन करवा आवे;
नाटक करती राचे माचे, प्रभुगुण भावना भावेरे.
विमला० ॥ ४ ॥ सिद्धाचल यात्राभक्तिथी, त्रीजा
भवमां मुक्ति; थाती भक्तोनी शुभभावे, सर्वज्ञ जि-
नवर उक्तिरे. विमला० ॥ ५ ॥ गृही मुनि लिंगे सि-
द्ध्या अनन्ता, पशु पक्षी स्वरू पाण्या; बुद्धिसागर
सिद्धाचलगिरि, पूजंतां शिवठामारे. विमला० ॥ ६ ॥

काव्यम्. सरस शान्ति० ॥

ॐ ह्रीं परम० जलादिकं यजामहे स्वाहा. ॥

॥ सप्तमी पूजा ॥

शिद्धाचलगिरि शाश्वतो, महिमानो नहीं पार; सि-
द्धाचलमां समाय छे, सर्वतीर्थ निर्धार ॥ १ ॥

५४७

(गंगातट तपोवनमारे, बनी रचना भारी. ए राग.)
 विमलाचल व्हाळारे, नमुं गुणभंडारी;
 वीतराग जिनेश्वररे, स्तवुं विभु गुणधारी.
 साखी.

आनन्दघर पुण्यकंदने, जयानन्द सुविशाल;
 जगतारण पाताल मूल, विभास मंगलमाळ.

अकलंक अनादिरे, अनन्तने अविकारी;
 अजरामर नामेरे, क्षेमंकर अघहारी. वि० १
 साखी.

सहस पत्र गुणकंदने, अमरकेतु गिरिराज;
 तमकंद कर्मक्षय अने—शिवंकर गुणराज,

राज राजेश्वर सदारे—नमुं गुण निर्धारी;
 मोहपरिणति वारीरे—रहुं नहिं संसारी. वि० २
 साखी.

सुमति श्रेष्ठाजय कंदने, महोदयहेतु सुजाण;
 गजचन्द्र अचल सुरकांत छो, तीर्थरूपी भगवान्.
 एम नाम घणेरांरे, स्मरण करुं सुखकारी;
 बुद्धिसागर तीरथरे, सकलनये जयकारी. विमला० ३
 काव्यं ॥ सरस शान्ति० ॥

॥ ॐ० परम० जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥

५४८

अष्टमी पूजा.

विमलाचल वन्दु सदा, धरुं उपयोगे ध्यान;
विश्वलोकने तारवा, भवोदधिमां वहाण ॥ १ ॥

(त्रिशलाना जाया महावीररे वन्दु वीर वाणी. ए राग.)

विमलाचल व्हाला देवरे, वन्दु सुखकारी;
परब्रह्म ऋषभ जिनदेवरे, समरु सुखधारी ॥

साखी.

पुण्डरीकादिक गणधरा, आव्या गिरिवर पास;
शुद्धात्म उपयोगथी, तोड्या कर्मना पास.

समोसर्था महावीर देवरे—वन्दो नरनारी;
आव्या नेमिविना सहु देवरे, आत्म हितकारी. वि०१
साखी.

पूर्व नवाणुं आविया, स्वामि ऋषभ जिएणंद;
सागरमुनि एककोटि सह, टाळ्या जवजयफंद.
बे कोडी मुनिनी साथरे—अनसन निर्धारी;
नमि विनमि मुक्ति लहंतरे—अनंतसुख क्यारी. वि०२
साखी.

पंचकोटी सह जरतजी, पाम्या मुक्तिवास;
सत्तरकोटी सह मुनि, अजितसेनजी खास.
चोमासुं अजितप्रभु देवरे, रहिया अविकारी. वि०३

५४९

साखी.

शान्ति जिनेश्वर साहिबे, चोमासुं कर्तुं बेश;
धर्मध्यानने ज्ञानथी, टाळ्या भविजनक्लेश.
पाछल भरतनी पाटे भूपरे, पाम्या शिवनारी. वि०४
साखी.

एकलाख अनगारथी, आदित्ययशा थया मुक्त;
द्राविडने वारिखिल्लजी, दशकोडिथी प्रमुक्त.

साखी.

तेरकोटि सह सोमयश—नारद मुनिवर लक्ष;
राम भरत त्रण्यकोटि सह, पाम्या मुक्ति सुदक्ष.
सांब प्रद्युम्न साडी आठकोटिरे, मुक्ति लही प्यारी. वि०५
साखी.

पांत्रीस सहस अहीं नारीयो, वसुदेवनी सिद्ध;
थावच्चा मुनिसहसथी, शुक परिव्राजक सिद्ध.

साखी.

चौदसहसथी सिद्धिया, दभितारि मुनिराय;
चौआलीससथी जली, वैदर्भी सिद्ध थाय.
प्रद्युम्न प्रिया थइ सिद्धरे—शेलक शिवधारी. विमला०६

५५०

साखी.

थावच्चा मुनि सहसथी, कदंब गणधर कोड;
 बुद्धिसागर तीर्थनी, जडे न जगमां जोड.
 सिद्धाचलगिरि करुं सेवरे—महोदय मनोहारी. वि०७

काव्यं—सरस शान्ति०

मंत्रम् ॐ जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥

अथ नवमी पूजा.

पाळीताणा नगरमां—नव जिनमंदिर सार;
 देरिओमां पादुका, वंदीए धरी प्यार.

(विमलाचलवासी मारा व्हाला, सेवकने विसारो नहि विसारो
 नहि. ए राग.)

विमलाचलवासी व्हाला वन्दु विभु, तुज प्रेमधरी प्रेमधरी,
 क्षणे क्षणे स्मरुं प्रभु पूजाकरुं नमुं, लळी लळी लळी लळी.
 प्रथम तलाटीए गिरि वन्दी, धरीए हर्ष अपार,
 मार्गानुसारी समकित गुण, सत्य तलाटी विचार. विभु०१
 बाबु धनपति टुंक मनोहर, जिनप्रतिमा जयकार;
 वंदी पूजी आगळ चढतां, सूरिगण देरी सार. विभु०२

५५१

चौमुखजीनी टुंकमां देरां—जुहारीए धरी प्यार;
 नरसिंह केशवजीकृत मन्दिर, वंदीए वारंवार. विभु०३
 साकरचंद कर्मचंदनुं देरु—वन्दीए जिनराज;
 छीपावशीमां प्रतिमा पूजे, प्रगटे शिवसाम्राज्य. विभु०४
 उजमवाइनी टुंक जलेरी, नंदीश्वरसुखकार;
 हेमात्ताइनी टुंक मनोहर, पूजीए प्रभु धरी प्यार.विभु०५
 प्रेमचंदमोदी टुंक जलेरी, जिनप्रतिमाओ अनेक;
 बालात्ताइ टुंकनां दर्शन, करीये हृदय धरी टेक.विभु०६
 मोतीशानी टुंक मझानी, जिनमन्दिर जयकार;
 आदीश्वरनी टुंक ठे मोटी, सर्व टुंक शिरदार. विभु०७
 हीराचंद रायकर्णनुं मन्दिर, शान्तिनाथनुं बेश;
 कपर्दि चकेश्वरी रखवाळी,सहायकरी हरे क्लेश. विभु०८
 जुलभुलामणी मन्दिर मनहर, अन्य भलां मन्दिर;
 कुमारपालराजानुं देरु,वन्दीए धरी दिख धीर. विभु०९
 हार्थीपोळमां आदीश्वरनुं—मन्दिर जगजयकार;
 बुद्धिसागरजिनवर दर्शन—पूजन शिवसुखसार. विभु१०

काव्यम् सरस शान्ति०

ॐ० प० जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥

५५२

॥ अथ दशमी पूजा. ॥

जैनतीर्थगिरि मंडणो, आदीश्वर भगवान्;
वंदतां पूजतां ध्यावतां,—प्रगटे केवलज्ञान.

(वहाला पेने आचारे. ए राग.)

आदीश्वर देवारे, करुं भावे सेवारे, प्रभु म्हने तारशो होजी;
प्रभु छे त्हारो महिमा अपरंपार, आदीश्वर०
साखी.

त्रणप्रदाक्षिणा देइने, वन्दु प्रतिमा अनेक;
पुण्डरीक गणधर नमुं, रायण पगलां विवेक.
तुज आणा ठे भक्तिरे, भक्तिमां सहु शक्तिरे;
सेवामां देव वास ठे, होजी.
आदीश्वर त्हारुं दर्शन छे शिवकार,
अर्पाइ गयो तुज उपर निर्धार. आदीश्वर० १
साखी.

मनवचकायाशुद्धिथी, शास्त्रविधि अनुसार;
श्रद्धाप्रीतिभक्तिथी, गाउ तुज गुण सार;
दुर्गुण दोष टाळेरें, प्रभु घट जालेरें;
भक्तोने मुक्ति हाथमां होजी, जक्तोनुं सहु प्रभु उपर कुर्वा न;
तुजपर वारी जाउ, तन मन प्राण. आदीश्वर० २

५५३

साखी.

तुज मुज ऐक्य अनुभवे,—आनन्द घट उभराय;
 मरे मोह निज आत्ममां, आत्मजीवन प्रगटाय.
 दुर्गुण त्यागेरे, तुज गुणरागेरे,
 सत्य सेवा ताह्यरीरे होजी;
 तुज भक्तिए मुक्ति छे मुज निर्धार,
 व्हाला प्रभु त्हारो छे म्हने आधार. आदीश्वर० ३
 साखी.

दर्शन ज्ञान चारित्रमां, प्रभु तुज भक्ति सत्य;
 तुज उपदेशप्रवर्तने, सफलां सेवाकृत्य. ॥ १ ॥
 शुद्धातम प्यारारे, आतमना आधारारे;
 बुद्धिसागर तारजो होजी,
 तुज सम थाशुं तुज भक्तें निर्धार. आदीश्वर० ॥४॥
 काव्यं सरस शान्ति०
 ॥ ॐ ह्रीं जलादिकं यजामहे स्वाहा. ॥

॥ अथ एकादशमी पूजा. ॥
 सोरठसिद्धाचलगिरि, समरु वारंवार;
 वंदु पूजुं भावथी, शाश्वतसुख दातार. ॥ १ ॥

५५४

(घनघटा भुवन रंग छाया. ए राग.)

नमुं विमलाचल सुखकारी, आदीश्वर जिन उपकारी ॥ यात्रालु नरने नारी, ठरी पाळे समकित धारी; मुक्ति पामे हितकारी, आतम समभाव ल्यो धारी. नमुं० ॥ १ ॥ जे यात्रा करे जे भावे, तेवुं फल निश्चय पावे; मुक्त्यर्थे यात्रा थावे, निष्कामे तरे नर-नारी. नमुं० ॥ २ ॥ साची सिद्धाचल यारी, आतम आनन्दरसक्यारी; मुक्तिसुख मळे अहिं भारी, निज उपयोगे निर्धारी. नमुं० ॥ ३ ॥ विक्रमभूप संघथी आव्यो, शुभपवित्रपुद्गलछायो, सिद्धाचल पूजी वधायो, आम सम्प्रति यात्रा धारी. नमुं० ॥ ४ ॥ करी यात्रा कुमारपाळे-ठरी पाळी गुण अ-जुवाळे; प्रभु पूजी दोषो टाळे-धन्य संघपति बद्धि-हारी. नमुं० ॥ ५ ॥ संघपतियो आव्या हजारो, यात्रालुनो नहिं पारो; करी यात्रा जन्म सुधारो, यो दोषो सहु संहारी. नमुं० ॥ ६ ॥ शुभ मंत्री वस्तु-पाळे, तेजपाळे पंचम आरे; संघसाथे आतमतारे, यो यात्राथी मोह मारी. नमुं० ॥ ७ ॥ पंचमआरे अघ-हारी, सिद्धाचल यात्रा सारी; करी पूज्या प्रभु उप-कारी, बुद्धिसागर जयकारी. नमुं० ॥ ८ ॥



५५५

कलश.

(श्री तीरथ पद पूजो गुणीजन ए राग.)

श्री सिद्धाचल तीर्थ वधायो, आदीश्वरगुण
गायोरे; सेवा भक्ति ल्हावो लीधो, आतमअनुजव
आव्योरे. श्री० ॥ १ ॥ स्थावरजंगमतीर्थनी सेवा,
ऋक्तिए प्रभु पायोरे; गुण गुणी एकनी लगनी लागी,
आनन्द दिख उभरायोरे. श्री० ॥ २ ॥ भाव
ऋक्तिए दिलमां ध्यायो, मोहविभाव हठायोरे; प्रभु
पूजंतां चित्त हर्षायो, परमप्रभु परखायोरे. श्री०
॥ ३ ॥ तद्धेतु अमृतकिरियाथी, प्रभु पूजी सुख
पायोरे; आतम सन्मुख आतम वळीओ, मोह मही-
पति हायोरे. श्री० ॥ ४ ॥ भावना पुष्पे तीर्थ वधायो,
प्रभुमांही अर्पायोरे; ऋक्तिमोतीए वधाइ उमाह्यो,
मरजीवो थै जायोरे. श्री० ॥ ५ ॥ बाहिर् अंतर तीर्थ
तीर्थपति, पूजा रची गुण गायोरे; आपोआप स्व-
रूपे तीर्थ ज, जीवंतां अनुभवायोरे. श्री० ॥ ६ ॥ भ-
णशे गुणशे पूजा भावे, पामो सुख विशालारे; संघ
चतुर्विध मंगलमाला, पामो जगजयकारारे. श्री०
॥ ७ ॥ संवत् ओगणिश ऐंसीसाव्हे, चैत्री पुनम सो-
मवारोरे; प्रांतिजनगरे पूजा रची शुभ, ऋक्तिभाव

५५६

विचारेरे. श्री० ॥ ८ ॥ प्रभु महावीरजिनेश्वरपाटे,
 श्वेतांबरसूरि राज्येरे; तपगच्छ हीरविजयसुरि जग-
 गुरु, नभमां घनवत् गाजेरे. श्री० ॥ ९ ॥ बादशाह
 अकबर प्रतिबोधी, पांचे तीर्थो वाळ्यारे; तीर्थ प्रजा-
 वक शासनरक्षक-संघनां मुख अजवाळ्यारे. श्री०
 ॥ १० ॥ सागरसाखे रविसागरगुरु, सुखसागर गुरु
 रायोरे; बुद्धिसागरतीर्थनी पूजा, विरची प्रभुगुण
 गायोरे. श्री० ॥ ११ ॥



गुरुनी आरती.

जय जय गुरुवर जगजयकारी, आरती करतां
 आनंद भारी. जय० महीथाळीमां शशी सूरजनी,
 आरती कुद्रते प्रेमे उतारी. जय० ॥ १ ॥ पिंड अने
 ब्रह्मांडमां मति श्रुत,—आरती थाती जग उपकारी.
 जय० केवलज्ञाननो मंगल दीवो, थातो गुरुगम ज्ञान
 विचारी. जय० ॥ २ ॥ जडचेतनसौन्दर्यप्रसारी,
 सहेजे आरती करे हितकारी. जय० आरत टाळे
 आरती सारी, युगोयुग जीवो गुरु गुणकारी. जय०

५५७

॥ ३ ॥ आरती करनारां नरनारी, आनंद पामो मोह
निवारी; समकितदाता गुरु सुखकारी, जगर्चिंता-
मणि जग उपकारी. जय० ॥ ४ ॥ सेवा ऋक्ति घृत
भर्यु भारी, कर्मयोग दीवेट ठे सारी; बुद्धिसागर गुरु
व्यवहारी, ताह्यरी जाउं सदा बलिहारी. जय० ॥५॥

॥ मंगल दीपक ॥

जगगुरु जगजय मंगल दीवो, चतुर गुरु जग
चिरंजीवो. जग० चन्द्र सूरज ग्रह फरता फेरा, गु-
रुना प्रकाशे रहे न अंधेरा. जग० ॥ १ ॥ वेदागम
तुज महिमा गावे, गुरुकृपावडे मुक्ति थावे. जग०
निश्चय भावथी मंगलरूपी, सदसद्रूपी रूपारूपी.
जग० ॥ २ ॥ पंचभूत उपमा नहीं पावे, अलख क-
ळा नहीं समजी जावे; बुद्धिसागरमंगलमाला, पामो
ऋद्धिवृद्धिविशाला. जग० ॥ ३ ॥

५५८

जिनेश्वरदेवनी आरती.

अप्सरा करती आरती जिन आगे. ए राग.

जय जिनवर जिनराजजी जयकारी, परमेश्वर
जग उपकारी; जगजीवोने हितकारी, तार्या नरने
नार. जय० ॥ १ ॥ चन्द्र सूरज तुज आरतीरूप
शोभे, तुज महिमाए जग थोभे; तुज महिमा अपार.
जय० ॥ २ ॥ तुज आणाए विश्वमां द्रव्य वर्ते, ज्ञान
आज्ञाए ज प्रवर्ते; कोइ लोपे न आण. जय० ॥ ३ ॥
देव देवी नर नारीओ मळी नाचे, तुजरूप गुण
देखी माचे; बनी चक्ति मगन्न. जय० ॥ ४ ॥ कोटि
वर्ष कोटि जीभथी न गवाये, कोटि दिलमां न ध्या-
तां समाये; परा पश्यंतीपार. जय० ॥ ५ ॥ घनगर्जे
मोर टहुकतो मन हर्षे, खुशी चातक घन जब वर्षे;
तुज दर्शने मुज मन तरसे, देखी दिलडुं प्रसन्न.
जय० ॥ ६ ॥ मही जलवायु अग्निने नभ पंच, तेनी
उपमा न तुजने रंच; तुं तो निरुपम देव. जय०.॥७॥
सर्वमांही ने सर्वथी प्रभो न्यारा, सदसद्गुण प-
र्यायाधारा; वीतरागने सर्वज्ञ प्यारा, सर्वदेवना
देव. जय० ॥ ८ ॥ परमब्रह्म महावीरजी जगत्राता,

५५९

तुंहि माता पिता ने भ्राताः बुद्धिसागर द्यो सुख
शाता, संघ मंडल मात्र. जय० ॥ ९ ॥

मंगल दीपक.

जय जिनवर तुज जग बलिहारी, विश्वोद्धारक
जग उपकारी. जय० मंगलदीवो मंगलकारी, तेथी
पूजुं जिन जयकारी. जय० ॥ १ ॥ द्रव्यभाव मंगल
अवतारी, तुज ऋक्तें मंगल निर्धारी. जय० जगमां
मोटो मंगल दीवो, विश्व जीवन तुं चिरंजीवो. जय०
॥ २ ॥ शक्ति अनंती अगम अपारा, सर्व जीव दि-
त्मां छो प्यारा; जय० नय निक्षेपथी निश्चय न्यारा,
सर्वविश्वना छो आधारा. जय० ॥ ३ ॥ गुणपर्याय
अनंता दरिया, अनंत शक्ति स्वभावे भरिया. जय०
नवग्रह इन्द्रादिक तुज वंदा, निशदिन सेव करे सू-
रचंदा. जय० ॥ ४ ॥ परब्रह्म महावीर गवाया, अ-
रिहंत परमेश्वर जिनराया; जय० बुद्धिसागर मंगल
राया, पूजा प्रेमे तुज गुण गाया. जय० ॥ ५ ॥

